

॥ श्री ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

२०५

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीमन्नरपतिकृपिणिरचितः

नरपतिजयचर्यास्वरोदयः

‘सुवोधिनी’ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

व्याख्याकार

पं० गणेशदत्तपाठकः ज्योतिषाचार्यः

काशीस्थ ज्यो० म० गोमनकासंस्कृतमहाविद्यालयज्योतिषप्रधानाध्यापक



चौरवस्त्रा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

१९७१

प्रकारक चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मुद्रक विद्याविलास प्रस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम वि० संवत् २०२८
मूल्य १२-००

© चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल मन्दिर लेन,
पो० बा० ८, वाराणसी-१ (भारतवर्ष)
फोन ६३१४५

प्रधान राणा
चौखम्बा विद्याभवन
पोष, पो० बा० ६६, वाराणसी-१
फोन ६३०७६

THE
KASHI SANSKRIT SERIES
205

NARAPATIJAYACARYĀSVARODAYA

OF

ŚRĪ NARAPATIKAVI

Edited with

The Subodhini Sanskrit Hindi Commentaries

BY

PANDIT GAṆEŚADATTA PĀTHAKA,

Jyotiṣcārya

*Professor J M Gyanakā Sanskrit College
Varanasi*

THE
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

VARANASI-1

1971

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office

Gopal Mandir Lane

P O Chowkhamba, Post Box 8

Varanasi-1 (India)

1971

Phone 63145

First Edition

1971

Price Rs 12-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN-

Publishers and Oriental Book Sellers

Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 (India)

Phone 63076

प्रास्ताविकम् ।

भारतवर्षस्य अतीतगायैबोरुकरुपैकमैतिह्य वर्तते । परं दुःस्याय विषयो यद्यस्या भाषायां भारतवर्षायगौरवगाथा, विपुलतया विद्यमाना सन्ति तस्या भाषाया एव दिना-नुदिन विलोप सम्पाद्यते । कालक्रमेण साम्प्रतमेतादृग्दुर्भाग्यस्य समय समुपस्थित यद्वयमस्या सस्कृतभाषाया अभ्ययन सम्यक्तयाऽन्यासा भाषाणा साहाय्य विना कर्तुंम समर्था सजाता । स्वरोहवस्तून्यप्यन्यसाहाय्य विना परिज्ञातुमशक्ता । अथ देश स्तेषा वैदेशिकविदुषा चिरकाल यावदृणी स्थास्यति, यैर्भारतवर्षस्य प्राचीनग्रन्थाना मनुवादमीमांसाऽलोचना लिखित्वा पिपासैका समुत्पादिता । परमियमपि ध्यानाहार्ता वार्ता यद्ये जना तेषामुपरि रागद्वेषभ्रमोत्पादकतायाश्चाशोपमारोपयन्ति तेषुपि अशतो युक्तवादिन एव । सस्कृतभाषाया परलवप्राहि पाण्डित्यमासाद्य भारतीयसंस्थाम्यश्च ज्ञानलवहुर्विदग्धस्वमधिगत्य एक जयो विजितप्रजाया इतिवृत्तलेखनसमये एव विधा श्रुती कर्तुंमर्हति, माननीयश्चाय त्रिपयोऽपि ।

इत पणवतिकोव्यधिकैकाब्जमित (१९६०००००००) वर्षेभ्य प्राग्ग्राहणकाले भारतीयसभ्यताया प्रायशः सर्वा वार्ता आदर्शतयाऽवस्थिताः आसन् । चतुर्वर्णसभायां राज्याभिषेकनियमानुसार यावदेकोऽभव्युं (प्रशिक्ष्) योग्यपुरस्य राजत्विनिष्पत्ते घोषणां न कुर्वीत्, यावच्च चतुर्वर्णप्रतिनिधय त स्वकीय नृप न स्वीक्युस्तावत्पुरस्य राजा भवितु नार्हत् । राजा शक्रवर्ती मूखाऽपि राजनियमानुसारमेव शासन कर्तुं समर्थ आसीत् । तस्य शासनकर्तृशक्तिरपि प्रतियद्धा मन्यते स्म । तस्य सहायतासम्पादनार्थं विभिन्ना चार्यासभा भवन्ति स्म यासु काचित् शासनविधास्योपरि, काचिदाप्यारिम् कोल्लतेरुपरि, काचिच्च वैशागिकासुपानस्योपरि विचार सम्पाद्यति स्म । सुप्रयन्धतया देशे ऐश्वर्ययाहुर्ग्रमासीत् ।

यादमीकीयसाम्राज्यस्याऽलोकेन ज्ञायतं यत्तदा भारतीयसभ्यताया पताका अत्ररूपाऽऽसीत् । अयोध्यामात्रस्यैव विभूषा निर्मितिशैतादृशाऽलौकिक्यौ स्त यद्विद

निधीयत एव यद्वाङ्मीक्रिकालीन भारतवर्षदेशः ममधिक सभ्यः सुसरङ्गतश्चासीत् । एव सत्यभावेनानुष्ठितान्यनुष्ठानानि दशरथस्य पुत्रेष्टवनुष्ठानमिव सफलानि भवितुमर्हन्तीतीयमपि दिक्षा वाङ्मीक्रिरामायणादेव समुपलब्धा भवति । किंतु यत्मान दशरथमहर्षः पुरोहितौ च यद्विद्विष्टङ्गिणाविष यदि निर्लेपी स्याताम् । यत्तन्मन्येलायां रामस्य पितर प्रत्यसत्पुष्टिराहिर्यमिदं प्रकथापयति यत्समाजे तदा कठिनादशरथाया भाव प्रचलित आसीत् । निजिलियिश्चैतिश्चे रामसद्वधाधीरताया उदाहरण गोपलभ्यते । एतादृशचरित्रविक्रामस्य गौरव यद्यपि कुप्रयिच्छति भारतमात्रस्यैव कृतं । इत्यमेव स्त्री भ्रातृ प्रजाप्रेम्णामनेकान्यादशोदाहरणानि भारतेनैव जगति समुत्पादितानि । अत्रेव-मप्यवधार्यं यत् प्रेतायां वायुपातनिर्मितिरप्यत्र प्रादुरासीत् । लब्ध्वात अयाप्यां वायद्वा युयानेन रामस्य यात्राप्रोदाहरणम्—

“अनुशात तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम् ।

हस्युत्तमहानादमुत्पपात विहायसम्” ॥ इति ॥

यदि कस्यापीय धारणा भवेद्या सर्षथाऽप्रमाणिता एव, यद्य स्त्रोकः हृदानीन्तनाः, तर्हि स्मरणीयमिदं वाङ्मीक्रिणादेवे ‘माष्टम्यालर’ नामकयोर्भ्रात्रोप्यानि १०८२ तमे वर्षे ‘गुम्बारे’र्यास्यस्य यस्तुन उपरि गतमासीत् य ए १०८३ तमे वर्षे प्रोफेसर ‘चावर्त’ महोदयेन तद्वस्तु निर्मितम् । एव तस्मिन् ‘हाइड्रोजनास्य पदार्थं पूरयित्वा त सार्धसप्त स्त्रोक पापदघालयत् । एतद्वान्तरमेव मनुष्याणां तस्योपचारोद्घण विधायोद्घुवनस्या काङ्क्षा सजाता । कश्चिदपि मनुष्य साभिमान मप्रेष यत् पारयति यत् १०८५ ईशवीय सदासररथानन्तरमुत्त-स्त्रोकः वाङ्मीक्रियसामायणे समापेक्षितः । यद्देशीया मनुष्या मनुजै पापानां तारयितु समर्थाः तथैतादृशानां यथाणां निर्मितं कर्तुं समर्थाः आसन् यानि यत्रूनू ध्यापाद्य प्रदत्तं समीप परावर्तते स्म तेषां मनुष्याणामाकाश उद्घुवनस्य याताऽसनयान्यनुचित मतम् । वर्तमानसम्पत्तायिष्कारेप्यद्याप्येतादृशां यत्तुनाम भाषो विद्यते यानि प्राच्यभारतीयैः गानिकैः मनुष्यममानस्य कृते समुपलब्धानि ।

तस्मिन्समये मनुष्याणां नैतिकताया एतादृशयथाऽधीचरेवदा यत्तपसा कार्य यथादृश्यतेः सद्-गतयन्ताः । भूपति यथाधिनातिपवसत्प्राशनन्तर गेभ्य यन्विद्यि युपकाररूपेण द्रव्य दातुमैवदत् । तदाप्रदागिद्वयेऽपि येषिभि तदुपहारद्रव्य न रनेकृतम् । ततः भूपतिरपोषणम्—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान् स्वैरी न स्वैरिणी कुत ? ॥

अयमाशयो यद्भारतीया स्वनैतिकवृत्तिविकासे जगति तस्योदाहारेऽप्रतिमा
 आसन् । ध्यानाहोऽय विषय यदस्मिन्नवयुगस्य विपाक्तवातावरणमध्येऽप्यवस्थितानाम-
 स्माक हृदये वैदिकसाहित्यपाठै पवित्रतोद्रेक सम्पद्यते तर्हि तदानी-तनस्य का
 वार्ता ? यदा सरलान्त करणेषु भारतीयमनुष्येषु भार्यप्रधाना प्रचलनपरिपाटी
 प्रपूरिताऽस्मीत् ।

इमास्तु जाता प्राचीनकालस्य वार्ता । चन्द्रगुप्तस्यापि काल यावद्भारतवर्षीया
 सम्यक्ताऽऽदर्शरूपेणावस्थिता । मेगास्थनीजमहोदयस्य वर्णनैर्ज्ञायते यद् मौर्यकालिके
 भारतवर्ष जना सर्वथा सत्यवादिन, धैर्यवान्, विश्वसनीयाश्चासन् । द्वारोपरि निगडा-
 रोपणस्य प्रथा नासीत् । न्यायालये विचारार्थं जना स्वल्पतया एव गच्छन्ति स्म ।
 मनुष्येषु पारस्परिकव्य-धुत्वस्य प्रेम्णश्च व्यवहृतिरासीत् । विभिन्नविद्याना प्रचार
 पूर्वत एवासीत् । यदा मनुष्य पशुकृत्ति परिधाय वृक्षच्छायासु जीवन यापयति स्म
 तदा भारते उपनिषदां निर्माणं जातम् । तथाऽत्रस्था जनता स्व्यतिशयेन तासामभ्य
 यने परमानन्दमासादयति स्म । आधिभौतिकोपकरणानां तु वार्तैव का ? आध्यात्मिका
 तु भवेत्स्वस्मान्निस्तदैव (सोऽहम्) इति परमोद्यानुभूतीनामानन्दानुभूति समारब्धा ।

अध्यापकमेकसमूलरमहोदयेन स्वस्विये एकस्मिन् व्याख्याने कथित "यदि
 माम् कोऽपि पृच्छेत् यत् स देश क कुत्र चास्ति यत्र मनुष्यै एतावती मानसिकोद्यति
 सम्पादिता यया तैरुत्तमोत्तमगुणानां समृद्धिं कर्तुमशक्यत, यत्र च मानवसम्बन्धिनीनां
 सुमहावार्तानामुपरि विचारोऽक्रियत एव यत्र तासा समाधानकर्तारश्च समुत्पन्ना,
 तदाऽहनिदमेवोत्तर दास्यामि यस्य देश भारतवर्षम् एव वर्तते ।" इति ।

वैदिककाले भारतवर्षे अनेका महत्त्वपूर्णा विद्या प्रचलिता आसन् । प्रसङ्गानु
 कूलम्, ध्यातव्योऽय विषयश्चाप्रायमस्ति यत् ज्योतिर्विद्याया जन्मस्थानमपि भारतवर्ष-
 मेव वर्तते । यया विद्यया गगनस्थग्रहनक्षत्रादीनां गति, परिमाण, विप्रकृष्टतादीनां
 निश्चयं क्रियते यस्मिन् शास्त्रे तस्या निरूपणमुपदेशो व्याख्यावर्णनादयश्च विधीयन्ते
 तद् ज्योतिष शास्त्रमिति कथयन्ति । प्राचीनाचार्य ज्योतिष भागद्वये सविभक्तम् । एक
 सिद्धा-तज्योतिषमपर फलितज्योतिषञ्च । इमे एवाङ्गलभाषायां Astronomy तथा

Astrology इति कथ्यते । येन भागेन सृष्टतयाऽप्रातःरूपेण च गणनां विधाय प्रहनचक्रादीनां गतिं सरथागादिवस्य च नियमं, प्रकृते तन्मन्वपठ्याकृतार्तां च हृत् रूपेण निश्चयः कियते तं गणितम् अथवा सिद्धान्तज्योतिषमिति कथयन्ति । येन विभागेन गणितस्य प्रहनचक्रादीनां गतिं हृत्वा पृथिव्या प्राणिनामागतावस्थायां शुभाशुभस्य च निर्णयः क्रियते तं फलितज्योतिषमिति कथयन्ति ।

“सूर्यसिद्धान्त” यदेकं गणितज्योतिषम् धार्मिकप्रयोगं वर्तते, यस्मिन् सिद्धान्तज्योतिषस्य प्रायशः सर्वाणि वस्तूनि प्राप्यन्ते, तदनुसारम् अस्य ग्रन्थस्य रचना इति प्राक् (२०२०) पुस्तकस्य अधिपत्यपट्टितद्वयोरुत्तरं कविना (२१६५००१) हृत्पर्यम् पूर्वं ज्ञाता । एतत्प्रमाणानन्तरमपि यदि कोऽपि पाश्चात्यविद्वानिदं कथयति भारतीयैः गणितविषयस्य सर्वां धार्मिकं अभ्युदयोऽप्य समासादिता, तर्हि कथास्यास्य किं महत्त्वं भविष्यति ।

प्राचीनता

ज्योतिषशास्त्रे येन प्रधानभूतमङ्गलं नेत्रस्थानीयं वर्तते इति निर्दिशत् मेतत् । गान्धिल्लुत्तरे प्रोष्ठपदस्य (भाद्रपदस्य) पूजिमाया उपकरणद्वयस्य समयः प्रतिपादितः । अनेकेषु स्थानेषु यज्ञारम्भस्य यत्नमात्रेण शुभायमराणामपि निर्देशं कृतं । आदिकविना वाचमीकिना रामचन्द्रादीनां जन्मजातिकप्रहाणां स्थित्या लोकेन च फलितज्योतिषस्य सत्ता स्पष्टतया प्रतिपादिता । हृत्पत्रेण महाभारतेऽपि श्लोकानि प्रमाणान्युपलभ्यन्ते । होराशास्त्रस्य ज्ञातकतात्रकप्रकाशनादयः विभागा गणितस्य सम्यक् “नक्षत्रविज्ञानस्य” अन्तर्गतं कथ्यन्ते । प्राचीनकाले राज्ञां युद्धानि दाकुलशासनां ज्योतिषविदो निर्दिष्टमन्त्राणां अनुसारेणैव भवन्ति स्म । प्रागुक्तं ग्रन्थे अथाऽप्यायाः अग्निः । प्रथमाप्याये स्वरादिकानां ज्ञानं, द्वितीये युद्धारम्भस्य नियमं शुभाशुभफलस्य निर्णयं, एतन्मन्त्राद्याये युगादिकानां विषयं कर्तुंमात्रविधिना दास्यराजा मात्सर्यां च कर्तुंशुभाया उपरजिता ।

नक्षत्राणां दातात्वात् राजपरमारम्भस्य समयं मात्सर्यप्रदानं तत्र विद्यते । यद्यन्तभागे धारापुरी नगरी मात्सर्यप्रदानस्य राजदातात्वात् । अस्य विना नक्षत्रप्रदानं अत्रापि विद्यते । नक्षत्रप्रदानं धार्मिकं । नक्षत्रं च नक्षत्रं अत्र कथ्यते । नक्षत्रं, रक्षा ज्ञातये यत् किञ्चित् आत्माराम्ये नक्षत्रं चारापुरी “नक्षत्रं” नामकं प्राचीननक्षत्रपदे अत्र

गुर्जरप्रान्तस्य राज्ञ कुमारपालस्य भ्रातुर्जयपालनामधेयस्य शासने ११७० तम ईशवीये वर्षे आसीत् । एष जैनधर्मस्य परमविरोधी आसीत् । एव ११७६ तम इशवीये वर्षे द्वारपालेनास्य हननं कृतम् । ग्रन्थरचयिता स्यान्म अनेहिलपत्ता ग्राम मोवल्ली प्रदेशे वर्तते । प्रस्तुतग्रन्थस्योपरि जयलक्ष्मी नरहरिमञ्जर्याख्या टीका सन्ति ।

एष ग्रन्थो मया स्वर्गीयपूज्यपितृचरणेभ्यः पण्डितगणदेवदत्तपाठकेभ्यः काशीहिन्दूविश्वविद्यालयीयज्योतिषविभागाभ्यक्षेत्रेभ्योऽर्थात् तस्मात् कालादेव मदीया एषा समाकाङ्क्षाऽऽसीत् यद्ग्रन्थस्यास्य शोभता काचिट्टीका भवेत्चेदध्ययनाभ्यापने सुगमता सम्पद्येत । तस्मात्कालादेव मया यथामति अस्य टीका समाख्या । एष पूज्यपादै तस्या सशुद्धिरपि निर्वाहिता । परन्तु अद्यावधि तत्प्रकाशनावसरो न मया समासादित ।

अहं हताशो भूत्वा अस्याः प्रकाशनेच्छां निगूह्य तूष्णीमवलम्ब्यातिष्ठम् । किन्तु सयोग्यशादेव इतः पञ्चवर्षेभ्यः प्राक् “वाराणसेय चौखम्बासंस्कृत सीरीज”-युक्ते श्रीश्रेष्ठिमहोदयैः सहास्या प्रकाशनविषये मदीया चार्ता जाता । तैश्चापि प्रकाशनभारं स्वीकृतं । तेषामेव प्रयासेन एष ग्रन्थः सटीकः प्रकाशमानोऽस्ति । एतदर्थं महामनुगृहीतः ।

“भ्रातिर्मनुष्यधर्मः” इत्येतदाभाणकानुसारं यत्र कुत्रापि या काश्चित् घुटयः सजाता विमलान्तं करणैः सुधीभिः सशोभ्य सूचनीया इति विवेदनमेतत् ।

निर्जला एकादशी }
वि० सं० २०२८ }

विनीत —
गणेशदत्तपाठकः

विषय-सूची

	पृ०		पृ०
शास्त्रसंग्रहाध्याय		दिनस्वरा	३०
मङ्गलाचरणम्	१	दिनस्वरचक्रम्	३१
स्वरशास्त्रस्य प्रधानत्वम्	२	घटीस्वरा	"
स्वरयलप्रशसा	३	द्वादशाब्दादीनामतरोदय	"
चतुरशीतिचक्रनामानि	५	पञ्चबालाद्यवस्थाना बलम्	३२
भूयलानि	६	तिथिवारनक्षत्रस्वरा	३७
यन्त्रमन्त्रौपधयलम्	७	तिथिवारनक्षत्रस्वरचक्रम्	३८
ज्यौतिपाङ्गम्	८	घालादिस्वराणामवस्थासङ्ख्या	३९
मात्रास्वराऽध्याय		युद्धादिषु दिक्स्वरा	४१
मात्रास्वरा	११	दिशास्वरचक्रम्	४२
मात्रास्वरचक्रम्	१४	तास्कालिकस्वरविवरणम्	"
ग्रहस्वरा	१७	नक्षत्रचरणवर्णवशात्फलम्	४५
जीवस्वरा	१८	तास्कालिकग्रहस्वरचक्रम्	४६
जीवस्वरचक्रम्	१९	स्वरप्रशसा	५३
राशिस्वरा	२०	हसचार	"
राशिस्वरचक्रम्	२१		
नक्षत्रस्वरा	"	चक्रबन्धाऽध्याय.	
नक्षत्रस्वरचक्रम्	"	सर्वतोभद्रचक्रप्रकरणम्	६८
पिण्डस्वरा	२२	सर्वतोभद्रचक्रम्	७०
योगस्वर	"	शतपदचक्रप्रकरणम्	९३
द्वादशवार्पिकादिस्वराध्याय		शतपदचक्रम्	"
द्वादशवार्पिकस्वर	२४	अशस्वरचक्रप्रकरणम्	९६
द्वादशाब्दिकस्वरचक्रम्	२५	अशस्वरपदचक्रम्	९७
वार्पिकस्वरचक्रम्	"	छत्र चामरचक्रप्रकरणम्	९९
अयनस्वरा	२६	अश्वपतिचक्रम्	१००
अयनस्वरचक्रम्	२७	नरपतिचक्रम्	"
वार्पिकस्वरचक्रम्	"	गजपतिचक्रम्	"
श्रतुस्वरा	"	सिंहासनचक्रप्रकरणम्	१०८
श्रतुस्वरचक्रम्	२८	सिंहासनचक्रम्	"
मासस्वरा	"	पद्मकूर्मचक्रप्रकरणम्	१०८
मासस्वरचक्रम्	२९	धूर्मचक्रम्	१०९
पक्षस्वरा	"	देशधूर्मचक्रम्	११२
पक्षस्वरचक्रम्	३०	नगरधूर्मचक्रम्	११३

	पृ०		पृ०
सैत्रपूर्वमंचकम्	११३	तोरणचक्रनिरूपणम्	१४६
गृहपूर्वमंचकम्	"	तोरणचक्रम्	१४७
पञ्चमस्यप्रकरणम्	११७	शशिसूर्यंकाणानलचक्रम्	"
पञ्चमस्यम्	"	सप्तदशकनिरूपणम्	१४८
सप्तद्वीपपणिचक्रम्	११६	सप्तदशकम्	१५०
सप्तनाडीचक्रम्	"	गूढकालानलचक्रनिरूपणम्	"
राहुनालानलचक्रम्	"	गूढकालानलचक्रम्	१५१
सप्तशालाकाचक्रम्	११८	कुम्भकुलचक्रनिरूपणम्	१५२
पद्माक्षराद्यु	११९	कुम्भकुलचक्रम्	"
पद्माक्षराद्युकाणानलम्	१२३	कुम्भचक्रनिरूपणम्	"
पद्मक्षराद्यु	१२४	कुम्भचक्रम्	१५३
पद्मक्षराद्युचक्रम्	१२५	प्रस्तारचक्रम्	१५५
मुग्धादियोगपट्टकम्	१२६	द्वादशपत्रामकप्रस्तारचक्रम्	१५९
द्वय्यादियोगपट्टकम्	१२७	द्विदशपत्रचक्रम्	१६०
उदरादियोगपट्टकम्	"	गुग्गुरापत्रचक्रनिरूपणम्	१६१
गुग्गुदियोगपट्टकम्	१२८	क्षीरकुण्डलीचक्रम्	"
पञ्चांगपट्टकम्	१२९	गुग्गुरापत्रचक्रम्	१६२
धपात्रादियोगपट्टकम्	१३०	राशिसुग्गुरचक्रनिरूपणम्	"
दशान्नराहुकालानलप्रभाशुभफलम्	१३१	राशिसुग्गुरचक्रम्	१६३
दशान्नराहुकालानलचक्रम्	१३१	गामसाधनम्	"
सूर्यकालानलम्	१३५	त्रैलोक्यादिनिरूपणम्	१६२
सूर्यकालानलचक्रम्	१३६	त्रैलोक्यचक्रम्	१६५
चन्द्रकालानलम्	१३७	नेत्राणादिज्ञानम्	१७६
चन्द्रकालानलचक्रम्	"	भूचरखेचरचक्रनिरूपणम्	१८०
चौरकाणालम्	"	भूचरखेचरचक्रम्	१८१
चौरकालानलम्	१३८	पथचक्रनिरूपणम्	"
सप्तशालाकाचक्रम्	"	खेचरभूचरचक्रम्	"
पद्मसप्तशालाचक्रम्	१३९	पद्माक्षचक्रम्	१८०
पद्मसप्तशालाचक्रम्	"	गण्डीचक्रनिरूपणम्	१८८
यदचन्द्रनिरूपणम्	"	मन्दाकारनाडीचक्रम्	१८९
गण्डपत्रचक्रम्	१४०	मन्दाकारनाडीचक्रम्	१९०
चतुरङ्गसूर्यनिरूपणम्	"	दिवाहाचक्रम्	१९२
चतुरङ्गसूर्यचक्रम्	"	द्वादशनाडीचक्रम्	"
मातृकाचक्रम्	१४१	अद्विष्टपथचक्रनिरूपणम्	१९३
आयचक्रम्	१४३	अद्विष्टचक्रम्	१९५
विश्वचक्रम्	१४४	अद्विष्टचक्रनिरूपणम्	१९५
अष्टराचक्रम्	१४६	अष्टपत्रचक्रनिरूपणम्	२०१
		अष्टपत्रचक्रम्	२०२

	पृ०		पृ०
बीजोत्पत्तिचक्रनिरूपणम्	"	सङ्गचक्रम्	२६१
बीजोत्पत्तिचक्रम्	२०३	खड्गचक्रस्वरूपम्	"
वृषभचक्रनिरूपणम्	"	दुरिकाचक्रम्	"
वृषभचक्रम्	२०५	दुरिकाचक्रस्वरूपम्	२६२
सप्तनाडीचक्रनिरूपणम्	"	चापचक्रम्	"
सप्तनाडीचक्रम्	२०७	चापचक्रस्वरूपम्	२६३
समुद्रचक्रनिरूपणम्	२१२	अग्निचक्रम्	"
समुद्रचक्रम्	"	शनिचक्रम्	२६४
स्त्रीपुंसपुसकचक्राणि	२१३	शनिचक्रस्वरूपम्	२६६
स्त्रीपुंसपुसकचक्रम्	"	सेवाचक्रम्	"
चन्द्रसूर्ययोगा	"	सेवाचक्रस्वरूपम्	"
वृष्टियोगफलम्	२१४	घातनरचक्रम्	२६७
शुक्रोदयास्तफलम्	२१६	घातनरचक्रस्वरूपम्	२६९
मेघद्वाराणि	"	द्विभचक्रम्	२७०
वृष्टिलक्षणम्	२१७	द्विभचक्रस्वरूपम्	"
कालद्वाराचक्रनिरूपणम्	११८	पक्षिचक्रम्	२७१
कालद्वाराचक्रम्	२१९	पक्षिचक्रस्वरूपम्	"
सूर्यफणिचक्रनिरूपणम्	"	वर्गचक्रम्	"
सूर्यफणिचक्रम्	२२०	वर्गचक्रस्वरूपम्	२७२
चन्द्रफणिचक्रम्	"	भायचक्रम्	"
कविचक्रनिरूपणम्	"	भायचक्रस्वरूपम्	२७३
कविचक्रम्	२२३	ग्रामचक्रम्	"
खलचक्रनिरूपणम्	२२४	विवाहपट्टचक्रम्	२७४
खलकोटचक्रम्	२२५	विरचिचक्रम्	२७५
समचतुरस्रादिकोटचक्रनिरूपणम्	२२६	विरचिचक्रस्वरूपम्	२७६
समचतुरस्रकोटचक्रम्	२२९	भास्वचक्रम्	"
घातुरगसैन्यविघरणम्	२४१	श्येनचक्रम्	"
गजचक्रनिरूपणम्	२५३	श्येनचक्रस्वरूपम्	२७७
गजचक्रस्वरूपम्	२५४	सवत्सरचक्रम्	"
अश्वचक्रनिरूपणम्	२५५	सवत्सरचक्रस्वरूपम्	२७९
अश्वचक्रस्वरूपम्	२५६	स्थानबलचक्रम्	"
दृढमुहुर्विषये अश्वचक्रम्	"	चन्द्रशुद्धोन्नतिचक्रम्	२८१
रथचक्रनिरूपणम्	२५८		
रथचक्रम्	"	भूचलाध्याय	
व्यूहचक्रम्	२५९	यात्राप्रकरणम्	२८१
व्यूहचक्रस्वरूपम्	"	ओट्टीभूमि	२८७
कुतचक्रम्	२६०	ओट्टीभूमिचक्रम्	२८८
कुतचक्रस्वरूपम्	"	जालधरीभूमि	"
		जालधरीभूमिचक्रम्	२८९

	पृ०		पृ०
पूनी भूमि	२८९	यामभूमिचक्रम्	२०३
पूर्णभूमिचक्रम्	"	मुग्धुका भूमि	"
कामाख्या भूमि	"	मुग्धुकाभूमिचक्रम्	"
कामाख्याभूमिचक्रम्	२९०	कर्नरी भूमि	"
कोटापुरी भूमि	"	कर्नरीभूमिचक्रम्	३०४
कोटापुरीभूमिचक्रम्	२९१	शाहूली भूमि	"
एकवीरा भूमि	"	मिहली भूमि	"
एकवीरभूमिचक्रम्	"	मिहलीभूमिचक्रम्	३०५
शिलिन्ध्रा भूमि	२९२	तन्वी भूमि	"
शिलिन्ध्राभूमिचक्रम्	"	तन्वीभूमिचक्रम्	"
महामारी भूमि	"	महामाया भूमि	"
महामारीभूमिचक्रम्	"	महामायाभूमिचक्रम्	"
शेखपाली भूमि	२९३	मादेशरी भूमि	३०६
शेखपालीभूमिचक्रम्	"	मादेशरीभूमिचक्रम्	"
यदाजा भूमि	"	देवकोटिभूमि	"
यदाजाभूमिचक्रम्	२९४	देवकोटिभूमिचक्रम्	"
रुद्रभूमि	"	शिया भूमि	"
रुद्रभूमिचक्रम्	२९५	शिषाभूमिचक्रम्	३०७
काळाढी भूमि	"	शण्डिभूमि	"
सूर्यचन्द्रकालाषट्चक्रम्	२९६	शक्तिभूमिचक्रम्	"
निरामया भूमि	२९८	भूधा भूमि	"
निरामयाभूमिचक्रम्	"	भूधाभूमिचक्रम्	३०८
जयलक्ष्मी भूमि	"	माना भूमि	"
जयलक्ष्मीभूमिचक्रम्	२९९	मानाभूमिचक्रम्	"
महालक्ष्मी भूमि	"	षगटिका भूमि	"
महालक्ष्मीभूमिचक्रम्	"	षराटिकाभूमिचक्रम्	३०९
जया भूमि	३००	त्रिमुक्टा भूमि	"
जयाभूमिचक्रम्	"	त्रिमुक्टाभूमिचक्रम्	"
विजया भूमि	"	मयरी भूमि	"
विजयाभूमिचक्रम्	"	मयरीभूमिचक्रम्	"
मेरवी भूमि	३०१	धमा भूमि	३१०
बाण भूमि	"	धर्मभूमिचक्रम्	"
बाणभूमिचक्रम्	३०२	गुना भूमि	"
दोगीधरी भूमि	"	गुनाभूमिचक्रम्	"
दोगीधरीभूमिचक्रम्	"	दृष्टिभूमि	"
दण्डी भूमि	"	दृष्टिभूमिचक्रम्	३११
दण्डीभूमिचक्रम्	३०३	दयादया भूमि	"
वामभूमि	"	दयादयाभूमिचक्रम्	"

	पृ०		पृ०
दुर्मती भूमि	३११	दहनी भूमि	३२१
दुर्मतिभूमिचक्रम्	३१२	दहनीभूमिचक्रम्	"
महरा भूमि	"	जिता भूमि	"
प्रहराभूमिचक्रम्	"	जिताभूमिचक्रम्	३२२
गौरी काली भूमि	"	वायुबला भूमि	"
गौरीकाली भूमिचक्रम्	"	वायुबलाभूमिचक्रम्	"
नारहरी भूमि	३१३	वर्गकालानली भूमि	"
नारहरीभूमिचक्रम्	"	कपालिका भूमि	३२३
बला भूमि	"	अनलानिला भूमि	"
ललाभूमिचक्रम्	"	अनलानिलाभूमिचक्रम्	"
भूचरी देचरी भूमि	"	चन्द्रसूर्यभूमि	"
भूचरीखेचरीभूमिचक्रम्	३१४	सूर्यचन्द्रभूमिचक्रम्	"
गुह्याभूमि	"	ग्रहभूमि	३२४
गुह्याभूमिचक्रम्	"	राशिभूमि	"
द्वादशी भूमि	३१५	लग्नभूमि	"
द्वादशीभूमिचक्रम्	"	राहुकालानला भूमि	"
भद्रा भूमि	"	राहुकालानलभूमिचक्रम्	"
भद्राभूमिचक्रम्	"	स्वरभूमि	"
फेयला भूमि	३१६	स्वरभूमिचक्रम्	"
फेयलाभूमिचक्रम्	"	त्रिकालरुद्रभूमि	३२६
त्रैलोक्यविजया भूमि	"	त्रिकालरुद्रभूमिचक्रम्	"
त्रैलोक्यविजयभूमिचक्रम्	"	शुक्रराहु	"
कालपाशा भूमि	३१७	मासराहु	"
कालपाशाभूमिचक्रम्	"	पञ्चराहु	३२७
करालिका भूमि	"	दिनराहु	"
करालिकाभूमिचक्रम्	"	दिनराहुचक्रम्	"
पडवा भूमि	३१८	खण्डराहु	"
पडवाभूमिचक्रम्	"	खण्डराहुचक्रम्	३२८
अपराजिता भूमि	"	अर्द्धयामराहु	"
अपराजिताभूमिचक्रम्	"	अर्द्धयामराहुचक्रम्	"
रौद्री भूमि	३१९	शूडार्धराहु	"
रौद्रभूमिचक्रम्	"	सुहूर्तराहु	३२९
धामलोचना भूमि	"	कुलिकराहु	"
धामलोचनाभूमिचक्रम्	"	अष्टविधराहु	"
शिशुभूमि	"	राशिचक्र	३३०
शिशुभूमिचक्रम्	३२०	राशिचक्रचक्रम्	"
मातंगी भूमि	"	उदयचन्द्रभूमि	"
मातंगीभूमिचक्रम्	"	मासचन्द्रभूमि	"
अमेघा भूमि	"	पञ्चत्रभूमि	३३१
अमेघाभूमिचक्रम्	३२१	पञ्चत्रचक्रम्	"

	पृ०		पृ०
दिनचन्द्रभूमि	३३१	वज्राङ्गसुदरी गुटिका	३४५
तात्कालिचन्द्र	"	सिंहो	३४६
सप्तविधचन्द्र	३३२	व्याघ्री	"
अयनभानु	"	मृगी	"
दिनभानुस्तात्कालिनो भानुश्च	"	हस्ती	"
सूर्यत्रिभुजम्	"	योगघटितशाखाणि	३४७
तिथियोगिनी	३३३	शहरक्षा	"
तिथियोगिनीचक्रम्	"	शखमोटनम्	"
तात्कालयोगिनी	"	शखलेप	"
वारयोगिनी	"	पैच्छिकविधि	३४८
तिथिकाल	३३४	ताम्रकविधि	"
तिथिकालचक्रम्	"	काहलविधि	"
पट्टत्रिंशत्काल	"	ढफाविधि	"
वारकाल	३३५	मुरजविधि	३४९
घासुभूमि	"	भस्माधानम्	"
शारीरभूमि	"	द्वादशारचक्रम्	"
रत्नकाल	३३६	उष्ट्री	३५०
		यमश्लोक	"
		मोहनम्	"
शान्त्यध्याय		मारणविधि	"
मृत्युञ्जयमन्त्रम्	३३९	मोहनविधि	३५१
अभिपेक्षविधि	३४०	स्तम्भनम्	"
रणवीक्षा	"	विद्वेषणविधि	"
रत्नमन्त्रः	"	उच्चाटनविधि	"
फलकमन्त्र	"	वशीकरणविधि	३५२
धनुर्मन्त्र	"	वशीकरणमालामन्त्र	३५३
पद्मवाणमन्त्र	"	दनुमत्पताका	"
कुतमन्त्र	"	हनुमत्पिच्छकविधि	३५४
ह्युरिकामन्त्र	"	हनुमद्घाविधि	"
रणकङ्कणम्	३४१	हनुमन्मंत्रहोमविधि	३५६
वीरपट्टविधि	"	हनुमन्मालामन्त्र	"
जयपट्टविधि	"	मण्डूकयन्त्रविधि	३५७
मृत्युञ्जयकवचम्	"	स्तम्भनयन्त्रविधि	"
मृत्युञ्जयन्यास	"	शत्रुभगविधि	"
मृत्युञ्जयमुद्रा	"	कलिकुण्डलमन्त्रविधि	३५८
वीरकङ्कणम्	३४३	मृत्युञ्जयनामयन्त्रविधि	३५९
ओषधनामानि	"	अर्घकाण्डम्	३६१
ओषधमन्त्र	"	स्तोत्रम्	३६६
तिष्ठकम्	३४४	ग्रहमन्त्रहोम	३६७
ढफा	३४५		

अथ

नरपतिजयचर्या

‘सुवोधिनी’ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता

अथ शास्त्रसंग्रहाध्यायः

अथ मङ्गलाचरणम्—

अव्यक्तमव्ययं शान्तं नितान्तं योगिनां प्रियम् ।
सर्वानन्दस्वरूपं यत्तद्वन्दे ब्रह्म सर्वगम् ॥ १ ॥

विविधविवुधवन्धां भारतीं वन्दमानः

प्रचुरचतुरभावं दातुकामां जनेभ्यः ।

नरपतिरिति लोके ख्यातनामाभिधास्ये

नरपतिजयचर्यानामकं शास्त्रमेतत् ॥ २ ॥

पाठकाख्यो गणेशोऽहं नत्वा धीणाविभूषिताम् ।

नृपाणां जयचर्यायाष्टीकां कुर्वे सुवोधिनीम् ॥

अव्यक्तेति । अहमित्याध्याहार कर्त्तव्य । अव्यक्तं न व्यक्तम् अप्रकटरूपम्, अव्ययं नित्यं, शान्तं निरूपद्रव्यं नितान्तमत्यर्थेन योगिनां योगवता प्रियं प्रीतिप्रियं, सर्वानन्दस्वरूपं (आनन्दब्रह्मणो रूपम्) सर्वगं सर्वव्यापि एतन्मभूतं यदेकं ब्रह्म तं वन्दे । विविधेति । विविधा नानाप्रकारा ये विवुधा देवाः पण्डिता वा तेऽन्यां नमस्करणीयाम्, जनेभ्य लोकेभ्य प्रचुरं श्रेष्ठं चतुरभावं चतुर्थं दातुकामाम् भारतीं मरुत्पतीम् नरपतिं इति लोके ख्यातनामाहम् वन्दमानं नमस्कुर्वाणम् । नरपतिजयचर्या=नरपति राजा तस्य जयचर्या जयपरिपाटीति नरपतिजयचर्यानामकमेतत् स्वरोदप्रशास्त्रं अभिधास्ये ॥

मैं अप्रकटरूप नित्य निरूपद्रव्य योगियों के नितान्त प्रिय और सर्वानन्दस्वरूप सर्वव्यापि ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ । एतन्मभूत ‘नरपति’ नाम का ग्रन्थकार अनेक देवता और पण्डितों से घटनीय मनुष्यों को अत्यंत चतुर्थ देनेवाली सरस्वती

देवी को नमस्कार करते हुये समर में राजाओं के विजय की रीति को बतानेवाले (स्वरोदय शास्त्र) नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ को प्रारम्भ कर रहा है ॥ १-२ ॥

श्रुत्वादौ यामलान्सप्त तथा युद्धजयार्णवम् ।
 कौमारीं कौशल चैव योगिनीजालसंचरम् ॥ ३ ॥
 रक्षोघ्नं च त्रिमुण्डं च स्वरसिंहं स्वरार्णवम् ।
 भ्रुवलं भैरवं नाम पटलं स्वरभैरवम् ॥ ४ ॥
 तन्त्रं रणाह्वयं ख्यातं सिद्धान्तं जयपद्धतिम् ।
 पुस्तकेन्द्रं च ठौकं च श्रीदर्शज्यौतिषं तथा ॥ ५ ॥
 मन्त्रयन्त्राण्यनेकानि कूटयुद्धानि यानि च ।
 तन्त्रयुक्तिं च विज्ञाय विज्ञानं बडवानले ॥ ६ ॥
 एतेषां सर्वशास्त्राणां हृष्टसारोऽहमात्मना ।
 सारोद्धारं भणिष्यामि सर्वसत्त्वानुरुम्पया ॥ ७ ॥

श्रुत्वादौ इति । एतान् ग्रन्थान् श्रुत्वा अधीत्य सर्वशास्त्राणां हृष्टसार सारोद्धार यथा स्यादेव भणिष्यामि । अन्यत्स्पष्टम् ॥ ३-७ ॥

सर्वप्रथम इन सात (यामलामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, आदियामल, रुद्रया मल, कृमयामल, देवीयामल) यामलों का अध्ययन करके तथा युद्धजयार्णव कौमारी, कौशल, योगिनीजाल, रक्षोघ्न, त्रिमुट, स्वरार्णव, भ्रुवलभैरव, स्वरभैरव पटल आदि स्वरशास्त्र के अनेक ग्रन्थों को देखकर उनके तथ्यों को कहता हूँ (आचार्य उक्त ग्रन्थों के आधार से इस ग्रन्थ का निर्माण कर रहा है यही भाव है) ॥ ३-७ ॥

अथ स्वरशास्त्रस्य प्रधानत्वम्—

पत्त्यश्वगजभूपालैः सम्पूर्णा यदि वाहिनी ।
 तथापि भङ्गमायाति नृपो होनस्वरोदयी ॥ ८ ॥
 तावत्तरन्ति ते धीरा दोर्भ्यामाहवसागरम् ।
 यावत्पतन्ति नो चक्रे स्वरास्ते बडवानले ॥ ९ ॥

पत्त्यश्वेति । स्वरोदयी स्वरशास्त्र सम्पूर्ण जानातीति स्वरोदयी स्वरा गणकस्तेन हीन नृप पत्त्यश्वगजभूपाले सम्पूर्णदिग्गजयसामग्र्या युक्तेऽपि सम्पूर्णा वाहिनी सेना स्यात्तथापि भङ्गमायाति अर्थात् रणात्पलायते । तावत्तरन्ति । ते धीरा स्वरज्ञदेवज्ञोक्तस्वरवलाढया भटा आहवसागरम् समामसमुद्र दोर्भ्यां बाहुभ्यां देवज्ञोक्ता बडवानले चक्रे नो पतति । घडवाहिनी तन्मुखे

योऽनल अग्नि स वडमानलगतस्य चक्रे समृद्धे । अर्थात् स्वरा स्वनाममात्रा-
दय यावद्वस्त्रमिता न तामदेव मग्रामपार यान्ति ॥ ८-६ ॥

स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी की राष्ट्र की उदा जागरूकता है क्योंकि—जिस राजा के
साथ स्वरशास्त्र का जानने वाला देवज्ञ (ज्योतिषी) नहीं होता है वह पदल सिपाही,
घोड़े, हाथा, राजाओं से युक्त सेनावाला होते हुये भी मग्राम में विजयी नहीं होता
है । योद्धा लोग सग्राम में तभी तक विजयी होते हैं जब तक की स्वरज्ञ देवज्ञ के
वताये हुये स्वर अस्त न हो जावें ॥ ८-९ ॥

कथंचिद्विजयी युद्धे स्वरज्ञेन विना नृप' ।

घुणवर्णोपमं तत्तु यथांधचटकग्रहः ॥ १० ॥

यस्यैकोऽपि गृहे नास्ति स्वरशास्त्रस्य पारगः ।

रम्भास्तम्भोपमं राज्यं निश्चित तस्य भूपतेः ॥ ११ ॥

स्वरशास्त्रे सदाभ्यासी सत्यवादी जितेन्द्रियः ।

तस्यादेशस्य यः कर्त्ता जयश्रीस्तं नृपं भजेत् ॥ १२ ॥

कथंचिदपीति । स्वरज्ञेन स्वरशास्त्रज्ञेन विनापि नृप युद्धे मग्रामे कथ-
ञ्चिद्विजयी भवेन् तत्तु घुणवर्णोपम भवति । यथा घुण कीटविशेष काष्ठ
कर्त्तयन् तत्राक्षरमुत्किरति न तत्र तस्याक्षरकरणे प्रयाम तथा यथान्धचटक
पथिविशेष एव स्वरज्ञानवियुक्तो युद्धार्थवलसैन्यमपि । यस्यैकोपीति । यस्य
राज गृहे एकोऽपि स्वरशास्त्रस्य पारग स्वरज्ञ नास्ति तस्य भूपते राज्य
रम्भास्तम्भोपम कण्ठीगर्भत्रिस्सारमित्यर्थ । स्वरशास्त्रे इति । सुग-
मम् ॥ १०-१२ ॥

राजसभा में स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी की ही प्रधानता होनी चाहिए—रूम रथन
की पुष्टि की जाती है—स्वर के जानने वाले देवज्ञ के बिना भी कदाचित् राजा युद्ध में
विजयी हो सकता है किन्तु उसकी वह विजय घुणों से उनाये हुये अक्षरों क और
अधे से गृहीत पक्षी चक्र के समान होती है । जिस राजा के पास स्वरशास्त्र का
पारगन एक भी देवज्ञ नहा होता है उसका राज्य केरे के स्वभे के समान निस्मार
होता है । स्वरशास्त्र का अभ्यास करने वाले, सत्यवादी और जितेन्द्रिय देवज्ञ की
आजा पालन करने वाले राजा को निरंतर विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ १०-१२ ॥

अथ स्वरवलप्रशानामाह ।

दर्शकेन शत तैश्च सत्स्र गतस्यया ।

स्वरोदयवली राजा दशम्व हति लीलया ॥ १३ ॥

पुष्पैरपि न योद्धव्यं यावद्धीनस्वरोदयः ।
 स्वरोदयवले प्राप्ते योद्धव्यं शस्त्रकोटिभिः ॥ १४ ॥
 स्वरजः शकुनजश्च दैवजो मन्त्रपारगः ।
 केरलीवित्तया राजां कीर्तितं रत्नपंचकम् ॥ १५ ॥
 स्वरचक्राणि चक्राणि भ्रूवलानि वलानि च ।
 ज्यौतिषं शकुनं चैव पडंगानि वदाम्यहम् ॥ १६ ॥
 यामलेषु च सर्वेषु यान्युक्तानि स्वरोदये ।
 विशतिः स्वरचक्राणि वक्ष्येऽहं तानि चाधुना ॥ १७ ॥
 मात्रा वर्णो ग्रहो जीवो राशिर्भ्रूविण्डयोगकौ ।
 द्वादशाब्दं तथाब्दं च अब्दार्धमृतुमासिकम् ॥ १८ ॥
 पक्षाहर्नाडिकं चक्रं तिथिवारक्षयोगकम् ।
 दिशि तत्त्वावधानं च दिनफलं च वदाम्यहम् ॥ १९ ॥

दशैकेनेति—स्वरोदयवलेन प्राप्तस्वरोदयप्रली राजा एकेन धीरेण दश
 योधान् लीलया हन्ति मारयति । एष दशयोधेन एकशत, शतसंख्यया महत्सम्
 अर्थादेकगुणो, दशगुण शत्रु हन्ति । पुष्पैरपि—स्पष्टार्थ । स्वरज्ञेति—सुगमम् ।
 स्वरचक्राणि—स्पष्टम् । यामलेषु यानि स्वरचक्राणि विशतिसंख्याकानि तान्यह
 अग्रे वक्ष्ये । मात्रास्वर । वर्णस्वर । ग्रहस्वर । जीवस्वर । राशिस्वर । नक्षत्रस्वर ।
 विण्डस्वर । योगस्वर । द्वादशावधिकस्वर । वार्षिकस्वर । अयनस्वर । ऋतुस्वर ।
 मासिकस्वर । पक्षस्वर । दिनस्वर । नाडीस्वर । तिथिवारक्षयोगस्वर विक्स्वर ।
 तात्कालिकस्वर । दिनफलस्वरेति ॥ १३-१९ ॥

स्वरज का प्रभाव है कि स्वरज से युक्त राजा एक योद्धा से दश योद्धाओं को,
 दश योद्धाओं से एकसौ योद्धाओं को और एक सौ योद्धाओं से एक हजार योद्धाओं को
 लीला से ही मार सकता है । हीन स्वरज की स्थिति में तो पुष्प से भी युद्ध नहीं
 करना चाहिये, स्वरज प्राप्त होने पर अनेक शस्त्रधारियों से भी युद्ध करना चाहिये ।
 स्वरज, शकुनज, दैवज, मन्त्रशास्त्र का पारग, केरलीय ज्यौतिष का जाननेवाला,
 राजा के ये पचरत्न हैं । स्वरचक्र, चक्र, भ्रूल, वल, शकुन और ज्यौतिष इन छ अगों
 को मैं कहता हूँ । सभी विषयों में जो धीम स्वरचक्र वक्ष्ये गये हैं उसे मैं कह रहा
 हूँ । मात्रास्वर, वर्णस्वर, ग्रहस्वर, जीवस्वर, राशिस्वर, नक्षत्रस्वर, विण्डस्वर, योगस्वर,
 द्वादशावार्षिकस्वर, वार्षिकस्वर, अयनस्वर, ऋतुस्वर, मासिकस्वर, पक्षस्वर, दिनस्वर,

नाडीस्वर, तिथिवार योग से उत्पन्न स्वर, दिशास्वर, तात्कालिकस्वर और दिनफलस्वर ये २० स्वरचक्र हैं ॥ १३-१९ ॥

अथ चतुरशीतिचक्रनामानि—

पूर्वमुक्तेषु शास्त्रेषु मया ज्ञातानि यानि च ।
 चतुरशीतिचक्राणि तेषां नामानि वच्म्यहम् ॥ २० ॥
 एकाशीतिपदं चक्र शतपद नवांशकम् ।
 छत्र सिंहासन चक्र कूर्म पञ्चविधं त्विदम् ॥ २१ ॥
 भूदेशनगरक्षेत्रं गृहकूर्म च पञ्चमम् ।
 पद्मचक्र फणोशाख्यं राहुकालानल मतम् ॥ २२ ॥
 सूर्यकालानलं चक्र चन्द्रकालानल तथा ।
 घोरकालानल चक्र शूलकालानल मतम् ॥ २३ ॥
 शशिसूर्यसमायोगे चक्र कालानलं मतम् ।
 सघट्टं सप्तमं ज्ञेय सप्तकालानलानि च ॥ २४ ॥
 तिथिवारं च नक्षत्रं त्रिधा चैव कुलाकुलम् ।
 कुम्भचक्रं द्विधा प्रोक्तं राशिनक्षत्रसम्भवम् ॥ २५ ॥
 वर्गप्रस्तारवेधे च त्रिधा तुंबुरुमेव च ।
 भूचरं खेचर पान्थं नाटीचक्रं द्विधा मतम् ॥ २६ ॥
 कालचक्र फणिवृद्धं सूर्यारय चन्द्रज तथा ।
 कविचक्रं द्विधा प्रोक्तं स्थानस्वाम्यक्षपूर्वकम् ॥ २७ ॥
 खलकारण्यं द्विधा प्रोक्तं कृत्तिकास्थानभादिकम् ।
 कोटचक्राष्टकं प्रोक्तं चतुरस्रादिभेदतः ॥ २८ ॥
 गजमन्वं रथं व्यूहं कुन्तं ग्वद्धं छुरिं धनुः ।
 सौरिं सेवां नरं डिंभं पक्षिवर्गायवर्षणम् ॥ २९ ॥
 सप्तरेवोद्भव चक्र पञ्चरेखेंद्रुभास्करम् ।
 त्रिविधं मातृकाचक्रं विज्ञेयं श्यनतोरणे ॥ ३० ॥
 अहिलांगलबीजोप्तिवृषाख्यं सप्तनाडिकम् ।
 चक्रं सांवत्सरस्थानं मास चक्र दिनाहयम् ॥ ३१ ॥

एतानि सर्वचक्राणि ज्ञात्वा युद्धं समाचरेत् ।

जयेदित् न संदेहः शक्रतुल्यं च भूपतिम् ॥ ३२ ॥

पूर्वमुक्तेऽपि । सुगमम् । एकाशीत्यारभ्य एतानीत्यत आरभ्य चक्रानामानि ।
उक्तानि सुगम च ॥ २०-३२ ॥

पूर्व शास्त्रों में कहे हुये ८४ चक्रों की निर्माणशैली जोर उनकी गति स्थिति को समझकर आचार्य उनके नामों को कह रहा है । ८१ पदारम्भ, शतपदचक्र, नवमाशचक्र, छत्रचक्र, मिहासनचक्र, कूर्मचक्र, भू, देश, नगरक्षेत्रचक्र, गृहकूर्मचक्र, पद्मचक्र, फणिचक्र, राहुकालानलचक्र, सूर्यकालानलचक्र, चन्द्रकालानल, घोरकालानल, गूढकालानल, चन्द्रसूयजनितकालानलचक्र, सधृष्टचक्र, कुलाकुलचक्र, कुम्भचक्र, वर्णप्रस्तारचक्र, तुंगुरचक्र, भूधरचक्र, खेचरचक्र, नाडीचक्र, कालचक्र, फणिचक्र, स्थापचक्र, रत्नचक्र, कोटचक्र, गजचक्र, अश्वचक्र, रथचक्र, यूहचक्र, कुतचक्र, गङ्गचक्र, तुरीचक्र, धनुचक्र, शनिचक्र, सेवाचक्र, नरचक्र, डिम्बचक्र, पद्मिचक्र, वगचक्र, आयचक्र, वृष्टिचक्र, सप्तशलाकाचक्र, पञ्चशलाकाचक्र, श्येनचक्र, तोरणचक्र, अहिवलचक्र, रागलचक्र, वीतीतिचक्र, वृषचक्र, दिनफलचक्र, इन सभी चक्रों को जानते हुये युद्ध को आरम्भ करने से राजा इन्द्र के समान शत्रु राजा को भी जीत सकता है इसमें संदेह नहीं है ॥ २०-३२ ॥

अथ भूवलानि—

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भूवलान्यभिधानतः ।

कविद्वन्द्वे तथा दुर्गे चतुरङ्गे महाहवे ॥ ३३ ॥

स्वरोदयैश्च चक्रैश्च शत्रुर्यत्र समोऽधिकः ।

तत्र युद्धे बल देयं भूवलैर्विजयार्थिनाम् ॥ ३४ ॥

तेषां नामान्यहं वक्ष्ये ख्याता ये ब्रह्मयामले ।

चतुरशीतिसंख्याना यद्दलेन जयी रणे ॥ ३५ ॥

औड्डी जालन्धरी पूर्णा कामा कोलैकवीरिका ।

शिलीन्ध्राश्च महामारी क्षेत्रपाली च वशजा ॥ ३६ ॥

रुद्रकालानली प्रोक्ता कालरेखा निरामया ।

जयलक्ष्मीर्महालक्ष्मीर्जया विजयभैरवी ॥ ३७ ॥

वाला योगेश्वरी चंडी माया भुभुक्कर्त्तरी ।

शार्दूली सिंहिली तन्वी महामाया महेश्वरी ॥ ३८ ॥

देवकोटिः शिवा शक्तिर्धूम्रा माला वराटिका ।

त्रिमुण्डा मत्सरी धर्मा मृत शिष्टा क्षयाक्षया ॥ ३९ ॥

दुर्मती प्रवरा गौरी काली नारहरी बला ।
 ग्वेचरी भूचरी गुह्या द्वादशी वृष्टिकेवला ॥ ४० ॥
 त्रैलोक्यविजया सौरी कराली बडवापरा ।
 रौद्री च शिशुमातङ्गी चाभेद्या दहनी जिता ॥ ४१ ॥
 बहूला वर्गभूमिश्च कपाली चानिलानला ।
 चन्द्रार्कबिम्बभूमिश्च ग्रहराशिविलग्रगा ॥ ४२ ॥
 राहुकालानली भूमिः स्वरभूमिर्द्विधा मता ।
 रुद्रस्त्रिमासिकश्चैव राहुश्चाष्टविधस्तथा ॥ ४३ ॥
 चन्द्रः सदाविधः सूर्यश्चतुर्धा योगिनी त्रिधा ।
 कालचक्रं त्रिभेदं च तिथिनक्षत्रवारजम् ॥ ४४ ॥
 इमानि भूवलान्यत्र ज्ञात्वा यः प्रविशेद्गणे ।
 अरयस्तस्य नश्यन्ति मेघा वातहता यथा ॥ ४५ ॥

भूवलाना प्रशसामाह । स्वरोदयैश्चेति । स्वरैर्वालादिभिः शत्रुर्यदि समस्तु-
 ल्योऽधिको वा भवति तत्र जयाधिना राजा भूवलैर्बलं देयम् । कथमसौ मया
 जेतव्य इति प्रश्ने म्वरतो भूवलानि तस्मै दत्त्वा युद्धाय तं सज्जीकुर्यादिति ।
 भूवलाना नामान्याह—ओङ्गी इत्यादयः स्पष्टार्थाः ॥ ३४-४५ ॥

जाचाय, महासमर के उपयुक्त भूवल की प्रशसाके साथ भूवल की मीमासा
 कर रहा है—यदि युद्ध में शत्रु नाम से उत्पन्न मात्रादि द्वादशादिक काल स्वरो
 के तुल्य वा अधिक बल वाला राजा हो तो विजयेच्छु राजा उसे कैसे जीते । ऐसी
 स्थिति में उस योद्धा को भूवल से बल देना चाहिये । शेष ओङ्गी इत्यादि भूवल
 के नाम हैं ॥ ३४-४५ ॥

अथ यन्त्रमन्त्रोपपत्तयः—

शत्रोः समाधिके नाम्नि स्वरैश्चक्रैश्च भूवलैः ।
 स्थानसैन्याभिके शत्रौ बलविज्ञानसयुते ॥ ४६ ॥
 अभङ्गे चाप्यभेदे च असाध्ये दुर्जघे रिपौ ।
 जयोपायमह बल्ये मन्त्रयन्त्रादिक बलम् ॥ ४७ ॥
 रणाभिषेचन दीक्षां रणार्चा रणरुङ्गणम् ।
 वीरपट्टं रणे पट्टं जयपट्टस्य बंधनम् ॥ ४८ ॥

मेखलाकवचन्यासं मुद्रा रक्षा च कञ्चुकम् ।
 औषधं तिलकं तज्जा घुटिकाश्च कपर्दिका ॥ ४९ ॥
 योगे घटितशस्त्राणि शस्त्ररक्षां च मोटनम् ।
 शस्त्रलेपाश्च विविधा बाणानां पिच्छवन्धनम् ॥ ५० ॥
 त्रासकं काहला ढक्का मुरज भस्मसाधनम् ।
 मारणं मोहनं स्तम्भ विद्वेषोच्चाटन वशम् ॥ ५१ ॥
 पताका पिच्छकं यन्त्र परविद्याविनाशनम् ।
 शान्तिकं निजसैन्यस्य कर्तव्यं जयकाक्षिभिः ॥ ५२ ॥
 बलान्येतानि यो ज्ञात्वा सङ्ग्रामं कुरुते नरः ।

असाध्यस्तस्य नैवास्ति शक्रतुल्योऽपि भूपतिः ॥ ५३ ॥

शत्रो समाधिके इति । सुस्पष्टम् । अभङ्गे इति । यथा शत्रो मुक्तेण जयो भवति तथा मन्त्रयन्त्रौषधिवलानि उच्ये । अन्यत्सुगमम् ॥ ४९-५३ ॥

आचार्य यहाँ मात्र यन्त्र, तन्त्र आदि की उपायता का भी संकेत कर रहा है—
 यदि शत्रु के नाम स्वर भूतलचक्र स्थान सन्य से अपनी समता हो अथवा शत्रु
 अधिक बलशाली हो अथवा दुजय हो अथवा दुःसाध्य हो तो मन्त्र, यन्त्रादि के द्वारा
 बल प्राप्त करना चाहिये । उम मन्त्र, तन्त्र आदि की विधि कहता हूँ । रणाभियेचन,
 दीक्षा, रणार्चा, रणकवच, वीरपट्ट, रणपट्ट, जयपट्ट, मेखला, कवच का न्यास, मुद्रा
 रक्षा, कञ्चुकी, औषधि, तिलक, घुटिका कपर्दिका, योगों में गढ़े हुये शस्त्र रक्षा, मोटन
 अनेक प्रकार के शस्त्रों के लेंप, बाणों के बधन, त्रास त्रेन वाला काहला, ढक्का, मुरज,
 भस्म साधन, मारण मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण उच्चाटन, वशीकरण, पताका, पिच्छक,
 परदृष्ट्या को नाश करने वाले यन्त्र, अपनी सेना के सभी उपद्रवों के नाश करने
 वाले शान्ति के उपाय आदि इन बलों को जानकर जो फोड़ मनुष्य युद्ध करना है
 वह इन्द्रतुल्य पराक्रमी राजा को भी परास्त कर सकता है । उसके लिये यह कार्य
 असाध्य नहीं है ॥ ४९-५३ ॥

अथ ज्योतिषाङ्गम्—

गणितं व्यवहार च होराज्ञान परिस्फुटम् ।
 त्रिस्फुटं ज्योतिषं बन्धे जयचर्यास्वरोदये ॥ ५४ ॥
 ग्रहतिथ्याद्यानयनमुदयास्तौ च शोघ्नौ ।
 शशुमित्रसमा खेटा राडयधीश बलाबलम् ॥ ५५ ॥
 उच्चनोचाञ्च मध्यम्या हृष्टिस्थानानि यान्यपि ।

गोचरं च तथा वेधं दशास्वन्तर्दशा पुनः ॥ ५६ ॥
 वारफलं तथा सन्धिर्लत्तावेधमुपग्रहम् ।
 शुभाशुभफलं वक्ष्ये तिथिधिष्ण्यगुणागुणम् ॥ ५७ ॥
 चन्द्रताराबलं ज्ञेयं भद्रा चैव त्रिपुष्करम् ।
 यमघण्ट यमदंष्ट्रं चक्र चैवार्गलं तथा ॥ ५८ ॥
 देवरक्षोन्तृणां भानि पार्श्वोर्ध्वाधोमुग्वानि च ।
 बालं कुमारं तरुणं वृद्धमृत्युस्वरास्तथा ॥ ५९ ॥
 कालवेलां तथा होरां यामार्धं कुलिकं तथा ।
 वक्ष्ये वेधं च सिद्धं च शीघ्रं प्राणापहारिणीम् ॥ ६० ॥
 परिधं शूलधिष्ण्यं च वारयोगं च योगिनीम् ।
 दिग्भद्रा कालपाश च राहोरस्तं च भार्गवम् ॥ ६१ ॥
 छायोत्पत्ति त्रिधा वक्ष्ये त्रिपु मध्ये दिनाष्टगाम् ।
 दिनमानं दिने भुक्ति छायोदयप्रमाणकम् ॥ ६२ ॥
 सिद्धच्छायात्रिपष्टि च दुष्टभा सप्तविंशतिम् ।
 लग्नोदयं स्वदेशीयं यंत्रतो लग्नसाधनम् ॥ ६३ ॥
 लग्नमानं तथा होरा राशिद्वन्द्वनवांशकम् ।
 द्वादशांशं च त्रिशाशमुदयास्तांशसाधनम् ॥ ६४ ॥
 लग्नाच्छुभाशुभं वक्ष्ये यात्रोद्वाहादिनिर्णयम् ।
 देवतानां प्रतिष्ठां च दीक्षा यात्राप्रवेशनम् ॥ ६५ ॥
 वास्तुदीपार्धविन्यासो कालविशोपकस्तथा ।
 जलयोगोऽर्धकांडश्च वर्षमासाहनिर्णयः ॥ ६६ ॥
 तिथ्यादिः खेचराश्चन्द्रस्तत्कालोदयजः स्फुटम् ।
 अवस्थानेष्टमुष्टि च लूकभेदं वदाम्यहम् ॥ ६७ ॥
 अङ्गम्पन्दानि सर्वाणि कालचिह्नानि यानि च ।
 दुष्टारिष्टान्यहं वक्ष्ये तथा तेषां च शान्तिकम् ॥ ६८ ॥
 ज्यौतिषाङ्गमिदं सर्वं ये जानन्ति मनीषिणः ।
 दीपवत्तं विजानीयान्मोहान्धकारनाशनम् ॥ ६९ ॥

पोतकी पिङ्गला कासो यक्ष' शिवा क्रमेण च ।

पञ्चरत्नमिद वदये पष्ठाङ्गे शाकुने मते ॥ ७० ॥

गणितमिति । गणितमित्यारभ्य पञ्चरत्नमिदमित्येतावत्पर्यन्त स्पष्टार्था ॥

अनेक भेद युक्त ज्योतिषशास्त्र के वर्णन समग्रन्थ के ५४ से ७० पर्यन्त श्लोकों के अर्थ स्पष्ट ही हैं ॥ ५४-७० ॥

इति नरपतिजयचर्याया प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥



अथ मात्रास्वराऽध्यायः

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ख्याता ये ब्रह्मयामले ।

मात्रादिभेदभिन्नानां स्वराणां षोडशोदयान् ॥ १ ॥

मातृकायां पुरा प्रोक्ताः स्वराः षोडशसख्यया ।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः ।

तेषां द्वावन्तिमौ (अं अः) त्याज्यौ-

-चत्वारश्च (ऋ ॠ ऌ ॡ) नपुंसकौ ॥ २ ॥

शेषा दश स्वरास्तेषु स्यादेकैको द्विके द्विके ।

ज्ञेयास्तत्र स्वरा आद्या-

-ह्रस्वाः (अ इ उ ए ओ) पञ्च स्वरोदये ॥ ३ ॥

लाभालाभं सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ।

जयः पराजयश्चेति सर्वं ज्ञेयं स्वरोदये ॥ ४ ॥

स्वरादिमात्रिकोच्चारो मातृव्याप्तं जगत्त्रयम् ।

तस्मात्स्वरोद्भवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ५ ॥

अकाराद्या स्वराः पञ्च ब्रह्माद्या पञ्चदेवताः ।

निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च इच्छाद्याः शक्तिपञ्चकम् ॥ ६ ॥

अथात इति । न्यष्टार्थ । मातृकायामिति । पुरा मन्त्रे अकारादयः षोडश-
स्वरा प्रोक्ता । तेषां मध्ये द्वावन्तिमौ अ अं त्याज्या । चत्वारो ऋ ॠ ऌ ॡ
नपुंसकान्त्याज्या । शेषेति । शेषादशस्वरा अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ
ह्रस्वस्वरास्तेषु द्विद्विकेषु एकैकमेव गृहीयात् । तथा अ इ उ ए ओ एतन्व्यरूपा ।
अतोदमप्रार्थयम् । अकारेण यत्फलं शुभाशुभं तेष्वकारेणापि बोध्यम् । अन्तर्-
पाञ्चदेवकार पीठितमन्त्राऽऽकारोऽपि पीठित । एतन्मन्त्रानामपि बोध्यम् । लाभ-

लाभमिति । एषा स्वराणामुदये लाभालाभप्रश्नेलाभ अलाभञ्च घत्तव्यौ ।
 सुखप्रश्ने सुखदु ख च, रोगादिना जीवितमरणप्रश्ने जीवित मरण च विद्यात् ॥
 मन्त्रेषा प्राणिना नामग्रहणे वर्णा अकारादिमातृकाभिः विना उच्चारयितु न
 शक्या अतएव प्रश्ने स्वरा फलप्रकाशका भवन्ति । अकाराद्या इति । अका
 राद्या पञ्चस्वरा ब्रह्मादयः पञ्च देवता ज्ञेया । ब्रह्मविष्णुऋद्रचन्द्रसूर्यात्मका
 क्रमेण ज्ञेया । प्रश्नकर्तु य स्वरोदयस्त दैवत ध्यायेदित्यर्थ । तत एव निवृ
 त्त्याद्या पञ्चकला निवृत्तिप्रतिष्ठाविद्याशान्त्यतिशान्त्यय । अर्थान् यात्राप्रश्ने
 चेदकारोदयमन्दा निवृत्ति निरर्त्तन स्यात् । इकारोदये प्रतिष्ठाप्रश्ने प्रतिष्ठा
 प्राच्या । उकारोदये विद्याप्राप्ति । एकारोदये शान्तिप्रश्ने शुभ मन्त्र ओंका
 रोदये अतिशान्तिर्वाच्या । अतिशान्तिर्मुक्ति । एव तत्तदुन्ध्ये ब्रह्माणि ध्यात्वा
 तत्तत्कार्यं विधेयम् । तत एव इच्छान्त्य शक्तिपञ्चकम् । इच्छा, ज्ञाना, प्रभा,
 श्रद्धा, मेधा इव शक्तिपञ्चकम् ॥ १-६ ॥

अत्र मैं ब्रह्मयामल म कहे हुये मात्राभेद मे भिन्न मातृकाचक्र मैं कहे हुये मालह
 स्वरों को कह रहा हूँ । अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अ अ ये मोलह स्वर
 हैं, इम से दो अन्त क अ अ ध्याग देना चाहिए । और चार ऋ ऋ लृ लृ ये नपुमक
 स्वर हैं । शेष दशस्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ) हैं इनमदो दा स्वरों का
 एक ही स्वर मानना चाहिए जैसे अ आ को केवल अ मानना चाहिये । इस प्रकार
 पाच ही अ, इ, उ, ए ओ स्वर मुख्य हैं । सभी चराचर पदार्थों के नामोच्चारण करने
 में अकारादि मातृका के बिना वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है इसलिये मातृका
 से तीनों जगत् व्याप्त है अतः शुभाशुभ फल के कहने के लिये स्वरों की ही प्रधानता
 है । अकारादि अ, इ, उ, ए, ओ स्वरों के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु, ऋद्र, सूर्य और चन्द्रमा
 ये स्वामी हैं । अर्थात् अकारादि स्वरों के उदयकाल में प्रशक्तता इन्हीं देवताओं का
 स्मरण कर कार्य को करे, एव इन्हीं स्वरों के उदयकाल में निवृत्ति आदि क्रम में पाच
 कलायें होती हैं (निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और अतिशान्ति) ये पांच कलाओं
 के नाम हैं । और इन्हीं स्वरों के उदयकाल में इच्छादि पाच शक्तियाँ होती हैं ।
 उनके नाम इच्छा, ज्ञाना, प्रभा, श्रद्धा और मेधा हैं ॥ १-६ ॥

मायाद्याश्चक्रभेदाश्च धराद्यं भूतपञ्चकम् ।

शब्दादिविषयास्ते च कामवाणा इतीरिताः ॥ ७ ॥

पिष्ट पद तथा रूप रूपातीत निरंजनम् ।

स्वरभेदस्थित ज्ञानं जायते गुरुतः सदा ॥ ८ ॥

अकाराद्याः स्वराः पञ्च तेषामष्टविधास्त्वमो ।

मात्रा वर्णो ग्रहो जीवो राशिर्भू पितृयोगकौ ॥ ९ ॥

प्रसुप्तो बुध्यते येन येनागच्छति शब्दितः ।

तत्र नामाद्यवर्णे या मात्रा मात्रास्वरः स हि ॥ १० ॥

मायाद्या इति—तत एव मायादिश्चक्रभेदा । चतुरस्र, अर्धचन्द्र त्रिकोण, द्वित्रिकोणम् वर्तुलम् । तत एव शब्दाद्या पञ्चत्रिपया । गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द । तत एव धराद्य भूतपञ्चकम् । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश । तत एव पञ्च कामवाणा । शोषण-मोहन-दीपन-सतापन-प्रमथनरूपा । पिण्डेति । पिंडसज्ञा बालस्य । पदसज्ञा कुमारस्य । रूपसज्ञा यून । रूपातीतमज्ञा वृद्धस्य । निरजनसज्ञा मृतरय । इमा स्वरभेदमज्ञा गुरुतो गुरु-मुखात्पेक्षापेक्षितम् । यथा सदानन्दरय नाम्नि अकारो वर्तते अत सदानन्दस्य मात्रास्वरोऽकार एव सर्वेषा नाम्नि स्वरा ज्ञेया ॥ ७-१० ॥

अ, इ, उ, ए, ओ, ये प्रसिद्ध पाच स्वर (ज्यौतिषशास्त्र के स्वर भाग में) हैं । इन्हीं पाँच स्वरों के मायादि पाँच (चतुरस्र, अर्धचन्द्र, त्रिकोण, पट्कोण, वर्तुल) चक्रभेद हैं । अर्थात् इन स्वरों के उदयवाले अपने अपने चक्रों का पूजन करें वा ग्रहण करें । ये ही स्वर गधादि पाँच त्रिपयवाले हैं । अर्थात् अकार के उदय में गन्ध त्रिपयक, इकारोदय में रसत्रिपय, उकार में रूपत्रिपय, एकारोदय में स्पर्शत्रिपय और ओकार में शब्दत्रिपय है । इन्हीं पाँच स्वरों के धरा आदि (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) पाँच तत्त्व हैं । अर्थात् अकार स्वर के उदय में पृथ्वीगत प्रश्न, इकार के उदय में जलगत, उकार में अग्निगत, एकार में वायुगत और ओकार के उदय में आकाशगत अर्थात् ऊर्ध्वगत प्रश्न है । इन्हीं पाँच स्वरों के पाँच कामवाण (शोषण, मोहन, दीपन, सतापन, प्रमथन) हैं । पिंड अर्थात् शरीर का जो तत्त्व उमका जो स्वरूप उसके ज्ञान को रूपातीत कहते हैं उमको भी अतिग्रमण करने को निरजन अर्थात् शून्य कहते हैं । अथवा इन पाँच स्वरों की जो पाँच (चाल-कुमार-वायु, वृद्ध मृत्यु या शून्य) अवस्थायें हैं उन्हीं को क्रम से पिंड, पद, रूप, रूपातीत और निरजन कहते हैं । यही पाँच अवस्थायें जीवधारियों की भी होती हैं । यदान्त-शास्त्र के पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश इन पञ्चतत्त्वों के पञ्चीकरण से जैसे ब्रह्मप्राप्ति होती है वैसे ही यहाँ भी योगाभ्यास और गुरुमुखा से अध्ययन द्वारा रहस्यमय उक्त ज्यौतिषशास्त्र का रहस्यमय स्वरशास्त्र का ज्ञान भी परमार्थप्राप्ति का परम साधन यथाया गया है । किन्तु इन पाँच स्वरों का भेद स्वरों में ही स्थित है जो कि गुरुमुखा से ही जाना जा सकता है । जैसे सदानन्द के नाम में अकार है अत सदानन्द का अकार मात्रास्वर हुआ । शोष चक्र में स्पष्ट है ॥ ७-१० ॥

१ मायाद्याश्चक्रभेदाद्य धराद्य भूतपञ्चकम् ।

गन्धादिविपयास्ते च कामवाणा इतीरिता ॥ (इत्यपि पाठ)

वर्णस्वरचक्रम् ।

कादिहान्तं लिखेद्वर्णान् स्वराधो ङजणोज्झितान् ।

(ककारादिहकारान्तांलिखेद्वर्णान्स्वराधो ङजणोज्झितान्)

तिर्यक्पंक्तिक्रमेणैव पञ्चत्रिंशत्प्रकोष्ठके ॥ ११ ॥

नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादधः स्थितः ।

स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥ १२ ॥

न प्रोक्ता ङजणा वर्णा नामादौ सन्ति ते नहि ।

चेद्भवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम् ॥ १३ ॥

यदि नाम्नि भवेद्वर्णः संयुक्ताक्षरलक्षणः ।

ग्राह्यस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ १४ ॥

वादीति—अकारादि अ इ उ ए ओ म्पराणामध ककारादारभ्य हकारान्तान् वर्णान् ङ व ण वर्णान् उञ्जितान् त्यक्त्या तिर्यक् पंक्तिक्रमेण पञ्चत्रिंशत्प्रकोष्ठके लिखेत् । नरनामादिरिति । नरनाम्नि य आदिमो वर्ण स यत्स्वरादध स्थित स स्वर तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इत्युच्यते । यथा देवदत्तस्य नाम्नि प्रथमवर्णो दकार स चक्रे ओकारस्वराध स्थितोऽस्ति अतो देवदत्तस्य ओकारो वर्णस्वर इति । एष सदानन्तस्य वर्णस्वर एकार एव । एष सर्वत्र निवार कर्तव्य । न प्रोक्ता इति । यदि कश्चित् नामादौ ङ व णा वर्णास्तदा तत्र यथाक्रमेण गजडा वर्णा ग्राह्या । तत्र गजडाना यो वर्णस्वर सोऽनुक्रमेण इवणाना बोध्या इति । यदि नाम्नीति । यदि कस्यचिन्नरस्य णेगम्य वा नामादिमो वर्ण संयुक्ताक्षरो भवति । तदा तत्र वर्णस्वर क ग्राह्य इति जिज्ञासायामाह—ग्राह्यस्तदादिमो वर्ण । यथा कस्यचिन्नाम श्रीपतिरिति तत्रादिमो वर्ण शकारस्तस्योपरितनो वर्ण इकार । अत श्रीपतेर्वर्णस्वर इकार एव । अथ यस्य बहूनि नामानि तत्राह कन्याणवर्मा । बहूनि यस्य नामानि नरस्य स्यु कश्चन तत पश्चाद्भव नाम ग्राह्य स्वरविशारदै । तथा च लम्पटाचार्य—यत्प म्परादिक नाम तदा ग्राह्य पुरोऽम्बरम् । णेगे ग्रामे पुरे हस्ये नरे नामादिवर्णत ॥ वर्णस्वरोद्भव तेषा फल सम्यक् प्रतिष्ठितम् । स्वरस्य मात्रा सञ्ज्ञोक्ता न वर्णत्व तु यामते ॥ मुकुन्त्रिनयेऽपि—आद्यो युक्ताक्षरे नामि पुरोवर्ण म्परादिक इति । तथा च वरी गर्मा पर्या कर्मा ज्ञेयायिति परस्परम् । उभौ तुन्यफली भिन्नन्वरन्याध स्थितापि । इति वर्णस्वर ॥ ११-१४ ॥

श्लोक ११-१४ को समझने के लिये आचार्य ने चक्र बनाने का सकेत दिया है, उसे देखकर विषय अतिस्पष्ट हो जाता है। अकारादि पाँचों स्वरों के नीचे क्रम म आरम्भकर ह पर्यन्त वर्णों को तिर्यक् क्रम से ३५ कोष्ठों में लिखे किन्तु ङ ज ण वर्णों को न लिखे। मनुष्य के नाम का प्रथम वर्ण जिस स्वर के नीचे हो वही उसका वर्णस्वर होता है। ङ ञ ण वर्णों को नहीं कहा गया है क्योंकि प्रायः मनुष्य के नाम के आदि में ये वर्ण नहीं पाये जाते हैं यदि कहीं किसी के नाम के आदि म हों तो इनके स्थान में क्रम से ग ज ट वर्णों को समझना चाहिये अर्थात् ग ज ट वर्णों के जो वर्णस्वर हों वही उन वर्णों के होंगे। यदि नाम के आदि में सयुक्ताक्षर हो तो वहाँ सयुक्ताक्षर म पहला वर्ण लेना चाहिये ऐसा ब्रह्मयामल में कहा है। जैसे सदानन्द के नाम में आदि वर्ण स है वह चक्र में ए स्वर के नीचे है अतः सदानन्द का प्रकार वर्णस्वर है। इसी प्रकार श्रीपति के नाम में सयुक्ताक्षर का प्रथम वर्ण श है और वह इकार के नीचे है इसलिए श्रीपति का इकार वर्णस्वर है। वर्णों में विशेष—स्वरशास्त्र म च च, श स, प र, ङ ज, ये सजातीय माने जाते हैं। इतिवर्णस्वर ॥ ११-१४ ॥

यदि एक व्यक्ति के दो तीन नामोपनाम हों तो कौन नाम से स्वर विचारा जाय? इसका यही समाधान शास्त्र में है प्रसुप्तो भासते येन येनागच्छति शब्दित । अर्थात् सोया हुआ पुरुष जिम नाम के उच्चारण में जागृत हो उसके उमी नाम से स्वर विचारना चाहिए।

वर्णस्वरचक्रम्

बाल	कुमार	युवा	पृथ्वी	मृत
अ	इ	उ	ए	ओ
क	ख	ग	घ	च
ङ	ज	झ	ट	ठ
ड	ढ	त	थ	द
ध	न	प	फ	ब
भ	म	य	र	ल
ष	श	ष	म	ह

मृतम्रगद्वली बालो बालाद् वृद्धम्वरो बली ।
 वृद्धान् कुमारो बलवान् कुमारात्तरुणो बली ॥ १ ॥
 शाक्रपुत्रे तथा हस्तश्चित्रे द्वान्शाङ्गिकम् ।
 इन्द्रभ च गजा मप्र म्ना वर्षे च मानकम् ॥ २ ॥
 मार्पपूर्णं तथाऽऽश्लेषा गजत्राणा अयने पला ।
 यद्विपट्प्राणयद्विध्व नेत्रे ऋतुपलानि च ॥ ३ ॥
 रात्रा न्यप गत्रा धर्मा मामे मान प्रकीर्त्तितम् ।
 नत्रपूर्णनत्रवेदा पथभागप्रमाणकम् ॥ ४ ॥
 ऋत्रयहि भवेन्मान दिनमान क्रमेण च ।
 रयद्वी घटिका माने त्रन्तरोद्वगे स्वरे ॥ ५ ॥

द्वादशत्रापिमान्तरोद्वयपलानि इन्द्रभमित्यादि १४१३=१८ । त्रापिमान्त-
 रोद्वये ११७=८ । अयनान्तरोद्वये ५=६०६ । ऋत्रतरोद्वये १३५६३ । मामान्त-
 रोद्वये ६=१८ । पथान्तरोद्वये ५६०८ । त्रिान्तरोद्वये ३=७ । घटयत्रोद्वये ३०
 पलानि इति । इत्यधिक पाठ ।

अथ ग्रहम्वरा ।

अस्वरो मेपसिहालि इः कन्त्रायुग्मकर्कटाः ।
 उकारस्य धनुर्मीनावेस्वरस्य तुलावृषौ ॥ १५ ॥
 ओकारे मृगकुम्भौ च रात्रीशाश्च ग्रहस्वराः ।
 स्वराधःस्थापयेत्वेटान् राशेर्यो यस्य नायकः ॥ १६ ॥
 भौमशुक्रजचन्द्रार्कबुधशुक्राग्मत्रिणः ।
 मौरिसौरी तथा जीवो मेपादीनामधीश्वराः ॥ १७ ॥

अम्वरो इति । अस्वरस्याध मेपसिहालि मेपसिहात्रिणा लेखनीया ।
 इन्द्रस्याध स्त्रीयुग्मकर्कटा । उस्वरस्याध — धनुर्मीनी । एम्वरस्याध तुला-
 वृषा । ओस्वरस्याध मृगकुम्भौ । एत्र चक्रे आलिंग्य यम्य रागेर्योऽधिपस्त
 तद्व्यस्ताल्लिखेत् । एत्र यस्य म्वरस्याधो योऽग्रस्तम्यम स्वरो ज्ञेय इत्यर्थ ॥१५॥
 ॥१६॥ भौमेति । स्पष्टम् । अथ ग्रहस्वरोदाहरणम् । त्रयदत्तम्य नाम्नि त्रैकारणं स च
 दे० नो० च० ची० रेवती नभ्रम्य चतुश्चरणाना मध्ये प्रथमश्चरण । रेवती-
 नभ्रत्रेण मीनगशि स च उकारस्वरस्याध । मीनरागेरपिप गुम् गुम्दकार-
 स्वामी अतो देवत्तम्य ग्रहस्वर उकार । एत्र मदानन्दम्य नाम्नि सकारणं
 स च गोमामीश्वतभिपनभ्रम्य चतुर्णा चरणाना मध्ये द्वितीयश्चरण
 बुम्भरायात्ममन्तम्य स्वामी शनि ओकारम्वरादधम्यम्वरेण मदानन्दस्य
 अं कार म्वर एत्र ग्रहम्वर इति एत्र सर्वं बोध्यम् । इति ग्रहम्वरा ।

किस स्वर के नीचे कौन सी मेपादि राशि है—इसका स्पष्टीकरण निम्न भौति है—अकारस्वर के नीचे मेप, पृथिक राशि, इस्वर के नीचे मिधुन और कर्क, उकार के नीचे धन, मीन, एकार के नीचे तुला, घष और ओकार के नीचे मकर, कुम्भ राशि को लिखना चाहिये । १५।१६ । मेपादि राशियों क क्रम मे भोम, शुभ, पुष, चन्द्रमा, सूर्य, पुष, शुभ, भीम, गुरु, शनि, शनि आर गुरु स्वामी है । इहाँ म्वरों क नीचे स्थापित की हुइ राशियों क स्वामियां को जो जिम राशि का स्वामी हो उसे रचना चाहिये । ऐसा न्यास करने मे जो ग्रह जिम म्वर के नीचे हो वही उसका स्वर होता है ॥१७॥ जैसे देवदत्त के नाम का प्रथम वर्ण द है और वह रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण म है । रेवती नक्षत्र की मीन राशि है, मान राशि उकार स्वर के नीचे है और मीन का स्वामी गुरु है अत देवदत्त का उकार ग्रह म्वर जिसका स्वामी गुरु हुवा । इसी प्रकार अन्यत्र भी समस्तना शेष चक्र में स्पष्ट है ॥ १७ ॥

ग्रहस्वरचक्रम

अ	इ	उ	ए,	ओ	स्वरा
१	३	९	२	१०	राशय
५	४	१२	७	११	
८	६				
सू म०	च उ	वृ	शु	श	स्वामिन
वाल	हुमार	युवा	वृद्ध	मृत	अवस्था

अथ जीवस्वरम्—

पोडशाक्षरोऽवर्गः स्यात्कादिवर्णास्तु पञ्चरुम् ।
 चतुर्वर्गो यशौ वर्गो सग्या चर्षेपु कीर्त्तिता ॥ १८ ॥
 नाग्निवर्णस्वरा ग्राह्या वर्गाणा वर्णमत्प्रया ।
 पिण्डिताः पञ्चभिर्भक्ताः श्रेय जीवस्वर विदुः ॥ १९ ॥

१ पोडशाक्षरवर्गं स्याद्विषयि पाठ ।

अवगाद्यष्टवर्गाणां वर्णमत्प्रयास्तु नागत इत्यधिक पाठ ।

पोडशाक्षरोऽवर्गं स्यादिति । अवर्गो अकारादारभ्य अ पर्यन्त पोडशाक्षर पोडशाक्षरयाका । कादिवर्गा कवर्गादारभ्य पञ्चमपर्यन्त प्रत्येक पञ्चसरयाका । यशो यवर्गशतर्गो प्रत्येक चतुरक्षरो वर्गोऽप्यस्य सरया प्रकीर्त्तिता ॥१२॥ नास्तीति । नास्ति वर्णस्वरा कवर्गादिष्वेव स्वरा अकारादारभ्य अ पर्यन्ता वर्गाणा वर्णसरयाया ग्राह्या । एत सरया पिण्डिता एकीकृत्य पञ्चभिर्भक्ता शेष तस्य जीवस्वर त्रिदु ॥ १६ ॥ यथोदाहरणम् । देवदत्तस्य नास्ति दकारस्य त्रि सरया ३, दकारोपरि एकारस्य एकादश सरया ११, वकारस्य चतु सरया ४, वकारान्तभूताऽकारस्यैकसरया १, द्वितीयदकारस्य त्रिसरया ३, तदन्तर्गताऽकारस्यैकसख्या १, प्रथमतकारस्यैकसख्या १, द्वितीयतकारस्यैक सख्या १, द्वितीयतकारान्तर्गताऽकारस्यैकसख्या १, एषा योग पड्विंशति २६, स्वरमात्रासङ्गोक्ता पञ्चभक्ते शेषमेकाद्द्व तेन देवदत्तस्य जीवस्वरोऽकार । एव सदानन्दस्य योगसरया २४ पञ्चभक्ते शेषम् ४ तेन सदानन्दस्य जीवस्वर ॥१६॥

आचार्य किसी भी नाम के पुरुष का जीव स्वर कैसे जाना जाता है इसका स्पष्टीकरण उदाहरण से कर रहा है । अवर्ग अर्थात् अ से आरम्भकर अ पर्यन्त १६

जीवस्वरचक्रम्

अ १	आ २	इ ३	ई ४	उ ५	ऊ ६	ऋ ७	ॠ ८	ऌ ९	ॡ १०	ए ११
ऐ १२	ओ १३	औ १४	अ १५	अ १६	ब १	ब २	ग ३	घ ४	ङ ५	च ६
छ ७	ज ८	झ ९	ञ १०	ट ११	ठ १२	ड १३	ढ १४	ण १५	त १६	थ १७
द १८	ध १९	न २०	प २१	प २२	य २३	र २४	स २५	श २६	स २७	ह २८
व २९	दा ३०	दा ३१	दा ३२	दा ३३	दा ३४	दा ३५	दा ३६	दा ३७	दा ३८	दा ३९

अक्षर होते हैं । तथा पञ्चम आदि चवर्ग पर्यन्त प्रत्येक ५ अक्षरों के होते हैं, ण्य चवर्ग और दशम प्रत्येक ४ अक्षरों के होते हैं ॥ १८ ॥ नाम म नितने वर्ण और स्वर हों उनके अंकों को एकत्र कर अर्थात् योगकर योग में पाँच ५ से भाग देने से जो शेष बचे उसके तुल्य स्वर उस पुरुष का जीवस्वर होता है ॥१९॥ जन्म—देवदत्त के नाम में द, ण, घ, दा, द, ष, न, त, भ, इतने वर्ण और स्वर हैं इनकी मत्तया प्रथम से

३ + १, १ + ४ + १ + ३ + १ + १, + १ यह हुड्ड हाका योग २६ हुआ पौच से भाग देने से शेष १ बचा इसलिये देवदत्त का प्रथम स्वर अकार जीतस्वर हुआ। यहाँ वर्णों की सग्या वर्ण की सग्या से ही लेनी चाहिये। इसी प्रकार मदानन्द क नाम की सग्या २४ हुई इसमें पौच से भाग देने से शेष ४ बचा इसलिये मदानन्द का जीत स्वर ए हुआ इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए ॥ १८-१९ ॥

अथ राशिस्वरम्—

मेपवृषावकारे च मिथुनाद्याः पडंगकाः ।

मिथुनाशत्रय चैवमिकारे सिंहकर्कटौ ॥ २० ॥

कन्या तुला उकारे च वृश्चिकान्त्रयोऽङ्गकाः ।

एकारे वृश्चिकान्त्याशाश्चापः पट् च मृगादिमाः ॥ २१ ॥

अंशास्त्रयो मृगस्यान्त्याः कुम्भमीनौ तथैस्वरौ ।

एवं राशिस्वराः प्रोक्ता नवाशौकक्रमोदयाः ॥ २२ ॥

मेपवृषौ इति । एकस्मिन् राशौ नर नरमाशा इति तु प्रसिद्धमेव । तथा मेपरय नव वृषम्य नर मिथुनस्य पट् एव चतुर्विंशतिमग्याकनशाशानाम् तथा नक्षत्रगणनया अश्विनीत आर्द्रान्त यावत् ज्येष्ठाणा स्वामी अकार । तथा मिथुनस्य शेष त्रिनवाशाशात् सिंहस्य नर कर्कस्य नर एवमेकविंशतिमग्याकनशाशानाम् तथा पुनर्यसुत आरभ्योत्तराफा गुन्येकनरणपर्यन्ताना नक्षत्राणा च स्वामी इकार । एव कन्याया नव तुलाया नर तथा च वृश्चिकाराशेराशम शकन्यात्रयोऽशास्तेषा तथोत्तरफाल्गुन्यो द्वितीयचरणादारभ्यानुराधात्रास्य चरणद्वयपर्यन्तानामीग उकार । एव वृश्चिकारागे शेषपटशस्य धनरागेस्तथा मकरात् पडशाना तथाऽनुराधानश्रमस्य तृतीयचरणात्परम्य श्रवणतृतीय चरणपर्यन्तानामशानामधिष एकार । एव मकररागे शेषत्रयशाना कुम्भमीन राश्यत यावत्तथा श्रवणनक्षत्रचतुर्थचरणादारभ्य रेवत्यन्तानामशाना स्वामी ओकार एव नशाशक्रमेण राशिस्वरा प्रोक्ता इति राशिस्वरा ॥ २०-२२ ॥

१२ राशिया क १२ × ९ = १०८ नवमाश हाते है, किम् नवमाश म कौन स्वर होता है सोनाहरण हमका स्पष्टीकरण किया जाना है—प्रत्येक राशियों म ९ नवमाश होते है । हमके अनुसार मेप वृष और मिथुन राशि क भाद्रि मे ६ नवमाश अर्थात् २४ नवमाशों का स्वामी अकार है, मिथुन राशि का शेष ३ नवमाश और कर्क, सिंह राशि का स्वामी इकार, कन्या तुला के शेष नवमाशों और वृश्चिक राशि क भाद्रि क ३ नवमाशों का स्वामी उकार, वृश्चिक राशि के शेष ६ नवमाशों तथा धन और मकर के भाद्रि मे ६ नवमाशों का स्वामी एकार तथा मकर क शेष ३ नवमाशों

तथा कुम्भ और मीन के सम्पूर्ण नवमाशों का स्वामी भोकार है। इस प्रकार नवाश के क्रम से राशि स्वरों को कहा है ॥ २०-२१ ॥

उदाहरण—जैसे देवदत्त के नाम का यदि अक्षर दे रेवतीनक्षत्र के प्रथम चरण का है तबसे मीन राशि होती है, मीन का म्यामो जोकार है अतः देवदत्त का राशि स्वर जोकार है। एवं सदानन्द की कुम्भ राशि है इसलिये सदानन्द का भी भोकार राशिस्वर हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।

राशिस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	ओ
मे ९	मि ३	क ९	वृ ६	म ३
वृ ९	क ९	तु ९	ध ९	कु ९
मि ६	सि ९	वृ ३	म ६	मी ९

अथ नक्षत्रस्वर —

अकारे सप्त ऋक्षाणि रेवत्यादिक्रमेण च ।

पञ्च पञ्च इकारादावेवमृक्षस्वरोदयः ॥ २३ ॥

अकारे इति। अकारे अकारस्वराद्य रेवत्यादि आर्द्रान्त सप्तऋक्षाणि लेखनीयानि। एत इकाराद्य पञ्चपुनर्वसुत पूर्वाफाल्गुनीपर्यन्तम्, उकाराद्य

नक्षत्रस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	ओ
रे अ	पुन पु	उ इ	अनु	ध्र
म वृ	रथे म	चि रवा	जे मू	ध ७
रो मृ	पू	वि	पृषा	पृना
आ			उषा	उना

उत्तराफाल्गुनीत दिशाग्यापर्यन्त इकाराद्य अनुराधात उत्तगयादान्त

यावत् ओकाराद्यश्चरणनक्षत्रमारभ्योत्तराभाद्रपद यावत्पञ्च ऋग्भाणि लेख्यानि । एव कृते पुरुषस्य नाम वा जन्मनक्षत्र यत्स्वरायोऽप्रतिष्ठने सस्वर स्तस्य नक्षत्रस्वर इति । यथा देवदत्तस्य रेवती नक्षत्र तेन देवदत्तस्य नक्षत्र स्वरोऽकार । एव सदानन्दस्य ओकारो नक्षत्रस्वर ॥ २३ ॥

मापार्यं चक्र से स्पष्ट है ।

अथ पिण्डस्वरम्—

नाम्नि वर्णस्वरात्संख्या संख्या मात्रास्वरात्तथा ।

पिण्डे शरहते शेषे पिण्डस्वर इहोच्यते ॥ २४ ॥

नाम्नि वर्णस्वरान्मात्रास्वराच्च या संख्या तथा नामपर्णाद् जीवस्वरवशात् या संख्या सा पृथक् पृथक् धर्तव्या । सरयात्रयमेकीकृत्य पञ्चभिर्हिते शेष पिण्डम्वरो भवति । २४ । यथा देवदत्तस्य वर्णस्वरचक्रे द ५, ए ४, व १, अ १, द ५ अ १ त ३ त ३ अ १ एतेषामैक्यम् २४ शरहते शेष ४ तेन देवदत्तस्य पिण्डस्वर एकार । ॥ २४ ॥

पिण्डस्वर जानने की विधि का स्पष्टीकरण किया जा रहा है । पुन्य जादि के नाम के वर्ण स्वर मात्रा आदि से उनके चक्रों से उनकी सम्पत्तियों को एकत्र कर ५ का भाग देने से जो शेष बचे वही पिण्डस्वर होता है । जैसे देवदत्त के नाम में द ५, ए = ४ व = १, अ = १, द = ५, अ = १, त = ३, त = ३, अ = १ इन सभी का योग २४ हुआ इसमें ५ से भाग देने पर ४ शेष पया इसलिए देवदत्त का पिण्डस्वर हुआ ॥ २४ ॥

अथ योगम्वर—

मात्रादिस्वरभेदेन स्वरानुत्पाद्य नामन ।

योगे शरहते शेषे योगस्वर इहोच्यते ॥ २५ ॥

मात्रादिरिति—मात्रा आन्वित्या ने मात्रावर्णप्रदजीवराशिनाभ्यप्रपिण्डस्वरा स्तेषां या संख्या सा एकीकृत्य पञ्चभिर्हिते यद्यशिश्ट नत योगस्वर इति । यथा देवदत्तस्य मात्रास्वर एकारस्तस्य संख्या ५, वर्णम्वर ओकारस्तस्य संख्या ५, प्रहस्वर उकारस्तस्य संख्या ३, जीवस्वर अकारस्तस्य संख्या १, राशि म्वर ओकारस्तस्य संख्या ५, नक्षत्रम्वर, अकारस्तस्य संख्या १, पिण्डम्वर एकार स्तस्य संख्या ४ एषां योग २३ शरहते शेष ३ तेन देवदत्तस्य योगस्वर उकार । इति योगम्वर ॥ २५ ॥

योग स्वर जानने में योगाभ्यास करना चाहिए । इन योग का स्वर जानने की आचार्य की शैली निम्नर्धनि है—नाम में उपलब्ध मात्रादि (मात्रा, वर्ण, प्रह, जीव

राशि, नक्षत्र, पिण्ड) स्वरों क अको के योग में ५ से भाग देने मे जो शेष हो उसीके तुल्य स्वरों म से योगस्वर होता है । जैसे देवदत्त के नाम में क्रम से मात्रास्वर की ४, वर्णस्वर की ५, प्रहस्वर की ३, जीवस्वर की १, राशिस्वर की ५, नक्षत्रस्वर की १, पिण्डस्वर की ४ सर्याये होती है । इन सभी का योग २५ हुआ इसमें ५ भाग देने से ३ शेष बचा अत देवदत्त का तीसरा उकार योगस्वर हुआ ॥ २५ ॥

इति मात्राघटस्वराध्यायो द्वितीय ।



अथ द्वादशवार्षिकादिस्वराध्यायः

तत्र द्वादशवार्षिकस्वर —

प्रोक्ता नैसर्गिका घष्टौ मात्राया नामजाः स्वराः ।

एतेषामुदयान्वये द्वादशाब्दादिकालजान् ॥ १ ॥

प्रभवादिक्रमेणैषां स्वराणामस्वरादिकम् ।

उदयो द्वादशाब्दानामेकैकं द्वादशाब्दिकम् ॥ २ ॥

अस्यान्तरोदयो वर्षमेकं मासो दिनद्वयम् ।

लोकाब्धिनाडिकाः प्रोक्ता अष्टत्रिंशत्पलानि च ॥ ३ ॥

प्रोक्ता इति । नामजा स्वरा नामत उत्पन्ना नैसर्गिका, मात्राया अष्टौ स्वरा प्रोक्ता । एतेषां स्वराणां द्वादशाब्दादिकालजानाम् घटयन्तु मासपर्यन्तं विद्वज्जानं धालादिव्यवहारमज्ञितान् पचये । प्रभवादि इति । एषां द्वादशाब्दानां प्रभवादिक्रमेण पष्ठिसप्तस्वराणां मध्ये द्वादश द्वादशाब्दके प्रत्येकमकारादयः पञ्चस्वरा उदयन्ति । यथा प्रभवादि द्वादशवर्षे अकारोत्थ । ततो द्वादश द्वादशभिः चतुर्णामिकारातीनामुत्पन्न । तत्र प्रभवादि सप्तस्वराणामानयनार्थं रत्नमालाया श्रीपतिवाक्यम् यथा—शकेन्द्रकाल पृथगावृत्तिप्र शशाङ्कनन्दाश्रियुगे समेत । शराद्रियस्त्रिन्दुभिरत्नं स लब्ध पष्ट्यात्रये प्रभवाद्योऽब्ज ॥ उदाहरणम् । सप्त २०१६ जके १८८२ चैत्रशुद्धप्रतिपदि । शकात् १८८१ द्विस्थ । द्वात्रिंशत्या २० गुणिते जातम् ४१३८ शशाङ्कनन्दाश्रियुगे ८२६१ युते जातम् ४१६७३ अयं शराद्रियस्त्रिन्दुभिर्भक्त लब्ध वर्षाणि २४ शेष ६७३ द्वादशभिः सगुण्य भक्ते लब्ध मासा ४ शेष ५७६ त्रिंशता सगुण्य भक्ते लब्ध दिनादि ६ शेष ४०५ पष्ट्या सगुण्य भक्ते घटा १० शेष १८०० पुनः पष्ट्या सगुण्य भक्ते लब्धानि पलानि ५७ इमानि पृथक् स्थितशकमध्ये युतानि जातानि १६०५ वर्षाणि ४ मासा ६ त्रिंशति १० घटा ५७ पलानि । वर्षस्थाने पष्ट्या हते शेष ४५ प्रभवादि गणयवात् विरोधत्वात् परं वर्तना नस्य परिचारिसप्तस्वरस्य नामादिकं ८ ना ४ ति ६ घ १० प ५७ । अत्र द्वादशाब्दिकस्वरमानार्थं द्वादशभिर्हते लब्ध ३ गता स्वरा एतेषां स्वरा स्वरास्य गतवर्षादिकं ६।१।६।२।५।७ शोभनाद्यमपन्नरमारब्धा आनन्त्यात् जायते द्वादशपर्यन्तं स्वरास्वराणां यन्ते । तेन मन्तानन्दस्य नामत योग्यस्वरो अत्रास्मद्दशादापिस्वरौ सुदृक्त्वनास्य योग्यस्वरोऽपि फर्माणाम् सिद्धिः । अथ वर्तमानदां मनानि द्वादशवर्षाणामु एकारोपनुस्वन्तरेणा

पालमाह वर्षमेकमित्यादि तत्रके द्रष्टव्यम् । अन्तर्दशाभाषण दिन-
चर्याया व्याख्यातम् ॥ १-३ ॥

द्वादशाद्विफस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	ओ	
प्रभव	प्रमाधी	स्वर	शोयन	राक्षस	मवत्पर
१२	१२	१२	१२	१२	
१	१	१	१	१	व
१	१	१	१	१	मा
२	२	२	२	२	दि
४३	४३	४३	४३	४३	घ
३८	३८	३८	३८	३८	प

अथान्तर्दशानयनोपाय । अथ वर्त्तमान द्वादशान्दिकस्य ए स्वरस्य मुक्त-
वर्षादिकम् । ६।४।६।१०।५७ अस्य पला १०१०६१७७ । अन्तरवर्षादिकम्
१।१।०।४३।३८ अस्य पला १४१३८१८ । ततोऽनुपात यद्येते पल्लेरेकस्वरौदय-
स्तदा वर्त्तमानस्य एस्वरस्य मुक्तपल्लैरेभि १०१०६१७७ पले विमिति ।
लन्ध गतस्वरा ८ एतेनात्र एकारस्वरगणनया अन्वयस्वान्तर्दशा प्रीयति ।
वर्त्तमानान्तर्दशाया मुक्तपल्लानि ८१८७३३ भोग्यपल्लानि ५६६०८५ । आभ्या
मुक्तभोग्यदिनानयन कार्यम् ।

कौन स्वर किस समय से कब तक रहता है, एक ही स्वर के समय में अन्य
स्वरों की भी स्थिति होती है इसी का स्पष्टीकरण नाम के अनुसार मात्रास्वर
आदि आठ नैसर्गिक (स्वाभाविक) स्वरों को कहा । अथ इनका द्वादशान्दिक का
के अनुसार उदय को कह रहा हूँ । इन स्वरों का प्रभवादि गारह ७ मवत्परों के
अनुसार चारह २ वर्ष का उदय होता है । शेष चक्र से स्पष्ट है । १२ घण में ११
स्वरों का उदय होता है अत एक स्वर का १२ में भोग वर्षादि ३३ १ घण शेष
१ × १२ = १२ मास-११ = १ महीना शेष १ मास × ३० = ३० दिन-११ = २ शेष
८ दिन × ६० = ४८० घटी-११ = ४३ घटी इत्यादि आगे भी समझना ॥ १-३ ॥

अथ वापिकस्वरचक्रम्

प्रभवाद्यब्दमेकैकमुदयस्त्वस्वरादिकः ।

द्वादशाब्दस्य वर्षोना तद्भुक्तिर्वापिके स्वरे ॥ ४ ॥

प्रभय इति । अस्मरगदिक अकारादि पञ्चस्वरा प्रभयाग्दमेकेक प्रति
उत्थो भवति । अर्थात् प्रभयादीना प्रत्येकमस्वरादिक स्वामी । एष प्रभयादि
पष्टयन्त्रेषु अकारादय पञ्चस्वरा द्वादशधा उदयन्ति । तत्र द्वादशाग्दस्यान्
रोदयभुक्तिपर्योनि मति वार्षिकस्वरे तद्भुक्तिन्तरोदयभुक्तिवर्षम् १ । मास १ ।
दिन १ । घटी ३ । पलानि ३८ । इति ॥ ४ ॥

६० सवस्वरो मं, पाँचों स्वर होते हैं, एक अस्वर १, ६, ११, इ स्वर २, ७,
१२ एषम् ओ स्वर ५, १०, १५ ६० व सवस्वर मं होता है, जैसे अकारादि
स्वरों का ६० सवस्वरों न क्रम से १२ बार होता है । अस्वर का प्रभय मं, इकार
का विभय म, उकार का शुद्ध मं, एकार का प्रमोद मं और ओकार का प्रजापति
वर्ष म उदय होता है । तथा अकारादि एक स्वर म ११ स्वरों का अन्तर्दशाक्रम
होता है । एक स्वर का योग १ वर्ष, १ मास, ९ दिन, ४३ घटी, ३६ पल होता है ।
वार्षिक स्वर का उदाहरण पूर्वोक्त (शकेन्द्रकाल) इत्यादि प्रकार स प्रभयादिगत
सवस्वर ४५।४।९।१।२।५७ यहाँ वर्ष ४५ म ५ स भाग देते से छवि ९ गेय ० वषा
इसलिये नम षावृत्तिपूर्ण हो गई और उसमें गतस्वर ओ हुआ वर्तमान अकार स्वर
हुआ इसलिये वर्तमान परिधायी सवस्वर का उदित अकार स्वर का गनमासानि
४।९।१।२।५७ हुआ । इसलिये सदान्द का पिडस्वर एकार और वार्षिक स्वर
अकार हुआ ॥ २९ ॥

अथायनस्वरचक्रम्

अकारो दक्षिणे स्वामी इकाश्चोत्तरायणे ।

वर्षभुक्त्यर्धमानेन भोग पाण्मासिकस्वरे ॥ ५ ॥

अकारो इति । दक्षिणे दक्षिणायने कर्त्तानि पट्टाद्युत्तपणमानाना अगा
स्वामी, उत्तरायणे मकरानिपट्टाशुपलक्षितमासाना इकास्वरो स्वामी ।
पाण्मासिकस्वरे अयन स्वरे वर्षभुक्त्यर्धमानेन वर्षे यन्तरोदयभुक्तिमा
तन्धर्मेवान्तरोदयभुक्ति । सा च मासस्थाने ८, दिन १६ घटा २१ पलानि
५६ इति ।

यप के दो विभागों का उत्तरायण और दक्षिणायन मन्ना है, आण्यार्थ यहाँ अयन
स्वर की गति का स्पष्टी करण कर रहा है । कर्त्त राति के सत्रानि म ९ रात्रियों के
मूर्ध में दक्षिणायन होता है अर्थात् ३ मास पयत्र इमहा स्वामी अकारान्त होता है ।
एष मकर राति मे ६ रातिपर्यन्त के मूर्ध में ६ मास तक उत्तरायण होता है । इन
उत्तरायण के ६ मासों का स्वामी इकार स्वर होता है । इनका भोगकाल वार्षिक

स्वर के भोगकाल १ मा० २ दि० । ४३ घ०, ३८ प० के नाथ के मुख्य अर्थात् ० मा० १६ दिन, २४ घटी और ४९ पल होता है ॥ ५ ॥

इत्ययनस्वरम् ।

अथ वार्षिकस्वरचक्रम्

अथ अपनस्वरचक्रम्
अ दक्षिणे—इ उत्तरे

अ	इ	उ	ए	ओ	
१६	१६	१६	१६	१६	दि
२१	२१	२१	२१	२१	घ
४९	४९	४९	४९	४९	प

अ	इ	उ	ए	ओ	
प्र	वि	शु	प्र	प्र	
अ	श्री	भा	शु	घा	
ई	व	प्र	त्रि	वृ	
चि	सु	सा	पा	व्य	
म	स	त्रि	त्रि	व	
न	त्रि	अ	म	दु	
हे	व	वि	शा	प्ल	
शु	शो	क्रो	त्रि	प	
प्ल	की	सी	मा	वि	
प	प्र	वा	रा	अ	
पि	का	मि	री	दु	
दु	रु	र	क्रो	वृ	
१	१	१	१	१	मा
२	०	२	२	२	दि
४३	४३	४३	४३	४३	घ
३८	३८	३८	३८	३८	प

अथ ऋतुस्वरचक्रम्

अकारादिस्वराः पञ्च वसन्नादिक्रमोदयाः ।

एकैकस्मिन्स्वरे प्रोक्ता द्विसप्ततिदिनोदयाः ॥ ६ ॥

अकारादि इति । अत्र 'मृगादिराशिद्वयभानुभोगाद् पटर्त्तव स्यु गिगिरो वसन्त' । प्रीन्मश्च वर्षा च शक्य तद्वद्वेमन्तनामा कथितोऽत्र पष्ट ।' इति श्रीपति-वचनान्मकरादिषु रविभोगात् शिशिरादय पट् ऋतुजो भवन्ति । तत्र पट् ऋतुषु द्वादशराशय । त्रिंशद्वात्मसो रागिरिति तु सुप्रसिद्धम् । एष पट् ऋतुषु

पट्टधधिनत्रिंशत्शा तत्र पञ्चस्वरा । अत एकैकस्मिन् स्वरे द्विमप्रतिगशा ।
रवेरेकदिनभोगकाल एतमशमतएकेस्वरस्य भोगकाल द्विमप्रतिगिनमुक्तम् ।

जिम प्रकार वर्ष के दो विभागों का नाम उत्तरायण और दक्षिणायन है उन्ही प्रकार वर्ष के ६ विभागों या अयन के तीन विभागों का ऋतु नाम है इन ऋतुओं में स्वर चार केने है यही बताया जा रहा है । जैसे मकर राशि में दो दो राशियों में मूर्ध के रहने में शिशिरादि ६ ऋतुयें होती है । अर्थात् मकर कुम् में शिशिर, मीन मय में वसन्त, घृष, मिथुन, मं ग्रीष्म, कर्क सिंह से वर्षा, कन्यातुला में शरद, वृश्चि धन से हेमन्त ऋतु होती है । इन्हीं ६ ऋतुओं में वसन्त में क्रम में अकारादि पाँच स्वरो का उदय होता है और एक स्वर का भोगकाल ७२ दिन का होता है । अर्थात् १२ राशि में ३६० अक्ष होते हैं और इसका पाँचवा भाग ७२ अक्ष होता है जो कि मूय के एक दिग ९ अक्ष के तुल्य होता है अत ७२ दिन होता है । उदाहरण—जैसे सवत् २०१६ चर शुभ प्रतिपदा गुणार का मीन सम्प्रति का गतान्ग २५।५६ है इसका पल ०३३६० हुआ और एक ऋतु का अतरोदय पल २३७६३ है इसमें भाग देने से एष्य ३ गतस्वर हुआ । मीन राशि में वसन्त ऋतु का आरम्भ होता है और उन्में अकार स्वर का उदय होता है अत अकार से चौथे एकार का अतरोदय हुआ । मदानन्द का राशिस्वर अकार है इसमें ऋतुस्वर कुमार हुआ और अतरोदय स्वर मृत हुआ । शेष शुभ और भोग से अतरोदय स्वर का समय निकालना चाहिये ।

ऋतुस्वरचक्रम्—

अ	इ	उ	ए	ओ
मी	वृ	फ	तु	ध
मे	मि.	मि	वृ	म
घृ	क	क	घ	तु
६	६	६	६	६
२२	३२	३२	३२	६०
४३	४३	४३	४३	४३

अय मानस्यरचक्रम्—

नभस्यमार्गवैशाख अकारस्योदयो भवेत् ।

आश्विनश्रावणापादे इकाने नायक स्मृत ॥ ७ ॥

१ यद्दिनानि सदा माल्ये षट्षिपदपदानि च ।

अतरोदयमान स्यात्तुनामि स्वरदये ॥

उकारश्चैत्रपौषे स्यादेकारो ज्येष्ठकार्तिके ।

ओकार उदय याति माघफाल्गुनमासयोः ॥ ८ ॥

द्वे दिने ज्येष्ठयो नाटरो ह्यष्टत्रिंशत्पलानि च ।

अंतरोदय उक्तोऽसावत्र वै मासिरुस्वरे ॥ ९ ॥

नभस्येत्यादि मुगमम् ॥ ७-६ ॥

वर्ष के १२ चारह महीनों के स्वरा का विचार किया जाता है। भाद्रपद, मार्गशीर्ष और वैशाख मास में अकारस्वर का उदय, आश्विन, आश्र्वण, जाषाढ़ मास में इकार स्वर का चैत्र पौष मास में उकार का, ज्येष्ठ, कार्तिक में एकार का और फाल्गुन मास में ओकारस्वर का उदय होता है। प्रत्येक का भोग २ दिन ४३ घटी और ३६ पल नामिस्वर में अंतरोदय होता है। उदाहरण—संवत् २०१६ चैत्रकृष्ण प्रतिपद से चैत्रशुक्ल प्रतिपद पर्यन्त १६ दिन हुआ इसका पल ५७६०० यह भाज्य हुआ और अंतरभोगदिनादि २ दिन ४३ घटी और ३८ पल का पल ९८१८ यह हार हुआ इसमें भाग देने से लब्ध ५ गतस्वर हुआ। (उकारश्चैत्रपौषादि) के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपद को उकार स्वर का उदय है और सदानन्द का जीवस्वर इकार है (जात्राङ्गालस्यारफल) के अनुसार। अतः सदानन्द का मास स्वर उकार मृत ही हुआ। पूर्वोक्त लब्ध गतस्वर के अनुसार एकारोदय के मास में अतर्दशा भी एकार की ही हुई। यहाँ मास गणना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कृष्णादि लेनी चाहिये ॥ ७-२ ॥

मासस्वरचक्रम

अ	इ	उ	ए	ओ
मार्ग	आश्वि	चैत्र	ज्येष्ठ	माघ
भाद्र	आश्र्व	पौष	कार्तिक	फाल्गुन
वैशा	जाषा			
२	२	२	२	२
४३	४३	४३	४३	४३
३८	३८	३८	३८	३८

अथ पञ्चस्वरचक्रम—

अस्वरः कृष्णपञ्चेशः शुक्लपञ्चेशः इस्वरः ।

पञ्चात्मिकान्तरे भुक्तिर्मासभुक्त्यर्थमानत ॥ १० ॥

अस्वर इति स्पष्टार्थ ॥ १० ॥

साम के दो विभागों, कृष्ण और शुक्ल भागों, के क्रम में आचाय स्वरों का उदय कहता है। कृष्णपक्ष में अस्वर और शुक्लपक्ष में इस्वर का उदय होता है अर्थात् यही दोनों स्वर क्रम में दोनों पक्षा के स्वामी हैं। इनके पक्ष के अन्तरोदय का आषा दिन, २१ घटी और ४९ पल होता है।

उदाहरण—जैसे चंद्र शुभ प्रतिपदा में इ स्वर का उदय है, मदानन्द का प्रहस्वर ओकार है इसके अनुसार पक्षस्वर इकार युवा और अन्तरोदय स्वर भी युवा ही हुआ ॥ १० ॥

पक्षस्वरचक्रम्

अ		इ		
कृष्ण		शुक्ल		
अ	इ	उ	ए	ओ
१	१	१	१	१
२१	२१	२१	२१	२१
४९	४९	४९	४९	४९

अथ दिनस्वरचक्रम्—

अकारादि क्रमान्न्यस्य नन्दादिनिधिपञ्चकम् ।

दिनस्वरोदयो नित्यं स्वस्वतिथ्यादि जायते ॥ ११ ॥

तिथ्यादौ घटिकाः पञ्च पलानि नक्षत्रिंशतिः ।

अन्तरोदय उक्तोऽसौ दिनस्वरस्य सूरिभिः ॥ १२ ॥

अकारादि इति स्पष्टार्थ ॥ ११-१२ ॥

पक्ष के पञ्चदशों विभाग निधि की स्वर गिनति का क्रम अकारादि स्वरों के साथे नन्दा आदि निधियों के रगने से दिन स्वर चक्र होना है। उच्छतिथिपदा में स्वरों का उदय होना है। इसका अन्तरोदय ५ घटी और २० पल होता है ॥ ११-१२ ॥

१ अस्यान्तरोदय पञ्च पन्चमनारापलानि च ।

सुम्भरस्य च सूरिभिः इति वा पाठः ॥

अथ दिनस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	ओ
१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५
५	६	७	८	९
२७	२८	२९	३०	३१

उदाहरण—तिथ्यतरोदयमान ५ घ० २७ प० का पल ३२७ यह हार हुआ और प्रतिपदा का मुक्त घटी ५० का पल ३००० है। यह भाज्य है इसमें हार से भाग देने से लब्ध ९ मुक्त स्वर हुआ और वर्तमान दशम स्वर ओकार हुआ।

अथ घटीस्वरचक्रम्—

घटीस्वरो घटीपञ्च पलानां सप्तविंशतिः ।

अस्यान्तरोदयः प्रोक्तो घटिकार्धप्रमाणकः ॥ १३ ॥

घटीस्वर इति । स्पष्टार्थ ॥ ३६ ॥

तिथि के ६० वें विभाग की घटी सजा के समय में स्वर चार का क्रम—घटिका स्वर ५ घटी २७ पल के होते हैं। इनका अन्तरोदय भोग ३० पल का होता है ॥१३॥

अथ द्वादशाब्दाद्विनामन्तरोदयमाह—

द्वादशाब्दादिनाडयताः स्वस्थानाच्च स्वकालतः ।

उदयन्ते पुनस्ते च ते चैकादशाधा स्वराः ॥ १४ ॥

वर्षमामदिवानाडीपलं चैव क्रमादिदम् ।

कालमान मया प्रोक्त पञ्चधात्र स्वरोदये ॥ १५ ॥

द्वादशाब्दस्वरादीना मुक्तं पलमयं तु यत् ।

तद्भक्त स्वस्वमानेन लब्धं शेष द्विकं भवेत् ॥ १६ ॥

लब्धे भुक्तस्वरा ज्ञेयाः शेषे चैवोदिता स्वराः ॥ १७ ॥

अस्मिन् पण्ड्या विभक्ते च भुक्तं स्याद्दुदिनस्वराः ॥ १८ ॥

द्वादशान्तादिति—द्वादशाब्दादिनाडयन्ता अष्टौ स्वरा, स्वस्थानान् स्वकालत स्वस्वभोगमानेन द्वादशार्पादिना उदयन्ते। तत्र न्यभोगमानेन पञ्चा-

दशोदरेन्त पुनरुदयन्ते इत्यनुपज्यते । अत एवान्नरोत्पत्तिज्ञामायाम् पशु
 न्शभिर्यो यत्र भागो लभ्यते स तत्रान्तरोदयमान भवतीति शोचिताम् पूरं
 तथैव कृतमिति । उपैति स्पष्टम् । द्वादशात्रेति । द्वादशाक्षरस्वरादीनां गद्भुक्त
 यामने भागहारकफलेभ्योऽपनीते भोग्यपत्तानि भवन्ति । तां भुक्तभोग्य
 पत्ते पष्ट्यादिना भक्तं भुक्ताद् भुक्तमान भोग्याद्भोग्यमानं वर्तन्त्यम् । लभ
 भुक्तस्वरा ज्ञेया । शेषे वर्तमानस्वरा । अस्मिन् वर्तमानस्य पत्त विधाय पष्ट्या
 लम्भ भुक्त भोग्य विधाय एकादशलक्षान्तरोदयमानेन भक्त भवति ॥१४-१५॥

आठों स्वरों का उलटा-विचार किया जाता है—द्वादश वाचिस्वर में नादस्वर
 पर्यन्त जो आठ स्वर कहे गये हैं वे अपने २ स्थान में अपने अपने काठमान में
 (वषमामात्रि) में ग्यारह वार उच्य और अस्त होते हैं । इन गारों के उदय के
 लिये वष, माम, दिन, नाडी, पल ये पाँच प्रकार से समय को मने कहा है ।
 द्वादशवाचिक स्वर आदि के जो भुक्त पल हैं उनमें अपने अपना मान में लक्ष्मि और
 शेष दो होते हैं । उसमें लक्ष्मि तुल्य भुक्तस्वर और शेष के तुल्य उदित स्वर समझना
 चाहिये । इन भुक्त और भोग्य पलों में ६० वाचि से भाग देकर उदित स्वर के
 भुक्त और भोग्य काल को ले धाना चाहिये ॥ १४-१८ ॥

अथ पञ्चनालागमस्थाना बलमाह—

उदितस्य स्वरस्य स्युर्नामस्वरवशेन ताः ।
 पञ्चनालादिकावस्था स्वस्वकालप्रमाणतः ॥ १९ ॥
 आद्यो बालः कुमारश्च युवा वृद्धो मृतस्तथा ।
 निजावस्थास्वस्वपेण फलदा नात्र संशयः ॥ २० ॥
 किञ्चिद्भ्रामकरो बालः कुमारस्त्वर्लाभदः ।
 सर्वसिद्धिं युवा धत्ते वृद्धे लानिर्मृते क्षयः ॥ २१ ॥
 यात्रायुद्धविवादेषु नष्टे दृष्टे नृजान्विते ।
 बालस्वरो भवेद्दुष्टो विवाहादिशुभे शुभ ॥ २२ ॥
 संवेषु शुभकार्येषु यात्राकाले विशेषतः ।
 कुमारः कृन्ते सिद्धिं मग्रासे शत्रुना जयः ॥ २३ ॥
 शुभाशुभेषु कार्येषु यंत्रमंत्रादिसाधने ।
 सर्वसिद्धिं युवा धत्ते यात्रायुद्धे विशेषतः ॥ २४ ॥

दाने देवार्चने दीक्षा गृहमन्त्रप्रकल्पने ।
 वृद्धस्वरो भवेद्भव्यो रणे भङ्गो भयं गमे ॥ २५ ॥
 विवाहादि शुभं सर्वं संग्रामाद्यशुभं तथा ।
 न कर्त्तव्यं नृभिः किञ्चिज्जाते मृत्युस्वरोदये ॥ २६ ॥
 मृतो बालस्तथा वृद्धः कुमारस्तरुणस्तथा ।
 यथोत्तरवलाःसर्वे ज्ञातव्याः स्वरवेदिभिः ॥ २७ ॥

उदितस्येति—उदितस्य द्वादशाब्गदीनामुदितान्तरोदयस्वरस्य नामन्त्र-
 वशेन नामर्णप्रशेन स्वरन्वकालप्रमाणत स्वरभोगममयप्रमाणत बालादिका
 पञ्चानस्था स्यु । आद्य इति गुगमम् । किञ्चिज्जाभकर इति सुगमम् । यात्रेति
 स्पष्टम् । सर्वेष्विति स्पष्टार्थ । शुभाशुभेति स्पष्टार्थ । सर्वसिद्धिमित्यादि
 स्पष्टम् । अथ स्वराणा न्यूनाधिकप्रलमाह—मृतो बाल इति । स्वरवेदिभि
 स्वरशास्त्रज्ञेरेते मृतादिपञ्चस्वरा यथोत्तरवला ज्ञातव्या । न यथा मृतात्
 वृद्धो वृद्धात् बालो बालात् कुमार कुमारात् युवा बलवान् भवति । अर्थाद्
 भटयोर्मध्ये एकस्य मृतस्वरोदय अपरस्य वृद्धस्वरोदय । स च मृतस्वरोदयिन
 सकाशादधिकस्वरोदयस्तेन समामे जयी । एव सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ १६-२७ ॥

आचार्य पाचों स्वरो की बालवृद्धादि सज्ञा और उनके शुभाशुभ फल की स्थिति
 कहता है । उदित द्वादशवार्षिक आदि स्वर नाम के स्वर वर्ण के अनुसार अपने अपने
 भोग समयके प्रमाणानुसार बाल आदि पाँच अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं । बाल, कुमार
 युवा, वृद्ध और मृत ये पाँच अवस्था हैं ये अपने अवस्था के सदृश फल देते हैं ।
 बाल अवस्था कुछ लाभप्रद, कुमार जाधे लाभ को, युवा सपूर्ण लाभ को, वृद्ध अवस्था
 में हानि और मृत अवस्था में हानि होती है । यात्रा, युद्ध, विवाद, वस्तु के नष्ट
 होने में, सपानि के काटने में, और रोग में बाल स्वर हानि फारक होता है । और
 विवाहादि शुभ कार्यों में शुभद होता है । सभी शुभ कार्यों में विशेष कर यात्रा
 समय में कुमार स्वर सिद्धि को देता है और समाम में क्षत्रु से विजय देता है ।
 सभी शुभ अशुभ कार्यों में यत्र आदि के सिद्ध करने में और विशेषकर यात्रा युद्ध में
 युवा स्वर सिद्धिदाता होता है । दान में, देवता के पूजन में, दीक्षा में, गुप्तसलाह में
 वृद्ध स्वर शुभद होता है किन्तु रण में भङ्गा और विजय में भय होता है ।
 विवाहादि शुभ कार्य और संग्रामादि सभी अशुभ कार्य कभी भी मनुष्य को मृत
 स्वर के उदय में नहीं करना चाहिये । मृतस्वर से बालस्वर घली होता है और बाल
 से वृद्ध, वृद्ध से कुमार, कुमार से युवास्वर घली होता है ॥ १९-२७ ॥

यो यस्य पञ्चमे स्थाने स स्वरो मृत्युदायकः ।

तृतीये तु भवेद्दृद्धिः शेषा मध्यफलप्रदाः ॥ २८ ॥

मृत्युहीनस्वरे नाग्नि जयोनाग्नि स्वराधिके ।

सम नाग्नि भवेत्साम्यं सन्धिर्जयपराजयौ ॥ २९ ॥

एकस्वरे भवेत्साम्यं द्वितीयोऽर्धफलप्रदः ।

तृतीये तु फलं पूर्णं तुर्यं चन्धपराभवम् ॥ ३० ॥

यो यस्येति । भटयोर्द्वयोर्द्वयोस्माद्धर्णस्वराणां पञ्चम स्वरः स मृत्युदायकः । यतः पञ्चमस्य मृत्युमज्ञा कृतेति । तृतीये मम्यपूर्णक्रियासु सिद्धिः । गेषा स्वरा मध्यफलप्रदा । द्वयोः भटयोः नाग्नि हीनस्वरे मृत्युः । अर्धाग्नौ हीनस्वरः स चाधिकस्वरान्मृत्युः । प्राप्तेति । उदित्ताधिकस्वरे जयो भवति । नाग्नि उदितस्वरे साम्ये सति साम्यं सन्धिः मन्धानं स्यात्, जयपराजयौ च साम्यं भवति । एकस्वरे इति । चेतोऽधयो एकः प्रथमस्वरो बालश्चेद्व्यति तदा युद्धे साम्यं समता भवेत् । द्वितीये अर्धादेकस्य बालम्यरोदयः अन्यस्य कुमारम्यरोदयश्चेत्तदा अर्धफलं भवेत् । अर्धान् कुमारस्य किञ्चित् जयः । तृतीये अर्धादेकस्य बालम्यरोदयः अपरस्य कुमारम्यरोदयश्चेत्तदा फलं पूर्णम् । अर्धान् गूतः सर्वपदे जयः । तुर्ये चतुर्थे म्यरोदये सति जयपराभवः च भवति ॥ २६-३० ॥

युद्ध के लिये युवा और मृत्यु स्वर का परिचय—दोनों युद्ध करने वाले योद्धाओं के नाम के षण्णस्वर स, जो पौषर्षौ स्वर होता है, वह मृत्युस्वर होता है । तीसरे स्वर म फार्यं सिद्ध होता है और दोष मध्यम होते हैं । नाम से हीनस्वर में युद्ध करने से मृत्यु, अधिक स्वर में विजय और समस्वर में युद्ध करने से आपस में सन्धि और जय पराजय दोनों समान ही होते हैं । अर्धात् कुमार से युद्ध हीनस्वर, बालस्वर से मृत्युस्वर, कुमार से बाल, युवा से कुमार हीनस्वर है । यदि उदित स्वर अधिक हो तो विजय । समान स्वरों के उदय से समता और तपि तथा जयपराजय समान ही होते हैं । यदि दोनों योद्धाओं के प्रथमस्वर बाल ही उदित हों तो युद्ध में समता होती है । यदि एक का बाल और दूसरे का कुमार हो तो कुमार स्वरोदयो विजयी होता है । यदि एक का बाल और दूसरे का युवास्वर हो तो युवास्वर वाला सप प्रकार से विजयी होता है इसमें सिद्ध सभी स्वर बालस्वर के साथ भय भी पराभव को देने वाले होते हैं ॥ २९-३० ॥

शत्रोर्मृत्युस्वरे प्राप्ते युनि प्राप्ते स्वकीयके ।

तत्काले प्रारभेद्युद्धं विजयो भवति ध्रुवम् ॥ ३१ ॥

शत्रोर्मिति—शत्रोर्मृत्युस्वरे पञ्चमस्वर प्राप्ते अग्नि स्वकीयके युनि युद्धस्य प्राप्ते उदिते तत्काले नस्मिन् गमये युद्धं प्रारभेत् । युद्धे च ध्रुवं जयो भवति अन्यथा न । किन्तु मन्वन्नेय सारं, जय हेतुं जय पशोऽयम् । इदं तत्काले युवस्वरलक्षणं समाचष्टे ॥ ३१ ॥

शत्रु के मृत्यु स्वरोदय के ज्ञान से युद्धारम्भ करना चाहिए इसका स्पष्टीकरण—
जिम समय शत्रु का मृत्युस्वर उदित हो और अपना युवास्वर उदित हो उस समय
युद्ध आरम्भ करने से निश्चित ही युद्ध में विजय होती है। यह जय का मुख्य
पक्ष है ॥ ३१ ॥

तत्काले मात्रिको ग्राह्यो दिने वर्णस्वरस्तथा ।

पक्षे ग्रहस्वरो ज्ञेयो मासे जीवस्वरोदयः ॥ ३२ ॥

ऋतौ राश्यंशको ग्राह्य पण्मासे धिष्ण्य संभवः ।

अब्दे पिण्डस्वरो ज्ञेयो योगे द्वादशवार्षिके ॥ ३३ ॥

सर्वकाले बली वर्णः सर्वव्यापी न संशयः ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वर्णं वीक्ष्य बलावलम् ॥ ३४ ॥

यथा पदा हस्ति पदे प्रविष्टा यथा हिनद्यः खलु सागरेषु ।

यथा हरेर्देहगताश्च जीवास्तथा स्वरा वर्णफलोदयास्ते ॥

तत्काले इति । तत्काले घटीस्वरमात्रिके यो मात्रास्वर उदेति न ग्राह्य ।
तथा दिने तिस्रो वर्णस्वरमुपक्रम्य बालादिव्यवस्था । पक्षे पक्षस्वरे ग्रहस्वरोदय
इति ज्ञेय । मासे मासस्वरे जीवस्वरोदय । जीवस्वराधिका बालादिचिन्ता ।
ऋतौ राश्यंशको राशिस्वरस्तद्व्यधिका बालादि चिन्ता । पण्मासे अयनस्वरे
धिष्ण्यसंभवो धिष्ण्य नक्षत्र तत्सम्भवो अर्थान् नक्षत्रस्वर इति तद्व्यधिका
बालादिव्यवस्था । अब्दे वार्षिकस्वरे पिण्डस्वरान्बालादि व्यवस्था । द्वादशवार्षिके
द्वादशान्तिके योगो योगस्वरस्तद्व्यधिका बालादिव्यवस्था । विद्यावादादि
चतुर्विधयुद्धकाले नाडीस्वरोदय स्वस्य च युवाख्यो भवति शत्रोर्मृतान्य इति ।
एव सति युद्धं कुर्यात् जय एव स्यात् । अत्रोदाहरणम् । देवेन्द्रविजययो विद्या-
यादे कस्य जय इति प्रश्ने तत्काले नाडीस्वरे आकारं प्राप्तं, विजयस्य इकारो
मात्रास्वर तस्मात् इकारस्वरात् अकारो मृत्युस्वरो विजयस्य । देवेन्द्रस्य
मात्रास्वर एकार, एकारस्वरात् अकारो युवा एव लक्षण्ये तत्काले प्रारब्धे वादे
देवेन्द्रस्य जय । एव सर्वत्र वर्णप्रहजीवादयो ज्ञेया । उदाहरणस्तु प्रत्यविस्तर-
भयान्न लिखितम् । सर्वकाले इति । वर्णो वर्णस्वर सर्वकाले बली यस्मात्
कारणादसौ सर्वव्यापी सर्वेषां मात्रास्वरग्रहादीनां व्यापी व्यापक । यत्
वर्णस्वरबलेनान्येऽपि बलिन । तस्मात् कारणात् सर्वप्रयत्नेन वर्णं वर्णस्वर
शुभमशुभ बलावलम् चिन्तनीयमित्यथ । यथेति । यथा पदा पदाङ्कितप्रदेशा
हस्तिपदे हस्त्यङ्कितपदप्रदेशे प्रविष्टा यथा सागरेषु नद्यः प्रविष्टा । यथा हरेर्देह-
गता जीवा तथा स्वरा मात्रादयः सर्वे वर्णफलोदयस्याः ॥ ३२-३५ ॥

भाचार्य किस काम के लिये कौन स्वर उपयुक्त है इसका विचार कर रहा है। युद्ध के आरम्भ समय में जो नाडीस्वर उदित हो वह माघास्वर स जिम अवस्था का हो उसे लेना चाहिये। तिथि न घर्णस्वर से। पक्षस्वर में गृहस्वर से, मासस्वर में जायस्वर से, शत्रुस्वर में राशिस्वर स, अयनस्वर में नक्षत्रस्वर से, धार्मिकस्वर म पिण्डस्वर से और द्वादशधार्मिकस्वर म योगस्वर म धात्वादि अवस्थाओं को लेना चाहिये। सभी समयों में घणस्वर बली होता है क्योंकि यह सभी स्वरों म व्याप्त है, इसलिये घर्णस्वर के बटावल को बड़े प्रयत्न मे पहले ही विचार लेना चाहिये। जैसे सभी पदाङ्गित भूमि हाथी के पैर से अङ्कित भूमि के अन्दर होते हैं, जैसे सभी नदियाँ समुद्र के मध्य में होती हैं, जैसे सभी जीव भाषाण के शरीर में लयमृष्टिकाल में प्रविष्ट होते हैं अथवा है उसी प्रकार सभी स्वरों के अन्त प्रविष्ट घणस्वर पट देता है ॥ ३२-३५ ॥

उदाहरण—जैसे देवेन्द्र और विजय का विद्या विवाह होने वाला है। उस समय नाडीस्वर के अनुमार अकार स्वर का उदय है, देवदत्त का माघास्वर एकार है इसमे गणना करने से अकार देवेन्द्र के लिये युवास्वर हुआ और विजय का माघास्वर इकार है इसमे गणना करने से अकार मृग्युस्वर हुआ अत उक्त समय म विवाह आरम्भ होने से देवेन्द्र का ही विजय होगा। इसी प्रकार सभी स्वरों म गणना चाहिये ॥

साधनं मन्त्रयन्त्रस्य यात्रायोगं च सर्वदा ।

अधोमुखानि कार्याणि माघास्वरबले कुरु ॥ ३६ ॥

घर्णस्वरबलात्सर्वं कर्त्तव्यं च शुभाशुभम् ।

सिद्धिदं सर्वकालेषु युद्धकाले विशेषतः ॥ ३७ ॥

मारणं मोहनं स्तम्भ विद्वेषोद्याटनं वशम् ।

विवादं विग्रहं घातं कुर्याद्गृहस्वरोदये ॥ ३८ ॥

भक्ष्यपानादिकं सर्वं यन्मालंकारभूषणम् ।

विद्यारम्भं विवाहं च कुर्याज्जीवन्वरोदये ॥ ३९ ॥

प्रासादारामाहर्ष्याणि देवतास्थापनं तथा ।

राज्याभिषेचनं दीक्षा कर्त्तव्यं राशिके स्वरे ॥ ४० ॥

शान्तिकं पौष्टिकं यात्रां प्रवेशं धीजनापनम् ।

स्त्रीविवाहस्तथा कर्त्तव्या भस्वरोदये ॥ ४१ ॥

शत्रूणां देशभङ्गश्च कोटयुद्धं च वेष्टनम् ।

सेनाध्यक्षस्तथा मन्त्री कर्त्तव्या पिण्डकोदये ॥ ४२ ॥

योगेन साध्यते योगं देहस्थं ज्ञानसम्भवम् ।

अर्णवं शाम्भवं चैव शाक्तेयं च तृतीयकम् ॥ ४३ ॥

साधनमित्यारभ्य योगेनान्त यात्रत्स्पष्टार्था । आर्णवमणिमादि सिद्धिम् ।
शाम्भव शम्भुप्रियम् । शाक्तेय शक्तिर्गौर्यादिस्तद्भ्रमम् । अमुना पूर्वोक्तप्रकारेण
अन्तरोदयमपि ज्ञेयम् ॥ ३६-४३ ॥

मन्त्र, यन्त्र, और तन्त्र के प्रयोग में मात्रादि स्वरों में किसका उपयोग
कहा होना चाहिए—यात्रा, युद्ध, मारण, मोहन आदि, भोजन, गृह, प्रामाद तथा मन्त्र
यन्त्रों का साधन यात्रा और अधोमुख कार्य मात्रास्वर के उली होने से करना
चाहिये । वर्ण स्वर के उल्लेख से सभी शुभ अशुभ कार्यों को करना चाहिये । त्रिप्रेषत
यात्रा और युद्ध म अवश्य वर्ण स्वर सिद्धिदायक होता है । मारण, मोहन, स्तम्भन,
विद्वेषण, उच्चाटन और घसीकरण ये छ कर्म तथा विवाद, विग्रह और घात ये
सभी कार्य ग्रहस्वर के उल्लेख से करना चाहिये । सभी प्रकार के भोजन, पान आदि,
वस्त्र, आभूषण, विचाररत्न और विवाह यह जीवस्वर के उदय में करना चाहिये ।
प्रामाद, बगीचा, मकान, देवता की स्थापना, राज्याभिषेक और दीक्षा ये सत्र कर्म
राशिस्वर के उदय में करना चाहिये । शान्तिक, पौष्टिक, यात्रा और गृहप्रवेश, धीज
योजना, कन्या का विवाह इन सभी कार्यों को नक्षत्रस्वर के उदय में करना चाहिये ।
शत्रुओं के देश को जीतने में, कोट युद्ध में तथा घेरने में सेनापति और मन्त्री का
सुनाव आदि कार्य पिण्डस्वर के उदय में करना चाहिये । शरीर स्थित योग क्रिया
का साधन तथा अणिमा, गरिमा, आदि मिद्धिया, शम्भु की सिद्धि तथा तीमरी
दुगा आदि की मिद्धिया सभी योग स्वर में करनी चाहिये ॥ ३६-४३ ॥

अथ तिथिसारनक्षत्रस्वरमाह—

तिथिर्वारं च नक्षत्रं पृथक् पृथक् प्रभाषितम् ।

यत्तदेकत्र सम्मील्य कुर्याद्वर्णस्वरोदयम् ॥ ४४ ॥

यस्य नामादिसं वर्णं तिथिवारर्क्षजं मृतम् ।

तद्दिनं वर्जयेत्तस्य हानिमृत्युकर यतः ॥ ४५ ॥

अनेन स्वरयोगेन शत्रूणां मारणादिकम् ।

मन्त्रयन्त्रक्रियाहोमं विदध्यात्तद्दिने बुधः ॥ ४६ ॥

तिथियारमिति—तिथिस्वरो नन्दादि चारस्वरमङ्गलादि षडस्वरोन्य ।
नक्षत्रस्वरो रेखादि । एषामुदय पृथक् पृथक् तत्सर्वमेकत्र वर्णस्थाने
तिथियारनक्षत्रस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	आ
क	ग	घ	च	ज
ख	झ	ञ	ट	ठ
ड	ढ	त	थ	द
ध	न	प	फ	ब
भ	म	य	र	ल
ष	श	ष	स	ह
१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५
म	यु	वृ	शु	षा
र	घ	०	०	०
रे	पु	उ	अ	ध
अ	पु	ह	जे	ध
भ	हे	चि	मू	न
ह	म	खा	पू	पू
रो	पू	वि	उ	उ
रु				
आ	०	०	०	०

स्थित तत्समीन्य वर्तुलीकृत्य वर्णस्वर
पुर्यात् । अयमर्थः । अकारादिपच
स्वरेषु यो वर्णश्चरन्त रघः स्यस्वचक्रे
यानि तिथियारनक्षत्राणि न्यस्तानि
तानि वर्णस्वरवशाद्दालुमाराणि फल
दानि स्युः । यथोत्पाहरणम् । सदा
न्दम्य नाम्न मकारोपरि स्थित एकारो
वर्णस्वरो बालस्तत्रयश्चक्रान्त स्थित
चतुर्थी-नक्षत्री-चतुर्शी (४-६-१०)
तिथिषु बालः । एष गुणवारोऽपि
बालस्तत्रयश्चक्रान्त स्थितानि अनुस-
धाज्जेषामूलपूर्वापाठोत्तरापादा एतानि
नक्षत्राणि बालानि तद्विनिर्णयित्वा-
नक्षत्राणि गुमारादीनि व्यवहरणी-
यानि एतन्मन्त्राणि नामनो व्यवहर्त-
व्यम् । इति तिथियारनक्षत्रस्वरच-
क्रम् । यन्वेति । यस्य पुंसो नामादिभ
नामादिजो वर्णो तिथियारनक्षत्र
मृतम् यन्मिन दिने एष म्यात्तरि
तस्याभिमतक्रियासु वर्तयेत् । यत्
तद्दिने तत्र्यथाऽभित्युपरम् । अनेनेति ।
अनेन स्वरयोगेन यद्विग्रहो मृतम्य
राज्यो म्यम्य ए घातादीना गुमार-

युयोरुदय । तत्र शत्रूणा मारणादि मन्त्रादिगियया च तद्दिने पुष्य
पण्डित साधयेति ॥ ४४-४६ ॥

नाम के आदि धर मे जलम-भलम रफ मुप तिथि पार मपय क अनुवार
वर्तार के नाम स उमर अवस्था का ज्ञान करमा चादिप । निम पुष्य क म चादि
वर्ण मे तिथि पार नक्षत्र म उदयन स्वर मत्त हो उम पुष्य के निम यह पार तिथि-
नक्षत्र हानि एष पुष्य मने पञ्च हाना है । इस धर स्वरयोग मे सपु के
मारण आदि मन्त्र, मन्त्र, निम, हाम आदि करमा चादिप अर्थात् तिथि रिम मनु का
मृतमर हो उगा दिन मारण आदि करमा चादिप ॥ ४४-४६ ॥

अथ बालादिस्वराणामवस्थासंख्यामाह—

बालस्वरादिकावस्था भानुसंख्या भवन्ति ताः ।
 उदयन्ते क्रमेणैव स्वस्वभुक्तिप्रमाणतः ॥ ४७ ॥
 घटिकाख्ये दिने पक्षे मासे ऋत्वयने तथा ।
 वर्षे द्वादशवर्षे च अवस्था जायते स्वरे ॥ ४८ ॥
 भपलानि घटीपञ्च मपादोऽर्धदिनद्वयम् ।
 द्युपदकं पक्षमासाब्दमवस्था प्रमितिः क्रमात् ॥ ४९ ॥
 भुक्तस्वरप्रमाणं तु स्वस्वभोगेन तद्भवेत् ।
 गतावस्था गताङ्केन शेषं तत्कालजा मता ॥ ५० ॥

भूका च बाला शिशुहासिका च कुमारिकायौवनराज्यदा च ।
 क्लेशा च निन्द्या ज्वरिता प्रवासा मृता च बालस्वरजा अवस्था ॥
 स्वस्था शुभा मोघनिर्हर्षवृद्धिमहोदयाः शान्तिकरी सदर्या ।
 मन्दा शमा शान्तगुणोदया च माङ्गल्यदा द्वादशधा कुमारे ॥
 उत्साहधैर्योग्रजया कला च सङ्कल्पयोगा च सकामतुष्टी ।
 सुखा च सिद्धा च वनेश्वरी च शान्ताभिधाद्वादशधायुवाख्ये ॥
 वैरुल्यशोपा च तथा च मोघा च्युतेन्द्रिया दुःखितरात्रिनिन्दा ।
 बुद्धिप्रमङ्गा च तथा च क्लिष्टा ज्वरामृता द्वादशधा च वृद्धे ॥
 छिन्ना च यधारिपुघातकारी शोपामही ज्वालनकष्टदा च ।
 व्रणाकिता भेदकरी च दाहा मृत्युक्षयाद्वादशमृत्युजा इमाः ॥
 एव पष्टिरवस्थाः स्युरवस्था पञ्चके सदा ।

सर्वासु तासु विज्ञेयं स्वनाम सदृश फलम् ॥ ५६ ॥

बालस्वरादिकेति । बालस्वरादिकावस्था भानुसंख्या द्वादशसंख्या भवन्ति ।
 ताम्नु द्वादशावस्था स्वरभुक्तिप्रमाणेन स्वस्वभोगप्रमाणेन क्रमेणो-
 दयन्ते । घटिकाख्ये दिने पक्षे मासे ऋतो अयने वर्षे च द्वादशावस्था
 जायन्ते । भपलानीति । घटीस्वरो भपलानि घटीपञ्च सप्तविंशतिप-
 लाधिके पञ्चदण्डात्मके ५२७ । अत्र द्वादशभागो भपलानि गृहीत । दिने
 तिथौ पष्टिदण्डात्मके द्वादशभाग पञ्चदण्डा । पक्षे साध्यद् मपादिनम्
 १।५ । मासे द्वादशो भाग सार्धदिनद्वयम् २३० । ऋतौ द्वादशो भाग

शुपटक पट्टिनानि । अयने पट्टारद्यामके द्वादशो भाग पत्र १५ । वर्षमानो
द्वादशभाग । द्वादशवर्षे एक वर्षे द्वादशभाग । एव क्रमाद् भोगप्रमाणेन
अवस्था भवन्ति । सुखम्बर इति । यस्य बालादिम्बरस्यावस्था घटीय
रावौ ज्ञातुमिच्छते तेनोक्त सर्वं पलीकृत्य स्वस्वभोगेन द्वादशभागेन विभक्ते
भागे हते बल्यत् तत्सख्यागतारस्था श्रेया शेष वर्तमानारस्था । शेषे तु
गतगम्यकरणात् गते पट्टयुद्धते तत्समय । गम्ये पट्टयुद्धते गम्यसमय
इति । अन्योदाहरणम्—यथा चेत्प्रशुभप्रतिपदि शुक्लघटिका ३३ । तिथी
द्वादशावस्था प्रमाण पञ्च घट्टय पञ्चदशारेण भक्तं प्राप्ता पडवस्था मुक्ता ६
शेषघट्टय ३ । सप्तम्यवस्था विद्यते । मन्तनन्त्यस्त्र निचर्याया वर्णम्बरौ एतार
स्तद्व्येन सदानन्दम्य प्रतिपत् बालारस्था । तद्वलात् राज्यत् अवस्था भवतीति
अनेनोदाहरणेन सर्वेषामवस्थाफल निर्णेतव्यम् । मूला च घानेति अवस्था
नामानि लिखन्ते सुगमम् च ॥ ४७-४६ ॥

पंच स्वरो म प्रत्येक की १० अवस्था पत्र १२ × ५ = ६० अवस्थाए हाती
हैं, तदनुसार शुभाशुभ फल निश्चय किया जाता है—यालू आदि प्रत्येक स्वरो की
चारह अवस्थाएँ होती हैं, और यह प्रत्येक क्षणे २ भोग प्रमाण म उद्य होनी हैं ।
घटीम्बर, तिथिम्बर, पशुस्वर, मासम्बर आनुम्बर क्षयन, धन और द्वापदा
वार्षिक स्वरो म प्रत्येक म द्वादश अवस्थाएँ उद्दिष्ट होती हैं । घटीस्वर में ५ घटी
२० पट्ट, तिथि म ५ घटी, पशु में १ दिन १५ घटी, मास म ० दिन ६० घटी,
शत्रु में ६ दिन, अयन म १५ दिन, वर्ष म १ मास, द्वादशवार्षिक में १ वर्ष प्रत्येक
का १० वा भाग प्रत्येक में प्रत्येक अवस्थाओं का भाग होता है । निचर्या यालू आदि
स्वरो में अवस्था का विचार करना हो, यह निचर स्वरो में जितना समय में विचार
राना चाहता हो उसका पत्र पताकर, उस स्वर के १२ में भाग के लक्षण म मने
भाग दन से लब्धि व लक्षण म अवस्था होती है । शेष मने होता है उम पर मास
समय को निकाल कर दोनों में ६० में भाग देने से मने और समयकाल दता है ।
१, मूला २, बाला, तिथु ३, हायिका ४, कुमारिका ५, वीर्यन ६ रावपदा ७, प्रसा
८, निचर्या ९, उवरीता १०, प्रयाया ११ और मूला व यास्वर के १२ अवस्थाओं
के नाम हैं । स्वस्था १, शुभा २, मेषा ३, तिदयी ४, पृष्टि ५, महादया ६,
सागिकरी ७, सुदया ८, मत्त ९, वामा १०, सागिकरी ११, और सागिकरी व
कुमारस्वर के अवस्था हैं । उमाद १, वैष २, उग्र ३, जया ४, वला ५, मकर-
योगा ६, मकामा ७, मुष्टि ८, गुणा ९, तिदया १०, घनेश्वरी ११ और साग १२
वे १२ अवस्थाएँ सुवा स्वर की हैं । वैषव १, लम्बा २, माया ३, पशुनेदिषा
४, दुर्गित ५, रात्रि ६, निद्रा ७, मुष्टि ८ प्रमागा ९, निचर्या १०, स्वरा ११ और
मूला १२ वे १२ अवस्थाएँ वृत्तस्वर की हैं । तिदया १, यथा २, तिदयाकाली

३, शोषा ४, मही ५, ज्वालन ६, कष्टदा ७, घणाकित ८, भेदकरी ९, दाहा १०, सृष्ट्युक्ती ११ और क्षया १२ ये १२ अवस्थायें मृतस्वर की हैं। ये पाचों स्वरों के ६० अवस्थाओं के नाम हैं ये अपने नाम के सदृश फल देने वाले होते हैं ॥४७-५६॥

अथ युद्धादिषु दिक्स्वरमाह—

पूर्वस्मिन्नस्वरः स्वामी इकारो दक्षिणे तथा ।

उकारो पश्चिमे ज्ञेयं ए सौम्ये मध्य ओस्वरः ॥ ५७ ॥

यस्या दिश्युदयं याति स्वरस्तत्पञ्चमी दिशम् ।

वर्जयेत् सर्वकार्येषु यात्राकाले विज्ञेयतः ॥ ५८ ॥

पृच्छते पृच्छकः स्थास्तुः स्वरस्तमितां दिशम् ।

हानिर्मृत्युर्भयं भद्रो जायते नात्र संशयः ॥ ५९ ॥

पूर्वेति स्पष्टम् । यस्यामिति । यस्मिन्मिथो य स्वर यस्या पूर्वादि दिशि उदय याति तत्पञ्चमी दिश सर्कार्येषु वर्जयेत् । विज्ञेयतो यात्राकाले ता न गन्त्रेत् । पञ्चमी दिश वर्जयेदित्यत्र मात्राया अष्टम्बरा तेषा कस्य बलेन पञ्चमी मृताख्य वर्जयेत् किमपि नोक्तम् । अत्रैव ज्ञायते कपेरभिप्राय वर्णस्वरद्वेय । अर्थात् यस्य यो वर्णस्वरस्तस्य सा दिक् । तत्पञ्चमी वर्जयेत् । इति जयलक्ष्मीटीकाकारैर्व्याख्यातम् । तत्रत्योदाहरणमिति । यथा देवदत्तस्य वर्णस्वर ओकार मध्ये स्थित मध्यात्प्रालक्षिण्येन देवदत्तस्य पचमी दिगुत्तरा अत देवदत्त उत्तरा यात्रायुद्धे प्रियात् च सर्वदा वर्जयेत् । सप्तामे सेनामध्ये ता दिश न ममाश्रयेत् । नरहरिस्तु यथा इकारस्वरो द्वितीयामत्रमीद्वादशीषु दक्षिणस्या निश्चुदित । तत्पञ्चमीदिक्पूर्वा तेन मा न गन्तव्या । तत्र मृतस्वर-न्याकारस्योदितत्वात् । मध्येदिक् कथ व्यग्रहर्त्तव्यमिति सशये प्रतिपत्पृथ्ये-कादशीषु अकारोदय पूर्वदिशि तत्पञ्चम प्रदेशो मध्य प्रामादूर्ध्वार-न्धितगृहादि न गन्त्रेदिति समर्थनीयम् । पृच्छते इति । स्वरस्य दिक् क्रमेणोदितस्य पञ्चमी दिश लक्ष्योक्त्य स्थाणु पृच्छको यदि पृच्छति प्रश्न करोति तदा हान्यादिक जायते अत्र मशयो न । यथा द्वितीया मिकारस्य दक्षिणदिश्युत्थात् पूर्वदिगस्तमिता तदत्रस्थितफलमेव वक्तव्य मित्यर्थ ॥ ५७-५९ ॥

पूर्वादि दिशाभि मं स्वरों का क्रम यात्रादि की सफलता के लिये घताया जाता है । पूर्व दिशा में अस्तर और १।६।११ तिथियों का उदय होता है । दक्षिण में

दिशास्वरचक्रम्

०	पूर्व अ १।६।११	०
उ	ओ	द
४।९।१४	५।१०।१५	२।७।१२
८	उ ३।८।१३	५

इ स्वर और २।७।१२ तिथियाँ, पश्चिम में उ स्वर और ३।८।१३ तिथियाँ, उत्तर में एकार स्वर और ४।९।१४ तिथियाँ और मध्य में ओ स्वर तथा ५।१०।१५ तिथिया उदय होती हैं। जिस तिथि को जो स्वर जिस दिशा में उदित हो, उस दिशा से पाचवीं दिशा में यात्रा आदि न करे। यदि स्वर के दिशा से पाचवीं दिशा अर्थात् अस्त दिशा में स्थायी राजा युद्ध के निमित्त प्रश्न करे तो हानि आदि कहना। जैसे द्वितीया तिथि को इकार स्वर का उदय

दक्षिण दिशा में है उससे पाचवा दिशा पूर्व अस्तदिशा हुई यदि अस्त दिशा में घेठकर स्थायी प्रश्न करता हो तो हानि आदि कहना ॥ ५७-५९ ॥

अथ तात्कालिकस्वरमिरणम्—

तिथ्यादाबुदयं याति तियिस्वराद्धटिकास्वरः ।
 बालस्वरादिका प्रश्ने फलं तस्य वदाम्यहम् ॥ ६० ॥
 तिथिभुक्तघटीसंख्या कृत्वा पलमयीं ततः ।
 ऋक्षवह्निहृते शेषे स्वरस्तत्कालसम्भवः ॥ ६१ ॥
 यमुद्दिश्य कृतः प्रश्नः फलं तस्य प्रजायते ।
 यत्र नोद्दिश्यते किञ्चित् तत्र प्रष्टुः शुभाशुभम् ॥ ६२ ॥
 बालोदये यदा पृच्छा लाभार्थं स्वल्पलाभदा ।
 रूगातं चिररोगं च गमे हानिः क्षय रणे ॥ ६३ ॥
 कुमारोदय बेलायां लाभो भवति पुष्कलः ।
 रजो नाशो जयो युद्धे यात्रा सर्वत्र सिद्धिदा ॥ ६४ ॥
 युवोदये भवेद्राज्य क्लेशच्छेद च तत्क्षणात् ।
 संग्रामे शत्रुहंता च यात्रा च सफला भवेत् ॥ ६५ ॥
 वृद्धोदयेऽन्नलाभः स्यात् क्लेशिनां क्लेशवर्धनम् ।
 सङ्ग्रामे मङ्गमायाति यात्राया न निवर्त्तते ॥ ६६ ॥
 मृतोदये यदा प्रष्टा पृच्छति स्वं प्रयोजनम् ।
 तत्सर्वं मृत्युद ज्ञेय युद्धे मृत्युः समदरुः ॥ ६७ ॥

ओजस्वराः पुमांसः स्युः स्त्रियो युग्मेस्वरान् विदुः ।

स्वस्वस्वरोदये जाते पुंसां स्त्रीणां बलं भवेत् ॥ ६८ ॥

गर्भार्थं पुंस्वरे पुत्रः कन्या कन्यास्वरोदये ।

युग्मे युग्मं क्षयो नष्टे मातुर्मृत्युश्च संक्रमे ॥ ६९ ॥

द्युनाडीस्वरयोः पुंसो पुंयुग्मं स्त्रीयुगं स्त्रियोः ।

तयोस्तु पुंस्त्रियोः पुंस्त्रीयुग्मं गर्भं विनिर्दिशेत् ॥ ७० ॥

तिथ्यादाविति—तिथ्यादौ तिथिप्रारम्भसमये तदा हि यस्तिथिस्वरस्त-
स्मा सार्धपचघट्ट्युदय याति पष्टिघट्ट्यात्मके तिथौ तत्र प्रश्ने सति तस्य
बालकुमारादिलक्षणे घटीस्वरो भवति । तस्य प्रष्टु फल त्रयीमि । तिथेर्यावती
घटी भुक्ता तत्सख्या पष्ट्या सगुण्य फलमर्या कृत्वा । तत्र ऋष्यरहिङ्गते सति
समप्रिशत्यधिकशतत्रयेण भागे हते यल्लब्ध तिथिस्वराधिको भुक्तस्वर
शेषन्वत्कालसम्भवस्तात्कालिकस्वरो ज्ञातव्य । एष तिथेरतरोदयो घटीस्वरो
ज्ञातव्य । तिथेरन्तरोदये घटीस्वरमुपक्रम्य बालादिव्ययस्था घटीस्वरे तु मात्रा-
श्वराद्बालादिव्ययस्थेत्यव्ययहित पक्ष । यमुद्दिश्य । यद् बालादिव्ययस्थाज्ञानमु-
द्दिश्य प्रश्न कृतस्तस्य तत् फल प्रजायते फलभागित्त्र भवति । तन्नाम्ना
बालादि बालान्तिस्वरगणेनेत्यर्थ । यत्र किञ्चिन्नाम नोद्दिश्यते न प्रकाशयते तत्र
प्रष्टुरेव शुभमशुभ च फल वक्ष्यमाण वक्तव्यम् । यथा देवेन्द्रे नान्यमुद्दिश्य
प्रश्न कृत विजयस्येद कार्यं भविष्यति ? तत्र विजयस्य वर्णस्वरप्रशेन
बालादिस्वरदिशामधीकृत्य फल त्रयात् । उदाहरणम् । चेत्रशुक्लप्रतिपदि
अम्बरस्योदय । अतरोदयपलानि ३२७ । तिथिभुक्तघटीस्वरया १५।५० ।
तस्य पलानि ६५० अतरोदयपलेन लब्ध गतस्वरा ० शेष २६६ शेषे अकारा-
त्तृतीयस्वर उदित । यदि देवेन्द्रेण प्रश्नफलवक्तृममीपात् प्राक् दक्षिणे पश्चिमे
वा उत्तरेऽपस्थितेन प्रश्न कृत चेत्सर्वतोभद्रचक्रेणोत्तलक्षणेनास्तमिता दिक्
तदा यत् कार्यमुद्दिश्य प्रश्न कृतस्तत्कार्यं हानिर्नक्तव्या । सप्रामादिसात्मक-
र्मणि भयम् । युद्धे भङ्ग । नैर्ग्यप्रश्ने मृत्यु इत्यादीनि पठेत् । ओजस्वरा
इति । ओजस्वरा विपमस्वरा प्रथमतृतीयपचमा अ उ ओ एते त्रय पुमान्
पुरुषस्वरा स्यु । युग्मस्वरा समस्वरा इ ऋ एने समस्वरा स्त्रीसजका ।
स्वन्यस्वरोदये विपमाख्या पुन्यस्वरोदये पुना बल भवति । स्वरारयसमम्ब-
रोदये स्त्रीणा स्त्रीजातीयाना बल भवति । एतारस्वस्वस्वरोदये तत्तदाख्य-
कार्याणि सिध्यन्ति । तथा च पुंस्वरे वर्तमाने बालान् पुमान् बलान् आधाने
तु पुत्रोत्पत्तिरेव स्त्रीस्वरे कन्योत्पत्तिः । गर्भार्थं इति । प्रष्टा पृच्छति
अस्मिन् गर्भं पुन वा पुत्री भविष्यति । तस्मिन्सति तत्काले अकारस्य

उकारस्य, ओङ्कारस्य उदयश्चेति तदा गर्भे पुत्रो भविष्यतीति वाच्या । तत्काले इकारस्य एकारस्य अनयोर्द्वयस्तदा गर्भे कन्या वाच्या । युग्मे पुस्त्याग्य स्प्रोदये युग्म वदेत् । नष्टस्वरोदये अस्तमिते पापत्रिद्वे वा गर्भनष्टता वाच्या । सक्रमे पुस्त्याख्यस्वरोदये समाप्ती मातुर्मृत्युर्वाच्या । द्युनाटीति । दृष्टि-
मस्तिथिस्वर नाडी घटीम्बर' तत्कालपचघटिकान्तरोदयस्वरा नौ च यदि त्रिपमौ पुसङ्गकौ भवतस्तदा पुत्रद्वय वदेत् । ए. स्त्याग्यौ' दिनम्बरघटी स्वरो तदा कन्याद्वय वदेत् । तौ यदि पुस्त्रियौ तयोरकार पुसान् एकार स्त्री तदा पुरुषकन्ये भवत इति वदेत् । अनयोरेकस्मिन्नष्टे अस्तमितेन प्रद्वेधेन वा तदा तस्य नष्टता वाच्या ॥ ६०-७० ॥

अनेक विध स्वर भेदों को जानकर प्रश्न कर्त्ता के प्रश्न के अनुसार स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी को निर्भीकता से सटीक उत्तर देना चाहिए जो सही होगा आचार्य इन्हीं दृढ़ता से निम्न भाति कह रहा है—तिथि के आरम्भ समय में जिस स्वर का उदय हो उससे घटीस्वर का ज्ञान करना चाहिये । उससे प्रश्न का फल में कहता हूँ । तिथि के शुक्लघटी को अर्थात् निम्न समय प्रश्नकर्त्ता न प्रश्न किया उस समय तिथि की जितनी घटी तीतचुकी हो उसका पल बनाकर उसमें ३२७ को भाग देने से लब्धि तुल्य गतस्वर और शेष वर्तमान स्वर तारकालिक होता है इसी को घटीस्वर कहते हैं । प्रश्नकर्त्ता जिस पदार्थ या जिसका नाम लेकर प्रश्न किया हो उस पदार्थ या नाम से वर्णम्बर के अनुसार घालादि स्वर और दैवज्ञ से पूर्वापर याभ्योत्तर दिशा में स्थित प्रश्नकर्त्ता के स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल कहे । यदि वह अस्तगत हो तो जिस कार्य के लिये अथवा जिसके लिये प्रश्न किया है वह कार्य नहीं होगा ऐसा कहे । यदि किसी का नामोच्चारण नहीं करता हा तो प्रश्नकर्त्ता ही का शुभाशुभ फल कहे । यदि तारस्वर के उदय में लाभ के निमित्त प्रश्न हो तो थोड़ा लाभ होता है । रोग के लिये प्रश्न हो तो अधिक रोग, यात्रा में हाजि और रण में मृत्यु होती है । कुमारोदय में अधिक लाभ, रोग का नाश, युद्ध में विजय और यात्रा में सभी कार्य सिद्ध होने हैं । पुषास्वर के उदय में राज्य प्राप्ति, राग का नाश, सप्राप्त में दायु का नाश और यात्रा में सफलता की प्राप्ति होती है । बुद्ध स्वर के उदय में अन्न का लाभ, रोग में रोग की वृद्धि, सप्राप्त में हाजि और यात्रा में पुन आगमन नहीं होता है । यदि मृत्युस्वर के उदय में प्रश्नकर्त्ता अपने मनोरथों को पूछता हो तो सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं और युद्ध सबधी प्रश्न में उस योधा की मृत्यु होती है । विषम स्वर अ, उ ओ यह पुषस्वर है और ममस्वर इ, ए यह स्त्री सङ्ग है । अपने अपने स्वर के उदय काल में पुष्य और स्त्री बली होते हैं । यदि गर्भ सङ्गर्था प्रश्न हो कि हम गर्भ में पुत्र वा पुत्री किसका जन्म होगा तौ उस समय

पुरुषस्वर का उदय हो तो पुरुष, स्त्री स्वर का उदय हो तो स्त्री का जन्म कहना । यदि दोनों स्वरों का उदय हो तो दोनों कहना । अस्तमित स्वर में प्रश्न हो तो गर्भ नष्ट होगा ऐसा कहना । सक्रम काल अर्थात् दोनों पुरुष स्त्री स्वरों के समाप्ति काल में यदि प्रश्न हो तो माता की मृत्यु कहना । यदि स्थिष्पर और घटीस्वर दोनों विषम हों तो दो पुरुष, दोनों सम हो तो कन्या, एक विषम और एक सम हो तो एक पुरुष और एक कन्या कहना । इनमें जो अस्तगत स्वर हो उसके जन्तु को नष्ट कहना ॥ ६०-७० ॥

अथ नम्यत्रचरणवर्णप्रशात्फलम् —

जन्मर्क्षे जन्मपादो यस्तद्वर्णे योऽक्षरस्वरः ।
 तेन नाडीस्वरो ज्ञेयः स्वभावः प्राणिनामभिः ॥ ७१ ॥
 चपलः कातरो मूर्खः कृपणश्चाजितेन्द्रियः ।
 असत्यो बहुभापी च जातो बालस्वरोदये ॥ ७२ ॥
 व्यवसायी कलाभिज्ञः स्त्रीरतः सुभगः सदा ।
 दीर्घायुर्विग्रही शूरः कुमारोदयसंभवः ॥ ७३ ॥
 सर्वलक्षणसंपूर्णो राजा भवति धार्मिकः ।
 सर्वकालं जयी युद्धे जाते युवोदये शिशुः ॥ ७४ ॥
 स्त्रीजितो धार्मिकः कामी विवेकी स्थिरसाहसः ।
 सत्यवादी सदाचारः पुमान्वृद्धोदयोद्भवः ॥ ७५ ॥
 ह्येशीसमत्सरः क्रूरो निष्कर्मा विकलेन्द्रियः ।
 सर्वकार्यालसो दुष्टो जन्मर्क्षस्य मृतोदये ॥ ७६ ॥

जन्मर्क्षे इति । जन्मर्क्षे जन्मनक्षत्रे यो जन्मपादो जन्मनक्षत्रचरणा तद्वर्णे अर्थात्नम्यत्रचरणे योक्षर तद्वशेन यो स्वरस्तद्वर्णस्वर तथा जन्मसमये यो नाडीस्वर तस्मिन् बालादिसज्ञा स्थापनीया । प्राणिना स्वभावसिद्ध इति । उदाहरणम् । यथा भाद्रपदशुक्लप्रतिपदि उत्तराफाल्गुनीभे तृतीयचरणे-सदानन्दस्य जन्म । उत्तराफाल्गुनी तृतीयचरणानुराघेन पद्मानाभ इति जन्म-नाम अथ पद्मानाभस्य अकारो वर्णस्वर । पद्मानाभस्य जन्मतिथौ बालारय-स्वरस्तत्फल वान्या । इति । चपलादेरारभ्य पञ्चश्लोका स्पष्टार्था ॥७१-७६॥

आचार्य जातक ग्रन्थों में कथित फलादेश की तरह यहाँ स्वर दाख से जातक का शुभाशुभ विचार कर रहा है । जन्मनक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उसके

अनुमार जो वर्ण उसका जो स्वर वह वर्णस्वर होता है और तिथि के अनुसार जो नाड़ी स्वर—वह नाड़ीस्वर वर्णस्वर से जिस अवस्था को प्राप्त हो उससे आगे कहे

तात्कालिक प्रश्नस्वरचक्रम्

अ	इ	उ	ए	ओ
क	ख	ग	घ	च
छ	ज	झ	ट	ठ
ड	ढ	त	थ	द
ध	न	प	फ	ब
भ	म	य	र	ल
व	श	ष	स	ह
१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५
म	यु	वृ	शु	श
सू	घ			
अ	अ	अ	अ	अ
५	५	५	५	५

हुये अनुसार बालक का फल कहे। बालस्वर के उदयकाल में जन्म हो तो बालक चंचल, कातर, मूर्ख, कृपण, दुराचारी, झूठा, बहुत बोलने वाला होता है। कुमारस्वर के उदय में जन्म हो तो रोजगारी, कला को जानने वाला, स्त्रीभक्त, भाग्यवान्, दीर्घायु, विग्रह करने वाला शूरवीर होता है। युवा स्वर के उदय में सभी लक्षणों से युक्त राजा, धार्मिक, युद्ध में हमेशा विजयी होता है। युद्धस्वर के उदय में जन्म हो तो स्त्री से हार गाने वाला, धार्मिक, कामी, विचारशील, साहसी, सत्यवादी, सदाचारी होता है। मृतस्वर के उदय में जन्म हो तो कष्ट भोगनेवाला पाखंडी, दुष्ट, व्यर्थ, त्रिकलेन्द्रिय, सभी कार्यों में आलसी होता है ॥ ७१-७६ ॥

ककारादिदकारांताः

पचह्रस्वस्वरास्तथा ।

बलिनः स्युः सिते पक्षे

शेषाः सर्वे सितेतरे ॥ ७७ ॥

एकस्वरः पृथग्वर्णः

पक्षयोरुभयोर्यदि ।

तत्र पक्षबलं ग्राह्यं

शुक्लकृष्णविभेदतः ॥ ७८ ॥

एकपक्षाक्षरे चैकः

स्वरश्चेद्योधयोर्द्वयोः ।

शुक्ले गौरो परे कृष्णो युद्धे जयति निश्चितम् ॥ ७९ ॥

यस्मिन्नेकस्वरे कृष्णो गौरौ वा सुभटौ यदि ।

स्वरासन्नोक्षरो ह्रस्वो दीर्घो दूराक्षरो जयी ॥ ८० ॥

प्रमाणनामवर्णैक्यं

युद्धकारकयोर्यदि ।

तत्र युद्धे बलं देयं यायिस्थायिविभेदतः ॥ ८१ ॥

योधयोः सर्वभेदैक्ये स्वरे यूनि कुमारके ।

यायी जयी तथा स्थायी बालवृद्धांतिमस्वराः ॥ ८२ ॥

आद्य तिथौ त्रयो वर्णा द्वौ द्वौ वै शेषयोर्यदि ।

एवं तिथित्रये ज्ञेया वर्णसंख्या तिथिस्वरे ॥ ८३ ॥

वर्णतिथ्यादितिथ्याख्याजन्महानिर्मृतिस्तथा ।

भीर्जन्मनि रुजा हानी मृतौ मृत्युर्न सशयः ॥ ८४ ॥

ककारादिति । ककारादिकारान्ता क ख ग घ ङ, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ ण त य द वर्णास्तथा पञ्च ह्रस्वस्वरा अ इ उ ए ओ एते शुक्लपत्ने वलिन स्यु शेषा ध न प फ ब भ म, य र ल व श प स ह, आ, ई, उ, ऐ औ अ अ एने कृष्णपत्ते वलिन स्यु । एस्वरैति । यत्रोभयो स्वर एक पृथक्पक्षयो शुक्लकृष्णपक्षयोर्णो नामादौ भवतस्तत्र पञ्चवल शुक्लकृष्ण-भेदतो प्राह्यम् । यथा कमलेन्द्रचन्द्रेन्दयो ककारचकाराद्योरेकोऽकारो वर्णस्वर ककार, शुक्लपत्ते वली, चकार कृष्णपत्ते वलीति । तत्र पत्ते तौ प्रत्येक यायिनौ शुक्लकृष्णभेदादिति । एकपक्षात्पर इति । द्वयोर्योधयोरेक-पक्षाक्षराद्योर्नामादिवर्ण स्वर एकश्चेद्भवेत् । तदा शुक्ले शुक्लपत्ते गौरो गौरवर्ण अपरे कृष्णपत्ते कृष्ण श्यामवर्णो निश्चित जयति । अत्र वर्णानामेव प्राधान्य न स्वराणाम् । यत् शुक्लकृष्णयोरपि वर्णत्वम् । यथा कमलेन्द्र, गौरवर्ण चन्द्रे-न्दय श्यामवर्ण यत्र अत्रद्वयो स्वरस्त्वेकमेवऽकार पक्षोऽप्येक एव तत्र कमलेन्द्रो गौरत्वेन शुक्लपत्ते जयी । चन्द्रेन्दुस्तु श्यामवर्णत्वेन कृष्णपत्ते जयीति । यस्मिन्निति । यस्मिन्नेकपक्षाक्षरे एक एव स्वरयोर्द्वौ गौरो कृष्णौ वा स्वरा दीर्घा भवतस्तत्र यदि ह्रस्व स्वरचक्रे लिखनक्रमेण स्वरासन्न क्षर तदा स जयी भवति । पक्षयोर्दीर्घाक्षर न यदि स्वराद्दूराक्षरस्तदा स जयी भवतीत्यर्थ । यथा रकारगकार वर्णाभ्या भटयोर्नाम तदा स्वरासन्ने ह्रस्वयोर्मध्ये रकार वर्णात्मको भट गकार वर्णात्मक भट जयति । तौ चेद्धीर्घौ तदा गकारवर्णात्मको भट रकार वर्णात्मक भट जयति । प्रमाणमिति । युद्धकारकयो द्वयो प्रमाण ह्रस्वादिनाम, वर्णो गौरत्वादि तेषामैक्य समता यदि स्यात्तर्हि तत्र यायिस्थायि निभेदत युद्धे बल ज्ञेयम् । योधयोरिति । योधयो भटयो पूर्वोक्तसर्वजयभेदैक्ये तुल्ये सति तत्काले नाडीस्वरे यूनि कुमारै वा स्वरे प्राप्ते यायी जयी भवति । बालवृद्धान्तिमे बालवृद्धमृतस्वरे युद्धकाले स्थायी जयी भवति । आगेति । प्रतिपत् पञ्चयेकादशीनामुपरि अ-व-ह-उ-व भ-व इति समाक्षराणि सन्ति तेषा ता एत तिथय । तत्राद्यतिथे प्रतिपदो वर्णाभ्य अ क छ इति । शेषयो द्वो द्वौ वर्णौ तत्र पृथया उधौ वर्णौ, भव इत्येनादश्य विभाग । एतमिकारादिषु तिथीना विभाग कर्त्तव्य । वर्णतिथ्यादि । तिथिर्णोर्दौ स्वरचक्रे तिथ्यारया तिथीना तिसृणामाख्या नाम भवति । वि

तन्नाममित्याह । जन्महानिर्भूतिस्तथा । आग्रा तिथेरेव जन्म नाम भवति । द्वितीयस्य हानिसज्ञा । तृतीयस्य मृतिनाम । यथा अफला यस्य नामपर्णा तस्य प्रतिपजन्मसज्ञा । पष्ठी हानि सज्ञा । एकादशी मृतिसज्ञा । यस्य षष्ठी तस्य पष्ठी जन्मसज्ञा । एकादशी हानिसज्ञा । प्रतिभन्मृतसज्ञा । यस्य भर्षा तस्येकादशी वर्णा जन्मसज्ञा । प्रतिपद्वनिसज्ञा । पष्ठी मृतसज्ञा । एवमिकारादिषु पर्णातिथिसज्ञा कल्प्या । अथ त्रयाणा फलमाह । भीर्जन्मनि जन्ममज्ञेभयम् । हानो रुजा । मृती मृत्युर्भवति ॥ ७७-८४ ॥

आचार्य के मत से ककारादि वर्ण, अकारादि स्वर और दोनां योद्धाओं का कृष्ण गौरश्यामादि वर्ण समझ कर युद्धारम्भ काल का निर्णय दिया जाता है—ककार स आरम्भ कर दकार पर्यन्त अर्थात् क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द इन वर्णों को शुक्लपक्ष में बली समझ, धीर शोष ध न, प फ य भ म, घ र ल ष, श ष स ह अक्षरों और आ ई ऊ ऐ ओ स्वरों को कृष्णपक्ष में बली समझ । जहाँ दोनां योद्धाओं के नाम के अनुसार शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के अनुसार एक ही स्वर हो वहाँ पर युद्ध में पक्षबल ही लेना चाहिये । जैसे कमलेन्द्र और चित्रेन्दु के नामादि वर्ण ककार और चकार के अनुसार अकार वर्णस्वर हुआ । ककार शुक्लपक्ष और चकार कृष्णपक्ष में बली है अतः यहाँ दोनां का पक्षबल लेना चाहिये । यदि दोनां के नामादि में एक ही पक्ष के अक्षर हों और एक ही स्वर हो और एक गौरवर्ण का हो और दूसरा श्यामवर्ण का हो तो ऐसे स्थिति में गौर और श्यामवर्ण के अनुसार शुक्ल और कृष्णपक्ष का बल देना चाहिये । अर्थात् गौर वर्णवाला शुक्लपक्ष में और श्यामवर्णवाला कृष्णपक्ष में बली होता है । जहाँ पक्ष वर्ण स्वर तीनों एक हों और ह्रस्व दीर्घ स्वर हों वहाँ आसन्न वर्ण के अनुसार विजय कहना चाहिये । जहाँ स्वर और गौरवर्णादि एक हों वहाँ यायी और श्यायी के अनुसार बल जानना चाहिये । यदि योद्धाओं के सभी विजय देनेवाले स्वरादिकों की एकता हो वहाँ तास्कारिक नाडीस्वर के अनुसार युधा और कुमारस्वर का उदय हो तो यायी और बाल वृद्ध तथा मृतस्वर के उदय में श्यायी विजयी होता है । पूर्वोक्त तिथिनक्षत्रादि स्वर में नन्दा तिथि के ऊपर अ क छ ङ ध भ य ये सात अक्षर, दि ह्राम प्रथम तिथि प्रतिपदा के अ क छ ये तीन वर्ण, पष्ठी के ङ ध दो वर्ण, और एकादशी के भ य ये दो वर्ण हैं इसी प्रकार इकारादि को भी जानना चाहिये । तिथि के अनुसार ही जन्म, हानि और मृति नाम हाता है । अर्थात् जिसके नाम के आदि में अ क छ इ म वर्णों में से कोई वर्ण हो उसके लिये प्रतिपदा जन्म सज्ञक, पष्ठी हानि सज्ञक और एकादशी मृति सज्ञक हाती है । जन्म सज्ञक में भय, हानि सज्ञक में रोग और मृति सज्ञक में मृत्यु होती है । इसके अनुसार सभी तिथियाँ अशुभ होती हैं तो कार्य कैसे किया जाय ? अतः इनका पक्ष यात्रादि में ही लेना चाहिये अन्यथा नहीं ॥ ७७-८४ ॥

स्वरादिनफल वक्ष्ये पुंसां कर्मप्रकाशकम् ॥ ८५ ॥

योगेपिण्डक्षराराद्याख्याजीवखेटाक्षरस्वरान् ।

उत्पाद्य नामतश्चाष्टौ मात्रान्तान् स्थापयेत्क्रमात् ॥ ८६ ॥

तस्याधस्ताल्लिखेचाष्टौ द्वादशाब्दादिकान्स्वरान् ।

स्वस्वभोगेन संयुक्तान् भोगश्चैकादशाशकः ॥ ८७ ॥

यथोत्तरवला योगादिमा' कालस्वरास्तथा ।

कालोदयस्वराश्चापि ज्ञातव्या' स्वरवेदिभिः ॥ ८८ ॥

अकारादिस्वरावस्था संख्यां वेद ४ प्रमाणिकाम् ।

विन्यस्य क्रमयोगेन ते च विशोपकाः स्मृता' ॥ ८९ ॥

यदुक्तमिति स्पष्टम् । योगेति । योगस्वर पिण्डस्वर, नक्षत्रस्वर, राशि-
स्वर, जीवस्वर, ग्रहस्वर, वर्णस्वर, मात्रास्वरान्तानष्टौ स्वरात्रामत उत्पाद्य
स्थापयेत् तिर्यम्पक्ति क्रमेण लिखेत् । तस्येति । तस्य योगस्वरादेरस्तात्
द्वादशाब्दादिकालान् स्वरान् द्वादशाब्दं वर्षायनर्तुमासपञ्चदिनवटीमभया
नष्टौ स्वरावनीय लिखेत् । कथंभूतान् स्वभोगेन समायुक्तान् स्थूलक्रमेणान्त-
रोदयेन प्रमाणेन निशान्य सहितान् भोगश्चैकादशाशक इति स्थूलमानेन
प्रत्येकमेकादश हृतेन यो भाग' प्राप्यते वर्षादिभ्यो यस्मिन् स भागो
भुक्तिरित्यर्थ' । यथा द्वादशापिके वर्षमेक मासमेक दिनद्वय लोकाब्धिनादिका
अष्टत्रिंशत्यलानि १ । १ । ० । ४३ । ३८ । यथोत्तरेति । स्वरवेदिभिरेते म्वरा
यथोत्तरवला ज्ञातव्या । के ने योगादिका मात्राता अष्टौ नामज उत्पादिता ।
तथा तेनैव प्रकारेण कालोदयाश्चापि । यथा योगस्वरात्पिण्डस्वरो वली,
पिण्डस्वरा नक्षत्रस्वर एव क्रमेणाप्रतोऽपि । तथा द्वादशान्त्रिकस्वराद्वापिका-
दयनस्वर एव क्रमेणाप्रतोऽपि ज्ञानव्यमित्यर्थ' । अकारादिति । अकारादि-
क्रमात् अ इ उ ए ओ एवक्रमेणोल्लिरय तद्व्यस्ताम् चैदाश्चत्वारस्तत्प्रमाणि-
काश्चतुसख्या विन्यस्य स्वरज्ञे विशोपका मता स्मृता इत्यर्थ' ॥ ८५-८६ ॥

मनुष्य के कर्म के प्रकाश करने वाले स्वरों में दिनरात्र का ज्ञान करना जो
यामलतत्र म कहा हुआ है उसे मैं गुरु के प्रमाद से कहता हूँ ॥ नाम से उत्पन्न
योग, पिण्ड, नक्षत्र, राशि, जीव, ग्रह वर्ण और मात्रा इन आठ स्वरों को उत्पन्न कर
क्रम से लिखे ॥ इन आठ स्वरों के नीचे क्रम से द्वादशवार्षिक, वार्षिक, अयन,
शत, मास, पक्ष, दिन और घटी स्वरों को भी अपने अपने भोगफल के साथ लिखे ।
इसका भोग प्रत्येक का ग्यारहवाँ भाग होता है ॥ ये योगादि मात्रांत आठ स्वर
और कालेन द्वादशवार्षिक आदि आठ स्वर यथोत्तरवला होते हैं । अर्थात् योगस्वर

से पिंडस्वर, पिण्डस्वर से नक्षत्र आदि षड् द्वादशवार्षिक से वार्षिक आदि बली होते हैं ऐसा स्वरशास्त्रज्ञ जाने ॥ अकारादि स्वरों के नीचे ४ चार की सग्या विशेषकर हाने के लिये लिख दें ॥ ८५-८९ ॥

योगाद्द्वादशवर्षे स्युरवस्थाः पिण्डतोवदके ।
 भस्वरादयने ज्ञेया राशिस्वराहृतुस्वरे ॥ ९० ॥
 जीवान्मासस्वरेऽवस्था गृहात्पक्षस्वरे तथा ।
 वर्णादिनस्वरे ज्ञेया मात्रास्वराहृटीस्वरे ॥ ९१ ॥
 द्वादशाब्दादिकः कालो यात्राकारादिकस्वरे ।
 स्थितस्तत्र शुभो न स्यात्पञ्चावस्था शुभोपि च ॥ ९२ ॥
 स्वरौ वृद्धान्तिमौ दुष्टौ बालपूर्वदलं तथा ।
 शेष सार्धद्वयं भव्यमिति ज्ञेया शुभाशुभा ॥ ९३ ॥
 द्वादशवार्षिकाद्या ये भ्रान्तरोदयसंस्थिताः ।
 ते शुभा एरुतः स्याप्या अशुभास्त्वन्यत. पृथक् ॥ ९४ ॥
 शुभाशुभस्वरूपस्य राशियुग्मस्य मध्यतः ।
 एकस्मात्पतिते शेषे ज्ञेयं तद्दिनज फलम् ॥ ९५ ॥

योगादिति । योगान्योगस्वराद्बालभृताद् द्वादशवर्षेऽवस्था बालाग्रस्था स्यु । अयमर्थः । द्वादशवार्षिकस्वरे य स्वरोंऽकारादिपूडित स योगम्बर बालमवधी कृत्य बाल कुमारो युवा वृद्धो मृत इति स्थूले विशिष्यन्तरोदये सूक्ष्मे व्यग्रस्थापनीयमिति । एवमप्येऽपि सप्तमस्था कथितविधेर्नालाद्बोद्धव्या । तद्यथा । पिण्डत पिण्डस्वरादवदके आदिके वार्षिकस्वरे । भस्वरादयने नक्षत्रस्वरादयने द्वये । राशिस्वरात् ऋतुस्वरे । जीवस्वरात् मासस्वरे । प्रगत ग्रहस्वरात् पक्षे पक्षस्वरे । वर्णात् वर्णस्वरात् दिनस्वरे । मात्रास्वरात् घटीस्वरे बालाग्रस्था चिन्तनीया इति । द्वादशेति । द्वादशाब्दिकस्वरे अ इ उ ए ओ एवरूपे द्वादशाब्दिक कालमय स्थित स यदि पञ्चाग्रस्थायु शुभ पञ्चस्वरावस्थायु बालाधिक्रमस्थितास्त्रशुभो निपिद्धफलदोऽन्तरोदय-क्रमेण न स्यात्तदा शुभ म्यादिति । एष पञ्चाग्रस्थास्वन्तरोदये वर्षमामदिन नाडीपलस्वरूपा अशुभा स्यात्तदा शुभो न स्यात् । मरत इति । वृद्धान्तिमौ वृद्धस्वरमृत्युस्वरौ दुष्टौ निपिद्धफलदा । तथा बालपूर्वदल बालस्वरस्य प्रथमार्धमपि दुष्टम् । शेष सार्धद्वय बालस्वरम्योत्तरार्ध कुमारयुगागमिति भव्य भद्रमिति अनेन प्रकारेण शुभाशुभ ज्ञेयमिति । द्वादशेति । स्वा-

न्तरोदये सस्थिता ये द्वादशवार्षिकाद्या अष्टौ स्वरास्ते शुभा, बालोत्तरार्ध-
कुमारयुगान् स्वरा त्रिंशोपकमहिता एकत्र एकदेशे स्थाप्या । अपर च
बालपूर्वार्धमृतवृद्धस्वरा त्रिंशोपका स्थाप्या । त्रिंशोपका प्रत्येककुमारादीना
चत्वारो, बालो मिश्रफलत्वेनोभयत्र द्विसख्या तत्र प्रथमार्धसमये शुभे द्वि,
उत्तरार्धसमयेऽशुभे द्वि ॥ शुभेति । शुभाशुभरूपस्य च राशियुगमस्य मध्ये
एकस्मादन्यस्य पातिते शोषिते गेपे शुभराशान्शुभराशौ वा तद्रूपमेव तद्दिनज
फल भवतीत्यर्थ ॥ ९०-९५ ॥

योगस्वर मे द्वादशवार्षिक अन्तरोदय स्वर की अवस्था, पिंडस्वर से वार्षिक
स्वर की अवस्था, नक्षत्रस्वर मे अयनस्वर की अवस्था, राशिस्वर से ऋतुस्वर की
अवस्था, जीवस्वर मे मासस्वर की अवस्था, ग्रहस्वर मे पञ्चस्वर की अवस्था ।
घणस्वर से दिनस्वर की अवस्था तथा मात्रास्वर से घटोस्वर की अवस्था (बालादि)
का ज्ञान करना चाहिये ॥ द्वादशवार्षिक स्वर अ इ उ ए ओ इन पाच स्वरों
की बालादि अवस्थायें—यदि य अन्तरोदय क्रम से अशुभ फल देने वाली नहीं है
तो शुभ फल देती है अर्थात् बालादि पाच अवस्थायें अन्तरोदय में वर्षमास दिन
नाडी पलस्वरूप स्वर यदि अस्त है तो अशुभ फल होगा ॥ बालस्वर का
पूर्वार्ध अत के दो वृद्ध और मृतस्वर अशुभ है शेष बालस्वर का उत्तरार्ध और युवा
नया कुमारस्वर शुभ है ॥ द्वादशवार्षिक आदि नाडस्वरों के अन्तरोदय के अनुसार
शुभस्वरों को एक जगह और अशुभ स्वरों को एक जगह स्थापित करना चाहिये ॥
शुभ और अशुभ दो राशियों के मध्य में एक को दूसरे में घटाने मे शेष के अनुसार
ही उस दिन का शुभ तथा अशुभ फल कहना चाहिये ॥ ९०-९५ ॥

विगत्या ताडिते शेषे चतुःपष्ट्या विभाजिते ।

लब्धा त्रिंशोपकास्तत्र शुभाशुभप्रकाशकाः ॥ ९६ ॥

त्रिंशत्येति । शेषे पूजात्पातितशेषे त्रिंशत्या ताडिते गुणिते चतुःपष्टि
विभाजिते चतुःपष्ट्या कृतभागे लब्ध यत्तन्नेपा मध्ये त्रिंशोपका शुभाशुभ-
प्रकाशका । अर्थात्कलाभे योगत द्विलाभे पिण्डत एतदप्यन्तमात्रान्ता
फल ज्ञेयम् ॥ ९६ ॥

पूर्वोक्त शुभ अशुभ पत्नियों के अन्तर करने से जो शेष बचे उसे बीस से गुणाकर
चौंसठ से भाग देने से जो लब्धि होता है वही इनका त्रिंशोपक होता है
जो कि शुभ अशुभ फल का प्रकाशक होता है ॥ ९६ ॥

योगे स्वकर्मत पिण्डे शरीराङ्गे सुहृज्जनात् ।

राशौ स्वकुलतो जीवे स्ववित्ताद् गृहतां रिपां ॥ ९७ ॥

वर्णं स्वस्वामिनोर्ज्ञेय मात्राया स्त्रीजनात्फलम् ।

पर्वं ज्ञात्व त्वदेद्विद्वान् दिन फलस्य शुभाशुभम् ॥ ९८ ॥

योग इति । योगे लब्धे स्वकर्मत स्वव्यापारात् । पिण्डे द्विसख्यालाभे शरीरात्स्नकीयादेव । नक्षत्रे त्रिसख्यालाभे मुद्गजनात् । राशी चतु मग्न्यालाभे स्वकुलोद्भवजनात् । जीरे पञ्चसख्यालान्वे म्वप्रित्तात् । प्रहतो षट्सख्यालाभे रिपो शत्रुजनात् ॥ धर्णे सप्तसख्यालाभे स्वम्वामित्त । मात्रायामष्टमग्न्या लब्धे स्त्रीननात् फल शुभमशुभ वा भवतीति विद्वान् वदेत् ॥ ६७-८५ ॥

पूर्वाक्त प्रकार से १ शेष म अपने व्यापार से, २ शेष म अपने शरीर से, ३ शेष में अपने मित्रों से, ४ शेष में अपने कुल से, ५ शेष म अपने धन से, ६ शेष में अपने शत्रुओं से, ७ शेष में अपने स्वामी से और ८ शेष न स्त्री से शुभ या अशुभ फल को कहना चाहिये ॥ ९७-९८ ॥

उदाहरण—सत्रत् २०१६ शके १८८१ चेत्र शुक्ल प्रतिपद् १ गुरुवार घटी ९ पल २८ । सूर्य ११२५।५६ रा अ क है । इम दिन सदानन्द के दिनचर्या का विचार करना है । अत नियम के अनुसार सदानन्द के मात्रा स्वर आदि इस प्रकार है ।

- | | | |
|----------------------|--|--|
| १—मात्रास्वर = अकार | इस स्वरों से उत्पन्न अक्षरों के सहित इस प्रकार है।
कालजस्वर | —घटीस्वर इकार कुमार । अतरोदय—एकार वृद्ध |
| २—वर्णस्वर = एकार | | —तिथिस्वर अकार युवा । अतरोदय—अकार युवा |
| ३—ग्रहस्वर = ओकार | | —पञ्चस्वर इकार युवा । अतरोदय—इकार युवा |
| ४—जीघस्वर = एकार | | —मासस्वर उकार मृत । अतरोदय एकार थाल |
| ५—राशिस्वर = ओकार | | —ऋतुस्वर—अकार कुमार । अतरोदय एकार मृतस्वर |
| ६—नक्षत्रस्वर = ओकार | | —जयनस्वर—इकार युवा—अतरोदय—इकार युवा |
| ७—पिंडस्वर = इकार | | —वार्षिक—ओकार वृद्ध । अतरोदय—एकार युवा |
| ८—योगस्वर = अकार | | —द्वादश वार्षिक एकार वृद्ध—अतरोदय में इकार वृद्ध |

शुभ पति

अशुभ पति

स्वर	विं स	स्वर	विं स
वार्षिकान्तरोदय एकार युवा = ४		द्वादश वार्षिक स्वर एकार वृद्ध = ४	
जयनस्वर इकार युवा = ४		” ” अतरोदय इकार वृद्ध = ४	
जयनातरोदयस्वर भी इकार युवा = ४		वार्षिक ओकार वृद्ध = ४	
ऋतुस्वर अकार कुमार = ४		ऋतुस्वरांतरोदय एकार मृत = ४	
मासान्तरोदय थालोत्तरार्ध एकार = ४		मासस्वर उकार मृत = ४	
नक्षत्रस्वर इकार युवा = ४		घटीस्वरांतरोदय एकार वृद्ध = ४	
अतरोदय इकार युवा = ४			
तिथिस्वर अकार युवा = ४			
तिथ्यन्तरोदय अकार युवा = ४			
घटीस्वर इकार कुमार = ४			

इनका योग २४

इका योग = ४०

शुभयोग ४० से अशुभयोग २४ को घटाने से शेष १६ बचा हमें २० से गुणकर ६४ का भाग देने से लग्नि ५ और शेष ० हुआ अतः उक्त दिन सदानन्द को स्त्री द्वारा लाभदि शुभ फल होंगे ॥

अथ स्वरप्रशंसा

गुह्याद्गुह्यतरं सारमप्रकाश्यं प्रकाशितम् ।
 इदं स्वरोदयज्ञानं ज्ञानिना मस्तके स्थितम् ॥ १ ॥
 सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ज्ञानं सुबोधं सत्यप्रत्ययम् ।
 आश्चर्यं नास्मिन्के लोके आधारमास्तिके जने ॥ २ ॥
 दुष्टे च दुर्जने क्षुब्धे ह्यसत्ये गुरुतल्पगे ।
 हीने सत्त्वे दुराचारे स्वरज्ञानं न दीयते ॥ ३ ॥
 शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरुभक्तैकमानसे ।
 दृढचित्ते कृतज्ञे च देय एव स्वरोदयः ॥ ४ ॥

गोप्य से भी गोप्य अप्रकारय इस स्वरोदय ज्ञान को जोकि ज्ञानियों के मस्तक में था उसे प्रकाशित किया। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान सुबोध सत्य तथा नास्मिन्कों को आश्चर्यान्वित और आस्मिन्कों के लिये नाचारस्वरूप है। किन्तु यह स्वरज्ञान दुष्ट, दुर्जन, क्षुब्ध, गुरुद्रोही, हठे और दुराचारी को नहीं देना चाहिये जो शान्त, शुद्ध, सदाचारी, गुरुभक्त, कार्य करने में दृढप्रतिज्ञ, और कृतज्ञ हो उसी को स्वरज्ञान देना चाहिये ॥ १-४ ॥

इति स्वरप्रशंसा ।

अथ हमचारः

अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि शरीरस्थं स्वरोदयम् ।
 हंसचारस्वरूपेण येन ज्ञानं त्रिकालजम् ॥ १ ॥
 कुण्डलिनी महाशक्तिर्नाभिस्थात्स्वरूपिणी ।
 ततो दशोर्ध्वगा नाड्यो दश चाधोगतास्ततः ॥ २ ॥
 द्वे द्वे तिर्यग्गते नाड्यौ चतुर्विंशतिसंख्यया ।
 कुण्डलिन्या महाशक्तैर्मूलमार्गा भवन्त्यमी ॥ ३ ॥

तेभ्यः सूक्ष्ममुखा नाट्यः शरीरस्यातिपोषिकाः ।

शतानि सप्त जायन्ते सप्तोत्तराणि संख्यया ॥ ४ ॥

प्रधाना दशनाट्यस्तु दशवायुप्रवाहिकाः ।

नामानि नाडिकानां च वातानां च वदाम्यहम् ॥ ५ ॥

अथेति । अथानन्तर अन्यत् शरीरस्थ शरीरमञ्चारिण स्वरोदय सम्प्र-
वक्ष्यामि । कथमिति जिज्ञासाया ह्यमचारस्वरूपेण । येन हसस्वरूपेण
त्रिकालज स्वरोदयज्ञान जानन्तीति । कुण्डलिनीति । शक्तीना मध्ये
महाशक्ति कुण्डलिनीनाम्ना कुण्डलाकारा अहिरूपिणी दीर्घतया सर्पाकारा
देहिना नाभिस्था नाभिस्थाने देहस्थाना नाडीना मूलभृता प्रियते । तत
स्तस्या कुण्डलीत दश नाड्य उर्ध्वगा दश चाधोगता । द्वे द्वे इति ।
द्वे द्वे नाड्यो तिर्यग्गते स्त । एतमध्व चतुर्विंशतिसख्या नाड्यो कुण्डलिन्या
महाशक्ते मूलमार्गा भवन्ति । ताभ्य इति । ताभ्य चतुर्विंशतिकाभ्य सप्तो
त्तराणि सप्ताधिकानि सप्तशतानि नाड्यो जायन्ते ताश्च नाड्य सूक्ष्ममुखा
शरीररयातिपोषिका । प्रधानेति । तासा मध्ये दश नाट्य प्रधाना तास्तु
दशसंख्याकवायुप्रवाहिका । तासा दशनाडीना दशमख्याकवायुना च नामानि
अह वदामि ॥ १-५ ॥

इसके बाद मैं शरीरस्थ नाडीरूप, स्वरो को हसचार के अनुसार कहूँगा जिसके
ज्ञान से त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है । शरीर के सप्त शक्तियों में उड़ी एक महाशक्ति
कुण्डलिनी नाम की है जो कि सर्प के समान हस्त्री और कुण्डल के आकार की है
और जीवमात्र के नाभिस्थान में रहती है । इसी से लगी हुई दश नाडियाँ ऊपर की
और दश नीचे की गई हैं । और दो दो नाडियाँ पार्श्व में गई हैं । इस प्रकार कुल
२४ नाडियाँ हैं । ये नाडियाँ कुण्डलिनी महाशक्ति के मूल में उत्पन्न हैं । इन २४
नाडियों से भी सूक्ष्म ७०७ नाडियाँ हैं जोकि शरीर का अत्यन्त पोषण करने वाली
हैं । इनमें प्रधान दश ही नाडियाँ हैं जोकि दश प्रकार के वायु को चलाती हैं ।
इन दश नाडियों का और दश वायुओं का नाम वदना हूँ ॥ १-५ ॥

इडा पिङ्गला सुपुत्रा गांधारी हस्तिजिह्विका ।

पूषा यशा च व्यूषा च क्रुहुः शङ्खिनिका तथा ॥ ६ ॥

प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च ।

नाग. कूर्म. कृकश्चैव देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ७ ॥

प्रकटो वायुमञ्जारो लभ्यते देहमध्यतः ।

इडा-पिङ्गला-सुपुत्राभिर्नाडीभिस्तिमृभिर्बुधैः ॥ ८ ॥

इडानाडीस्थितश्चन्द्रः पिङ्गला भानुवाहिनी ।

सुपुम्ना शम्भुरूपेण शम्भुर्हसस्वरूपकः ॥ ९ ॥

हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारस्तु प्रवेशने ।

हकारः शम्भुरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ।

शक्तिरूपस्थितश्चन्द्रां वामनाडीप्रवाहकः ।

दक्षिणाडीप्रवाहेतु शिवरूपी दिवाकरः ॥ १० ॥

हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारोन्तःप्रवेशने ।

हकारः शम्भुरूपस्थः सकारः शक्तिरुच्यते ॥ ११ ॥

इडा पिङ्गला इति । स्पष्टम् । नाडीना नामानि । प्राणोऽपान इति । दश-
विधप्रायुनामानि स्पष्टम् । प्रकट इति । देहमध्यत शरीरमध्ये प्रकट व्यक्त
वायुमञ्जार इटापिङ्गलासुपुम्नाभि तिसृभि नाडीभि बुधे लक्ष्यते ज्ञायते ।
इडा नाडीति । वामनासापुटस्था इडा नाडी तत्र य वायु सञ्चरति सा चन्द्र-
वाहिनीति । तत्र चन्द्र वर्तते । एव दक्षिणनासापुटस्था पिङ्गला नाडी तत्र
यं सञ्चरति सा सूर्यवाहिनी । तत्र सूर्य वर्तते । या सुपुम्ना नाडी सा देह-
मध्यस्था ब्रह्मरन्ध्रगामिनी शम्भुस्वरूपिणीति । हसस्वरूपक शम्भु इति ।
शक्तिरूप इति । श्लोकद्वयम् सुगमम् ॥ ६-११ ॥

इडा, पिङ्गला, सुपुम्ना, गांधारी, हसजिह्विका, पृषा, यशा, व्युषा, कुहू,
वाग्नििका, ये दश नाडियों के नाम हैं । प्राण, अपान, समान उदान, व्यान, नाग,
वृर्म, वृक, देवदत्त, धाञ्जय ये दश वायु के नाम हैं । इडा, पिङ्गला, सुपुम्ना, देहस्थित
उक्त तीन नाडियों द्वारा पण्डितजन शरीरस्थ वायु का ज्ञान करते हैं । यहाँ किसी
का मत है कि इडा नाडी हृदय से दक्षिण नामापुट क तरफ जाती है और उसमें
प्राणवायु का सञ्चार होता है । पिङ्गला हृदय से बायें नामापुट को जाती है और
उसमें अपानवायु का सञ्चार होता है, जिह्विका नाड़ी नाभिप्रदेश में है और उसमें
समानवायु का सञ्चार होता है, सुपुम्ना नाड़ी में ध्यान नामक वायु का सञ्चार होता
है, इमी प्रकार पृषादि पाँच नाडियों में नागादि पाँच वायुओं का सञ्चार होता है ।
और किसी का मत है कि नाक, नाभ, कान के दोना छिद्र सुग, नाभि, गुदा और
मध्यरन्ध्र द्वारा दश वायुओं का सञ्चार होता है । किन्तु अधिकतर द्वितीय मत ही
युक्तियुक्त मालूम होता है । हममें ये गिज्ञान ही प्रमाण है । नाक के बायें छिद्र से
बहनेवाली नाड़ी को इडा कहते हैं और वह चन्द्र के प्रायु को वहन करती है अत
चन्द्रवाहिनी कहते हैं । और दाहिने नाक के छिद्र में पिङ्गला नाड़ी है जोकि सूर्य के
वायु को वहन करती है अत उसे सूर्यवाहिनी कहते हैं । सुपुम्ना मध्यरन्ध्रस्थित

नाड़ी को कहते हैं वह शम्भु के वायु को बहन करती है अतः उसे शम्भुवाहिनी कहते हैं। यह शम्भु हसस्वरूप हैं। वामनाड़ी के चलानेवाले चन्द्र शक्तिस्वरूप हैं और दाहिने नाड़ी के चलानेवाले सूर्य शिवस्वरूप हैं और शम्भु हसस्वरूप हैं। वायु के निकलने में हकार और सकार अन्त प्रवेश के समय रहते हैं अतः हकार शम्भु स्वरूप और सकार शक्तिस्वरूप है ॥ ६-११ ॥

एकैकघटिकाः पञ्च क्रमेणोदयन्ति ताः ।

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ १२ ॥

मध्ये पृथ्वी अवध्याप ऊर्ध्वं वहति चानल' ।

तिर्यग्वायुप्रवाहश्च नभो वहति संक्रमे ॥ १३ ॥

धराद्येकैकतत्त्वस्य एकैकघटिकोदयः ।

अहोरात्रस्य मध्ये स्युस्तेन द्वादश संक्रमाः ॥ १४ ॥

आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सिते तरे ।

प्रतिपदादितो हानिस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदयः ॥ १५ ॥

एकेक इति । एकैकस्य पचघटिका षण्णः क्रमेण उदयानि ता पचघटिका पच पृथ्वी-अप-तेजो-वायु आकाश तत्त्वात्मिका । मध्ये इति । वामे वा दक्षिणे नासापुटे पूर्णे वायी वहति पृथ्वीतत्त्वम् । अधश्चाप । नासापुटादध स्थ ओष्ठ स्पृशन् यो वायुर्नहति स वायुर्जलसज्ज । ऊर्ध्वं वहति चानल । ऊर्ध्वं नासापुटस्योर्ध्वभाग स्पृशन् यो वायुर्नहति सोऽनल । तिर्यग् दक्षिणस्वरो वामो वा द्वयोर्मध्ये यो वायुर्नहति तस्य वाये वायुतत्त्वमिति नाम । नभो वहति संक्रमे । दक्षिणो वा वामो वहन् द्वितीयपुटानपि वायु निस्सरति स संक्रम काले तस्मिन् काले यो वायुः वहति स आकाशतत्त्व वहति । अत्र मत्ततरेण यामस्वरो वहति यावत् पृथ्वीतत्त्वम् तावद् बुधप्रहस्यो दय । जलतत्त्वे वहति चन्द्रस्योदय । तेजमि वहति शुकस्योदय । वायुतत्त्व वहति गुरोरुदय । एव दक्षिणवायी वहति रविभौमशानिराद्वा प्रथिव्यापुदयक्रमेण उदयन्ति । ग्रहोत्थे प्रश्ने प्रहफलमादिशेत् । यथा लग्नप्रतिनि युधे फल तथा तदुदयेऽपि । एव सर्वप्रहेषु शुभाशुभफल ज्ञातव्यम् । धराद्येकैक इति । पृथिव्याद्येकैकतत्त्वस्य । एकैकत्त्वोत्थ अहोरात्रस्य षष्टिघटिकात्मकस्य मध्ये पञ्चदण्डक्रमेण द्वादशसंक्रमा भवन्ति । आदाविति । चन्द्रो नाम वामनासापुटस्थवायु प्रतिपदादीनि त्रीणि दिनानि त्रीणि दिनानि कृत्वा आदौ

१. बुधचन्द्रशुक्रगुरो वामनाद्यां धरादिन ।

रविभौमो यम मूय कथिता सूर्यनाडिका ॥

वहति ततो दिनत्रये सूर्यं ततो दिनत्रये चन्द्र । सिते शुक्लपक्षे पुनर्भास्कर ,
सिते तरे कृष्णपक्षे प्रतिपदावितिथिषु आदौ सूर्यं ततो दिनत्रये चन्द्र एव
सर्वत्र कृष्णपक्षे वहतीति ॥ १२-१५ ॥

तीनों नादियों म क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पाँच तत्त्व उदय
होते हैं और इनमें एक एक का भोग पाँच घटी होता है । वायें या दाहिने नाक
के छिद्र से यदि ठीक-ठीक मध्यभाग से वायु निकल रही हो तो उम समय पृथ्वी तत्त्व
वह रहा है अर्थात् पृथ्वी तत्त्व का उदय है ऐसा समझना चाहिये । नाक के छिद्र से
ओष्ठ का स्पर्श करती हुई वायु चलती हो तो जल तत्त्व का उदय है । यदि नाक के
ऊपर के भाग को स्पर्श करती हुई वायु चलनी हो तो अनल तत्त्व को समझना
चाहिये । वायें वा दायें दोनों स्वरो को चलते हुये यदि तिर्यग् वायु चले तो वायुतत्त्व
और दोनों स्वरो में से एक चलता हो तथा कुछ काल के बाद दूमरा भी चलने लगे
इस समय को सक्रमकाल कहते हैं इसम चलने वाली वायु को आकाश तत्त्व समझना
चाहिये । जत्र तक पृथ्वीतत्त्व चलना है तत्र तक बुध ग्रह का उदय रहता है जलतत्त्व
के समय चन्द्रमा का, तेज तत्त्व के समय शुक्र का, वायु तत्त्व के समय गुरु का उदय
रहता है । दाहिने स्वर के उदय म भी पृथ्वी तत्त्व आदि के अनुसार सूर्य, भोम,
शनि और राहु का उदय समझना चाहिये । जिस ग्रह के उदय काल में प्रश्न हो
उसके अनुसार फल कहना चाहिये । जैसे बुध ग्रह के उदय म प्रश्न हो तो बुध को
लग्न में रहने से जो फल होता है वही उसके उदय में फल होता है इसी प्रकार
सभा ग्रहों के उदय से शुभ अशुभ फल समझना चाहिये । पृथ्वी आदि एक तत्त्व का
एक एक घटी उदय मान होता है इस प्रकार अहोरात्र अर्थात् ६० घटी में १२
सक्रम काल होता है । शुक्लपक्ष में प्रतिपदा से तीन तिथियों में पहले चन्द्र स्वर
अर्थात् वामस्वर इसके बाद की तीन तिथियों म पहले सूर्यस्वर अर्थात् दक्षिण स्वर का
उदय होता है फिर तीन तिथियों म पहले चन्द्रस्वर इसके बाद सूर्यस्वर एव १५
तिथियां म पहले वामस्वर का ३ त्रार उदय और दक्षिण का २ धार उदय होता है ।
एव कृष्णपक्ष म इसक विपरीत उदय होता है ॥ १२-१५ ॥

चन्द्रोदये यदा सूर्यश्चन्द्रः सूर्योदये यदा ।

अशुभ हानिरुद्वेगस्तद्दिने जायते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

शशाङ्कं चारयेद्रात्रौ दिवा चार्यो दिवाकरः ।

इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगो नात्र संशयः ॥ १७ ॥

यात्राकाले विवाहे च वस्त्रालङ्कारभूषणे ।

शुभकर्मणि सन्धौ च प्रवेशे च शशी शुभः ॥ १८ ॥

विग्रहे द्यूतयुद्धेषु स्नानभोजनमैथुने ।
व्यवहारे भये भङ्गे भानुनाडीं प्रशस्यते ॥ १९ ॥

होमश्च शान्तिङ्कं चैव दिव्यौषधिरसायनम् ।
विद्यारम्भं स्थिरं कार्यं कर्तव्यं च निशाकरे ॥ २० ॥

चन्द्रोदये इति । यस्य नरस्य चन्द्रोदये वामवायूदयसमये यदा सूर्यो दक्षिणनासापुटस्थत्रायुर्वहति । एत यदा सूर्यादये दक्षिणवायूदयसमये चन्द्रो वामनामापुटस्थत्रायुर्वहति तदा तद्दिने तस्य पुरुषस्य शुभ अकल्याण हानि उद्वेग उपलापो भवति । निजनिजोदयसमये चन्द्र सूर्यो वा वहति तदा शुभम् । शशाङ्कमिति । स्वराभ्यासियोगिभ्य उपदेशमादाय एतमभ्यासं कुर्वन्-
रात्रौ शशाङ्कं वामस्वर धारयेत् चालयेत् । दिवाकरो दक्षिणस्वर दिवा दिवसे च धार्यं सचारणीयं नित्यम् । इत्येव अभ्यासरतं श्वासरतं य कश्चित् स योगी । अत्र सशयो न कर्तव्यः । अन्यत् स्पष्टम् ॥ १६-२० ॥

जिम पुरुष का जिस दिन वामस्वर के चलने के समय दाहिनास्वर और दाहिने-
स्वर के चलने के समय वायास्वर चले ता उस दिन उस पुरुष का अशुभ, हानि और उद्वेग ये अशुभ फल हाते है । किसी स्वर के अभ्यास करने वाल योगी के यथाप ह्युय मार्ग के अनुसार रात्रि में वामस्वर को चलावे और दिन में दक्षिणस्वर को चलाय इस प्रकार नित्य स्वर के चलाने में अभ्यासरत पुरुष को योगा कहते है इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिये । यात्रा, दान, विवाह, वस्त्र, आभूषण, शुभहाय और सधि (मुलह) में वामस्वर शुभद होता है । विग्रह, घ्न (जूआ), युद्ध, स्नान, भोजन, मधुन, व्यवहार, भय, भङ्ग में दक्षिणस्वर शुभ हाता है । शान्ति के लिय हवन में, दिव्य औषधि और रसायन, विद्यारभ और स्थिर कार्य को वामस्वर में करना चाहिए ॥ १६-२० ॥

दूरयुद्धे जयो चन्द्रः समासन्ने दिवाकरः ।
वहन्नाडीपदेऽप्ये च कृते यात्रातिसिद्धिदा ॥ २१ ॥
सूर्ये वहति चन्द्रे वा पूर्णपाद प्रचालयेत् ।
चन्द्रे समपदैर्यात्रा सूर्येऽसमपदैः क्रमात् ॥ २२ ॥

पृथ्वीजले शुभे तत्त्रे तेजोमिश्रफलदायम् ।
हानिमृत्युकरौ पुंसासुभौ हि व्योममारुतौ ॥ २३ ॥

आपः श्वेताः क्षितिः पीता रक्तवर्णां हुताशनः ।

मारुतो नीलवर्णः स्यादाकाशो धूम्र एव च ॥ २४ ॥

योधद्वयकृते प्रश्ने पूर्णे च प्रथमो जयी ।

रिक्तसंस्थे द्वितीयस्तु जयी भवति नान्यथा ॥ २५ ॥

दूरयुद्धे इति । दूरान् प्रदेशाद्युद्धे बाणाद्विनिर्गहो प्रदेशाद्युद्धे सति चन्द्रो वामस्वर । अत्र केचित् दूरयुद्धे बहुकालव्याप्ययुद्धे चन्द्रस्वर । समासन्ते रङ्गादिसाध्ये युद्धे दिशाकरो दक्षिणस्वर प्रशस्त । केचित् समासन्ते स्वल्पसमयसाध्ये युद्धे सूर्यस्वर प्रशस्त इति व्याजुर्नन्तीति । यात्रा च बहन्नाडीपटे कार्या अर्थात् य एव स्वरो वहति वामो दक्षो वा वामे वहति आर्द्रा वामपाद चालयेत्, दक्षे वहति आर्द्रा दक्षपाद चालयेत् । एव पटे वीयमाने यात्रा सिद्धिदा भवति । मूर्धे वहति इति सुगमम् । पृथ्वीजले इति । पृथ्वीजले तत्त्वे पृथिव्या जले च तत्त्वे पचमदण्डात्मके वहत प्रष्टु शुभ शुभफल वनेत् । तेजसि तत्त्वे मिश्र फलम् । व्योममान्तयो पुसा हानिमृत्युकरी । व्योत्रिहानि कार्यहानि, वायो मृत्यु ऋष्ट वान्यम् । आप इति । प्रादु वस्तुनि प्रथिव्यादिवर्णं त्रयात् । योधद्वय इति । द्वयोर्योधयोर्मध्ये को जेता भविष्यतीति प्रश्ने पूर्णनाडीगते प्रश्ने प्रथमो जयी यस्य प्रथम नामोच्चारण कृत स जयी वान्य । अथ रिक्तसंस्थे शून्यनाडीम्वरे प्रश्ने योधयोर्मध्ये यस्य पश्चान्नामोच्चारण कृत स जयी वाच्य इत्यर्थः । नान्यथा ज्ञातव्य ॥ २१-२५ ॥

दूर से अर्थात् धनुषपराण द्वारा किय जाने वाले युद्ध में चन्द्रस्वर श्रेष्ठ और तलवार आदि शस्त्रों से किये जाने वाले युद्ध में सूर्यस्वर श्रेष्ठ हाता है । जो स्वर चलता हो उसी पैर को पहले चलाने से यात्रा शुभद हाती है । सूर्य या चन्द्र नाडी के चलने के समय उन नाडियों के पर को पूरा पूरा चलाना चाहिये, चन्द्रस्वर के समय सममध्यक और सूर्यस्वर के समय त्रिपद पद चलाना चाहिये । पृथ्वी और जलतत्त्व शुभद, तेजतत्त्व मिश्रित और आकाश और वायुतत्त्व अशुभफल दान वाले होते हैं । प्रश्नकर्ता के पीछे हुये वस्तु का उतारने के लिये तलवार के वग इम से जलतत्त्व का श्वेतवर्ण, भूतत्त्व का पीतवर्ण, अग्नितत्त्व का रक्तवर्ण, वायुतत्त्व का नीलवर्ण और आकाशतत्त्व का धूम्रवर्ण होता है । दोगा योधा में से कौन विजयी होगा ऐसे प्रश्न में प्रश्न समय यदि पूर्णस्वर चलना हो तो योधा में से तिनका नाम पहले लिया है उसी की विजय होगी । यदि शून्यस्वर के समय प्रश्न किया जा तो जिसका नाम पीछे से उच्चारण किया है उसकी विजय रहता । इसमें अन्वया गहा होता है ॥

युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायो जयति निश्चिनम् ।

यदा सूर्यप्रवाहश्च यधी च विजयी तथा ॥ २६ ॥

पार्थिवे सक्षतं युद्धं सन्धिर्भवति चारुणे ।
 विजयो वह्नितत्त्वेन वायौ भङ्गो मृतिस्तु खे ॥ २७ ॥
 पूर्णनाडीगतं पृष्ठे शून्यमङ्गं तदग्रतः ।
 शून्यस्थाने कृतः शत्रुर्त्रियते नात्र संशयः ॥ २८ ॥
 पूर्वोत्तरदिशोश्चन्द्रे भानौ पश्चिमयाम्ययोः ।
 स्थितस्तत्र जयी युद्धे स्थायी योधः क्रमेण च ॥ २९ ॥
 वामनाड्युदये चन्द्रः कर्तव्यो वामसम्मुखः ।
 सूर्यवाहे तथा सूर्यः पृष्ठदक्षिणगो जयी ॥ ३० ॥

युद्धकाले इति । यदा युद्धकाले स्थायिन चन्द्रो वहति तदा म्यायी
 निश्चितम् जयी भवति, यायिन सूर्यप्रवाहे जयो भवति । अर्थात् स्थायिना
 ग्रामवायुप्रवाहे यायिना नक्षत्रायुप्रवाहे युद्ध कर्तव्यमिति । पार्थिवे इति ।
 सुगमम् । पूर्णनाडीगतमिति । पूर्णनाडीगतमङ्ग शरीर पृष्ठत तन्मत्त शून्यमङ्ग
 कर्तव्यम् । शून्यस्थाने कृतः शत्रु त्रियते । अत्र संशयो न । अत्रमर्थ ।
 तस्मिन् समये शत्रौ प्रहार क्रियते तस्मिन् समये यः स्वरो न वहति तद्विग-
 वस्थित त कृत्वा हन्यात् । अत्र शत्रुकृतप्रहारसमये च यः स्वरो न वहति
 तद्विगवस्थित शरीर प्रहर्त्ताभिमुख कुर्यात्तत्र प्रहारो न लागतीति । पूर्वोत्तर-
 दिशोरिति । चन्द्रे वामवायी यइति म्यायी योधः पूर्वदिशि वा उत्तरदिशि
 स्थितो जयी भवति । एव भानौ पश्चिमस्वरे वहति वायी योधः पश्चिमदिशि
 वा दक्षिणदिशि स्थितो जयी भवति । वामनाड्युदये इति । युद्धकाले तदा
 वामस्वरो वहति तदा चन्द्रो वामसंमुख कार्यः । दक्षिणस्वरे वहति महाम-
 काले सूर्यः पृष्ठदक्षिणस्थः कुर्यात् । अत्र वामसंमुखदक्षिणत्व राश्यनुसारत
 (मेघे च सिंहे धनपूर्वभागे) इत्यन्ना वा लग्नादिद्वादशभावक्रमेण पूर्वान्ति-
 दिक्चपनया ज्ञेयमिति ॥ २६-३० ॥

युद्ध के समय म्यायी याथा वामस्वर के चलने के समय और वायी याथा
 दक्षिणस्वर के चलने के समय युद्ध वा आरम्भ करें ता दोनों विजयी होते हैं ।
 जलस्वर के उदय के समय युद्ध आरम्भ करने से राग एव हा जाता है और दोनों
 म सन्धि होती है । अग्निस्वर के उदय में विजय, वायुस्वर के उदय म भद्र और
 वायुस्वर के समय म मृत्यु हाती है । निम समय शत्रु के ऊपर प्रहार करना हा
 उम समय जो स्वर चलता हा उम स्वर के अग को शत्रु म पीछ करके जा स्वर नहीं
 चलता हा उसक अग को शत्रु के भागे करके प्रहार करने से उमका प्रहार नहीं
 लगता है । वामस्वर चलता हो म्यायी याथा पूर्व या उत्तर दिशा म विजय

होकर युद्ध करे तो रिजयी होता है। एव दक्षिणस्वर के चलने के समय बायी योधा पश्चिम या दक्षिण दिशा में स्थित होकर युद्ध करे तो रिजयी होता है। युद्ध के समय यदि वामस्वर का उदय हो तो चन्द्रमा को बायें या सामने करके युद्ध का आरम्भ करे। एव दक्षिण स्वर चलता हो तो सूर्य को पीछे या दाहिने करके युद्ध का आरम्भ करे तो रिजयी होती है। यहाँ दिशा का ज्ञान उस समय व चन्द्र, सूर्य के राशि से समझना चाहिये। जमे मेष, सिंह, धन इनको पूर्व म, वृष, वन्या, मकर इनको दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुम्भ इनको पश्चिम म और मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन को उत्तर म समझना चाहिये ॥ २६-२० ॥

शयने वा प्रसङ्गे वा युवत्यालिङ्गनेपि वा ।

यः सूर्येण पिवेच्चन्द्रं स भवेन्मकरध्वजः ॥ ३१ ॥

जीवेन गृह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते ।

जीवस्थानगतो जीवो बालाजीवांतकारकः ॥ ३२ ॥

राश्यन्तपामवेलायां प्रसुप्ते कामिनीजने ।

ब्रह्मजीवं पिवेद्यस्तु बालाप्राणहरो नरः ॥ ३३ ॥

अर्केन्दुयोगे पुन्नार्योस्तम्मिन्काले रते सति ।

तत्क्षणे दीयते चन्द्रो मोहमायाति कामिनी ॥ ३४ ॥

चन्द्रचारे विषं हन्ति सूर्ये बाला वश नयेत् ।

सुपुत्रायां भवेन्मोक्ष एको देवन्निधा स्थितः ॥ ३५ ॥

शयने इति । शयने वा प्रसङ्गे वा युवत्यालिङ्गिते अर्थात् शयनप्रसङ्गे यथा युवती आलिङ्गति तदा चन्द्र वामस्वर युवत्या सूर्येण दक्षिणेन स्वरेण पुरुष पिवेत्तदा मकरध्वज कामेश्वर इव सुन्दरो भवेत् । स च पुरुषस्य वामपार्श्व-शयनेनैव भवतीति वायुनियम । जीवेन इति । जीवेन प्राणेन जीव प्राणो गृह्यते । कोऽर्थः । दक्षिणस्वरे ग्रहति यदि वामे भरितुमुगतो भवति तदा दक्षिणेनैव वाम पिवेत् । वामस्वरोदये दक्षिणमेव स्थित कुर्यात् । एव वामेन दक्षिण पिवेत् । एव कृते जीवेन गृह्यते जीवेति व्याख्यातम् । एव वामस्वर-स्थानगतो दक्षिण दक्षिणस्वरस्थानगतो वाम । तच्छ्रुते बालाजीवान्त कारक । कोऽर्थः बालासुप्त मृत्यु तस्यान्तकारकः अर्थात् मृत्युनयतीति वायुरहतीति । राश्यन्तपाम इति । राश्यन्ते रात्रेरसान्भाने जेलाया नमयं कामिनीजने प्रसुप्ते सति यो नर युवत्या ब्रह्मनीय ब्रह्मनिर्गतप्रायु पिवेत् स नरो बालाप्राणहरोऽत्यन्ताभिभावको भवेत् । अर्केन्दुयोगे इति । त्वष्टम् । चन्द्रचारी इति । चन्द्रचारी वामप्रायुसञ्चरणशीलो विष हन्ति तथा सर्पाग्नि-

दशे मति यथा वामवायुर्वहति तथा विवेयम् । सूर्ये स्वरे वदति बाला वरा
नयेन् । सुपुम्नाया ब्रह्मगतनाड्या वायुसञ्चारान्मोक्षो भवति । एक एव देवो
वायुस्त्रिधा प्रजारत्रयेण स्थित । यदा यत्र वदति तदा तत्कर्म कर्तव्य
मिति ॥ ३१-३५ ॥

शयन के समय स्त्री के आलिङ्गन में पुरुष जायें करवट से सोये और स्त्री जायें
करवट से तो प्रम स दोनों के दक्षिण और वामम्बर चलेंगे ऐसी स्थिति में पुरुष अपने
दक्षिणस्वर से स्त्री के वामस्वर को पीवे तो कामद्वय के समान हो जाता है । दक्षिण
स्वर चलत रहने पर यदि वामस्वर चलने की सभावना हो तो दक्षिणस्वर से ही
वामस्वर को पीवे । एव वामस्वर के उदयकाल में यदि दक्षिणस्वर की सभावना हो
तो वाम से दक्षिण का पीवे । अत जीव (प्राण) में जीव (प्राण) को पीन का
कहा है ऐसा करने से स्त्री सुखी होती है । रात्रि के अन्त समय में अर्थात् माद्यमूहूर्त
में स्त्रियों को मोते रहते ब्रह्म का जय करे अर्थात् युवती के ब्रह्मस्थान से निकलती
हुई वायु को पीता है उह पुत्र स्त्री को अत्यन्त सुखकारक होता है । पुरुष और स्त्री
के दक्षिण और वामस्वर के समय रति करते समय वामस्वर को देने से स्त्री अर्थात्
प्रमत्त हो जाती है । वामस्वर के समय शिष का बसर शरीर में गढ़ा होता है ।
सूर्यस्वर के समय स्त्रीवशीकरण होता है । सुपुम्ना के उदय समय में माद्य की
प्राप्ति होती है । एव ही ब्रह्म तीन प्रजार से उदय होता है जिस समय जो स्वर चले
उमरु कायों को उमरु उन्मत्त में करना चाहिये ॥ ३१-३५ ॥

भुक्तमात्रे च मन्दाग्नौ स्त्रीणा वश्याथकर्मणि ।

शयन सूर्यवातेन कर्तव्यं सर्वदा बुधैः ॥ ३६ ॥

श्रान्ते ओके विपाते च ज्वरिते मूर्च्छितेपि वा ।

सज्जनस्यापि बोधार्थं चन्द्रचार प्रवाहयेत् ॥ ३७ ॥

ऊर्ध्वं वामाग्रतो दृतो जेयो वामपथे स्थितः ।

पृष्ठे दक्षे तथाधस्तात्सूर्यवाहगतो मतः ॥ ३८ ॥

पूर्णनाडोस्थितो दृतो यत्पृच्छति शुभाशुभम् ।

तत्सर्वं सिद्धिमायाति शून्यं शून्यं न सशयः ॥ ३९ ॥

भुक्तमात्रे इति । सुगमम् । श्रान्ते इति । स्पष्टार्थ । ऊर्ध्वमिति । देवग्र-
नकाशान् उच्चपीठान्स्थितो दृतो वामगत, वामस्थितोऽपि वामगत एव ।
अग्रगतश्चो प्रश्न करोति तदापि वामगत एव बोद्धव्य । तथा तेनैव प्रकारेण
पृष्ठे पश्चात् स्थित दक्षे दक्षिणे च स्थित आत्मन मवाशा नीचम्य
एव पृष्ठदक्षिणस्थ दृत दक्षिणगत बोध्यम् । पूर्णनाडी इति । स्पष्टार्थ ॥

जिस समय दक्षिणस्वर चलता हो उस समय भोजन, मन्दाग्नि तथा स्त्री के वशीकरण आदि प्रयोग शयन इन कार्यों को करना चाहिये। धकावट, शोक, विपार्त, ज्वर, मूर्च्छा, सज्जन क बोधार्थ कोई कार्य वामस्वर में करे। यदि दूत वा प्रश्नकर्त्ता ज्योतिषी से ऊँचे स्थान में स्थित होकर या सामने अथवा बायें भाग में स्थित होकर प्रश्न करे तो उसे वामभागगत समझना चाहिये। यदि पीछे, दाहिने अथवा नीचे होकर प्रश्न करे तो उसे दक्षिण समझना चाहिये। पूर्णस्वर के उदयकाल में दूत जो कुछ शुभ वा अशुभ प्रश्न करे वह सभी सिद्ध होते हैं। शून्यस्वर में जो प्रश्न क्रिया जाता है वह सभी शून्य फल देने वाले होते हैं ॥ २६-३९ ॥

पृथिव्यादित्रितत्त्वेन दिनमामावृत्तैः फलम् ।

शोभन च तथा दुष्टं व्योममारुतवह्निभिः ॥ ४० ॥

श्वासप्रवेशकाले तु दूतो जल्पति वाञ्छितम् ।

तत्सर्वं सिद्धिमायाति निर्गमे नास्ति सुन्दरम् ॥ ४१ ॥

व्यवहारी बलो वादी द्विपदायादवश्चकाः ।

कुपितः स्वामिचौराद्याः पूर्णस्थाः स्युर्भयङ्कराः ॥ ४२ ॥

सूर्ये चेद्विपमान्वर्णान् समवर्णान्निशाकरे ।

वाहस्थो भाषते दूतन्तदा लाभोन्यथा नहि ॥ ४३ ॥

आदौ शून्यगतः पृच्छेत्पश्चात्पूर्णे विशेषदि ।

तदा सर्वार्थसिद्धिः स्यादिति जानीहि निश्चितम् ॥ ४४ ॥

पृथिव्यादि इति । पृथिव्यादित्रितत्त्वेन पृथिव्यप्तेर्जाभिर्बृहद्भिः दिनमासेनाग्नेन शोभन फलम् वक्तव्यम् । प्रश्नकाले पृथ्वीतत्त्वे वहति दिवसेन । अग्नेरत्त्वे वहति मासेन । तेजसि तत्त्वे वहति अग्नेन शोभन फल भवतीत्यर्थः । एव व्योममारुतवह्निभिर्बृहद्भिर्दुष्टं फल क्रमेण दिनमामावृत्तैः भवति । श्वासप्रवेशकाले इति । यदि दूत श्वासप्रवेशकाले वामदक्षिणस्वरप्रवेशकाले जल्पितुम् प्रश्न वाञ्छति तदा तत्फल वाञ्छितम् अवश्य सिद्धिमायाति भविष्यतीत्यर्थः । चेन्निरगमे वायौ निस्मरति जल्पित वाञ्छति तदा शोभन फल न भविष्यतीत्यर्थः । व्यवहारी इति । स्पष्टम् । सूर्ये चेदिति । सुगमम् । आदौ शून्यगते इति । आदौ शून्यगत शून्यस्थानगत पृच्छेत् पश्चात् पूर्ण पूर्णस्वरस्थाने यदि विशेषं ज्ञपति तदा सर्वार्थसिद्धिः स्यात् । इति निश्चितं जानीहि ॥ ४-५४ ॥

जिस समय प्रश्नकर्त्ता प्रश्न कर रहा हो यदि उस समय पृथ्वी, जल और तेजस्व का उदय हो तो क्रम से प्रश्नोक्त शुभ फल दिन मास तथा मास में होगा ।

अर्थात् पृथ्वी तत्त्व हो तो एक दिन में, जलतत्त्व हो तो एक मास में यदि तेजस् तत्त्व का उदय हो तो एक वर्ष में शुभफल होगा। इसी प्रकार यदि आकाश, वायु और अग्नि तत्त्व का उदय हो तो पूर्वोक्त दिनादि क्रम से अशुभ फल होंगे। यदि प्रश्नकर्ता शाम प्रवेश समय में प्रश्न करता हो तो उसका संपूर्ण अर्नीष्ट कार्य निःसंग्य सिद्ध होना है। यदि शाम के निर्गम समय में प्रश्न करता हो तो उसका अर्नीष्ट सिद्ध नहीं होते हैं। पूर्णस्वर के समय व्यवहार करने का उचित वादी होता है, दायादा का वचन शत्रु होता है, और कुपित हुये स्वामी और आदि भयकर हो जाते हैं पर दक्षिण स्वर चलता हो और विषम वर्णों का और वामस्वर चलता हो उस समय यदि ममवर्णों का उच्चारण दूत करे तो उसे लाभ होता है इससे भिन्न होने से लाभ नहीं होता है। पहले शून्यस्वर के स्थान में स्थित होकर प्रश्न करे इसका यदि पूर्णस्वर के स्थान में बटे तो सभी कार्यों की सिद्धि होती है यह निश्चित है। अथवा पहले प्रश्नकर्ता पूर्णस्वर के दिशा में स्थित होकर प्रश्न करे बाद में शून्यस्वर के दिशा में बटे तो वाम समझना चाहिये ॥ ४०-४४ ॥

गर्भप्रश्ने यदा दूतः पूर्णं पुत्रः प्रजायते ॥

शून्ये कन्या युगे युग्मं गर्भपातश्च संक्रमे ॥ ४५ ॥

आयाति वारुणे पांथस्तत्रैवास्ते सुखं क्षितौ ।

प्रयाति पवनेन्यत्र नृत उत्पनले वदेत् ॥ ४६ ॥

उदयश्चन्द्रमार्गेण सूर्येणास्तमन यदि ।

तदाऽतिगुणसङ्घान्त विपरीते च विप्रता ॥ ४७ ॥

गर्भेति । गर्भप्रश्ने पूर्णं वहति वामे वा दक्षिणे स्वरे पूर्णं वहति यदि वश्विद्रुत पृच्छति । अस्मिन् गर्भे पुत्रो वा पुत्री भविष्यतीति । तदा अस्मिन् गर्भे पुत्रो भविष्यतीति वदेत् । शून्ये शून्यगतश्चेत्पृच्छति तदा गर्भे कन्यया वाच्या । युगे युग्ममिति । आदौ पूर्णं प्रश्नं पश्चात् शून्यगतश्चेत्तदा युग्मम् अर्थात् प्राक् पुत्र पश्चात्कन्या इति वदेत् । अथवा आदौ शून्य पश्चात्पूर्णागत तदापि युग्मं वदेत् । इत्येव इत्स्वराभ्यामिह एव वक्तुं सामर्थ्यम् । ननु पठनमात्रेण । गर्भपातश्च संक्रमे । आदौ पूर्णो ब्रह्म पश्चादन्यपुनश्चिन्नामिति तदा मक्रमकाल । अत्र प्रश्ने गर्भपातं वदेत् । आयातीति । दूरगनस्यागमनप्रश्ने चेत्प्रश्नकाले वारुणे तत्रैव वहति तथा पाथ आयाति धिर्ता पृथ्वीतत्रैव वहति सति प्रश्ने तत्रैव सुखमास्ते इति वदेत् । पवने वायुत्वस्योदये प्रश्ने सति तस्मान्त्सगानान्यत्रगत इति वदेत् । अगले अग्नित्रैव यदति सति पाथो मृत इति वदेत् । उदय इति । चन्द्रमार्गेण वामस्यरे वहति यदि सूर्यस्य उदयः । सूर्येण

दक्षस्वरे वहति अस्तमन चेद्भवति तदा गुणाना सघातो भवति । विपरीते सति बहुभिन्नता बहूनि विघ्नानि भवति ॥ ४४-४७ ॥

यदि कोई पूर्णस्वर के उदय म प्रश्न करता हो कि इस गर्भ से पुत्र वा कन्या क्या होगा तो पुत्र होगा ऐसा कहना चाहिये । शून्य स्वरोदय के समय कन्या । पहले शून्य और फिर पूर्ण स्वरोदय हो तो दोनों अर्थात् पुत्र और कन्या होंगे । सक्रम काल में प्रश्न हो तो गर्भपात होगा । परदेशी के आने के सघन्ध में यदि जलतत्त्व के उदय में प्रश्न हो तो शीघ्र ही आवेगा, पृथ्वी तत्त्व के उदय म प्रश्न हो तो जहाँ है वहाँ सुग मे ह । वायुतत्त्व के उदय में उस स्थान से अन्यत्र गया है और अग्नि तत्त्व के उदय में परदेशी मर गया है ऐसा कहे । यदि वामस्वर के चलते हुये सूर्य का उदय हो और दाहिने स्वर के चलते हुये सूर्यास्त हो तो गुणों का मघात होता है और इसमे विपरीत हो तो अनेक विघ्न होते हैं ॥ ४५-४७ ॥

पक्षतोतिरुमाद्वाधिद्विपक्षादिष्टनाशनम् ।

पक्षत्रयमतिक्रम्य जायते मरणं ध्रुवम् ॥ ४८ ॥

वामे वा दक्षिणे वापि धराष्ट्राङ्गुलदीर्घिका ।

षोडशाङ्गुलमापः स्युस्तेजश्च चतुरङ्गुलम् ।

द्वादशाङ्गुलदीर्घः स्याद्वायुर्व्योमाङ्गुलेन हि ॥ ४९ ॥

पृथ्वी पीता सितं वारि रक्तवर्णो धनञ्जयः ।

मारुतो नीलजीमूत आकाशो वर्णपञ्चकः ॥ ५० ॥

पक्षेति । चन्द्रसूर्यस्वरवशात् उक्तशुभपक्षतो यशुभपक्षता भवति । उदय-
श्चन्द्रमार्गंशेत्यादि शुभपक्षमतिक्रम्य चेद्दुःखास्तमयौ तदा पक्षातिक्रमणम् एव
चेद्भवति तदा व्याधि स्यात् । पक्षद्वयमतिक्रम्य चेद्भवति तदेष्टनाशनम् ।
पक्षत्रयमतिक्रमणे मरणम् । वामेति । वामे वा दक्षिणे स्वरे धरातत्त्वम्
अष्टाङ्गुलदीर्घं वहति । आप जलतत्त्व षोडशाङ्गुलं वहति, तेजस्तत्त्व चतुरङ्गुलं
वहति । वायुतत्त्व द्वादशाङ्गुलदीर्घं, व्योम अङ्गुलमात्र दीर्घं वहति । अत्रेभ्य-
धेय स्वरभ्यासी अङ्गुलाङ्कितमेक षोडशाङ्गुलपरिमित यष्टिमादाय नासापुटस्थ
कृत्या किं तत्त्व वहतीति परीचेत् । तत्र चेदष्टाङ्गुलसीमात् वायुर्वहति तदा पृथ्वी
तत्त्व वहति । एतन्वेषा विचार कर्तव्य । प्रश्रीति । सुगमम् ॥ ४८-५० ॥

यदि पूर्व कहे हुये ४० श्लोक के अनुसार उदय स्वर न हो तो पक्ष का
अतिक्रमण हाता है यदि ऐसा होता हो तो व्याधिभव यदि दोनों पक्षों का अतिक्रम
हो तो दृष्ट का नाश और तीनों पक्षों के अतिक्रमण म निश्चय है मृत्यु होती है ।
स्वर के अभ्यास करने वाले को चाहिये कि एक-एक-एक को एक-एक-एक क्रम

पृष्ठ पक्ष अगुल पर निशान देने हीं पम एतद्दी को ताक के द्विद्र क मानने करके स्वर की परीक्षा करे यदि धाम आठ अगुल तक जाती हो चाहे यह बायां दो या दाहिना तो पृथ्वीतत्त्व उम समय बच रहा है ऐसा समझना चाहिये । १६ अगुल मरु जलतत्त्व, ४ अगुल तक तेजमत्तत्त्व, १२ अगुल तक वायुतत्त्व और १ अगुल मरु अकाशतत्त्व को समझना चाहिये । पृथ्वीतत्त्व पीतवर्ण, जलतत्त्व श्वेतवर्ण, अग्नि तत्त्व रक्तवर्ण, वायुतत्त्व नीलवर्ण और आकाश तत्त्व धूम्रवर्ण का होना है अथवा इनके ये वर्ण होते हैं ॥ ४१-५० ॥

पीतवर्णं चतुष्कोणं लम्ब्यं पृथिवीपुरम् ।
 वमध्यं पङ्कलाकारं श्वेतं वारुणमण्डलम् ॥ ५१ ॥
 रेफयुक्त त्रिकोणं च रक्ताभं वह्निमण्डलम् ।
 अष्टपत्रं यमध्यस्थं हरितं वायुमण्डलम् ॥ ५२ ॥
 त्र्यम्बकं चतुर्लाकारं धूम्राभं व्योममण्डलम् ।
 पञ्चतत्त्वेषु भेदोय कथितः पूर्वसूरिभिः ॥ ५३ ॥
 मारुणं मोहनं स्तम्भं विद्वेषोच्चाटनं वज्रम् ।
 प्रेरणाकर्षणं क्षोभं भानुनाट्युदये क्रूरम् ॥ ५४ ॥
 शान्तिकं पौष्टिकं क्षेम दिव्यौषधिरसायनम् ।
 योगाभ्यासादिकर्माणि कर्तव्यानि निशाकरे ॥ ५५ ॥
 चन्द्रसूर्यस्वराभ्यासं ये कुर्वन्ति सदा नराः ।
 अतीतानागतं ज्ञानं तेषां हस्तगतं सदा ॥ ५६ ॥
 इति सूक्ष्मस्वरोदयप्रकरणम् ।

इति श्रीनक्षयामलीयस्वरोदये नरपतिजयचर्याया

हसचारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

पीतवर्णमिति । मुष्टिप्रश्ने वा चिंतितप्रश्ने प्रप्रीतत्त्वेन लक्ष्मीजयुक्त पीतवर्णं चतुष्कोणं वस्तु यदेत् । वारुणमण्डलम् जलतत्त्वेन यस्मिन्पुक्तं श्वेतवर्णं पट्कोणं वस्तु यत्ने । वह्निमण्डलं अग्नि तत्त्वेन रथीजयुक्तं रक्तवर्णं त्रिकोणं वस्तु यदेत् । वायुतत्त्वेनयवीजयुक्तं हरितम् अष्टकोणं वस्तु यदेत् । व्योम मण्डलम् आकाशतत्त्वेन हरीजयुक्तं धूम्रवर्णं चतुर्लाकारं वस्तु यदेत् । पञ्चतत्त्वेषु पृथिव्यान्पिचतत्त्वेषु पूर्वसूरिभः कथितः । मारुणमिति । स्पष्टम् । शान्तिकमिति । सुगमम् । चन्द्रसूर्येति सुगमम् ॥ ५१-५६ ॥

प्रश्नकर्ता के इच्छित वस्तुष्वन्धी प्रश्न या मुष्टिगत वस्तु के बताने में पृथ्वी तत्त्व के उदय में ल घीज से युक्त पीलेवर्ण का चतुष्कोण वस्तु, जलतत्त्व के उदय में श्वेतवर्ण घ घीज से युक्त पट्कोण वस्तु, अग्नितत्त्व (तेज) के उदय में र रीज से युक्त रक्तवर्ण त्रिकोणवस्तु, वायुतत्त्व में य यीजयुक्त हरे वर्ण का अष्टकोण वस्तु, आकाशतत्त्व में धूमवर्ण ह रीज से युक्त गोले आकार के वस्तु को कहना चाहिये । ऐमा पूर्व आचार्यों ने पाचो तत्त्वों के भेद को कहा है । दक्षिण स्वर के उदय में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटा, प्रेरणा, आर्पण और क्षोभ इन कार्यों को करना चाहिये । शान्ति और पुष्टि के लिये तथा कुशल के लिये अनुष्ठान, शौचधि तथा रमायन योगाभ्यास आदि कार्य चन्द्रस्वर (वामस्वर) के उदय में करना चाहिये । जो मनुष्य चन्द्रसूर्य के स्वरों का अभ्यास करता है उसे जीते हुये तथा जानेवाले सभी बातों का ज्ञान हस्तगत होता है ॥ ५१-५६ ॥

इति नरपतिजयधर्यास्वरोदये सस्कृत हिन्दी टीकाद्वयोपेते
हमचाराध्यायो द्वितीय ।



-
- १ भेदा ये स्वरपञ्चके त्रिगदिता नंसर्गिहा षाडजा
स्तेषा षाल्लुमारयौवननरानेधन्पत्रम्यास्तथा ।
ताभ्रानानन्ति गुरुपदेशत्रिषिणा भेन्प्रभेदाथ य
ते जानन्ति पञ्च पुमाशुभनय कालत्रये निधिनम ॥ १ ॥
इदं प्रथममद्रुम् ।

अथ सर्वतोभद्रचक्रप्रकरणम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चक्रत्रैलोक्यदीपकम् ।
 विख्यात सर्वतोभद्रं सत्य प्रत्ययकारकम् ॥ १ ॥
 ऊर्ध्वगा दश विन्यस्य तिर्यग्नेखाम् तथा दश ।
 एकाशीतिपद चक्रं जायते नात्र मशय ॥ २ ॥
 अकारादिस्वरा, कोष्ठेऽप्रीगादिविदिशि क्रमात् ।
 सृष्टिमार्गेण दातव्या, षोडशैवं चतुर्ध्रमम् ॥ ३ ॥
 कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानि पूर्वागादि लिखेत् क्रमात् ।
 सप्त सप्त क्रमादेतान्यष्टाविंशतिमंग्यया ॥ ४ ॥
 अवरुहडादिषु प्राच्या मदपरताश्च दक्षिणे ।
 नयभजत्वाश्च चारुण्या गसदचलास्तथोत्तरे ॥ ५ ॥
 त्रयस्त्रयो वृषायाश्च पूर्वागादिक्रमाद्दुर्धः ।
 राशयो द्वादशैवं तु मेपान्ताः सृष्टिमार्गत् ॥ ६ ॥
 शेषेषु कोष्ठेष्वेवं नन्दादितिथिपञ्चकम् ।
 चाराणा सप्तक लेख्यं भौमाय च क्रमेण वै ॥ ७ ॥
 भौमादित्यौ च नन्दाया भद्राया बुधशान्गू ।
 जयाया च गुरुः प्रोक्तो रिक्ताया भार्गवस्तथा ॥ ८ ॥
 पूर्णायां शनिवारश्च शैरय चक्रेत्र निश्चितम् ।
 इत्येष सर्वतोभद्रविस्तारः कीर्तितो मया ॥ ९ ॥

अथेति । अथातोऽनन्तरम् सर्वतोभद्रनामकं चक्रं प्रवक्ष्यामि । सर्वतोभद्रं
 श्रेष्ठमिति सर्वतोभद्रम् । अस्मिन् चक्रे शुभ तथादि चक्रातोऽशुभं दृष्टानि तथा
 शुभम् । च पुनः कौह्यं त्रैलोक्यदीपकं दीप इव दीपकं त्रैलोक्यं दीपयति
 प्रकाशयति । त्रैलोक्यदीपकं विख्यातं प्रसिद्धम् । मया प्रत्ययकारकम् मयास्त-

त्वणादेव विचार्यमाणशुभाशुभप्रतीतिजनकम् । ऊर्ध्वग इति । सुगमम् ।
 अकारादि इति । तत्र के ण्डे ईशानादिदिशि कोष्ठेषु सष्टिमार्गेण प्रदक्षिण-
 क्रमेण अकारादिपोटशस्त्रा क्रमाल्लेख्या । एव चतुर्भ्रम चतुरावृत्त यथा
 स्यात्तथा षोडशत्रयम् अर्जान् अकार ईशानकोणे । आकार अग्निकोणे । इकारो
 नेर्हृत्ये । ईकारो वायव्ये । पुनरुकार ईशानकोणेऽकारस्याव कोष्ठके ।
 ऊकार आग्नेये आकारस्याध कोष्ठके एव षोडशस्त्रान् ईशानादिचतुर्कोणेषु
 विन्यसेदिति तात्पर्य । कृत्तिकादीनीति । तत पूर्वाशादिक्रमात् पूर्वादिक्रमेण
 कृत्तिकादीनि सप्त सप्त धिष्ण्यानि क्रमात् अष्टाविंशतिसंख्यया लेख्यानि । स
 यथा पूर्वस्या प्रथमपक्षौ कृत्तिकात, श्लेषान्त यात्रसप्तऋत्याणि लेख्यानि ।
 एव मघादीनि सप्त नक्षत्राणि दक्षिणस्या लिखेत् । मेषादीनि सप्तभानि
 पश्चिमाया लिखेत् । धनिष्ठादीनि सप्त उत्तरस्या लिखेत् । अत्रोत्तरायादाया अ-
 न्तपाद श्रवणस्याश्वघटीचतुष्टय यावन्भिजिन्नामनभत्रम् एवमष्टाविंशति ।
 अत्रकहडा इति । एव प्राच्या दिशि ऋत्याध पक्षौ अ-व-क-ह-ट, दक्षिणस्या
 दिशि ऋत्याध पक्षौ म ट पर त, पश्चिमाया दिशि न-य-भ-ज-त्ता, उत्तरस्या
 दिशि ग-श-द-च-ला लेख्या । त्रयत्रय इति । सृष्टिमार्गात् अनुक्रमेण पूर्वा
 शादि ममारभ्य वृषायास्त्रयत्रयो मेषान्ता द्वात्तराशय क्रमात् बुधै
 लेखनीया । अत्रेव मन्वेय वृषादित्रीन् राशीन् पूर्वदिक् तृतीयपक्षौ लिखेत् ।
 एव मिहादित्रीन् राशीन् दक्षिणदिक् तृतीयपक्षौ वृश्चिकादित्रीन् राशीन् पश्चिम-
 दिक् तृतीयपक्षौ, कुम्भादित्रीन् राशीन् उदारदिक् तृतीयपक्षौ सल्लिखेदिति ।
 शेषेषु इति । एव शेषेषु पचसु कोष्ठेषु नदादितिथि (नदा, भद्रा, जया, रिक्ता,
 पूर्णा) पचन्म् । न यथा प्रतिपत्पष्ठधेकादशय पूर्वकोष्ठे, द्वितीयान्तमीद्वादशयो
 दक्षिणदिशि कोष्ठे तृतीयाष्टमीत्रयोदशय पश्चिमदिक्कोष्ठे, चतुर्वीनत्रमीचतुर्दश
 उत्तरकोष्ठे तथा च पञ्चमीदशमीपञ्चदशयो मध्यकोष्ठे लेख्यम् । एव भौमा-
 न्तित्यक्रमेण वाराणा सप्तक लेख्यम् । भौमादित्यौ इति । नन्दाया प्रति-
 पत्स्थाने भौमान्तित्यौ वारी, भद्राया द्वितीयास्थाने बुधचन्द्रौ, जयाया तृतीया-
 स्थाने गुरु, रिक्ताया चतुर्वीस्थाने भृगु, पूर्णाया पञ्चमीस्थाने शनिवार
 लेखनीय । एव चक्रे पूर्वसरिभि निश्चितम् कृतम् । एव मया सर्वतोभद्र-
 विस्तार कीर्तित ॥ १-६ ॥

अथ मै विभुवन का दीपक मय प्रागियों क शुभ अशुभ को दहन वाला प्रसिद्ध
 सर्वतोभद्र नामक चक्र का कहना है । दश गदा रेखा और दश तिरछी रेखाओं
 को लिखे गेमा लिखने से ८१ कोष्ठ का चक्र होता है । उन कोष्ठों में ईशानादि क्रम
 से कोण के कोष्ठों में अकारादि अ० भा० इत्यादि सोलह स्त्रों को लिखें । इस
 प्रकार प्रत्येक कोण में चार कोष्ठ में न्यर होंग । स्त्रों के भाग क कोष्ठ में कृत्तिका से
 आरम्भ करके सात सात षष्ठ पृथ आदि दिशाओं में २८ षष्ठों को लिखें । ध्यांन्

वृत्तिका से श्लेषा पर्यन्त पूर्व म, मघा से विशाखा तक दक्षिण म, धनुराधा से धनुरा तक पश्चिम में और धनिष्ठा से भरणी पर्यन्त उत्तर में लिये । नक्षत्रपति के नीचे पूर्वादि दिशाओं में क्रम से अवकहह आदि पाँच वर्णों को लिये । अर्थात् ४० य० ५० ह० ए पूर्व के पाँच कोष्ठों में, म० ट० प० र, त दक्षिण में, न० य० म० ल० म् पश्चिम में, और ग० स० द० च० ए उत्तर दिशा म लिये । इनके नीचे तीनों कोष्ठों में पूर्वादिक्रम से घृषादि तीन तीनों राशियों को मेघ पर्यंत लिये अर्थात् घृष, मिथुन, कर्क को पूर्व में, सिंह, कन्या, तुला को दक्षिण म, वृश्चिक धा, मकर को पश्चिम और कुम्भ, मीन, मेघ को उत्तर में लिये । दाएँ कोष्ठ में नन्दा आदि सन्धाओं की पाँच तिथियाँ भौम, सूर्य आदि सात चारों को पूर्व आदि दिशाओं म लिये । अर्थात् जिन कोष्ठ म नन्दातिथि है उसी म भौम और रविवार, भद्रा के कोष्ठ में बुध, चन्द्रवार । जया क कोष्ठ में गुरुवार, रिक्ता क कोष्ठ में शुक्रवार और मष्य के कोष्ठ में पूर्वातिथि और शनिवार को लिये इस प्रकार से सर्वतोभद्रचक्र का विस्तार होता है ॥ १-९ ॥

सर्वतोभद्रचक्रम्

ध	वृ	रो	मृ	धा	पु	पु	स्ते	भा
भ,	उ	न	ष	क	ह	ड	ऊ	म
अ	ए	रु	वृ	मि	क	लृ	म	पू
रे	च	मे	ओ	१ र ६ म	धी	मि	ट	उ
उ	द	मी	४ शु १४	१० १५ शु	३ च १२ बु	व	प	ह
पू	स	कु	श	३ गु १३	अ	गु	र	वि
ज्ञ	ग	ते	म	घ	घृ	ण	न	रना
ध	त्र	म	ज	म	य	न	ना	वि
इ	श	न	उ	ए	मृ	उपे	अ	इ

ऊर्ध्वदृष्टी च भौमास्तौ केरुगं पुत्रभार्गवा ।

समदृष्टी च जीवेन्दु शनिराह रघोदृष्टौ ॥ १० ॥

नीचस्थितोर्ध्वदृष्टिश्च उच्चैरधो निरीक्षयेत् ।
 समश्च पार्श्वतो दृष्टिस्त्रिधा दृष्टिः प्रकथ्यते ॥ ११ ॥
 शन्यर्कराहुकेत्वाराः क्रूराः शेषाः शुभग्रहाः ।
 क्रूरयुक्तौ बुधः क्रूरः क्षीणचन्द्रस्तथैव च ॥ १२ ॥
 यस्मिन्नृक्षे स्थितः खेटस्ततो वेधत्रय भवेत् ।
 ग्रहदृष्टिवशेनात्र वामसम्मुखदक्षिणे ॥ १३ ॥
 भुक्तं भोग्यं तथा क्रान्तं विद्ध क्रूरग्रहेण च ।
 शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ १४ ॥
 वक्रगे दक्षिणा दृष्टिर्ग्रामदृष्टिश्च शीघ्रगे ।
 मध्यचारे तथा मध्या ज्ञेया भौमादिपञ्चके ॥ १५ ॥

ऊर्ध्वेति । स्पष्टम् । नीचस्थितो इति । सुगमम् । शन्यर्केति । अत्र ग्रहाणां क्रूरसौम्यविभागमाह । तत्र चन्द्रस्य शीणत्वं कृष्णैकादशीतं शुक्लपक्षीय पञ्चम्यन्तं यात्रजेयमन्यत् सुगमम् । यस्मिन्नृक्षे इति । यस्मिन् ऋक्षेऽनक्षत्रे खेटो ग्रहः, स्थितः ततः ग्रहदृष्टिप्रशेनं अग्रे वक्ष्यमाणेन वामसम्मुखदक्षिणे वेधत्रयं भवेत् । भुक्तं भोग्यम् इति । यत्रक्रूरः क्रूरग्रहेण भुक्तं भुज्यमानः, भोग्यः, आक्रान्तः यत्र विद्ध एतच्चतुष्टयं शुभाशुभकार्येषु प्रयत्नतः वर्जनीयं । वक्रगे इति । भौमादिपञ्चके वक्रगे वक्रगामिनि दक्षिणा दृष्टिः दक्षिणभागे दृष्टिर्भवति । शीघ्रगे शीघ्रगती वामदृष्टिर्ग्रामभागे दृष्टिर्भवति । मध्यचारे प्रकृतगती मध्या सम्मुखे दृष्टिर्ज्ञेया ॥ १०-१५ ॥

भौम और सूर्य की ऊप्य (उपर) दृष्टि होती है, बुध और शुक्र की तिर्यग् (तिरछी), गुरु और चन्द्रमा की समदृष्टि, और शनि तथा राहु की अधो (नीचे) दृष्टि होती है । ग्रह अपने नीच राशि में रहता है तो ऊर्ध्व दृष्टि होती है, उच्च राशि में अध दृष्टि, सम अर्थात् उच्च नीच के मध्य में रहता है तो पार्श्व अर्थात् तिरछी दृष्टि होती है इस प्रकार ग्रहों की तीन दृष्टियाँ होती हैं । शनि, राहु, केतु और मंगल ये क्रूरग्रह हैं । शेष सभी शुभग्रह हैं, क्रूरग्रह से युक्त बुध भा क्रूर होता है तथा क्षीणचन्द्रमा भी क्रूरग्रह होता है । जिस नक्षत्र पर ग्रह रहता है उससे ग्रह के दृष्टिप्रश से वाम, सम्मुख और दक्षिण ये तीन प्रकार के वेध होते हैं । क्रूरग्रह से भोग्य हुआ, भोग्य (जिस पर ग्रह जानेवाला है), जिस पर ग्रह है और जो क्रूर ग्रह वेध करना हो ये चारों नक्षत्र शुभ तथा अनुभ कार्य में निन्दित हैं । यदि ग्रह वक्र हो तो दक्षिण दृष्टि, शीघ्रगति ग्रह की वामदृष्टि और मध्यमागति के तुल्य गति

वाले ग्रह की मर्या (मम) दृष्टि होती है किन्तु यह केवल भीमादि ५ ग्रहा की ही होती है ॥ १०-१५ ॥

सूर्यमुक्ता उदीयन्ते सूर्यग्रस्तास्तगामिनः ।

ग्रहाद्वितीयगे सूर्यं स्फुरद्विम्बा, कृजादयः ॥ १६ ॥

ममा तृतीयगे जेया मन्दा भानौ चतुर्थगे ।

वक्रा स्यात्पञ्चपष्ठेके त्वतिवक्राष्टममे ॥ १७ ॥

नयमे दशमे भानौ जायते कुटिला गतिः ।

द्वादशेकादशे सूर्ये भजते शीघ्रतां पुनः ।

अदृश्यतां पुनर्लोकं व्रजन्त्यर्कगता ग्रहाः ॥ १८ ॥

राहुकेतु मदा वक्रौ शीघ्रगौ चन्द्रभास्करौ ।

गतेरेकस्वभावत्वादेवा दृष्टिन्नयं मदा ॥ १९ ॥

क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभाः ।

स्युः महजस्वभावस्थाः सौम्याः क्रूराश्च शीघ्रगाः ॥ २० ॥

सूर्यमुक्ता इति । कुजादय भीमादय सूर्यमुक्ता सूर्येण मुक्तामयना अप्रिमराशिगमनेन वा सूर्यात् मुक्ता बहिर्गतास्ते उदीयन्ते उदिता भवन्ति, सूर्यग्रस्ता सूर्येण महैकराशिरथा विद्वतजालाशान्तर्गता (भास्करा नगसुयो गुणचन्द्रा भूसुयो विविमस्निधयोऽजादिनि) पठितपालाशान्तर्गताभेद्भवन्ति तथा अस्ता भवन्ति । प्रहाद् द्वितीयगे द्वितीयराशौ सूर्ये मनि पूर्ण राशिम्बा मना स्फुरद्विम्बा शीघ्रगा भवन्ति । प्रहान् तृतीयगे तृतीयराशौ सूर्ये ममा प्रवृत्तगतय भवन्ति, चतुर्थगे प्रवृत्ततुर्यराशौ सूर्ये मन्ते मन्दगतय भवन्ति । पञ्चमे पष्ठे वा भानौ स्थितयता यत्रगतय, सप्तमे वा अष्टमे सूर्ये अनिवक्रा भवन्ति । नवमे वा दशमे सूर्ये कुटिला महजा गति भवति एव प्रहाद् द्वात्रिंशे वा पञ्चदशे सूर्ये पुन शीघ्रता शीघ्रगतिव भवति । पुन अकगता ग्रहा लोके समार अन्त्यना मपन्ति । राहुकेतु इति । राहुकेतु मदेव वक्रिणी तथा चन्द्रभास्करौ शीघ्रगौ वा शीघ्रचन्द्रराहुकेतुना गतिक एव स्वभावात्किमुभिरैव दृष्टिमिर्गामन्सुवक्रिणाभिरा एतवार उदा पश्यन्ति । क्रूरा इति । क्रूरा पापयता यत्रगतय मन्तो महाक्रूरा । सौम्या शुभप्रणा यता मन्तो महाशुभा महत्स्वभावयथा सौम्या शीघ्रगा मन्त शुभ स्वभावेन वृन्ति । किन्तु ग्रहा मन्तो यथातिशुभ कुर्यात् यथा ॥ १६-२० ॥ एव क्रूरा शीघ्रगा स्वम्यभावेन स्थिता भवन्ति ॥ १६-२० ॥

सूर्य से मुक्त अर्थात् सूर्य से अलग कालाश से अधिक अन्तर पर जो ग्रह होते है वे उदय होते हैं, सूर्य के साथ अर्थात् कालाश तुल्य अन्तर के अन्दर ही जो ग्रह होते है वे अस्त होते हैं, सूर्य से दूसरे राशि पर जो ग्रह हाते ह व शीघ्रगामी होते है किन्तु यह भीमादि पाँच ग्रह के ही लिये है । ग्रह से सूर्य तीसरे स्थान में हो तो ग्रह समगति, चौथे राशि पर मद्गति, पाँचवें, छठें राशि पर चन्द्रगति और सातवें आठवें राशि पर अतिवक्र गति होता है । ग्रह से सूर्य नवें या दशम स्थान म हो तो ग्रह वृष्टि (सहज) गति, १२ वें या ११ वें स्थान में हो तो ग्रह शीघ्रगति होता है, इसके बाद पुन सूर्य के साथ होने से अस्त हो जाता है । राहु और कतु हमेशा वक्रगति और सूर्य तथा चन्द्रमा हमेशा शीघ्रगति ही होते ह । दोनों के एक ही गति और स्वभाव होने से क्रमसे इनकी ३ दृष्टियाँ वाम, दक्षिण और सम्मुख ही होती है ॥ १६-२० ॥

अवर्णादिस्वरौ द्वौ द्वावेकवेधे द्वयोर्व्यधः ।

स्वरयुक्तात्मनोर्वेधश्चानुस्वारविसर्गयोः ॥ २१ ॥

ववौ शसौ पखौ चैव ज्ञेयोऽज्ञौ परस्परम् ।

एकेन द्वितयं ज्ञेयं शुभाशुभखगव्यधे ॥ २२ ॥

घडछाः पणठाश्चैव धफढास्थज्ञजास्तथा ।

एतन्निक त्रिकं विद्व विद्वैः कपदभैः क्रमात् ॥ २३ ॥

घडडा रौद्रगे वेधे पणठा हस्तगे ग्रहे ।

धफटाः पूर्वापाढाया थज्ञजा भाद्र उत्तरे ।

अवर्णादिस्वरद्वन्द्वेष्वेकवेधे द्वयोर्व्यधः ।

युक्तस्वरात्मके वेधे त्वनुस्वारविसर्गयोः ॥ २४ ॥

अवर्णादि स्वरौ इति । अवर्णादि द्वौ द्वौ स्वरौ अ आ, इ ई, इत्यान्य नन्ति तेषा मध्ये एकस्य वेधेन द्वयोरपि वेधो ज्ञातव्य । स्वरयुक्त आत्मा ययोरनुस्वारविसर्गयोस्तयोरपि त्रैव । तत्रापि एकवेधेन द्वयोरपि त्रयो ज्ञातव्य । यतो द्वयोरपि अकारमहितानुशास्येते । व० वौ० श० मी० इति । अत्र ग्रन्थे ववौ शसौ परवौ ऊ वो द्वौ द्वौ वर्णौ तुल्या ज्ञातव्यौ । तत्र शुभाशुभ-खगव्यधे एतेन वेधे द्वितय विद्व ज्ञेयम् । घ-ड-छा इति । ऋ-ण-भ-त्रे विद्वे क्रमात् घ-ड-छा, ण-ण-टा १-फ-डा, व-भ-जा एतत् त्रिक त्रिक विद्व भवति । यथा ऋकारे विद्वे घ-ड-छा वर्णा विद्धा । पकारे विद्वे ण-ण-टा विद्धा, भकारे विद्वे ध-फ-डा विद्धा । दकारे विद्वे व-भ-जा विद्धा । घ-ड-

शुभग्रह निग्रहल देता है और शुभग्रह ने युक्त शुभग्रह भयम्न शुभफल देता है । मूर्य वेध करता हो तो मन में मत्ताप, भीम से द्रव्यदागि, गनि से रोग और पीडा, राहु और कतु यध करते हों तो विघ्न होता है । चन्द्रमा वध करना हो तो मिथित होता है । शुभ वेध करता हो तो स्त्री से मुल, युध यध करता हो तो पुत्रि में पूदि गुण वेध करता हो तो सभी प्रकार क फल होते है । यदि नाम क नक्षत्र स वैनाशिक नक्षत्र (२३ वं नक्षत्र) को शुभ और पाप दानों वेध करते हों तो राग और धम ना नाश होता है । यदि तीनों को अर्थात् वैनाशिक, सामुदायिक और सांघानिक नक्षत्रों को दोनों ग्रह वेध करते हों तो मृत्यु होती है ॥ २६ २३ ॥

स्वक्षेत्रस्थे बल पूर्ण पादोनं मित्रभे गृहे ।

अर्द्धं समगृहे ज्ञेय पादं शत्रुगृहे स्थिते ॥ ३४ ॥

इदं च सौम्यक्रूराणां बलं स्थानवशात्मकम् ।

एतदेव बलं बोध्यं सौम्ये ऋरे विपर्ययात् ॥ ३५ ॥

स्थानवेधसमायोगे यत्सख्यं जायते बलम् ।

तत्सख्यं वेध्यवस्तूनां फलं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ ३६ ॥

ग्रहाः क्रूरास्तथा सौम्या वक्रमार्गोचनीचगाः ।

स्थानं च वेध्यमित्येवं बलं ज्ञात्वा फल वदेत् ॥ ३७ ॥

वक्रग्रहे फल द्विगुणं त्रिगुणं स्वोच्चसंस्थिते ।

स्वभावजं फल शीघ्रे नीचस्थो निष्फलो ग्रहः ॥ ३८ ॥

स्वक्षेत्रस्थे इति । स्वक्षेत्रस्थे मरुतामिन्द्रोक्ताण्ये ग्रहे पूर्णं बलं भवति । तत्र सूर्यादीनां राशत्र । मेघशुक्रियोर्भोगं शुक्रो व्रजतुलाधिप । बुध कन्यामिथुनयो वषटस्व तु चन्द्रमा । सिंहम्यापिभनि सूर्य शनिर्मरुत्कुम्भयो स्यान्मीनघुपोर्जाय वदित्वा गणकेत्तमै ॥ मित्रादिव्ययन्धाय परासमिदि राचार्य—शत्रु मद्सितौ नमश्च पशितो मित्राणि शेषा रवेस्त्रीत्पागुदिम रदिमत्रश्च मुह्य शेषा समा गीपने । जीन्दृणकरा कुनस्य मुह्यो शोडि भितारी समी भिरे मूर्त्तितौ बुधस्य िमगु शत्रु समाशापरे ॥ मूरं सौम्य मितायते रियमुतो पक्षोऽपर त्यन्धा सौम्याकी मुह्यो नती शत्रुगुरु बुधस्य शेषावरी । शत्रुश्री मुह्यो नम सुरुगु सौरस्य चान्यऽरस्तत्ताने च भय व्यभारमद्दन्व्याचारवन्धुम्बिता ॥ मुह्यदस्त्वन्वयाऽरय । शत्रुस्यपुत्र । इदं च सौम्य इति । इदं पूर्णमित्त्वानि बलं सौम्यात्ताना सौम्याना मृगणा च म्या

यशात् सम तुल्यम् । एतदेव बल सौम्ये क्रूरे त्रिपर्ययाद्वैपरीत्याद्बोध्यम् ।
अर्थात्क्रूरे स्वगृहे पादैक, 'मित्रगृहेऽर्ध' समगृहे चतुर्थभागहीन शत्रुगृहे पूर्ण-
बलमिति । स्थानवेधे इति । स्थानवेधे स्वगृहाद्यस्य स्थानवेधसमायोगे वेध-
सम्भवे यत्सख्यक पूर्णत्वादिक बल जायते त्रिचक्षणे तत्सख्य वेधवस्तूना
शुभमशुभ वा फल ज्ञेयम् । ग्रहा क्रूरास्तथा इति । सुगमम् । यक्रग्रहे सौम्ये
क्रूरे वा द्वित्र द्विगुणितम् एतमुच्चानौ त्रिगुणित बलम् । एवमन्यदपि ज्ञेयम् ।
यादृग्वली ग्रहो यत्रक्षत्रादि विधयति तादृग्वेधजनित फल ददाति ॥ ३४-३८ ॥

यदि ग्रह अपने राशि में हो तो पूर्णवली होता है । अपने मित्र की राशि में हो
तो चतुर्थांशोन बल, सम की राशि में हो तो आधाबल, और शत्रु की राशि में हो
तो चतुर्थांश (चौथाइ) बल पाता है । यह बल शुभग्रह और पापग्रह का स्थान से
समान है किन्तु पापग्रह का बल बिलोम जानना चाहिये अर्थात् पापग्रह अपनी राशि
में हो तो चौथाइ मित्र की राशि में हो तो आधा, सम की राशि में हो तो चौथाई
कम और शत्रु की राशि में हो तो पूर्णवली होता है । स्थान स्वगृहादि के वेध में
जितनी मर्यादा बल की प्राप्त हो उतने ही सत्यक वस्तु का शुभ अशुभ फल कहना
चाहिये । क्रूरग्रह या शुभग्रह हो वह घनी हो, मार्गा हो, उच्च, म हो अथवा नीच
में हो यही स्थान कहे जाते हैं, इन स्थानों के बल को जाकर फल कहना चाहिये ।
यदि ग्रह बली हो तो दूना फल, उच्च में हो तो तिगुना, शीघ्रगति हो तो स्वभाप
के अनुसार और नीच में हो तो आधा फल देता है ॥ ३४-३८ ॥

तिथिराशयंगनक्षत्रं विद्धं क्रूरग्रहेण यत् ।

सर्वेषु शुभकार्येषु वर्जयेत्तत्प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥

न नन्दति विवाहे च यात्रायां न निवर्तते ।

न रोगान्मुच्यते रोगी वेधवेलाकृतोद्यमः ॥ ४० ॥

रोगकाले भवेद्वेधः क्रूरखेचरसम्भवः ।

चक्रगत्या भवेन्मृत्युः शीघ्रे याप्या रुजान्वितः ॥ ४१ ॥

वेधस्थाने रणे भङ्गो दुर्गं खण्डिः प्रजायते ।

रुविप्रवेशान तत्र योधघातश्च तत्र वै ॥ ४२ ॥

तिथिराशयश इति । यत् तिथिराशिरशक नभश्च च क्रूरग्रहेण पापग्रहेण
विद्ध तत् समस्त सर्वेषु शुभकार्येषु प्रयत्नत वर्जयेत् । न नन्दति इति । वेध-
वेलाया रोगोत्पत्ती रोगी रोगान्न मुच्यते अन्यत्स्पष्टम् । रोगकाले इति ।
रोगकाले समुत्पन्नरोगममये क्रूरखेचरसम्भव पापग्रहकृतो वेध म चेद् प्रगति-
भवेत्तदा रोगिणो मृत्युर्भवति । शीघ्रेऽपाये वेधकर्त्तरि याप्यरुना दीर्घममयापाने

रोगेणान्वित पुरुषो भवति । वेधस्थाने इति । वेधस्थाने रोगे भङ्गो भवेत् ।
 रास्थाने पूर्वादिदिक्कामेण नर्वतोमद्रचक्रे वेधो भवति तद्धि सप्तमे कोटे
 मन्त्रे वा भङ्गो भवति । दुर्गे नृण्डि दुर्गस्यापि विद्वनभ्रमन्दिश्येव सृण्डि
 नृण्डन जायते । करिप्रवेशन त्रेत्रदिशि करिप्रवेशनम् कुर्यात् । यधि नीत्रि
 नाभिघातो 'डाक' इति प्रसिद्धस्तदर्थं प्रवेशनम् । योधघातश्च तत्र ये । योध-
 नक्षत्रान् यश्चक्ष्णामवर्णां विद्व पुरुषस्य दुर्गा देवा पापप्रक्षिप्तो भवति तत्रास्य
 प्रतारो भवतीत्युदनीयम् ॥ ३६-१० ॥

जो तिथि, राशि, जन्म, नक्षत्र, मूरग्रह से वेधित हो उसे सभी शुभ कार्यों में त्याग
 देना चाहिये । यध समय में विवाह करना से उसमें सफलता नहीं होती, यात्रा करने
 में मनुष्य उससे लौटना नहीं है, और रोग उपपन्न होने से रागा राग में मुक्त नहीं
 होता है । रोग समय में यको मूरग्रह का पथ होता है । ता रोगी की मृत्यु होती है ।
 शुभग्रह से वेध होता हो तो दीर्घरोगी होता है । यधस्थान में सप्तम करने से भग,
 दुर्ग में वेध स्थान में रण करने से दुर्ग भग होता है । सोते हुए पर घात करने में
 सफलता और योधा के नक्षत्र से यध जिन नक्षत्र भग में पड़ता हो उस भग में घात
 करने में विजय होती ॥ ३९-४२ ॥

यत्र प्रवादिक्काष्ट्रायां नृपराद्यादिगो रधि ।
 मा दिगस्तमिता ज्ञेया तिस्रः ज्ञेया सदोदिताः ॥४३॥
 ईशानस्थाः स्वराः प्राच्यां ज्ञेया आग्नेयगा यमे ।
 नैर्ऋत्यस्थास्तु वारुण्यां चापच्या सौम्यगा मताः ॥४४॥
 नक्षत्राणि स्वरा वर्णा राजयस्तिथयो दिशः ।
 ते सर्वेस्तं गता ज्ञेया यत्र भानुग्निमामिकः ॥४५॥

यत्रेति । यत्र यस्या पूर्वादिदिक्काष्ट्राया पूर्वादिदिक्काष्ट्राया पूर्वादिदिक्काष्ट्राया प्रत्येक
 नृपराद्यादिगो रधि सा दिक् अन्तमिता ज्ञेया । ज्ञेया तिस्रः सर्वोदिता
 ज्ञेया । ईशानस्था इति । ईशानादिगस्थिता स्वरा ज-उ-रु-ओ एते चत्वार
 प्राच्या पूर्वादिदिक्काष्ट्राया ज्ञेयास्तस्यामस्तमितारा नक्षत्रमिता ज्ञेया । नक्षत्राणि
 इति । यत्र त्रिमासिको राशित्रययोगकामेण सूर्योऽत्रन्वितस्यात्र एव स्थित
 नक्षत्रस्वरवर्णारायन्तिथ्यादिका सर्वे एवमागता ज्ञेया इति ॥ ४३-४५ ॥

चक्र में पूर्वादि दिशाओं में गृह आदि तीन तीनों राशियों स्थित हैं इन राशियों
 में जय सूर्य रहता है तो दिशाओं भग्न होती हैं और जय तीनों दिशा उदय होती
 हैं । जय गृह, मिथुन, कर्क राशि पर सूर्य के रहने से ग्रह, आकाश, भावन गता

में पूर्वदिशा अस्त होती है और शेष दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा उदय रहती है । इसी प्रकार अन्य दिशाओं में भी समझना चाहिये । ईशान कोण में स्थित स्वरों अ-उ-ए-ओ को पूर्वदिशा में समझना चाहिये । यदि पूर्वदिशा अस्त हो तो स्वरों को भी अस्त समझना चाहिये । अग्निकोण के स्वरों को दक्षिण दिशा में, नेत्रकोण के स्वरों को पश्चिम में और वायव्य कोण के स्वरों को उत्तरदिशा में समझना चाहिये । निम्न दिशा में त्रैमासिक सूर्य हो उस दिशा के नक्षत्र, स्वर, वर्ण, राशि, तिथि और दिशा अस्त होते हैं ॥ ४३-४५ ॥

नक्षत्रेस्ते रुजो वर्णे हानिः शोकः स्वरेस्तगे ।

राशौ विघ्न तिव्योभीति पञ्चास्ते मरणध्रुवम् ॥ ४६ ॥

यात्रायुद्ध विवादश्च द्वारं प्रासादहर्म्ययोः ।

न कर्तव्यं शुभं चान्यदस्ताशाभिमुखं नरैः ॥ ४७ ॥

अस्ताशाया स्थितं यस्य यदा नामाद्यक्षरम् ।

तदा तु सर्वकार्येषु ज्ञेयो देवहतो नरः ॥ ४८ ॥

कवो कोटे तथा द्वन्द्वे चातुरंगे महाहवे ।

उद्यमोस्तंगतैर्घोषैर्वर्जनीयो जयार्थिभिः ॥ ४९ ॥

नक्षत्राभ्युदिते पुष्टिर्वर्णे लाभः स्वरे सुखम् ।

राशौ जयस्तिथौ तेजः पदाप्तिः पचकोदये ॥ ५० ॥

नक्षत्रेऽस्ते इति । सुगमम् यात्रायुद्धम् इति । शुभ यात्रादिकर्म । अन्यदशुभ मारणादिक कर्म । अस्ताशाभिमुखमस्तदिगभिमुख नरैर्न कर्तव्यम् । शेष सुगमम् । अस्ताशायाम् इति । यस्य पुरुषस्य नामाक्षरमस्ताशाया स्थितं स नरो देवहतो ज्ञेयः । अन्यत्स्पष्टम् । कवो कोटे इति । यस्य योध्म्य नक्षत्राणि स्वरा वर्णा राशय अस्तगता भवन्ति ते अस्तगता ज्ञेयाः । ते अस्तगतैर्घोषैर्जयार्थिभिः कोटयुद्ध द्वन्द्वयुद्ध वर्जयेत् । चातुरङ्गे महाहवे न निष्ठेत् । उद्यमश्च वर्जनीयः न कर्तव्यः । नक्षत्रेऽभ्युदिते इति स्पष्टम् ॥ ४६-५० ॥

नक्षत्र अस्त हो तो रोग, वर्ण अस्त हो तो हानि, स्वर अस्त हो तो शोक, राशि अस्त हो तो विघ्न, तिथि अस्त हो तो भय होता है और पाँचों नक्षत्र आदि उपर्युक्त अस्त हों तो निश्चय ही मृत्यु होती है । अस्त दिशा के सम्मुख यात्रा युद्ध, विवाद, प्रामाद और सजान का दरवाजा न करे और अशुभ कार्य मारण आदि भी न करे । जिस पुरुष के नाम का आदि अक्षर अस्त दिशा में हो तो वह पुरुष सभी कार्यों में देवहत होता है । जिस योधा का नक्षत्र, स्वर, वर्ण और राशि अस्त हों वह अन्तर्गत

होता है। उसे कोट्युद्ध, इन्द्रयुद्ध, चतुरंग महायुद्ध और उष्ण आदि शिवाय की इच्छा से नहीं करना चाहिये। यदि उष्ण उदित हो तो पुष्टि, पूर्ण उदित हो तो सुख, राति उदित हो तो विजय और विधि उदित हो तो श्री और पाँचों उदित हो तो पद का लाभ होता है ॥ ४६-५० ॥

प्रश्नकाले भवेद्विद्ध यत्प्रश्नं क्रूरस्वेत्तरं ।
 तद्दुष्ट शोभनं सौम्यैर्मिश्रैर्मिश्रफलं मतम् ॥ ५१ ॥
 प्रहाभिन्न तु यत्प्रश्नं फलं लग्नस्वभावतः ।
 ज्ञातव्यं देशिकेन्द्रेण भाषितं यचरादिकम् ॥ ५२ ॥
 क्रूररुभयतो विद्धा यस्याऽक्षरतिथिस्वराः ।
 राशिधिष्ण्य च पंचापि तस्य मृत्युर्न संशय ॥ ५३ ॥
 मण्डलं नगरं ग्रामो दुर्गं देवालयं पुरम् ।
 क्रूररुभयतो विद्ध दिनद्वयति न संशयः ॥ ५४ ॥

प्रश्नकाले इति । प्रश्नकाले यत्प्रश्नं भवत्येत्क्रूरमहेतिद्ध भवत्तदा दुष्ट निषिद्ध फलद श्रेयम् । यदि शोभनै शुभमहे विद्ध तदा शोभन फल वक्तव्यम् । मिश्रे मिश्रमहे सौम्यपापे विद्ध तदा मिश्र शुभमशुभ च फल भवतीति । प्रहाभिन्नम् इति । प्रहाभिन्न नर्यमहेतिद्ध यचरादिक परस्थिरतिस्वभावात्प्रश्न तत्र देशिकेन्द्रेण ज्योतिर्विज्ञा प्रश्नकाले यत्फल भाषितमुक्त हतनष्टादी नामा लाभे, जयाजये तल्लग्नस्वभावत लग्नस्य च स्वभावे चतुर्गुणप्रमाणारण्ये जाराशिस्वभावेऽ फल ज्ञातव्यम् । यचरादिके लभे प्रश्नमार्तण्डे ण्य फलपुष्टम् । चरलप्रोद्ध्ये नष्ट दर्शनं रोगिणो मृति । ज्ञातव्यापि च तत्रैव स्वप्रायुषि निदिशेत् ॥ स्वरलप्रोद्ध्ये नष्ट स्वल्पकालेन लभ्यते । तत्र गेमी विगद्गयो दीर्घायुर्लघुजन्मवत् ॥ नष्टस्य शीघ्र लाभ म्प्रादोत्ती शीघ्रेण शोभा । मध्यायुर्लघुजन्माभ्याद्द्विस्वभायोद्ध्येषु यत् । क्रूररुभयत इति । यच्च पुरस्य अक्षरतिथिस्वराशिष्ण्य च पञ्चापि प्रै पापमहेरुभयोः विद्धा मृत्युस्व मृत्यु स्यात्तित्यत्र न मशय । मण्डलं नगरम् इति । नामाश्रयमुभयदा क्रूर विद्धम् एते मण्डलमयन्द्रेऽकप्रामममृत् । नगर राजावास्थितिस्थाप । ग्राम प्रतिद्धत् एव दुर्गं कौटादि देवालय प्रभिद्धम् पुर राजधानीति नयति न मशयो निधाय ण्य ॥ ५१-५४ ॥

प्रश्नकालिक एव यदि क्रूर महे विद्ध हा ता भयुभ फल अथात् प्रकाल वाय का तिदि मदी होती है । शुभमहे न विद्ध हा ता शुभ फल हाता है और शुभ पाप दोनों से बधित हो गो शुभ अशुभ दोनों फल हाते हैं । मर्ती मदी न प्रमिद्ध

जो चरादि प्रश्नकालिक लग्न हों उनका जो फल प्रश्नकाल में कहा गया वही फल ज्योतिषी को राशिया के स्वभाव के अनुसार कहना चाहिये । जिस पुरुष का अक्षर, तित्ति, स्वर, राशि और नक्षत्र पाँचों क्रूर ग्रह में विद्ध हों उसकी मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहा है । जिम मण्डल (ग्राम ममूह), नगर, पेटालय, किंरा, रागधानी के आद्यार उभयत्र क्रूर ग्रह में वेधित हों तो व निश्चय ही नाश को प्राप्त होने है ॥

कृत्तिकादित्रिकाद्ये भे क्रूरविद्धे च कूर्मतः ।

देजा नाभिस्थदेशाद्या विनश्यन्ति यथाक्रमम् ॥ ५५ ॥

कृत्तिकाया तथा पुष्ये रेवत्या च पुनर्वसौ ।

विद्धे सति क्रमाद्धेधो वणेषु ब्राह्मणादिषु ॥ ५६ ॥

तैलं भाण्डं रसो धान्य गजाश्वादिचतुष्पदम् ।

सर्व महर्घता याति यत्र क्रूरो व्यवस्थितः ॥ ५७ ॥

क्रूरवेवसमायोगे यस्योपग्रहसम्भवः ।

तस्य मृत्युर्न सन्देहो रोगाद्वाथ रणेपि वा ॥ ५८ ॥

सूर्यभात्पञ्चम धिष्ण्य ज्ञेयं विद्युन्मुग्धाभिधम् ।

शूलं चाष्टमभ प्रोक्त सन्निपातं चतुर्दशम् ॥ ५९ ॥

केतरप्रादशे प्रोक्त उल्का स्यादेकविशतौ ।

द्वाविशतितमे रुम्पद्वयोविशे च वज्रकम् ॥ ६० ॥

निर्घातश्च चतुर्विंशे उक्ता अष्टावुपग्रहाः ।

स्वस्थाने विघ्नदाः प्रोक्ताः सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ ६१ ॥

कृत्तिकादित्रिकाद्ये इति । कूर्मतं कर्मचक्रे कृत्तिकादित्रिकाद्ये यत्र कृत्तिकादित्रिकाणि भानि कूर्मन्मय भयसु शरीरभागेषु न्यस्तानि तत्र तादृशे भे नश्ये क्रूरवेधे सति नाभिस्थदेशाद्या देजा विनश्यन्ति । अयमाशय — सर्व देशा विनाश न यान्ति । कृत्तिकादित्रिकाद्ये नाभ्युक्तेशाना मध्ये (सान्नेत-मिथिलाचम्पारयासीना) सम्य सम्य पर्णा स्वराद्य पञ्चक्रूरे विद्धा भवन्ति स न भेशो विनाश याति । कृत्तिकायाम् इति । कृत्तिकापुण्यरेवतीपुण्यमुन्यत्र चतुष्टय त्रेधे सति ब्राह्मणादिषु ब्राह्मणत्रियवैश्यशूद्रेषु वणेषु क्रमाद्धेधो भवति । यथा कृत्तिकाया विद्धाया ब्राह्मण त्रिध्यति । न चक्रुभहनस्तत्र ब्राह्मणाना शुभमन्यवाऽशुभ ज्ञेयम् । एष पुत्रे विद्धे अत्रिये रेवत्या वश्ये पुनर्वसौ शूद्रे शुभाशुभफल ज्ञातव्यम् । उक्तं च बराह्मणे — पूर्वत्रिय मानलममनाना राज्ञा तु पुत्रेण जनोत्तराणि । सर्पाणमेत पितृव्यत च प्रजापतेर्भ च कृषीरत्नानाम् ॥

आदित्यहस्ताभिजिदश्वभानि ऋणिगुञ्जाना प्रपन्ति भानि । मूलत्रिनेत्रानिल
 राशुणानि भान्युग्रजाते प्रभ्रिणुताया ॥ सौम्येन्द्रचित्रासुत्रैतानि सेवानन
 स्याम्यमृपागतानि । सार्पं पिशाचाश्रयणाभरण्यश्चाण्डालजातेरपि निर्दिशन्ति ॥
 तौल्य' भाण्डम् इति । यस्य तौल्य तुलना' द्रव्य भाण्ड रत्नादि, रमो मधुरा
 दि गजाश्चतु'पदादे नामनश्चा वर्णं वा क्रूरो वयप्रस्थित वेधको वा अर्थात्
 यस्य यस्य द्रव्यस्य नामनश्चरनामादिवर्णो वा क्रूरहेण विद्धमाक्रान्त वा
 तत्तद्द्रव्य तत्प्रदेशे महर्षता याति । बहु'रनेनापि दुर्मिल भवतीति । क्रूरवेध-
 ममायोगे इति । सुगमम् । सूर्यभात् इति । स्पष्टम् । त्रैतुरघ्रादणे इति । स्पष्टम् ।
 निर्घातश्च इति । पूर्वाध' स्पष्टम् । एते उपग्रहा स्वस्थाने स्वस्वभोगममयेषु
 सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नदा नाशका भवन्तीत्यर्थ ॥ ५५-६१ ॥

वृत्तिकादि ती'नान नक्षत्रों से कूमचक्र म धूम के नव ग्रहों की कल्पना करके
 उसमें देश विभाग किया गया है । उसमें वृत्तिका आदि तीन नक्षत्रों को क्रूर ग्रह से
 वेध होनेसे जिन जिन देशों के वर्ण, स्वर आदि विद्ध होने हों तो व देश गण हो जाते
 हैं । वृत्तिका का क्रूर ग्रह से वेध होता हो तो ब्राह्मण, पुष्यमे वेध होना हो तो क्षत्रिय,
 रेवती से वेध होता हो तो वेदथ और पुनर्वसु से वेध हो तो शूद्र वधित होता है ।
 तेल, रत्न, मीठे पदार्थ, हाथी, घोडा और अन्य चींपायों इनमें जिनके नाम के नक्षत्र
 या वर्ण पाप ग्रह से विद्ध हो अथवा पापाक्रान्त हो वह वह वस्तु उम प्रवेश (कूम
 चक्रोक्त) में दुर्लभ होती है अर्थात् महगी होती है । जिसरा उपग्रह सम्ग्रही क्रूरग्रह
 का वेध होता हो तो उसका रोग या सग्राममे मृत्यु होती है । सूर्य क नक्षत्र से पाँचव
 नक्षत्र को विद्युन्मुख, आठव को शूल, चौदहवें नक्षत्र को सविपात, अटारवें नक्षत्र को
 केतु, इक्कीसवें नक्षत्र को उरुका, बाइसवें को कर्प, तेइसवें को वज्र, चौबीसव को
 निर्घात नाम मे कहते हैं । ये आठ उपग्रह हैं । ये सभी कार्यों में अपन भोग समय
 पर्यन्त सर्वदा विघ्न करते हैं ॥ ५५-६१ ॥

जन्मभं कर्म आधानं विनाशं भामुदायिकम् ।

साङ्घातिकमिद धिष्ण्यं पट्कं सर्वजनो नकम् ॥ ६२ ॥

जातिदेशाभिवेकैश्च नवधिष्ण्यानि भ्रपते ।

वेधं ज्ञात्वा फलं ब्रूहि सौम्यैः क्रूरैः शुभाशुभम् ॥ ६३ ॥

जन्मभं जन्मनक्षत्रं दशम कर्मसज्जकम् ।

एकोनविंशमाधान त्रयोविंश विनाशभम् ॥ ६४ ॥

अष्टादशं च नक्षत्रं सामुदायिकसज्जकम् ।
 साहातिकं च विजेयन्क्ष पौडशमत्र हि ॥ ६५ ॥
 पट्टत्रिभराज्यभप्रोक्तंजातिनामस्वजातिभम् ।
 देशभं देशनामर्क्षं राज्यर्क्षमभिपेकभम् ॥ ६६ ॥
 मृत्युः स्याजन्मभे विद्वे कर्मभं क्लेश एव च ।
 आधानर्क्षं प्रवासः स्याद्विनाशे बंधुविग्रहः ॥ ६७ ॥
 सामुदायिकभेऽनिष्ट हानिं साहातिके तथा ।
 जातिभे कुलनाशश्च बन्धनं चाभिपेकभे ॥ ६८ ॥
 देशर्क्षं देशभङ्गश्च क्रूरैरेवं शुभैः शुभम् ।
 उपग्रहसमायोगान्मृत्युर्भवति नान्यथा ॥ ६९ ॥
 भय भङ्गश्च घातश्च मृत्युर्भङ्गः पुरःस्थितैः ।
 क्रूरैरेकादिपञ्चान्तर्युधि वेधे फलं भवेत् ॥ ७० ॥

जन्मम कर्म इति । इत् विषयपट्टक नक्षत्रपट्टक जन्मभमित्यादि नाडी
 सङ्गकम् मज्जनीनकम् सर्वजनप्रिय जेयम् । ज्ञातिदेशाभिपेके इति । भूपते
 राज्ञो ज्ञातिदेशाभिपेकं सप्त जातिनक्षत्रं पूर्वं ५६ श्लोकटीकायामुक्तमेव, देश-
 नक्षत्र शतपट्टचक्रप्रकारोक्तविशा नामनक्षत्रम् । अभिपेकभ यस्मिन्मृते राज्ञा
 राज्येऽभिपिक्तस्तमभिपेकभम् । एषु शुभाशुभेषु वेध बुद्ध्या शुभाशुभ फल नृहि
 कथय । जन्मभम् इति । स्पष्टम् । अष्टादशमिति । सुगमम् । पट्टत्रिंशत् इति ।
 स्पष्टार्थं । मृत्यु स्यात् इति । स्पष्टम् । देशर्क्षं इति । अत्रैव नाडीनक्षत्रे क्रूर-
 प्रहवेधे मति उपग्रहसमायोगे पञ्चभाद्युपग्रहस्थानमिलने मति मृत्युर्भवति
 नान्यथा न कुशलमित्यर्थः । भय भङ्गश्च इति । एकादिपञ्चान्तै क्रूरे पुर स्थिते
 जन्मादिनक्षत्रे मन्मुपग्रहेयकारिभिर्विद्वे मति क्रमेण भयादिफलं प्रदेत् ॥६९-७०॥

जन्म नक्षत्र, कर्म, आधान, विनाश, सामुदायिक, साहातिक ये ६ नक्षत्र नाडी
 सङ्गक हैं और सर्वा के लिये हाते हैं । राजाओं के पूर्वोक्त ६ नक्षत्रों के साथ जाति,
 देश और अभिपेक नक्षत्र के साथ नव नक्षत्र नाडीसङ्गक होते हैं इनमें शुभग्रह और
 पापग्रह के यद्यत् शुभ और अशुभ फल प्रम स हाते हैं । जन्मनक्षत्र में दशम नक्षत्र
 को कर्म, १९ वें नक्षत्र को आधान सङ्गक, २३ वें नक्षत्र का विनाश, १८ वें नक्षत्र
 को सामुदायिक, १६ वें नक्षत्र को साहातिक, २६ वें नक्षत्र का राज्यनक्षत्र, स्वजातीय
 नक्षत्र को जानिनक्षत्र, दशक नक्षत्र को मंगलनक्षत्र और जिस नक्षत्र में राज्याभिपेक
 हुआ है उसे राज्यनक्षत्र कहते हैं । जन्मनक्षत्र प्रहरे में विद्वे हो तो मृत्यु, कर्म

नक्षत्र के वेध से बलेश, विनाश में बन्धु मित्र, सामुदायिक में अनिष्ट, साघातिक में हानि, जाति नक्षत्र म कुल का नाश, अभियेक नक्षत्र म वेध होने से उन्धन और देश नक्षत्र में वेध होने से देश का नाश हाता है । यदि शुभ ग्रह वेध करें तो शुभ होता है । यदि वेध समय म उपग्रह का मयोग हो तो मृत्यु होती है । सग्राम में जन्मादि नाडी नक्षत्रों को एक क्रूरग्रह वेध करता हो तो भय, दो ग्रह वेध करते हों तो पलायन, तीन ग्रह वेध करते हों तो घात होता है, चार ग्रह वेध करते हों तो मृत्यु और पांच ग्रह वेध करते हो तो भी मृत्यु होती है ॥ ६२-७० ॥

तिथिमृक्षं स्वरं राशि वर्णं चैव तु पञ्चकम् ।

यद्दिने विध्यते चन्द्रस्तद्दिने स्याच्छुभाशुभम् ॥ ७१ ॥

तिथिमश्रम् इति । तिथिमृक्षं स्वरिमेत्यादिपञ्चकं यद्दिने यस्मिन् दिवसे शुभपापवेधे मति चन्त्रेण विध्यते तद्दिने शुभमशुभं च क्रमेण ज्ञेयम् ॥ ७१ ॥

तिथि नक्षत्र, स्वर, राशि और वर्ण य पाचों निम दिन पापग्रह या शुभग्रह से विद्ध हों उस दिन यदि चांद्रमा से विद्ध हों तो पाप और शुभफल होता है ॥ ७१ ॥

अथार्घ्यं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयामले ।

एकाशीतिपदे चक्रे ग्रहवेधाच्छुभाशुभम् ॥ ७२ ॥

देश. कालस्ततः पण्यमिति त्रीण्यर्घ्यनिर्णय ।

चित्तनीयानि वेध्यानि सर्वकाल विचक्षणैः ॥ ७३ ॥

देशोऽथ मण्डल स्थानमिति देशस्त्रिविच्यते ।

वर्ष मासो दिन चेति त्रिधा कालोऽपि कथ्यते ॥ ७४ ॥

धातुर्मूलं च जीवश्च इति पण्यं त्रिधा मतम् ।

अथ त्रिक्रिकस्यास्य वक्ष्यामि स्वामिग्वेचरान् ॥ ७५ ॥

अथार्घ्यम् इति । स्पष्टम् । देश काल इति । सुगमम् । त्रेणोऽथ इति । देश कान्यकुब्जादि, मण्डल ग्रामसमूह, स्थान ग्रामप्रदेश । अनेन प्रनारेण त्रेणोऽथोच्यते । एष काल ममयोऽपि वर्ष मासो दिन चेति त्रिधा ज्ञेयो । धातुमूलम् इति । धातु मुण्णान्य । मूल वृक्षफल तद्विक्रान्तम् । जीवो मनुष्यादय इत्येव पण्यमपि त्रिधा मतम् ज्ञेयम् । जेष सुगमम् ॥ ७२-७५ ॥

जय में ब्रह्मयामल म बड़े हुये अर्घ्य प्रकरण को कह रहा हूँ ८१ पद वाले चक्र म ग्रहों के वेध से शुभ अशुभ फल जानना चाहिये । देश, काल और वेधने वाली धातु इन तीनों के वेध को देखकर वेध फल का निर्णय करना चाहिये । पड़ियों को सभी समय म इस वेध का विचार करना चाहिये । देश (कान्यकुब्ज आदि),

मण्डल (ग्राम समूह) स्थान इम प्रकार से देश तीन प्रकार का होता है और वर्ष, मास, दिन ये तीन भेद काल के हैं । धातु (सुवर्ण आदि) मूल (चन्दन आदि) । जीव मनुष्य से लेकर सभी कीट पतंग, इम प्रकार विभेय वस्तु के भी तीन भेद होते हैं । अत्र इन तीनों भेदों के स्वामियों को कह रहा हू ॥ ७२-७५ ॥

देशेशा राहुमन्वेज्या मण्डलस्वामिनः पुनः ।

केतुसूर्यसिताः स्थाननाथाश्चन्द्रारचन्द्रजाः ॥ ७६ ॥

वर्षेशा राहुकेत्वार्का जीवो मासाधिपः पुनः ।

भौमार्कजमिता ज्ञेयाश्चन्द्रः स्याद्विषाधिपः ॥ ७७ ॥

धात्वोशा मौरिपातारा जीवेशा जेन्दुसूरयः ।

मूलेगा केतुशुक्रार्का इति पण्याधिपा ग्रहाः ॥ ७८ ॥

पुंग्रहा राहुकेत्वर्कजीवभूमिसुता मताः ।

स्त्रीग्रहौ शुक्रशशिनौ सौरिसौम्यौ नपुंसकौ ॥ ७९ ॥

सितेन्दू सितवर्णेशौ रक्तेशौ भौमभास्करौ ।

पीतौ मौम्यगुरू कृष्णा राहुकेत्वर्कजा मताः ॥ ८० ॥

ग्रहो वक्रोदये स्वाशे उदये च बलाधिकः ।

देशादीनां स एकैकः स्वामी खेटस्तदा मतः ॥ ८१ ॥

देशेशा इति । राहुमन्वेज्या राहुशनिगुरव देशेशा देशाधिपा केतुसूर्यसिता पुनर्मण्डलेशा । भित्त शुक । चन्द्रारचन्द्रजा चन्द्रभौमबुधा स्थाननाथा । वर्षेशा इति । राहुकेत्वार्कजीवा वर्षेशा वर्षस्वामिन । भौमार्कजमिता मामाधिपा । जो बुध । द्विषाधिपश्चन्द्र । सौरिपातारा मौरिराहुज्जा धात्वोशा । जेन्दु मूरय बुधचन्द्रगुरवो जीवेशा । केतुशुक्रार्का मूलेगा इत्येव ग्रहा पण्याधिपा ज्ञातव्या । पुंग्रहा इति । राहुकेत्वर्कजीवभूमिसुता राहुकेतुरगिगुक्रुजा पुंग्रहा पुंग्रप्रदा मता, शुक्रशशिनौ शुक्रचन्द्रौ स्त्रीग्रहौ ग्रेषु मौरिसौम्यौ शनिबुधौ नपुंसकौ ज्ञेयो । सितेन्दू इति । सितेन्दू शुक्रचन्द्रौ सितवर्णेशौ श्वेतवर्णाधिपा । भौमभास्करौ रक्तेशौ रक्तवर्णेशा । मौम्यगुरू पीतवर्णेशा । राहुकेत्वर्कजा कृष्णवर्णेशा रक्षिता । वक्रोदये इति । पूर्वोत्तरेणाधिपाना मध्ये यो ग्रहो बली भवति उचितो भवति यत्र कुत्रचिद्ग्राहो न्याये स्थित उदये च सति बलाधिको ग्रहो भवति । एव योने मति देशाधिपमध्ये देशादीनां स्वामी भवति ॥ ७६-८१ ॥

राहु, शनि, गुरु ये देश के स्वामी हैं, केतु, सूर्य, शुक ये मण्डल के स्वामी हैं,

चन्द्रमा, भौम, बुध ये स्थान के स्वामी हैं । राहु, केतु, शनि गुरु ये वर्ष के स्वामी हैं । भौम, सूर्य, बुध, शुक्र, ये मास के स्वामी हैं । चन्द्रमा दिन का स्वामी है । शनि, राहु, भौम धातु के स्वामी हैं, बुध, चन्द्रमा, गुरु ये जीव के स्वामी हैं, केतु, शुक्र, सूर्य मूलरूपी पण्य के स्वामी हैं । राहु, केतु, सूर्य, गुरु, भौम ये पुरुषग्रह हैं, शुक्र, चन्द्रमा ये स्त्रीग्रह हैं, और शनि, बुध ये नपुंसक ग्रह हैं । शुक्र, चन्द्रमा मर्षेद वस्तु के, भौम, सूर्य रक्तवर्ण के, बुध, गुरु पीलेवर्ण के और राहु, केतु काले वर्ण के स्वामी हैं । पूर्वोक्त देशाधिपतियों में जो ग्रह चक्री हो, उदित हो, अपने उवाच में हो वही देशाधिपति होता है ॥ ७६-८१ ॥

वक्रोच्चगः स्वहर्म्येषु पूर्णवीर्यो ग्रहो भवेत् ।

मेपो वृषो मृगः कन्या कर्कमीनतुलाधराः ॥ ८२ ॥

आदित्यादिग्रहोच्चाः स्युर्नीचं यत्तस्य सप्तमम् ।

परमोच्चादिशो रामा अष्टाविशास्तिर्याद्रियाः ॥ ८३ ॥

सप्तविशास्तथा विशाः सूर्यादीनां तथाशक्राः ।

परमोच्चात्पर नीचमर्थचक्रान्तसंख्यया ॥ ८४ ॥

उच्चात्नीचाच्च यत्तुर्यं समं स्थानं तदुच्यते ।

तदग्रपृष्ठगो खेटे बलं त्रैराशिकं मतम् ॥ ८५ ॥

उच्चस्थे च बलं पूर्णं नीचाशस्ये बलं दलम् ।

स्वक्षेत्रस्थे बलं पूर्णं पादोनं मित्रभे गृहे ॥ ८६ ॥

अर्थं समगृहे ज्ञेयं पादं शत्रुगृहस्थिते ।

त्रैराशिकवशाज्ज्ञेयमन्तरे तु बलं बुधैः ॥ ८७ ॥

एवं देशादिनाथा ये ग्रहवेधे व्यवस्थिता ।

सुहृदः शत्रवो मध्याश्चिन्तनीयाः प्रयत्नतः ॥ ८८ ॥

स्वमित्रसमशत्रूणां वेधे देशादिषु क्रमात् ।

शुभग्रहं शुभं घत्ते चतुस्त्रिद्वयेकपादकैः ॥ ८९ ॥

स्वमित्रसमशत्रूणां वेधे देशादिषु क्रमात् ।

दुष्टं दुष्टग्रहः कुर्यादेकद्वित्रिचतुःपादैः ॥ ९० ॥

वक्रोच्चगा इति । वक्रोच्चग चक्री तथा उच्चग ग्रह पूर्णवीर्य । स्वहर्म्येषु स्वगृहेषु पूर्णवीर्यं ग्रहो भवति । आदित्यादिग्रहाणां क्रमेण मेपो वृषो मृग

कन्या कर्क मीन तुला राशय परमोच्चरश्मिप्रश्नेषु क्रमेण दिशो, रामात्रय, अष्टाविंश, तिथि पञ्चम्या, इन्द्रिया पञ्च, सप्तविंशति, विंशतिरशा परमो-
 चा । परमोच्चात्परम अर्धचक्रान्तसरयया सप्तम तापद्भिरेवासौ नीचस्थानम् ।
 उच्चान्नीचाच्च इति । उच्चान्नीचाच्च उच्चस्थानात्तथा नीचस्थानाच्च यत्तुर्य चतुर्थ-
 स्थान तत् समस्थानमुच्यते । तदग्रपृष्ठगे समस्थानादग्रगे पृष्ठगे ग्रहे त्रैराशिकाद्
 बल ज्ञेयम् । अथ केचित्स्वराशितोऽग्रगे पृष्ठगे रेखे त्रैराशिकाद्बलमिच्छति
 तेषा मत न शोभनम् । उच्चस्थे स्वोच्चराशौ ग्रहे सति पूर्णफल ददाति नीचस्थे
 स्वनीचराशौ नमस्स्थिते ग्रहे सति अर्ध बलम् ददाति । स्वक्षेत्रम् स्वग्रहे
 पूर्णफलम् भवति, मित्रभे मित्रराशौ पादोन बलम् भवति । अर्धम् इति ।
 समग्रहे स्थिते अर्ध बलम् । शत्रुगृहस्थिते शत्रुराशौ स्थिते पाद चतुर्थांश
 बल ज्ञेयम् । मध्ये त्रैराशिकाद्बल ज्ञेयम् । एष देशादिनाथा इति । एष पूर्वोक्त-
 प्रकारेण ये देशादीना नाथा भवन्ति ते ग्रहवेधे ग्रामसम्भुरदम्बिणदृष्ट्या
 देशस्य वर्णादिपञ्चे वेधयितु व्यस्यता । तत्र वेधे सति वेधकर्तारो देशा-
 दिपस्य सुदृढ शत्रय मन्था उपासीना या इति प्रयत्नत चिन्तनीया । यथा
 मण्डलम्ग्रामी सूर्य । स च मण्डलश्चन्द्रगुरुभीमेर्द्विद्वन्तथैते रवे मित्राणि
 तन्नामे वक्ष्यमाणप्रकारेण शुभदा । स्वमित्रमम इति । देशादिपु देशे मण्डले
 पण्येषु च स्वमित्रममशत्रूणा स्वस्य मित्रस्य समस्त शत्रोश्च वेधात् शुभफल
 दत्ते ददाति । चतुस्त्रिद्वयेरुपात्कै स्ववेधे पूर्णम् । मित्रवेधे पादोन समवेधे
 अर्द्धम्, शत्रुवेधे पादफलमिति । तत्र चन्द्रुभग्रहस्तदा शुभम् फलमन्यथा
 ऽशुभमेव । स्वमित्रसम इति । अत्र स्वपतेन स्वदेशाधिपा ग्रहो ज्ञेय ।
 तत्र त्रिद्वैशाख्यो नामराशि न चक्रम्वेधग्रहेण मित्रममशत्रूणा मध्ये
 दुष्टप्रवेगाद् दुष्ट देशादिक फलम् एकद्वित्रिचतुर्पन्टैः सति क्रमेण फल
 भवति ॥ ८७-६० ॥

जय ग्रह वक्रा या अपने उच्च राशि म अधरा अपन गृह में होता है तब
 पूर्णरत्नी होता है । सूयादि ग्रहों का क्रम से मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन
 और तुला राशिया उच्च होती है । इनके क्रमसे १० अश, ३ अश २१ अश १४
 अश १ अश, २० अश और २० अश तक परम उच्च होता है । जैसे मेष राशि म
 १० अशतक सूर्य का परम उच्च होता है । उच्च स्थान से यातर्वी राशि पर उतने
 ही अज्ञातय परमनाच होता है । जय सूर्य का तुला राशि म १० अश तक परमनीच
 होता है । उच्च तथा नीच राशि से चौथा स्थान सममन्तर होता है । इससे आग
 या पीछे घट होतो त्रैराशिक द्वारा चक्र का एताना चादिये । अपने उच्चराशि में घट
 हो तो पृणफल देता है, नीच राशि म आधा बल दता है, एष अपने गृह में घट
 होतो पृणफल देता है । मित्र के गृह म घट होतो चतुर्थांश फल बल दता है ।
 समके गृह में आधाबल, शत्रुराशि में चतुर्थांश बल फल दता है । इसके मध्य में

त्रैराशिक से जल लाना चाहिये। वधचक्र में ग्रहों का घाम, सम्मुख, दक्षिण दृष्टि द्वारा जिस देश के वर्णादि पाचों का वध होता है तो यह दग्गना चाहिये कि वेधकर्ता ग्रह देशाधिपति मित्र, सम, शत्रु म म क्या है उसी के अनुसार उस देश म वस्तु आदि का शुभ अशुभ फल कहना चाहिये। देश, मङ्गल, ग्राम म मपों मित्र, सम, शत्रु के वेध हो तो क्रम से पूर्ण, चतुर्थांशोन, आधा और चतुर्थांशफल होता है। यदि वेधकर्ता शुभग्रह हो तो शुभ फल अथवा पापफल होता है। त्रिद्वदेशादि की जो नाम राशि हो वह यदि दृष्टग्रहों से वधित हो तो दृष्टफल होता है, एक, दो आदि ग्रहों से दृष्ट होता उसके अनुसार फल होता है। देशाधिपति का वेधकर्ता ग्रह स्वमित्रादि धरम फलदाता होकर दग्गता होता तितना फल वह देने में समर्थ है उतना फल अग्रय होता है ॥ ८२-९० ॥

विद्धं पूर्णदशा पठ्यन्तत्पादेन फलं ग्रह' ।

विदधात्यन्यथा ज्ञेयं फलं दृष्ट्यानुमानतः ॥ ९१ ॥

वर्णादिस्वरराशीनां मेपाद्ये राशिमण्डले ।

ग्रहदृष्टिवशात्सोपि वेधो वर्णादिके मत' ॥ ९२ ॥

स्वरवर्णाः स्वचक्रोक्तास्तिवेधे च पीडिताः ।

तिथौ वर्णं च राशौ च स्वदृष्ट्या, दृष्टिजं फलम् ॥ ९३ ॥

अशुभो वा शुभो वापि शुक्ले विध्येत्तिथि ग्रह' ।

सर्वं निजफलं दत्ते कृष्णपक्षे तु तद्वलम् ॥ ९४ ॥

खेटस्य स्वांशके ज्ञेया पूर्णा दृष्टि, मदा बुधै' ।

दृष्टिहीने पुनर्वेधे न स्यात्किञ्चिच्छुभाशुभम् ॥ ९५ ॥

इत्येवं दृष्टिभेदेन निर्दिष्टं सकलं फलम् ।

वर्णादिपक्षके विद्धग्रहो दत्ते शुभाशुभम् ॥ ९६ ॥

विद्धमिति । अत्र लक्ष्मी-परम्बेज व्याख्यातवान्—यो देशाधिपतिर्वेधकर्ता मित्रादिचरणफलपाठकारी सपदि पूर्णदशा पश्यति तदा यथार्थत्वेन फलदायी भवति, मित्रगृहगन्धिपादफलदायी त्रिभिः पादेषु पश्यति तदा मित्रभाजन-फल भवति त्रिपादेनेन फल परिपच्यते । नमगृहस्थो यदि पश्यति तदा द्विपाददशा च पश्यति तदा स्वभाजतो द्विपादेन फल भवति, शत्रुगृहगो यदि पश्यति तदा पादफलम् । एकपादेन पश्यति तदा यथार्थफलं ददाति । नरहरिन्तु-वेधनामराशिं पूर्णदृष्ट्या पश्यन् तदा यथा यथा विद्धं कराति तदा पादन फलं विदधाति । एष दृष्ट्यानुमानतो अन्यथा विपरीतक्रमेण फलं ज्ञेयम् ।

तथा च पूर्णदृष्टो यत्केपादेन फल तत्पूर्णं भवति । वर्णादीति । मेपादि राशिमडले द्वाशराशौ वर्णआदिभूतो एषा स्वराणाम् अ-इ-उ-ए-ओ इत्येतेषा वर्णमहदन्तो व० त्रि० बु० वे० वो एषा क्रमेण नराशक्त्यवस्थित राशीना ग्रहदृष्टिणेन चैव फलदायक । सोऽपि वेवो वर्णादिके मत । चराशचक्रे नराशनेप्रसूत्र तत्रराशवर्णयोरपि वेधस्तत्रापि फल वेधनराशक राशौ ग्रहस्य दृष्टिवशेन मेपादिद्वादशराशिचक्रे इति । स्वरवर्णा इति । स्वरा वर्णाश्च ये स्वचक्रे उक्तास्ते तिथिनेधे पीडिता भवन्ति । तिथिवर्णेषु यो राशि- मन्तद्वेषे तत्राशिम्ये तद्वर्षिन भवति । यथा द्वादशीतिथेर्मकारो वर्ण द्वादशी- तिथिनेधेन मकारो पीडितो भवति । मकारस्य स्वर इकार । वर्णादिपञ्चक नाम्ना आद्यवर्णान्निरूप्यते । तिथिपीड्या वर्णस्यरा पीडिता भवन्ति । तेषु कारिभिर्महद्वादशराचके सिंहराशौ दृष्टे त्रिद्ववर्णादिपञ्चक दृष्ट भवति । वर्णस्य राध स्थाने राशयस्मन्स्मिन्नेकतमे दृष्टे वर्णादिपञ्चक दृष्ट न भवति । अशुभ इति । अशुभ पापम् । शुभ सौम्यम् । शुक्ले शुद्धपक्षे तिथि विध्यत् तिथिवधन कुम्ब स्वर् निजफल दृष्टिप्रकृतिपत दत्ते दद्याति । कृष्णपक्षे शुभानुभयोरद्वं फल ददाति । रेटकस्याशने इति । रेटकस्य ग्रहस्य अशने दृष्टि पूर्णा बुधै पण्डितै सदा ज्ञेया । दृष्टिहीननेधे पुन किंचिदपि शुभाशुभ न स्यात् । इत्येवम् इति । अनेन क्रमेण दृष्टिभेदेन सक्ता फल निदिष्ट कथितम् । एष वर्णादिपञ्चके स्वरनक्षत्रराशितिथ्यात्मके त्रिद्वे सति ग्रहो वेधक शुभाशुभ च फल दत्ते ॥ ६१-६६ ॥

देशादि की जो नाम राशि उमे वेध करने वाले ग्रह को यदि देशधिपति दत्ता हो और वह उसका मित्रादि ग्रह हो तो उमके अनुसार ही अथात् दृष्टिपक्ष क अनुसार ही फल को देता है । मेपादि राशिचक्र में देशादिकों के नाम के -ादि अक्षर में जो वर्णादि स्वरपत्र उममें वेध होने में ग्रहदृष्टि के अनुसार ही फल देना चाहिये । चक्र में वरे हुए स्वर, वर्ण आदि तिथि क वेध में पड़ित होना है । तिथि, वर्ण और राशि में दृष्टि क अनुसार ही फल होता है । शुद्धपक्ष में तिथि को वेध करने वाला ग्रह पापग्रह हो या शुभग्रह वह सपूर्ण फल वा दना है और कृष्ण पक्ष में धाधा फल देता है । यदि ग्रह अपने राशि और अपने उदा में हो तो उमकी पण्डित हाती है । दृष्टिहीन वेध का कोई फल नहीं होता है । इस प्रकार वर्णादि पांच का वेध होना में दृष्टि के अनुसार ग्रह अपने सपूर्ण फल वा देता है, यह सपूर्ण फल दृष्टिभेद से ही होता है ॥ ९१-९६ ॥

सौम्य. पूर्णदशा पश्यन्विध्यन्वर्णादिपञ्चकम् ।

फल विशोपकाः पञ्च क्रूरस्तु चतुरो दिशेत् ॥ ७७ ॥

वेधो वर्णादिके यावत् स्थानवेधे च यावती ।
 दृष्टिस्तदनुमानेन वाच्या विशोपका बुधैः ॥ ९८ ॥
 एवं विशोपका यत्र सम्भवन्ति शुभाशुभा ।
 अन्योन्य शोधयेत्तेषां शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम् ॥ ९९ ॥
 वर्तमानार्धविशाशकल्पनास्तेषु च क्रमात् ।
 वर्तमानार्धके देया पात्या चैव शुभाशुभे ॥ १०० ॥

सौम्या इति । साम्या बुधगुरुशुक्रपूर्णाचन्द्रा । पापा रविशुक्रशनिराह्य ।
 एषा शुभदृष्टौ विशोपकान् फल कल्पयेत् । तत्र चतुर्णां शुभाना पूर्णादृष्टिभि
 प्रतिपाद पञ्चविंशोपकसङ्गक फल शुभग्रहो ददाति । एष क्रूर प्रतिपाद चतस्र
 विंश पकफल ददाति । कृत्तिकादिरुनागान्त भाना राशिवृषादिक । मघादि
 मत्प्रभाना तु मिहाद्या राशय स्मृता ॥१॥ मेत्रादि मत्प्रभाना तु वृश्चिकागालय
 स्मृता । धनिश्रानि मत्प्रभाना तु कुम्भाद्याश्च त्रय स्मृता ॥२॥ वृषादित्रिनये
 अरुहडा वर्णा । सिहादित्रितये मटपरता । वृश्चिकादित्रये नयभज्रगा ।
 कुम्भादित्रये ग स च ला वर्णा । एष नक्षत्रादिपर्णाश्च राशीना ज्ञेया ।
 वेगो वर्णादिके इति । पर्णादिपञ्चके वेधे सति यात्रस्थानवेधे च यावती दृष्टि
 यथा म्रगृहस्था पूर्णदशा, मित्रगृहस्थास्त्रिपाण्डशा समगृहस्था द्विपाददशा
 एष शत्रुगृहस्थाश्ररणैकेन तदानुमानेन बुधै विशोपका वाच्या इति । एष
 विशोपका इति । एष यत्र दृष्ट्यादिवलभेदेन शुभा अशुभा वा विशोपका
 सम्भवन्ति तत्रान्योन्य शोधयेत् । अत्रेदमवधेयम् । शुभग्रहविशोपका एषत्र
 धार्या । अशुभग्रहविशोपका अन्यत्र धार्या । तेषा मध्ये परस्पर ये यस्मान्यू-
 नास्तेऽधिके परिशोधनीया शेष यच्चिहित तत शुभमशुभ फल वाच्यम् ।
 अत्र विशोपका वेधदृष्टिरोन ज्ञेया । यथा पूर्णदृष्टिदधे सति शुभस्य
 चत्वारिंशत् विशोपका भवन्ति । पा णेदृष्ट्या वेधे च तृतीयाशमे विशत्
 मनातरेण पञ्च विशोपका । द्विपाण्डदृष्ट्या वेधे नरमे पञ्चमे वा विशद्वान्श ।
 चतुर्थेऽष्टमे या षश या पञ्चदश । नप्तमे चत्वारिंशद्वा विशति । वर्तमानार्ध
 विशाश इति । एष वर्तमानार्धे वर्तमानधान्यान्दिद्रव्यमूले तत्तजामनन्तरपर-
 यणस्तु तिविराशिदधेन पूर्वोक्तप्रकारेण विशाशकल्पना गान्या अन्योपपरि-
 शोधनपर्यन्ता कार्या । ततोऽवशिष्टागेन वर्तमानाधिके शुभमशुभ वा देया ॥

यदि शुभग्रह पूर्ण दृष्टि मे वण आदि पांचों को वध करत हों तो विशोपक प
 ५ और क्रूरग्रह वध करता हो तो ४ विशोपक फल हाता है । वर्ण आदि के स्थान
 वध में जितनी दृष्टि हो उन्ही क अनुमान में विशोपक लेना चाहिये । इस प्रकार
 से शुभ और पापग्रहों के विशोपक अलग २ रूपकर दोनों के अन्तर से शुभ और

अशुभ फल कहना चाहिये । इस प्रकार वत्तमान धान्य आदि के भागों में भी उन धान्यों के नाम से विशेषण लाकर उनका भी शुभ-अशुभ फल कहना चाहिये ॥

देशध्वंसः प्रजापीडा नृपतिप्रवधस्तथा ।
यत्र दृष्टिश्च तत्र स्यादुर्भिक्षं मण्डले स्फुटम् ॥ १०१ ॥
अकालेपि फल पुष्पं वृक्षाणां यत्र जायते ।
स्वजातिमासभुक्तिश्च दुर्भिक्ष तत्र रौरवम् ॥ १०२ ॥
परचक्रागमस्तत्र विग्रहश्च स्वराजके ।
ऋनोविपर्ययो यत्र दुर्भिक्षं मण्डले भवेत् ॥ १०३ ॥
भूमिकम्पो रजःपातो रक्तवृष्टिश्च जायते ।
देशे सर्वमुग्वोपेते वेद्यादेवं वदेद्बुधः ॥ १०४ ॥
वृक्षाणां जायते वृद्धिः स्वकाले फलपुष्पयोः ।
सुभिक्ष क्षेमरोग्यं च प्रजानां तत्र जायते ॥ १०५ ॥
स्वचक्रं परचक्रं च न कदाचित्प्रजायते ।
वान्धवा सुहृदस्तत्र शुभानां वेदसम्भवे ॥ १०६ ॥
दीपो यथा गृहस्यान्तरुद्द्योतयति सर्वतः ।
तथेदं सर्वतोभद्रं चक्रं ज्ञानप्रकाशकम् ॥ १०७ ॥
विना बलिं विना होमं कुमारीपूजनं विना ।
शुभग्रहं विना देवि चक्रराजं न वीक्षयेत् ॥ १०८ ॥
अविचार्यतया पृच्छेत्पृच्छकः ऋथकस्तथा ।
द्वाविमौ विघ्नदौ प्रांक्तावत्र देवि न संगमयः ॥ १०९ ॥
जातकं च तिथिं राशिं विज्ञेयं नामतो ज्ज्वलौ ।
अज्ञातजातकानां तु समस्तमभिधानतः ॥ ११० ॥
विस्तारेण मयार्यातं यथोक्तं ब्रह्मयामले ।
न देयं यस्य ऋस्यापि चक्रसेतत्सुनिश्चितम् ॥ १११ ॥

इति ब्रह्मयामले नरपतिजयचर्यायां स्फुरोदये

सर्वतोभद्रचक्रं समाप्तम् ।

ऋक्षे पूर्वानुधफट स्तम्भे नैर्ऋत्प्रगोचरे ।

दुधञ्जजास्तथा वायौ स्तम्भ उत्तरभाद्रके ॥ ६ ॥

आर्द्रा हस्तमत्तथापाठप्रवोत्तरपदाभिधे ।

एवं स्तम्भचतुष्क च ज्ञातव्यं स्वरवेदिभिः ॥ ७ ॥

चक्र शतपदम् इति । शतपद चक्र शतकोष्ठक चक्र वदये । कथभूत भपादाक्षरमभयम् भ नक्षत्र तस्य प्रत्येक चतुरणास्तन्मभव तद्वदितम् । तथा तत्र नामादिवर्णतो नक्षत्रराश्यशक्ता ज्ञेया । तिर्यगूर्ध्वगता इति । रुद्र मख्या एकादश मख्या रेखा तिर्यगूर्ध्वगता तिर्यगता ऊर्ध्वगताश्च बुध मल्लिखेत् । एव कृते ऋषिकानाम् एकशतमित जायते । न्यसेदप्रकहडाग्नि इति । ऋमादनुक्रमेण रुद्रादिदिशि अत्रकटादीन्शुद्धवर्णान्पञ्च पञ्च क्रमेण नियोजयेत् । अथमर्थ—दृशानकोष्ठकारभ्य पूर्व पूर्वपक्षा पचसु कोष्ठेषु अत्र कण्ड इति वर्णपचक लिखेत् । एवमाग्नेयकोणकोष्ठादक्षिणपक्षो मटपरतेति पञ्चवर्णान् । नैर्ऋत्यकोणकोष्ठात्पश्चिमपक्षो नयभजपेति पचवर्णान् । वायव्यकोणकोष्ठाकादुत्तरपक्षो गशात्चलेति पचवर्णान्लिखेत् । पचम्बरममायोगात् इति । एतेक वर्ण पचस्वरममायोगात् अ-इ-उ-ए-औ-एरूपात् नमायागात् तत्सम्बन्धात् पचप्रकारक कुरु । यथा अ-प्रि-बु-रे-वो । क-प्रि-बु-के-को, ह-हि-हु-हे-हो, ट, डि, डु, डे-डो, म, मि-मु मे-मो एतन्मत्रेऽपि घोध्यम् । एव बुधुमुदुस्थाने त्रयो वर्णा लेख्या । यथा कुरुवर्णस्य कोष्ठे घञ्छा त्रयो वर्णा देया । पुवर्णस्य स्थाने खण्ठा भूवर्णस्य स्थाने वषट्वा दुवर्णस्य कोष्ठे थक्त्वा एत कृते शतपञ्चकस्य वर्णा जायन्ते । कुघड्येति । ईशानगोचरे ईशानदिगत्रस्थिते स्तम्भे आर्द्रानक्षत्रस्य कुघड्ये वर्णा भवति । एत आग्नेयदिगत्रस्थिते स्तम्भे हस्तनक्षत्रस्य पूरुण्ठा वर्णा भवति । नैर्ऋत्यदिगत्रस्थिते स्तम्भे पूर्वापाठा नक्षत्रस्य भूधाफाटा वर्णा भवन्ति । वायव्यकोण स्तम्भे दुथक्त्वा उत्तरभाद्रपदस्य वर्णा भवन्ति । एत प्रत्येकवर्णचतुष्टयमार्द्रा दिनक्षत्रव्यपस्थया । स्वरवेदिभिः स्तम्भचतुष्क चक्र च ज्ञातव्यम् ॥४-७ ॥

नक्षत्र के चरणों के अक्षर से उत्पन्न शतपद नाम के चक्र का कहना है । नाम के अक्षरों से नक्षत्र-राशि और क्षत्र को जानना चाहिये । ग्यारह तिरछी और ग्यारह ऊर्ध्वधर रेखा लिखने से १०० कोष्ठ का चक्र बना है ईशान कोण से क्रमसे अक्षरकण्ड, मटपरत, गयभजप, गमदचत् इन पांच २ वर्णों का लिखना चाहिये । फिर इ-ही वर्णों से अष्टउणो इत पांच चरणों के संयोग से एक २ का पांच गेद करना चाहिये । जैसे अष्टउणो ३, ३, वि, तु, पे, घो इत्यादि । जहां जिन कोष्ठ में कुधुमुदु वर्ण आये हैं उनमें नीचे २ अक्षर नीचे रखना चाहिये । इस प्रकार अक्षरों के रणों से चक्र में चार स्तम्भ हो जाते हैं । जैसे तुय-ए-आर्द्रानक्षत्र इत्यादि में । पूरुण

हस्त नक्षत्र अत्रिणाण म, भूषण्ड पूर्वाषाढ नक्षत्र नक्षत्र्य काण म और वृधक्षत्र
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रायुकोण म स्तभ स्वरूप होता ह ॥ ५-७ ॥

विष्ण्यानि कृत्तिकादीनि प्रत्येकं चतुरक्षरैः ।

साभिजित्यशक्रास्तस्य शतैकं द्वादशाधिकम् ॥ ८ ॥

यद्वक्षाशक्रकोष्ठस्थः क्रूरः सौम्योपि वा ग्रहः ।

ततस्तद्वेधयेत्तिर्यक् पुंसो नामाद्यमक्षरम् ॥ ९ ॥

सौम्यवेधे शुभं ज्ञेयमशुभं पापवेचरैः ।

मिश्रैर्मिश्रफलं तत्र निर्वेधेन शुभाशुभम् ॥ १० ॥

यदुक्तं सर्वतोभद्रे ग्रहोपग्रहवेधतः ।

शुभाशुभफलं सर्वं तदिहापि विचितयेत् ॥ ११ ॥

इति यामलीये नरपतिजयचर्याया स्फरोदये

शतपदचक्रं समाप्तम्

विष्ण्यानि इति । एष चतुरक्षरैश्चतुभिश्चतुभिरक्षरै साभिजिति अभिजित्स-
हितानि कृत्तिकादीन्याष्टाविंशति नक्षत्राणि भवन्ति । तत्र प्रतिनक्षत्र चत्वारश्च-
त्वारोऽङ्का । एष द्वादशाधिकशतैकमशक्रा भवन्ति । यथा अइउए कृत्तिका
ओअत्रिवु रोहिणीत्यादि भरण्यातमष्टाविंशति नक्षत्राणीति । यद्दृष्ट्वाशक्रकोष्ठस्य
इति । क्रूर सौम्यो वा ग्रह यद्दृष्ट्वाशक्रकोष्ठस्थ यस्मिन्नृक्षाशक्रकोष्ठे
स्थितरत्नमात्पुनस्तिर्यक् क्रमेण पुंस पुरुषस्य नामाद्यमक्षर वेधयेत् । पुंसो
नामाद्यमक्षर तिर्यग्वेधयेत् । अत्र मनुष्यादिसर्वसत्त्वदेशादीनामाद्यमक्षर
वेधयेत् । सौम्ये वेधे इति । स्पष्टम् । यदुक्तमिति । सुगमम् ॥ ८-११ ॥

इस प्रकार कृत्तिकादि अभिजित् के सहित चार २ अक्षरों से युक्त भरणी पयन्त्र
२८ नक्षत्र ११२ अक्षरों के साथ होते हैं । जिस नक्षत्र के चिह्न अक्ष के याष्ट म पापग्रह
वा शुभग्रह हो वहाँ से पुण्य के वा देशादि के नाम क आदि अक्षर से उत्पन्न नक्षत्र
के अक्ष और नक्षत्र को तिर्यक् वेध करता है । शुभग्रह क वेध से शुभ और पापग्रह
के वेध से अशुभ पाप और मिश्र शुभपाप दोनों के वेध से शुभ अशुभ दोनों पाप
होते हैं, वेध न होने से शुभ वा अशुभ कुछ भा नहीं होता है । सर्वतोभद्र चक्र
में ग्रह तथा उपग्रह के वेध से जो शुभ अशुभ कहें हैं वे सभी यहाँ भी विचार
करना चाहिये ॥ ८-११ ॥

इति शतपदचक्रं समाप्तम्

अथ अशचक्रप्रकरणम्

अष्टाविंशोर्ध्वगा रेखा अष्टाविंशतिर्यगा ।
 अंशचक्रं भवत्वेवं यदुक्तमादियामले ॥ १ ॥
 कृत्तिकादीनि भान्यत्र पादाक्षरक्रमेण च ।
 साभिजित्विन्यमेत्सर्वाण्यष्टाविंशतिसंख्यया ॥ २ ॥
 यो ग्रहो यत्र ऋक्षाग्रे तं तत्रैव न्यसेद्बुध ।
 वेधयेत्सन्मुखं वर्णं क्रूरो वाथ शुभोपि वा ॥ ३ ॥
 आत्रांशेन चतुर्थांशं चतुर्थांशेन चादिमम् ।
 द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम् ॥ ४ ॥
 यस्य नामाक्षरं विद्वमंशचक्रे ग्रहेण तु ।
 क्रूरैरिष्टं शुभैर्हानिर्द्व्यैर्मुत्पुर्न संशयः ॥ ५ ॥

अष्टाविंशोर्ध्वगा रेखा इति । अष्टाविंशति रेखा उर्ध्वगतास्तिर्यग्गताश्च
 लेख्या । एवमादियामलोक्तम् अशचक्रं भवति । कृत्तिकादीनि । अत्र चक्रे
 ईशानकोणरेखाभारभ्य अभिजित्सहितानि कृत्तिकादीनि भान्यष्टाविंशति
 सरयाकानि भानि नक्षत्राणि पादाक्षर अइउण इत्यादीनि क्रमेण सञ्जिरेत् ।
 यो ग्रह इति । यो ग्रह क्रूर शुभो वा यत्र ऋक्षाग्रे यस्मिन्नक्षत्रचतुर्भागे स्थितस्त
 तत्र तत्रैव नक्षत्राग्रे बुधं पठितो न्यसेत् । तत्समुखं तद्रेखाग्यं वर्णं वेधयेत् ।
 आत्रांशेन इति । आत्रांशेन ग्रहेण महाधिष्ठितेन मन्मुख्यन्वनक्षत्रस्य चतुर्थांशं
 विधत्ति । एव चतुर्थांशेनादिमं प्रथमं । द्वितीयेन तृतीयम् । तृतीयेन द्वितीय
 कम् । यस्य नामाक्षरम् इति । अशचक्रे ग्रहेण शुभेन पापेन वा यस्य
 नामाक्षरं विद्वं तत्र क्रूरवेधे अरिष्टं भवति, शुभैर्द्वेषे हानिं द्वयानै पापैर्वेधे
 मृत्युं भवति अत्र सशयो न ॥ १-५ ॥

२८ रेखा तिरछा और २८ रेखा सार्धा रीचने स अश चक्र होता है । इस
 चक्र में इशात कोण के रेखा में कृत्तिका से आरम्भ कर अभिजित सहित २८ नक्षत्रों
 के चरणों के अक्षरों का रचना आदिय जैसा कि चक्र में स्पष्ट है । जो ग्रह नक्षत्र के
 जिन चरण पर है उस ग्रह को उनी नक्षत्र के चरण पर रचना आदिय । इस प्रकार
 रचना में जिस चरण पर ग्रह है वह अपने सामने वा नक्षत्र चरण का वेध करना
 है । यदि ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण पर है वह अपने सामने वाल नक्षत्र के

चौथे चरण को वेध करता है—एव चौथे चरण पर हो तो पहले चरण को वेध करता है। यदि दूसरे चरण पर हो तो तीसरे चरण को और तीसरे पर हो तो दूसरे चरण को वेध करता है। यदि अश चक्र म नाम के भादि अक्षर को वेध करता हो तो अरिष्ट होता है, शुभग्रह वेध करता हो तो हाणि और दो तीन पापग्रह वेध करते हैं तो मृत्यु होता है इसमें सशय नहीं है ॥ १-१ ॥

	ह	रो	स	जा	व	शु	के
	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				
५	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				
४	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				
३	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				
२	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				
१	अ इ उ ए ओ षा ति वृ	वे को क कि ङ प ङ ङ के को इ णि	दु वे षा षा ति वृ के षा				

क्रूरोभयस्थिते वेधे मृत्युर्विघ्नं शुभाशुभैः ।
 शुभोभयगते वेधे व्याधि, पीडा च वन्धनम् ॥ ६ ॥
 वैधव्य च विवाहे च यात्राया न निवर्तते ।
 रोगे मृत्यू रणे भङ्ग क्रूरवेधे न सशय ॥ ७ ॥
 अद्रय सागरा न्यो देवग्रामपुराणि च ।
 क्रूरवेधे विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ८ ॥

चन्द्रऋक्षाशके वेधो भवेद्यद्यपरग्रहैः ।
तन्मानं तद्दिने वर्ज्यं सर्वदा शुभकर्मणि ॥ ९ ॥

इति नरपतिजयचर्यायां स्वरोदये अंशस्वरचक्रम् ।

क्रूरो भयेति । वेधे क्रूरोभयस्थिते उभयत्र क्रूरवेधे मृत्यु शुभे उभयतो वेधे मित्र भवति । शुभाभ्याम् उभयतो वेधे व्याधि, पीडा, बन्धनम् च भवति । वैधव्यम् इति । स्पष्टम् । अद्रय इति । सुगमम् । चन्द्रऋक्षाशके इति । कार्यकाले चन्द्रो नक्षत्राधिष्ठितचरणस्य अश भागम् एव वेधयति तन्मित्रशे यत्रपरग्रहस्य भौमादिवस्य वेधो भवति तदा तद्दिने तन्नक्षत्र शुभकर्मणि सर्वदा वर्जयेत् ॥ ६-६ ॥

यदि एक रेखास्थित दोनों के चरणों को क्रूर ग्रह से वेध होता हो तो मृत्यु होती है, शुभ पाप दोनों वेध करते हों तो मित्र, यदि दोनों को शुभग्रह ही वध करते हों तो व्याधि, पाडा और बन्धन होता है । कर्क क्रूरग्रह का ही वध होता हो तो उस नक्षत्र में यात्रा करने से यात्रा में वहीं लौटना, रोग होवे तो मृत्यु होती है, युद्ध करने से पराजय, विवाह करने में वैधव्य होता है । पहाड, सागर, नदी, जैना, ग्राम और पुर के नाम नक्षत्र को क्रूरग्रह वध करता हो तो इन सबका नाश होता है इसमें सशय नहीं है । कार्य के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उसके किसी भी चरण पर रहता है और जिस भाग को वध करता है यदि उस भाग को और भी भौमादिग्रह वेध करते हों तो उस नक्षत्रांश और नक्षत्र को शुभ कार्य में उस दिन त्याग देना चाहिये ॥ ६-९ ॥

इति स्वरोदये अशस्वरचक्रम् ।



अथ चामरचक्राणि

आदौ चक्रं समालिख्य छत्रत्रयसुशोभनम् ।
 अश्विन्यादि न्यसेत्तत्र सप्तविंशतिभानि च ॥ १ ॥
 अश्विन्याद्यं मघाद्य च मूलाद्यं च क्रमेण च ।
 उत्तरे पूर्वदक्षे च एतच्छत्रत्रयं मतम् ॥ २ ॥
 प्रतीचीमध्यरेखाग्रादीशानान्तं ह्याधिपः ।
 आग्नेयान्त नराधीशस्तन्मध्ये च गजाधिपः ॥ ३ ॥
 अन्येषां भूमृतामृक्षं यत्र च्छत्रे व्यवस्थितम् ।
 तच्छत्रं तस्य भूपस्य शुभाशुभफलप्रदम् ॥ ४ ॥
 चामरं कलशं वीणा छत्रं दण्डं पतद्वहः ।
 आसनं कीलकं रज्जुर्नव भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥

आदौ चक्रम् इति । स्पष्टम् । अश्विन्याद्यम् इति । अश्विनीत आग्नेयान्त
 नरनक्षत्रात्मक चक्रमुत्तरस्या दिशि स्थाप्यम् । मघाद्य मघात ज्येष्ठान्त
 नरनक्षत्रात्मक चक्र पूर्वदिशि स्थाप्यम् । एत मूलाद्य मूलमारभ्य रेखत्यत
 यावत् चक्र दक्षे दक्षिणस्या दिशि स्थाप्यम् एव कृते छत्रत्रय भवेत् । प्रतीची
 मध्यरेखाप्रान्त कूर्मचक्रे तपूर्वापरदिग्दिग्भागात् ईशानान्त यावद्य देशा व्यवस्थि-
 तास्तेषामधिपा ह्याधिपा कल्प्या । आग्नेयान्त नराधीशास्तथाप्रित
 पश्चिमान्त यावत् गजाधिपा कल्प्या । अन्येषाम् इति । अन्येषा भूमृता
 अपशिष्टराज्ञाम् षट्त्र नक्षत्र छत्रचक्रे यत्र व्यवस्थितम् तच्छत्र तस्य भूपस्य
 शुभाशुभफलप्रदम् भवति । चामरम् इति । सुस्पष्टम् ॥ १-५ ॥

पहले तीन छत्र चक्र प्रनाकर उसमें अश्विनी से रेखती पर्यन्त नक्षत्रों को लिखे ।
 अश्विनी से ९ नक्षत्र प्रथमचक्र में लिख कर उमे उत्तर में कल्पना करे, मघा से ९
 नक्षत्र दूसरे चक्र में लिख कर पूर्वभाग में कल्पना करे और मूल से ९ नक्षत्र तीसरे
 चक्र में स्थापित कर दक्षिण दिशा में कल्पना करे । चिम प्रकार आगे कहे हुये
 पूर्वचक्र में पूर्वापर आदि रेखाओं में दिशाकृतिभाग से दशों का स्थापन किया है उसी
 प्रकार से पश्चिम से आरंभ कर इशान काणस्थ देशों के स्वामी का मन्त्र ह्याधिपति,
 इशान से अग्निक्वणस्थ देशों के स्वामी गजाधिपति और अग्निक्वण से पश्चिमस्थ
 देशों के स्वामी गजाधिपति कल्पना करें । अथ राजाओं के नाम नक्षत्र जहाँ चक्र में
 हों उम चक्र में उनके शुभ अशुभ पदों को लिखें । प्रत्येक चक्रों में नक्षत्रों के नव
 चामर आदि विभाग हैं जो चक्र में स्पष्ट है ॥ १-५ ॥

छत्रत्रये स्थितः सौरिर्भग तस्य विनिर्दिशेत् ।
 फलं च चामरादीनां प्रत्येकं च वदाम्यहम् ॥ ६ ॥
 चामरे चण्डता वायोरनावृष्टिश्च जायते ।
 दुर्भिक्ष च भवेद्धोरं प्रजापीडा न संशयः ॥ ७ ॥

अश्वपति

नरपति

गजपति

उत्तर		
०	अ	चामर
२	भ	कलश
३	कृ	वीणा
४	रो	छत्र
५	गृ	दण्ड
६	भा	पतङ्ग
७	पु	आसन
८	पु	कीलक
९	रले	रज्जु

पूर्व		
१	म	चामर
२	पू	कलश
३	उ	वीणा
४	ह	छत्र
५	चि	दण्ड
६	स्वा	पतङ्ग
७	धि	आसन
८	क्ष	कीलक
९	ज्ये	रज्जु

दक्षिण		
१	मू	चामर
२	पू	कलश
३	उ	वीणा
४	श्र	छत्र
५	ध	दण्ड
६	श	पतङ्ग
७	पू	आसन
८	उ	कीलक
९	रे	रज्जु

कलशस्थे भवेद्युद्धं रणे रोगे महद्भयम् ।
 घातपातादिक सर्वं जायते नात्र संशयः ॥ ८ ॥
 वीणास्थेनार्कपुत्रेण पट्टराज्ञी विनश्यति ।
 चलचित्तो भवेद्राजा भयभीता च मेदिनी ॥ ९ ॥
 यदा ऋक्षत्रये सौरिश्छत्रे दण्डे पतद्गृहे ।
 तदा तस्य भवेद्भङ्गश्छत्रस्यापि न संशयः ॥ १० ॥
 आसनस्य भवेत्ताश आसनस्थं शनैश्चरे ।
 युवराजक्षयः कीले घन्धनं रज्जुसंस्थिते ॥ ११ ॥

छत्रत्रये इति । छत्रत्रये छत्रे दण्डे पतद्गृहे भे यदा सौरि शनैश्चर भ्रमति तदा तस्य राज्ञः छत्रभग विनिर्दिशेत् । अन्यत् स्पष्टम् । चामरे इति । मुगमम् ।

कलशस्थे इति । सुगमम् । वीणास्थेनार्कपुत्रेण इति । स्पष्टम् । यदा इति । स्पष्टम् । आमनस्थे इति । स्पष्टम् ॥ ६-११ ॥

यदि शनि छत्र, दह और पतद्रह के नक्षत्रों में हो तो उस राजा का छत्रभग होता है । चामर में हो तो राज्य में प्रायु की प्रचंडता, अनायुष्टि, घोर दुर्मिच्छ और प्रजा को पीडा होती है । कलश में शनि हो तो शत्रु से युद्ध, रण में पराजय, अधिकभय और घात और पतन होता है । यदि वीणा में शनि हो तो प्रधानरानी की मृत्यु होती है, राजा चंचल हो जाता है और पृथ्वी भयमान होती है । यदि छत्र, दह पतद्रह में शनि हो तो उस राजा का छत्रभग और नाश होता है । आसन में शनि हो तो सिंहासन की हानि, कीलक में होतो प्रजा और राज्य का नाश तथा रश्मि में होतो चधन होता है ॥ ६-११ ॥

सौम्ययुक्तोतिचारस्थः शनिरुक्तफलो नहि ।

चक्रगः क्रूरसंयुक्तः शनिरुक्तफलप्रदः ॥ १२ ॥

शनिराहुकुजादित्या यदा जीवेन्दुसंयुताः ।

उत्तरार्धोशराज्ञा च निश्चितं छत्रभङ्गदाः ॥ १३ ॥

क्रूरग्रहचतुष्कं च बुधचन्द्रेण संयुतम् ।

पूर्वच्छत्रविनाशाय कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ १४ ॥

एवं पापचतुष्कं च यदा शुक्रेन्दुसंयुतम् ।

दक्षिणाधिपतेऽछत्रविनाशो भाषितो बुधैः ॥ १५ ॥

एवमन्येषु राज्येषु यत्र यस्य च सम्भवः ।

उक्तग्रहसमायोगाच्छत्रभङ्गं विनिर्दिशेत् ॥ १६ ॥

सौम्ययुक्त इति । सौम्ययुक्तो शुभग्रहयुक्तो यदि शनि अतिचारस्थ स्वराशिभोगकालमतिक्रम्य राश्यंतर गन्तुकामस्तदा उक्तफलदाता न भवति । चेत् चक्रग क्रूरग्रहेण संयुक्तस्तदोक्तफलप्रद शनि स्यात् । अन्यस्स्पष्टम् ॥

यदि शनि शुभग्रह से युत अतिचारी हो तो शनि का पूर्वश्लोकोक्त फल नहीं होता है । यदि शनि चमी और क्रूरग्रह से युत हो तो उक्त फल होता है । यदि शनि, राहु, भौम और सूर्य, गुरु, चन्द्रमा से युत हो तो उत्तर दिशा में स्थित चक्र के राजाका नाश होता है । यदि चार क्रूरग्रह बुध और चन्द्रमा से युत हों तो पूव दिशा में स्थित चक्र के राजा का नाश होता है । यदि चार क्रूरग्रह शुक्र और चन्द्र से युक्त हों तो दक्षिण दिशा स्थित चक्र के राजा का नाश होता है । इसी प्रकार अन्य राजाओं का भी जहां जिस चक्र में समावना हो उन राजाओं का भी नाश रहना ॥ १२-१६ ॥

यथा दुष्टफलाः क्रूरास्तथा सौम्याः शुभप्रदाः ।
 क्रूरयुक्तो बुधः क्रूरश्चन्द्रः शुभयुतः शुभः ॥ १७ ॥
 यथा दुष्टफलः सौरिस्तथा सौम्यफलो गुरुः ।
 भौमज्ञौ गुरुराह च रविचन्द्रौ फले समौ ॥ १८ ॥
 यथा हानिकराः क्रूरास्तथा सौम्याः शुभहाराः ।
 क्रूरयुक्तो भवेत् क्रूरश्चन्द्रः सौम्ययुतः शुभः ॥ १९ ॥
 सौम्यक्रूरा यदा छत्रे अष्टावेकत्र सस्थिताः ।
 छत्रभङ्गो भवेत्तस्य परचक्रागमेन च ॥ २० ॥

यथा दुष्टफला इति । स्पष्टम् ॥ १७-२० ॥

जैसे क्रूरग्रह दुष्ट फल देते हैं वैसे ही शुभग्रह शुभफल देते हैं । क्रूरग्रह से युत बुध क्रूर होता है और चन्द्रमा शुभग्रह से युत हो तो शुभद होता है । जैसे शनि दुष्ट फल का दाता है वैसे ही गुरु शुभफल का दाता है, भौम बुध, गुरु राहु, रवि चन्द्रमा एक साथ हों तो समफल को करते हैं । जैसे क्रूरग्रह हानि करने वाले होते हैं वैसे ही शुभग्रह शुभ करने वाले होते हैं । चन्द्रमा क्रूरग्रह से युत क्रूर और शुभग्रह से युत हो तो शुभद होता है । जिस राचा के जन्म नक्षत्र पर शुभ पापग्रह मिल कर आठों पक्त्र हों उस राचा का छत्रभंग अर्थात् तादा अवश्य होता है ॥ १७-२० ॥

अन्येषां भृशतामृक्ष यत्र यत्र नृपत्रये ।
 चामराद्यभिधानेन तस्य यन्नाम जायते ॥ २१ ॥
 तत्तत्फलं तदा वाच्यमन्यदेशमहीपतेः ।
 नृपतित्रयनामैव न वाच्यं छत्रजं फलम् ॥ २२ ॥
 भूपनामर्क्षगो राहुः केतुर्वा यदि संस्थितः ।
 छत्रभङ्गो भवेत्तस्य विपदानेन भूपतेः ॥ २३ ॥
 मृगयां साहसं यात्रां दुष्टाश्वगजवाहनम् ।
 विग्रहं च त्यजेद्राजा छत्रस्थैः क्रूरग्रेचरैः ॥ २४ ॥
 एवं ज्ञात्वा यदा राजा करोति ग्रहशातिकम् ।
 यदुक्तं यामले तत्रे शान्तिः स्यात्तेन भूपतेः ॥ २५ ॥
 इति नरपतिजयचर्यायां स्वरोदये छत्रचक्राणि ममाप्तानि ।

अन्येषाम् इति । अन्येषा भूभृता राज्ञाम् ऋश्व नक्षत्र नृपत्रये अश्वपतिगज-
पतिनरपतिराज्यत्रये यत्र यत्र चामरान्त्रभिधानेन चामर कलश वीणादौ भवति
तस्य तस्मद्भोपलभित नाम चामरादिसज्ञा भवति । तत्तदिति । तदा अन्यदेश-
महीपते तत्तत्फल नामानुरूप फलमादिशेत् । यथा भरणीस्थ शनि । कस्यापि
अश्वपतिछत्रे राज्ञो भरणी जन्मनक्षत्र वा नामनक्षत्र कलशस्थ तदा तत्राज्ये
युद्ध समादिशेत् । नृपतित्रयनाम्नैः पूर्वोक्तनृपतित्रयचक्र केवलनाम्नेव छत्रज
फल न समादिशेत् । भूपेति । सुगमम् ॥ २१-२७ ॥


अश्वपति, गजपति नरपति नाम के तीनों चक्रों में जिसमें जिस चामरादि ग्वड में
अथ राजाओं के नाम नक्षत्र वा जन्म नक्षत्र पडे उनकी वही सज्ञा होती है । उसी
सज्ञा के अनुरूप उन राजाओं का फल कहना चाहिये । केवल तीनों चक्रों के नाम
से ही फल नहीं कहना चाहिये । जैसे—यदि किसी राजा का भरणी नक्षत्र है और
वह अश्वपति चक्र में उत्तनक्षत्र कलश में है और शनि भी भरणी में है अत उम
राजा के राज्य में युद्ध होगा ऐसा कहना चाहिये । राजा के नाम नक्षत्र पर राहु अथवा
केतु हो तो उम राजा का त्रिप देने से नाश होता है । यदि छत्रस्य नक्षत्र पर ध्रुवग्रह
हो तो राजा जासेद, साहस का कार्य यात्रा, दुष्ट घोड़े और हाथी की सवारी और
युद्ध न करें । इम प्रकार से दुष्ट फल को जानकर राजा यामल तत्र में कहे हुये विधान
से ग्रहा की शान्ति करें तो राजा को शुभफल की प्राप्ति हाती है ॥ २१-२५ ॥

इति नरपतिजयचर्याया छत्रचक्राणि ।



अथ सिंहासनचक्रम्

इत्येवं सम्प्रवक्ष्यामि चक्रं सिंहासनत्रयम् ।
 येन विज्ञानमात्रेण क्रियते राज्यनिर्णयः ॥ १ ॥
 सप्तविंशतिनक्षत्रैरेकैकं च नवात्मकम् ।
 अश्विनी-मघमूलाद्यं पंचनाडीविभेदतः ॥ २ ॥
 अश्विन्याद्युत्तरे भागे मघाद्य पूर्वतः स्थितम् ।
 मूलाद्यं दक्षिणे भागे ज्ञातव्यं नृपतित्रयम् ॥ ३ ॥



इतरेषु च राज्येषु नृपनामर्क्षतो वदेत् ।
 शुभाशुभमिदं सर्वं यस्य यत्र शनिस्थितः ॥ ४ ॥
 नाडिकापञ्चवेधेन एकैरुस्यासनं भवेत् ।
 आधारमासनं पटं सिंहं सिंहासनं तथा ॥ ५ ॥
 आधारादिफल सर्वमेकैरुस्य वदाम्यहम् ।
 ग्रहवेधवशाज्जेयं सौम्यक्रूरैः शुभाशुभम् ॥ ६ ॥

इत्येवमिति—इत्येव सिंहासनत्रयात्मक चक्रं प्रवक्ष्यामि । येन ज्ञानमात्रेण राज्यनिर्णय क्रियते । सप्तविंशतिनक्षत्रैरिति । सप्तविंशतिनक्षत्रैरेकैकं नवनवात्मकं भवेत् सिंहासनत्रयात्मकं भवेत्, अश्विन्याद्यं मघाद्यं मूलाद्यं च पंचनाडीविभेदतः कृतं । अश्विन्यादीनि । तत्रोत्तरे भागेऽश्विन्याद्यं अश्वपते,

पूर्वतो मघाद्य नरपते, दक्षिणेभागे मूलाद्य गजपते एव सिंहासनत्रय भवति । इतरेष्विति । इतरेषु राज्येषु नृपनामनक्षत्रात्सिंहासनत्रय वदेत् । यत्र भागे शनि तत्र सर्वथेद शुभाशुभफल भवति । नाडिकेति । नाडिकापचवेधेन एकैकस्य भूपते आधारादिक्रमेण पच आसन भवति । अर्थात् सिंहासन पचमोपानक विरच्यते । तत्राद्य सोपानस्य आधारसज्ञा तदुपरि आमन, तदुपरि पट्टसज्ञा मोपान, तदुपरि सिंहसोपानम्, तदुपरि सिंहासनम् । यत्रस्यो राजा सिंहवद्भवति । आधारादिक्रममिति । स्पष्टम् ॥ १-६ ॥

इसी प्रकार तीन सिंहासन चक्र को कह रहा हूँ जिसके ज्ञान से राज्य के शुभ अशुभ का निर्णय होता है । प्रत्येक सिंहासन चक्र ९ नव नक्षत्रों के होते हैं जिसमें पहला अधिनी से, दूसरा मघा से और तीसरा मूल से रेवती पर्यन्त नव नक्षत्र का होता है । इसमें पचनाडी का वध होता है । पहला उत्तर भाग म अश्वपति का, दूसरा पूर्व म मघासे नरपति का और तीसरा मूल से गजपति का सिंहासन होता है । अन्य राजाओं के नाम नक्षत्र से तीन २ सिंहासन चक्र होते हैं जिस भाग में शनि हो उससे शुभ अशुभ फल का विचार करे । सिंहासन ५ सीढ़ियों का होता है जैसा कि नीचे चक्र से स्पष्ट है । इसमें सबसे नीचे की सीढ़ी की आधार सज्ञा, इसके ऊपर की सीढ़ी का आसन सज्ञा, इसके ऊपर के सीढ़ी की पट्ट सज्ञा, इसके ऊपर के सीढ़ी की सिंह सज्ञा और इसके ऊपर सिंहासन होता है जिसपर राजा बैठकर राजकार्य करता है । यही पांच नाडिकाएँ हैं । प्रत्येक आधारादि का फल शुभ और दूरग्रह के वेध द्वारा शुभ अशुभ फल कहना चाहिये ॥ १-६ ॥

नृप आधारनाडयुक्ते यदा पट्टेऽभिपेक्षितः ।

पराधीनगतं राज्यं कुरुते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

आसनस्थेन ऋक्षेण नीतियुक्तो भवेन्नृपः ।

प्रधानपुरुपादेशात्प्रजाशान्तिं करो भवेत् ॥ ८ ॥

पट्टऋक्षे यदा राजा चोपविष्टो यदासने ।

पूर्वराज्यस्थितेस्तुल्यां चिरं पालयते महीम् ॥ ९ ॥

सिंहरूपी भवेद्राजा सिंहऋक्षासने स्थितः ।

सग्रामस्य प्रियो नित्यमसाध्यो मन्त्रिणा सदा ॥ १० ॥

सिंहासनगते ऋक्षे तेजस्वी भीषणाकृतिः ।

चलचित्तो भवेत् क्रोधी प्रजापीडाकरो नृपः ॥ ११ ॥

नृप इति । सुगमम् ॥ ७-११ ॥

आधार में स्थित नक्षत्र में यदि राजा या राज्याभिषेक हो तो राजा दूसरे के अधीन रहकर राज्य करता है। आमन में स्थित नक्षत्र में राज्याभिषेक हो तो राजा नीतिमान् और उच्च अधिकारी की आज्ञा से प्रजा में शान्ति स्थापन करे वाला होता है। यदि पट्ट के नक्षत्र में राज्याभिषेक हो तो पूर्व राज्य के ममान ही पृथ्वी का शासन करता है। सिंह के नक्षत्र में यदि अभिषेक हो तो राजा सिंह के समान होता है और हमेशा युद्धप्रिय और मंत्रियों के असाध्य होता है। यदि सिंहासनगत नक्षत्र में अभिषिक्त हो तो राजा तेजस्वी, भीषण आकृतिवाला, चंचलचित्त, क्रोधी और प्रजा को पीड़ा देने वाला हाता है ॥ ७-११ ॥

तत्कालेन्दुगते ऋक्षे क्रूरनिर्वेधनाडिके ।
 शुभावस्था शुभे लग्ने संस्थाप्यो नृप आमने ॥ १२ ॥
 ईदृशे च समायोगे उपविष्टो य आमने ।
 उच्छिद्य शत्रुसङ्घातमेकच्छत्र करोति सः ॥ १३ ॥
 क्रूरग्रहस्य नाड्यां चेदुपविष्टो य आसने ।
 बन्धनं भूमिनाशश्च तथा मृत्युश्च जायते ॥ १४ ॥
 आधारऋक्षगः सौरिरेनावृष्टि करोति सः ।
 दुर्भिक्षं रौरवं घोरं प्रजामृत्युश्च जायते ॥ १५ ॥
 आसने च यदा सौरिर्युद्धे भङ्गप्रदो भवेत् ।
 अथवा व्याधिपीडा च घातदुःखं च जायते ॥ १६ ॥

तत्कालेन्दुगते इति । राज्याभिषेककालिके चन्द्रार्धे अन्यन् रपष्टम् ॥ १२-१६ ॥

राज्याभिषेक के समय जो नक्षत्र हो वही चन्द्राक्षर है यह नक्षत्र क्रूरग्रह के वध में रहित हो, चन्द्रमा शुभ अवस्था और शुभ लग्न में हो तो राज्याभिषेक करना चाहिये। इस प्रकार सर्वांश शुद्ध योग में जो राजा सिंहासन पर बैठता है यह सभी शत्रुओं का नाश कर एकछत्र राज्य करता है। जो क्रूरग्रह की नाडी में सिंहासन पर बैठता है उस राजा के राज्य का नाश, पण्य और मृत्यु होती है। यदि आधार के नक्षत्र पर शनि हो तो अनावृष्टि, घोर दुर्भिक्ष और प्रजा को पीड़ा होती है। आमन के नक्षत्र पर शनि हो तो युद्ध में पराजय तथा व्याधि, पीड़ा और मृत्यु होता है ॥ १२-१६ ॥

पट्टऋक्षे यदा सौरिः पट्टराज्ञी विनश्यति ।
 प्रियो वाध कुमारो वा मंत्रिवर्गर्क्षयापि वा ॥ १७ ॥

मिहे सिंहासने वाथ यदा तिष्ठति सूर्यजः ।
 तदा मृत्युर्न संदेहो यदि शक्रसमो नृपः ॥ १८ ॥
 शनिराह्वर्कमाहेया यदा चन्द्रर्क्षसंयुताः ।
 यस्यासनगता एते तदा तस्य क्षयंकराः ॥ १९ ॥
 क्रूरयुक्तोऽतिवक्रस्थः क्रूरनाडीगतोपि वा ।
 आसने चन्द्रयोगेन कालरूपी शनैश्वरः ॥ २१ ॥
 एवं शुभफलं दद्याद्देवमन्त्रो न सशयः ।
 करांति विपुलं राज्यं यस्यासनगतो भवेत् ॥ २१ ॥
 इति यामलीयस्वरोदये सिंहासनचक्रं समाप्तम् ।

पट्टच्छे इति । स्पष्टम् ॥ १७-२१ ॥

पट्ट के नक्षत्रों में शनि हा ता पटरागी अथवा प्रियकुमार या मन्त्रियों का नाश होता है । सिंह के या सिंहासन के नक्षत्र में शनि हो तो इन्द्र के ममान राजा हो तो भी उसकी मृत्यु अवश्य होती है । यदि चन्द्रमा के नक्षत्र पर शनि, राहु, सूर्य और मंगल युक्त होकर जिस राजा के आसन में हों उसका नाश होता है । आसन के नक्षत्र में गया हुआ शनि क्रूरग्रह से युक्त होकर अतिवक्र हो, क्रूरनाडी में गया हो तो कालरूप होता है । इसी प्रकार यदि गुरु, शोभन वर्ग आदि में होकर जिसके आसन में गया हो उसके राज्य को उड़ाता है इसमें सशय नहीं है ॥ १७-२१ ॥

इति सिंहासनचक्रम् ।




अथ कूर्मचक्रम्

कूर्मचक्रं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं कोशलागमे ।
 यस्य विज्ञानमात्रेण ज्ञायते देशविप्लवः ॥ १ ॥
 यस्य शृङ्गैरुदेशस्था देवान्त्रिंशकोटयः ।
 सुमेरुः पृथिवीमध्ये श्रूयते दृश्यते न तु ॥ २ ॥
 तादृशाः पर्वताश्चाष्टौ सागरा द्वीपदिग्गजाः ।
 सर्वे ते विधृता भूम्या सा धृता येन तं शृणु ॥ ३ ॥
 दंष्ट्रया सा वराहेण विधृता सागरा धरा ।
 मुस्ताग्वननतोयस्य शोभते मृत्तिकेव या ॥ ४ ॥
 ईदृशोसौ महाकायो वराहः शेषमस्तके ।
 तस्य चूडामणेरूर्ध्वं संस्थितो महाकोपमः ॥ ५ ॥
 एवंविधः स शेषोपि कुण्डलीभूमिसंस्थितः ।
 कूर्मपृष्ठैकभागेन पद्मतन्तुरिवावभौ ॥ ६ ॥
 वपुःस्कन्धशिरःपुच्छनग्वाधिप्रभृतीनि च ।
 मानेन तस्य कूर्मस्य कथयामि प्रयत्नतः ।
 शङ्कोः शतसहस्राणि योजनानि वपुःस्थितम् ॥ ७ ॥
 तदर्धेन भवेत्पुच्छं पुच्छार्धेन द्विकुक्षिरुम् ।
 शीया सायुतकोटीभिर्मस्तकं सप्तकोटिभिः ॥ ८ ॥
 नेत्रयोरन्तरं तस्य कोटिरेकप्रमाणतः ।
 मुखं कोटिद्वयं तस्य द्विगुणेन च पादयोः ॥ ९ ॥
 अङ्गुलीनां नग्वाग्रेषु योजनान्ययुतायधि ॥ १० ॥
 एवं कूर्मप्रमाणं तु कथितं चादियामले ।
 तस्योपरि स्थिता तत्र सप्तद्वीपयुता मही ॥ ११ ॥
 कूर्माकारं लिखेच्चक्रं सर्वायवसयुतम् ।
 पूर्वभागे मुखं तस्य पुच्छं पश्चिममण्डले ॥ १२ ॥

कूर्मचक्रं प्रवक्ष्यामि इति । स्पष्टम् ॥ १-१२ ॥

अत्र मै आदि यामल म कहे हुये कूर्मचक्र को कहता हूँ जिसके ज्ञान से देश के विस्तार का ज्ञान होता है। जिसके एक शृङ्ग प्रदेश म ३३ करोड देवता रहते है और सुमेरु पर्वत पृथ्वी के मध्य में है ऐसा सुना जाता है किन्तु देखने को नहीं। इसी प्रकार आठ और पर्वत, सागर दिग्गज द्वीप है जो कि इसी भूमि पर है



इन सब को जैसे धारण करते है उसे सुनो। सागरों के माथ इस पृथ्वी को घराह भगवान् ने अपने दाँतों पर इस प्रकार से धारण किया जैसे बहुत बड़े शरीर वाले घराह शोषनाग के मस्तक पर उनके चोटी के ऊपर भशरु के समान स्थित है। इस प्रकार से वह शोष भी कुडली लगाकर भूमि पर कूर्म के पृष्ठ के समान स्थित है जैसे कमल की डगी। शरीर, कधा, शिर, पूँछ, नग्य, चरण प्रभृति अङ्गों का मान मैं कहता हूँ। एक शक्र (नोल) को एक हाथ से गुण देने से जो

मण्ड्या होती है अर्थात् दशशय्य के परावर १०००००००००००००००००००००० योजन कूर्म का शरीर होता है। इसका आधा पूछ और पूछ का आधा दोनों कौल (कुलि) और एक करोड दश हजार योजन की ग्रीया, सान करोड योजन का मस्तक होना है। एक कोटि (करोड) योजन दोनों नेत्रों के मध्य भाग की दूरी, दो करोड योजन का मुग्य और चार करोड योजन के पैर और नग्य से अगुलियों का प्रमाण दशयोजन का होता है। इस प्रकार से आदि यामल में कूर्मचक्र को कहा है जिसके ऊपर मातद्वीपों से युक्त यह पृथ्वी है। इस प्रकार से सभी अवयवों से युक्त कूर्म को लिखना चाहिये। पूर्व दिशा म वक्ष्यप का मुग्य और पश्चिम दिशा म पूँछ रहती है ॥ १-१२ ॥

पूर्वापर लिखेद्वेधं वेध चोत्तरदक्षिणे ।
 ईशानराक्षसे वेधं वेधमाग्नेयमारुते ॥ १३ ॥
 नाभिशीर्षचतुष्पादकुक्षिपुच्छेषु मस्थितम् ।
 तारात्रयाग्निने तस्मिन्सौरि यतेन चिन्नयेत् ॥ १४ ॥
 अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभा सूपकाः शुक्राः ।
 स्वचक्र परचक्रं च सप्तैता ईतयः स्मृताः ॥ १५ ॥

कृत्तिका राहिणी सौम्यं कूर्मनाभिगतं त्रयम् ।
 साकेतं मिथिला चम्पा कौशाची कौशिकी तथा ॥ १६ ॥
 अहिच्छत्रं गया विध्यमन्तर्वेदी च मेखला ।
 कान्यकुब्ज प्रयागश्च मध्यदेशो विनश्यति ॥ १७ ॥
 रौद्रं पुनर्वसुः पुष्यं कूर्मस्य शिरसि स्थितम् ।
 सगौडो हस्तिचन्धश्च पञ्चराष्ट्रं च कामरुः ॥ १८ ॥
 चरंद्री च तथा ज्ञेया मगधश्च तथैव च ।
 रेवातटं च नेपालः पूर्वदेशो विनश्यति ॥ १९ ॥

पूर्वापरम् इति । स्पष्टम् ॥ १७-१९ ॥

इस चक्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इंद्रान, ईशान, अग्नि और वायव्य
 कोण का वध होता है । कूर्म क नाभि, शीर्ष, चारों पैर, कृत्ति के दक्षिण घाम भाग और
 पृष्ठ इन ९ स्थानों में तीन २ नक्षत्रों का न्याम कर शनि का देवना चाहिय कि यह
 कर्हो है । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ (टिड्डा), मूषक, मुग्गा, अपन चक्र, शत्रुघ्न य
 मातृप्रकार के भय होते हैं । कृत्तिना, रोहिणी, मृगशिरा ये तीन नक्षत्र कूर्म क नाभि
 में कल्पना करनी चाहिये और इसमें साकेत, मिथिला, चम्पा, कौशाची, कौशिकी,
 अहिच्छत्र, गया, विध्यप्रदेश, मेखला, कान्यकुब्ज, प्रयाग और मध्यदेश य नगर हैं,
 नाभिगत नक्षत्र में शनि क हाने से ये देश नष्ट होते हैं । आद्रो, पुनर्वसु, पुष्य
 कूर्म के शिर पर हैं और इसमें गौड, हस्तिचन्ध, पञ्चराष्ट्र, कामरु, चरन्द्री, मगध,
 रेवोत्तरवर्ती देश, और नेपाल का नाश होता है ॥ १३-१९ ॥

(पूर्वापादाऽनलाद्वा च त्रयाणां सम्मुखो व्यथः ।

मूले ब्रह्मादितीना च वेधो गुर्विन्दुवज्जिणाम् ॥ २० ॥)

आश्लेषा च मघा पूर्वा पादे आग्नेयगोचरे ।

अद्भवद्भक्तलिङ्गाश्च पूर्वजाश्चैव कामलाः ॥ २१ ॥

डाहली च जयन्ती च तथा चैव सुलंजिका ।

उडियाम वराटं च अग्निदेशो विनश्यति ॥ २२ ॥

उत्तराह्मन्चित्राश्च दक्षिणां कुक्षिमागता ।

दर्दुर च महेंद्रं च वनवामं समिहलम् ॥ २३ ॥

तापी भीमरथी लङ्का त्रिकूटं मलयस्तथा ।

श्रीपर्वतश्च किष्किंधा इति नश्यन्ति दक्षिणे ॥ २४ ॥
 स्वाती विशाखा मैत्रं च कूर्मे नैर्ऋतिगोचरे ।
 नासिक्यं च सुराष्ट्रं च धृतमालवकं तथा ॥ २५ ॥
 पर्यली च प्रकाशं च भृगुकच्छं च कोकणम् ।
 खेटापुरं च मोटेरं देशा नश्यन्ति तादृशाः ॥ २६ ॥
 ज्येष्ठा मूलं तथा पाढा पुच्छे कूर्मस्य संस्थिताः ।
 पारावत मरुत्कच्छमवंती पूर्वमालवम् ॥ २७ ॥
 पारासर बर्बरं च द्वीप सौराष्ट्र-सैधवम् ।
 जलस्थाश्च विनश्यन्ति स्त्रीराज्यं पुच्छपीडने ॥ २८ ॥
 उत्तरापादभत्रीणि पादे वायव्यगोचरे ।
 गुर्जराहं यामुनं च मरुदेश सरस्वती ॥ २९ ॥
 जालंधरं वराटं च बालुकोदधिसयुतम् ।
 मेरुशृंगं विनश्यति ये चान्ये कोणसंस्थिताः ॥ ३० ॥
 शतभादित्रयं चैव उत्तरां कुक्षिमाश्रितम् ।
 नैपालं कीरकाश्मीरं गृजनं खुरसानकम् ॥ ३१ ॥
 माथुरं म्लेच्छदेशश्च खश केदारमडलम् ।
 हिमाश्रयाश्च नश्यन्ति देशा ये चोत्तराश्रिताः ॥ ३२ ॥
 रेवती अश्विनी याम्यं पादे ईशानगोचरे ।
 गंगाद्वारं कुरुक्षेत्रं श्रीकंठ हस्तिनापुरम् ॥ ३३ ॥
 अश्वचक्रैकपादाश्च गजकर्णास्तथैव च ।
 विनश्यन्ति च ते सर्वे शनावोशानगोचरे ॥ ३४ ॥

आश्लेषा च इति—स्पष्टम् ॥ २८-३४ ॥

श्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी ये तीन नक्षत्र कूर्म के अग्नि कोण के पैर में हैं इसमें शनि के होने से अद्म, बग, कलिङ्ग, कोसल, डाहली, मुलबिका, उदियाम और वराह देश नष्ट होते हैं। उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा ये नक्षत्र दाहिने कोंठ (कुनि) में हैं इसमें शनि के होने से दुर्दुर, महद, धनवास, सिंहल, नापी, भागीरथी, लड्डा, त्रिवृट, मलय, भीपर्वत, किष्किंधा ये देश नष्ट होते हैं। स्वाती, विशाखा, अनुराधा ये नक्षत्र कूर्म के नैर्ऋत्य कोणस्थित पैर में हैं इसमें शनि का घेघ होने से तामिर,

समकालं पीडयेद्यत्र भानुजः कूर्मपञ्चकम् ।
 तत्र स्थाने महाविघ्नं जायते नात्र संशयः ॥ ४६ ॥
 दुष्टस्थानगते मदे कर्त्तव्यं तत्र शातिकम् ।
 यदुक्तं यामले तत्रे सर्वविघ्नविनाशनम् ॥ ४७ ॥
 कूर्मचक्रं महाचक्र कथितं चादियामले ।
 त्रिकालविषयज्ञानं पाणिस्थं तेन जायते ॥ ४८ ॥
 इति नरपतिजयचर्याया स्वरोदये कूर्मपञ्चक्राणि समाप्तानि ।


गृह के नाम नक्षत्र से गृहद्वार में कूर्म के मुख की कल्पना कर चक्र को बनावे । गृहमध्य में शनि हो तो शोक-सताप को करनेवाला, गृहद्वार में हो तो विद्युत् और भ्रमि का भय । दक्षिण भाग में हो तो गृह्यु, नैर्ऋत्य कोण में हो तो राक्षस से भय, पश्चिम में हो तो शुभद, वायव्यकोण में हो तो शून्य फल, उत्तर में हो तो धन लाभ, ईशानकोण में हो तो शून्य फल । उत्तर म हो तो धन लाभ, ईशानकोण में हो तो सब प्रकार की सिद्धि । यदि शनि भयत बली हो तो दुष्ट होता है और अल्पबली हो तो शुभद होता है । एक ही समय यदि शनि पाँचों कूर्मों में बंध करता हा तो उस स्थान में बड़ा विघ्न होता है । शनि दुष्ट स्थान में हो या द्रव्याम लोक्त सभी विघ्नों को नाश करने वाले शान्ति को करता चाहिये । आदि यामल में कहा हुआ महाचक्र नामका कूर्मचक्र कहा जिसके ज्ञान से तीनों काल के विषय को जाना जा सकता है ॥ ४२-४८ ॥

इति नरपतिजयचर्यायां कूर्मपञ्चक्राणि

अथ पद्मचक्रम्

पद्माकारं लिखेच्चक्रमष्टपत्रं सुशोभनम् ।
 कोष्ठकं नवमं मध्ये पद्मचक्रं प्रजायते ॥ १ ॥
 कृत्तिकादीनि भान्यत्र त्रीणि त्रीणि यथाक्रमम् ।
 मध्यकोष्ठादिरुद्रान्तं सप्तविंशति विन्यसेत् ॥ २ ॥
 नवखंडा धरित्रीयं नवभागेषु सस्थिता ।
 यत्र खंडे स्थितः सौरिः खण्डं तच्च विनश्यति ॥ ३ ॥
 भद्राश्वः किपुरुषं च हरिवर्षस्तथैव च ।
 मेरुश्च दक्षिणे देशे खण्डोयमीरितस्त्रिभिः ॥ ४ ॥
 रम्यं हिरण्मयं चैव कुरुखण्डस्तथैव च ।
 मेरुश्चोत्तरतश्चैव त्रिभिः प्रोक्तादियामले ॥ ५ ॥
 केतुमालश्च यो नाम खण्डो मेरुश्च वारुणे ।
 भरतेषु च विख्यातो पूर्वदिङ्गोरुतः स्थितः ॥ ६ ॥
 इलावृतश्च नामानि खण्डोयं मेरुसस्थितः ।
 नवखण्डमिदं प्रोक्तं कथितं चादियामले ॥ ७ ॥
 इति पद्मचक्रम् ।

अष्टपत्र कमल सुन्दर नव कोष्ठ का घनाना चाहिये । सभी कोष्ठों में कृत्तिका से तीन तीन नक्षत्र मध्यकोष्ठ से ईशानकोण पर्यन्त लिखें । यह पृथ्वी नक्षत्रों की है यही हम पत्र में न्यास करके जहाँ शनि हो वहाँ नाश होता है । इस चक्र में कृत्तिका से तीन तीन नक्षत्र ईशानकोण तक ९ कोष्ठ में २७ नक्षत्रों को रचना चाहिये । यह नवखण्ड की पृथ्वी इन नवों भागों में विभक्त है, निम्न खण्ड में गति होना है उस खण्ड का नाश करता है । सुमेरु से दक्षिण में भद्राश्ववर्ष, किपुरुष, और हरिवर्ष ये देगे हैं मेरु से उत्तर में रम्यवर्ष, हिरण्मय, और कुरुखण्ड ये तीन वर्ष हैं । मेरु से पश्चिम में



केतुमालखड और पूर्व में भारतपर्यन्त है। इलायतखड मेरु में है यही धादि यामुछ में कहा गया है ॥ १-७ ॥

अथ सप्तद्वीपफणिचक्रम्

कृत्तिकादि लिखेच्चक्रं सर्पाकारं फणीश्वरम् ।
सप्तनाडीसमायुक्तं तत्र वेधं विलोकयेत् ॥ १ ॥
नाट्येकैकसमायोगे जम्बूद्वीपादि गण्यते ।
सप्त द्वीपाः क्रमेणैव तत्र सौरिं विचिन्तयेत् ॥ २ ॥
जम्बूद्विपस्तथा शाकः कुशः क्रौञ्चश्च शाल्मलः ।
गोमेदः पुष्करद्वीपः पीट्यन्ते सौरिपीडया ॥ ३ ॥

इति सप्तद्वीपफणिचक्रम् ।

कृत्तिका से सप्त नादियों से युक्त एक सर्प के आकार का चक्र लिखें और उसमें वेध को देखें ॥ १ एक २ नादियों में क्रम से जंबूद्वीपादि सात द्वीप क्रम से हैं उसमें



१ जंबू २ शाक ३ कुश ४ क्रौञ्च ५ शाल्मल ६ गोमेद ७ पुष्कर

द्वीपों को दर्शाते हैं ॥ २ ॥ जंबूद्वीप, शाक, क्रौञ्च, शाल्मली, गोमेद और पुष्कर ये सात द्वीप हैं जहाँ धारि हो उसे पीटा होती है ॥ १-३ ॥


इति सप्तद्वीपचक्रम्

अथ राहुकालानलचक्रम् ।

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याख्याता ब्रह्मयामले ।
राहुकालानलीयाद्यासद्यः प्रत्ययकारिणी ॥ १ ॥
ग्रहयोगवशाद्याज्योतिःशास्त्रेषु भाषिता ।
या सा शुभेषु कार्येषु फलदा न तु मंगरे ॥ २ ॥
यस्य न्छायाप्रभावेण छायेते शशिभास्करौ ।
तस्य राहोः प्रभावश्चक्ष्येऽहं रणकर्मणि ॥ ३ ॥

केचिन्मूर्त्वा वदन्त्येव ग्रहो राहुरकारणम् ।
 यतो वर्षे दिने लग्ने आधिपत्यं न दृश्यते ॥ ४ ॥
 आधिपत्ये स्थिता ये च वर्षे मासे दिने तथा ।
 ते चाधिकारिणो ज्ञेया राहुराजेतियामले ॥ ५ ॥

अब मैं ब्रह्मयामल मैं कहे हुये राहुकालानल को कहता हूँ । राहुकालानल के द्वारा यात्रा सिद्धिदायक होती है । ज्योति शास्त्र में ग्रहों के योगवश से जो यात्रा कही गई है वह शुभ कार्य में फल देने वाली होती है न कि सप्राप्त में । जिसके छाया के प्रभाव से चन्द्रमा और सूर्य आकाश होते हैं उस राहु का प्रभाव में रण कार्य में कहेंगे । कोई मूर्ख अकारण राहु को ग्रह कहते हैं क्योंकि वर्ष, मास, दिन, लग्न आदि में कहीं उसका स्वामित्व नहीं देगते हैं । जिसका वर्ष मास दिन में आधिपत्य है वह अधिकारी राहु राजयामल में कहा गया है ॥ १-५ ॥



वेदागमपुराणेषु व्याख्यातो राहुखेचरः ।
 तस्य माहात्म्यमज्ञात्वा मिथ्या जल्पति स्वल्पवित् ॥ ६ ॥
 दुष्टारिष्टेषु सर्वेषु जातकादिषु गण्यते ।
 सद्यः प्रत्ययदो राहुः स कथं स्यादकारणम् ॥ ७ ॥
 यः कालरूपो भ्रमति संहारेण महीतले ।
 स वक्रदंष्ट्रया रौद्रो ज्ञेयो राहुर्न संशयः ॥ ८ ॥
 ग्रहा ग्रासभयाद्यस्य सृष्टिमार्गं भ्रमन्ति च ।
 तस्य नामान्यहं वक्ष्ये मुखपुच्छक्रमेण च ॥ ९ ॥
 राहुश्चैव तमः पात. स्वर्भानुः सिरिकासुत. ।
 दैत्यच्छाया शिरोवक्र ग्रहारिश्च विद्युन्तुदः ॥ १० ॥

वेदागम पुराणेषु इति । स्पष्टार्थो । ६-१०

जिस राहु को वेद भागम पुराणों में राहु ग्रह कहा गया है उसके माहात्म्य

को न जानकर सूर्य ही मूरं लोग बोला करते हैं । जातक ग्रहों में सर्वत्र दुष्ट भरिष्ठ में सद्य राहु की गणना होती रहती है यह राहु अकारण क्यों है ? जो कालरूपी राहु हमेशा कालरूपी पृथ्वी पर घूमा करता है यह देखे दौत पाला रीत्य रूप राहु ही है इसमें सशय नहीं । ८। जिसके ग्राम कर लेने के भय से ग्रह लोग मन मार्ग में चलते हैं उसका नाम में मुत्त पौष्ट के अनुसार कहता हूँ । राहु को तम, पाठ, स्वर्मानु सिद्धिकामुत, दैत्यच्छाया तिर, यत्र, ग्रहारि और विष्णुद कहते हैं ॥ ६-१० ॥

पुच्छं केतुः शिखी सर्पो गुदं गुह्यं तट मतम् ।

उत्पातो विपगर्भश्च धूम्रकायो ग्रहान्तिमः ॥ ११ ॥

ऋक्षाधारगतो राहुः सर्परूपेण संस्थितः ।

तस्य चक्रं प्रवक्ष्यामि राहुकालानलात्मकम् ॥ १२ ॥

शलाकासप्तकं चक्रमीशादौ कृत्तिकादिकम् ।

अष्टाविंशति नक्षत्रं साभिजित्सव्यमालिपेत् ॥ १३ ॥


यत्रक्षे संस्थितो राहुर्वदनं तद्विनिर्दिशेत् ।

मुखात्पश्चदशे ऋक्षे तस्य पुच्छं व्यवस्थितम् ॥ १४ ॥

एकोत्तरशतं संख्या जायन्ते यत्र केतवः ।

व्याप्नुवन्ति जगत्सर्वं सहचारैः समत्विषः ॥ १५ ॥

राहु के पौष्ट को वेतु कहते हैं, सर्प, गुद, गुह्य, तट, उत्पात, विपगर्भ, धूम्रकाय, ग्रहान्तिम, वे इसके उपनाम हैं । नक्षत्र



के आधार में ग्रहों के आकार का राहु दे उसके चक्र को राहु कालानल कहते हैं तिम में कहता हूँ । सप्तदशाब्द में ईशानर्षेण से कृत्तिकादि २८ नक्षत्र भवि जित् ५ महित लिखना आदिय । तिम नक्षत्र पर राहु हो वहीं राहु का मुख होता है और मुख में १० वें नक्षत्र पर राहु

का पौष्ट होता है । १०१ वेतु हते हैं जो कि मूरं के नक्षत्रविरल के गणना सपूर्ण समार में व्याप्त हैं ॥ ११-१५ ॥

राहुभुक्तानि ऋक्षाणि जीवपक्षे त्रयोदश ।
त्रयोदशैव भोग्यानि मृतपक्षः प्रकीर्तितः ॥ १६ ॥

मृतपक्षे मुखं तस्य गुदं जीवाङ्गमध्यमम् ।
एवमङ्गद्वयो राहुर्जातव्यः स्वरपारगैः ॥ १७ ॥

जीवपक्षे क्षपानाथे मृतपक्षे रघौ तथा ।
तस्मिन्काले शुभा यात्रा विपरीता तु हानिदा ॥ १८ ॥

राहु जिस नक्षत्र पर है उससे पीछे के १३ नक्षत्रों की जीव पक्ष सज्ञा होती है । और १३ भोग्य नक्षत्रों की मृत मज्ञा होती है । जैसे राहु रवती पर है तो उससे भुक्त १३ नक्षत्र अधिनी से हस्त पर्यन्त जीवपक्ष, और धित्रा में केतु हुआ इसके बाद स्वाती से अभिजित् के साथ गणना करने से १३ नक्षत्र भोग्य मृतपक्ष सज्ञक होते हैं । राहु का मुख मृतपक्ष में और पोछ जीवपक्ष में समझना चाहिये इस प्रकार राहु के दो प्रधान जग जानना चाहिये । जिस समय जीवपक्ष के नक्षत्रों में चन्द्रमा हो और मृतपक्ष के नक्षत्रों में सूर्य हो उस समय यात्रा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है अन्यथा हानिकारक होती है ॥ १६-१८ ॥

चन्द्रादित्यौ यदा युक्तौ जीवपक्षे व्यवस्थितौ ।
तत्र क्षेमं जयो लाभो यात्राकाले न संशयः ॥ १९ ॥

मृतपक्षे यदा काले संस्थितौ शशिभास्करो ।
तदा हानिर्भयं भङ्गो मृत्यू राजां प्रजायते ॥ २० ॥

जीवपक्षे स्थिते चन्द्रे कार्यं स्यादमृतोपमम् ।
मृतपक्षे मृत ज्ञेयं यतश्चन्द्रबलावलम् ॥ २१ ॥

चक्रादित्यौ इति । सुगमम् ॥ १६-२१ ॥

यदि यात्रा समय चन्द्रमा और सूर्य दोनों जीवपक्ष में स्थित हों तो यात्रा में कुशल, विजय और लाभ होता है । यदि दोनों रवि चन्द्रमा मृतपक्ष में हों तो यात्रा में हानि, भग, और मृत्यु होती है । जीवपक्ष में चन्द्रमा हो तो कार्य अमृत के समान होता है और मृतपक्ष में हो तो मृतक के समान होता है क्योंकि सभी कार्यों में चन्द्रबल ही प्रधान होता है ॥ १९-२१ ॥

इति द्विपांगराहुचक्रम् ।

अथ पञ्चाङ्गराहुः ।

अथ(१) पञ्चाङ्गभेदेन राहुचक्रं वदाम्यहम् ।
 मुखोदरौ गुदं पुच्छ कपालं तस्य पञ्चमम् ॥ १ ॥
 राहुः पातस्तमो विम्बं मंहारे वक्रगो ग्रहः ।
 धूम्रपुच्छो ग्रहग्रासः सूर्याङ्गः केतुरुच्यते ॥ २ ॥
 मुख्याङ्गस्य नामानि फल चापि वदाम्यहम् ।
 भ्रमणाचन्द्रसूर्यस्य पञ्चाङ्गर्क्षे विद्युन्तुदः ॥ ३ ॥
 यत्रर्क्षसंस्थितो राहुस्तस्य नामानि वक्ष्यहम् ।
 गलितं कर्तरी जिह्वा चन्द्रग वदनं तथा ॥ ४ ॥
 राहुःशक्राग्रतो यानि भुक्तानि त्रयोदश ।
 उदरं सम्पुटं जीवं कामाङ्गं जठरं च हृत् ॥ ५ ॥

इति द्वितीयाङ्गम् ।

पाँच भगों के भेद से राहु चक्र को बट रखा है। मुख, उदर, गुद, पुच्छ और कपाल ये प्रथम पाँच भग हैं। राहु को पात, तम, विम्ब, मंहार ग देहाग्रह कहते हैं। धूम्र, पुच्छ, ग्रहग्रास, सूर्यांग और केतु भी कहते हैं। मुख आदि भगों के नाम और फल को कहेंगे। चन्द्रमा और सूर्य के भ्रमण से पाँचों भगों के नक्षत्र में जहाँ राहु हो उसके नाम कह रहे हैं। जिस नक्षत्र पर राहु रहता है उसके गलित, कर्तरी, जिह्वा, चन्द्रग, वदन नाम हैं। राहु के नक्षत्र से आते १३ भुक्त नक्षत्रों की उदर, सम्पुट, जीव, कामांग, जठर या हृदय नाम हैं ॥ १-५ ॥

उदरादग्रनक्षत्रं यत्पञ्चदशमं मुखात् ।

गुदमुद्गिलितं गुणं केतुश्चन्द्राङ्गकर्तरी ॥ ६ ॥

इति तृतीयाङ्गम् ।

उदर का मुख से अर्थात् राहु जिस नक्षत्र पर है उसमें १५ नक्षत्रों की पुच्छ उद्गिलित, गुद, केतु, चन्द्रांग और कर्तरी नाम हैं ॥ ६ ॥

गुदभान्यग्रतो यानि शक्राणि रससंत्यया ।

पुच्छं नूर्याङ्गवज्राङ्गं षष्ठो मृत्युः क्रमेण च ॥ ७ ॥

(१) अथ पञ्चाङ्गभेदेन राहुचक्रं वदाम्यहम् । इत्याम्भ्य वदाम्यहम् तदा यानि शीघ्रतो यममन्दिरम् ॥ इत्यन्ता ६० श्लोका प्रशिक्षा ।

शेषाणि सप्तभान्यत्र मध्यस्थान्यास्यपुच्छयोः ।

कपालं मस्तकं शीर्षं रुद्राङ्गं भोग्यमण्डलम् ॥ ८ ॥

इति पञ्चमाङ्गम् ।

गुद नक्षत्र से आगे ६ नक्षत्रों की पुच्छ, सूर्यांग, वज्रांग, पृष्ठ और मृत्यु नाम है । मुख पुच्छ के मध्य में ७ नक्षत्रों को कपाल, मस्तक, शीर्ष, रुद्रांग और भोग्य मण्डल कहते हैं ॥ ७-८ ॥

स्थिररूपस्थितो भानुश्चररूपश्च चन्द्रमाः ।

क्रमेणैकैकयोगानां वक्ष्येहं योगपञ्चकम् ॥ ९ ॥

राहुवक्रो स्थिते सूर्ये चन्द्रे कामाङ्गसंस्थिते ।

यायिनो विजयस्तत्र स्थायिनो भङ्गमाहवे ॥ १० ॥

चन्द्राङ्गसंस्थिते सूर्ये गुदे चन्द्रे समाश्रिते ।

अग्रयायी जयेद्युद्धे बलाद्धे च क्षयं गते ॥ ११ ॥

भास्करे गलिताङ्गस्थे चन्द्रे वज्राङ्गसंस्थिते ।

बलद्वयं क्षयं याति किञ्चित्स्थायी जयी रणे ॥ १२ ॥

स्थिर रूप सूर्य और चररूप चन्द्रमा का है । इन दोनों के योग से पाच योग होते हैं । राहु के मुख में सूर्य हो और चन्द्रमा कामांग में हो तो यायी (चढ़ाई करने वाले) की विजय होती है और स्थायी (गढ़ म बँटा हुआ) हार जाता है । चन्द्रांग म सूर्य हो और चन्द्रमा गुद में हो तो जो आगे चढ़ाई करता है वह विजयी होता है । सूर्य गलितांग में हों और चन्द्रमा वज्रांग में हो तो दोनों का नाश होता है निजु युद्ध स्थायी की विजय होती है ॥ ९-१२ ॥

राहुनक्षत्रगो भानुश्चन्द्रो रुद्राङ्गो रणे ।

स्थायिनो विजयो युद्धे यायिनो मृत्युमादिशेत् ॥ १३ ॥

यदा भवेतां चन्द्राकीं राहुवक्राङ्गसंस्थितौ ।

सैन्ययोश्च क्षयस्तत्र सदेहायायिनो जयः ॥ १४ ॥

राहु नक्षत्र से पीछे ७ नक्षत्रों में रुद्रांग में सूर्य चन्द्र हों तो स्थायी राजा की विजय और यायी की मृत्यु होती है । यदि रविचन्द्रमा दोनों वज्रांग में हों तो दोनों के सैन्यों का नाश होता है, सदा से यायी का लाभ होता है । ॥ १३-१४ ॥

सविता जीवपक्षे च निशानाथो गुदे स्थितः ।

निर्दिष्टः स्थायिनो भङ्गो यायिनः सक्षतो जयः ॥ १५ ॥

उदरस्थो यदा भानुः शशाङ्को चन्द्रमास्थितः ।

हलया जीयते स्थायी यायी च म्रियते रणे ॥ १६ ॥

कामाङ्गस्थे दिवानाथे मस्तकस्थे निशाकरे ।

स्थायिनो विजयस्तत्र यायिनश्च कुलक्षयः ॥ १७ ॥

सूर्य जीयय म हो और चन्द्रमा गुद में हो तो स्थायी की हार और यायी चोट पाकर विजयी होता है । सूर्य उदर म हो और चन्द्रमा पत्र में हो तो रेश ही में स्थायी विजयी होता है और यायी सत्राम में मारा जाता है । कामांग में सूर्य हो और मस्तक में चन्द्रमा हो तो स्थायी की विजय और यायी के वृत्त का नाग हाना है ॥ १५-१७ ॥

सम्पुटस्थो यदादित्यो जिह्वायां चन्द्रमाः स्थितः ।

स्थायी च भङ्गमायाति किञ्चिद्यायी जयी रणे ॥ १८ ॥

जठरस्थो यदा भानुश्चन्द्रस्तत्रैव संस्थितः ।

देवानपि जयेद्यायी किम्पुनः प्रतिम पलम् ॥ १९ ॥

सपुट में सूर्य हो और जिह्वा म चन्द्र हो तो स्थायी की हार और यायी की कुछ विजय होती है । जठर में सूर्य और चन्द्र दोनों हों तो यायी देवताओं को भी जीत लेता है गुणवत्पदार्थों के लिये क्या कष्टना है ॥ १८-१९ ॥

चन्द्राङ्गस्थो यदादित्यः सूर्याङ्गे चन्द्रमाः स्थितः ।

समयुद्धं भवेत्तत्र किञ्चिदागन्तुको जयी ॥ २० ॥

गुदे तीक्ष्णांशुसंयुक्ते कपालस्थोऽथ शीतगुः ।

यायी च भङ्ग्यतेऽथ स्थितः स्थायी जयं विना ॥ २१ ॥

गुदमे संस्थितः सूर्यो राहुमे संस्थितः शशी ।

यदा महाहयो घोरः किञ्चित्स्थायी जयी भवेत् ॥ २२ ॥

चन्द्रांग में सूर्य हो और सूर्यांग में चन्द्रमा हो तो गुद में दोनों की समता होती है किन्तु किसी दूसरे भागान्तुको की विजय होती है । गुद में सूर्य हो और कपाल में चन्द्रमा हो तो निरचय कर यायी परास्त होता है स्थायी जीत वा शीत गदा है । गुद मचत्र में सूर्य हो राहु मचत्र में चन्द्रमा हो तो क्या निरवयुद्ध होता है और स्थायी की कुछ विजय होती है ॥ २०-२२ ॥

भानुश्चेन्नयिनो भानुः शशङ्को च चन्द्रमाः ।

यायिनो मृत्युमापत्ते जयलाभौ स्थितस्य च ॥ २३ ॥

सूर्याद्दे च सहस्रांशुर्जिह्वायां शीतगुः स्थितः ।
यायिनश्च जयं दद्यात्स्थायिनो भद्रमादिजेत् ॥ २४ ॥
पुच्छपट्के यदादित्यो जीवाद्दे चन्द्रमाः स्थितः ।
यायी विजयते तत्र शक्रतुल्येपि वैरिणि ॥ २५ ॥
भास्करे राहुपृष्ठस्थे मृगाङ्गे गुदमाश्रिते ।
समयुद्धं भवेत्तत्र किञ्चिद्यायी जयी भवेत् ॥ २६ ॥
सूर्याचन्द्रमसौ यत्र वज्राङ्गे समुपस्थितौ ।
द्वयोस्तु बलयोस्तत्र वधो भवति निश्चितम् ॥ २७ ॥

भानुक्षेत्र अर्थात् राहु के नक्षत्र से १६ वें से ६ नक्षत्र में सूर्य हो और रुद्राग अर्थात् २२ वें नक्षत्र से ७ नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो यायी की मृत्यु और स्थायी को विजय तथा लाभ होता है । सूर्यांग में सूर्य और जिह्वा (राहु के नक्षत्र में) में चन्द्रमा हो तो यायी की विजय और स्थायी की हानि होती है । पुच्छ के ६ नक्षत्र याने सूर्यांग में सूर्य हो और जीवांग में चन्द्रमा हो तो यायी की विजय होती है चाहे शत्रु इन्द्र के समान हो तो भी । राहु पृष्ठ अर्थात् सूर्यांग में सूर्य हो और गुद में (अर्थात् १५ वें नक्षत्र में) चन्द्रमा हो तो दोनों की युद्ध में समानता होती है किन्तु यायी की कुछ विजय होती है । यदि दोनों सूर्य चन्द्रमा वज्रांग में हों तो दोनों के मैत्रियों का नाश होता है ॥२३-२७॥

रुद्राङ्गस्थे दिवानाथे राहुजिह्वाङ्गतः शशी ।
स्थायिनस्तु जयस्तत्र भद्रो भवति यायिनः ॥ २८ ॥
कपालसंस्थिते सूर्ये सम्पुष्टस्थो यदा शशी ।
यायिना जीयते शत्रुरनायासेन नान्यथा ॥ २९ ॥
मस्तकस्थे दिवानाथे रात्रिनाथे गुदस्थिते ।
यायी च विजयी युद्धं स्थायिनश्च पराजयः ॥ ३० ॥
राहुशीर्षस्थितो भानुर्भानुक्षेत्रे निशाकरः ।
अन्योन्यविग्रहो घोरो जायते नरपालयोः ॥ ३१ ॥
यदा रुद्राङ्गसंयुक्तौ दिवानाथनिशाकरौ ।
घलद्वयं तदा याति शीघ्रतो यममन्दिरम् ॥ ३२ ॥
इति पञ्चाङ्गराहुकालानलम् ।

राहुऋक्षस्थितो भानुश्चन्द्रस्तत्रैव संस्थितः ।

न कश्चिन्नयमामोति सैन्ययारुमयोः क्षयः ॥ १६ ॥

इति मुसादियोगपट्टम् ।

स्थिररूपस्थित इति । अङ्गानि गुखादीनि तेषाम् एकैकदा प्रत्येक कामाद्योगपट्टक भवति एव पट्टत्रिंशद्भोगा भवन्ति । तत्र भानु स्थिररूप चन्द्र चररूप एव अयमर्थं भातु स्थिररूप एक ण्याङ्गे तिष्ठति चन्द्रमा शेषाङ्गे भ्रमति एव प्रत्येकस्मिन्नङ्गे पट्टयोगा भवन्ति । राहुवक्त्रे इति स्पष्टम् ॥ १०-१६ ॥

सूर्य स्थिर रूप और चन्द्रमा चर रूप होता है अर्थात् सूर्य किसी एक भग में रहता है और चन्द्रमा के अन्य भगों में होने से प्रत्येक भगों के ९ भोग दोगे है । यदि राहु के भुग में सूर्य हो और चन्द्रमा हृदय में हो तो यायी (चढ़ाई करनेवाला) की विजय और स्थायी का नाश होता है । भुग में सूर्य और उदर में चन्द्रमा हो तो भागे चढ़ाई करने वाला विजयी होता है । सूर्य गिष्ठिभाग में हो और चन्द्रमा केतु भग में हो तो स्थायी का नाश और यायी की विजय होती है । भुग में राहु और पौष म चन्द्रमा हो तो स्थायी की विजय और यायी की मृत्यु होती है । राहु की जिह्वा में सूर्य और चन्द्रमा रजोग में हो तो दोनों मेमाभों में भ्रम हो जाता है अर्थात् दोनों में से किसी की भी विजय नहीं होती है । भुग नक्षत्र में राहु हो और उती म चन्द्रमा भी हो तो किसी की विजय नहीं होती किन्तु दोनों का नाश होता है ॥ १०-१६ ॥

हृदयस्थे दिवानाथे जठरस्थे निशाकरे ।

निर्दिष्टः स्थायिनो मृत्युर्यायी जयति निर्वाणः ॥ १७ ॥

हृदयस्थो यदा भानुः शशाङ्को गुदमाश्रितः ।

हेलया जयते यायी स्थायी च म्रियते रणे ॥ १८ ॥

कामाङ्गस्थे दिवानाथे पुच्छपट्टके निशाकरं ।

स्थायिनो विजयस्तत्र यायिनश्च पराजयः ॥ १९ ॥

सम्पुटस्थो यदावित्यो रुद्राङ्गे चन्द्रनाः स्थितः ।

यायी च भङ्गमामोति किञ्चित्स्थायी जयी रणे ॥ २० ॥

कामाङ्गस्थे दिवानाथे चन्द्रे राहुमुग्रस्थिते ।

मङ्गामे विजयी स्थायी यायिनो भङ्गमादिशेत् ॥ २१ ॥

हृदयाङ्गे यदा युक्तौ चन्द्रादित्यौ व्यवस्थितौ ।

दैत्यानपि जयेद्यायी किम्पुनर्मानवं बलम् ॥ २२ ॥

इति हृदयादियोगपट्टकम् ।

यदि सूर्य हृदय के नक्षत्रों में और पेट के नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो स्थायी की मृत्यु होती है और विना किसी घाव के यायी की विजय होती है । यदि हृदय में सूर्य हों और चन्द्रमा गुद नक्षत्र में हो तो सहज में ही यायी की विजय और स्थायी की मृत्यु होती है । कामाग (जीवपक्ष के आदि सात नक्षत्र) में सूर्य हों और पुच्छ (मृतपक्ष के आदि ६ नक्षत्र) में चन्द्रमा हो तो स्थायी की विजय और यायी की पराजय होती है । यदि सूर्य सपुट (हृदय) में रद्रांग (मृतपक्ष के अन्तिम सात नक्षत्र) में चन्द्र हो तो यायी की हानि और स्थायी की साधारण विजय होती है । हृदय म सूर्य और चन्द्रमा राहु मुख में हो तो युद्ध में स्थायी की विजय और यायी की पराजय होती है । यदि दोनों हृदयाग में ही हों तो यायी देवताओं के समान बल वाले सैन्य को जीत लेता है मनुष्य की सेना को क्या कहता है ॥ १७-२२ ॥

उदरस्थे दिवानाथे निशानाथे गुदस्थिते ।

समं युद्धं भवेत् तत्र किञ्चिद्यायी जयी रणे ॥ २३ ॥

सम्पुटस्थो यदा भानुःपुच्छे भवति चन्द्रमाः ।

यायिभङ्गो जयी स्थायी तत्र काले न सशयः ॥ २४ ॥

कामाङ्गस्थः सहस्राशुर्मस्तकस्थो निशाकरः ।

याता भङ्गमवाप्नोति स्थानवासी जयी रणे ॥ २५ ॥

भानाबुदरगो यत्र निशेशो राहुवक्रगः ।

अग्रयायी क्षयी तत्र स्थायी जयति नान्यथा ॥ २६ ॥

स्वर्भानूदरगो भानुर्हृदये तारकाधिपः ।

अनायासेन सङ्ग्रामे यायिनो जयमादिशेत् ॥ २७ ॥

उदराङ्गे यदा युक्तौ चन्द्रादित्यौ व्यवस्थितौ ।

तदा सन्धिर्न सन्देहः सैन्ययोरुभयोरपि ॥ २८ ॥

इत्युदरादियोगपट्टकम् ।

उदर के नक्षत्रों (जीव पक्ष के तोप ६ नक्षत्र) में सूर्य और गुदा के नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो दोनों का धराधर युद्ध होता है किन्तु यायी उष् विजयी होता है ।

कपालसंश्रितः सूर्यः सम्पुटस्थो यदा शशी ।
 यायिना जीयते शत्रुः स्थायिनो भङ्गमादिशेत् ॥ ४३ ॥
 कपालसस्थिते सूर्ये धिष्ण्यनाथे गुदस्थिते ।
 यायिनो विजया युद्धे स्थायिनस्तु पराजयः ॥ ४४ ॥
 राहुशीर्षस्थितो भानुः पुच्छक्षेत्रे निशाकरः ।
 अन्योन्यविग्रह घोरं युद्धं भवति दारुणम् ॥ ४५ ॥
 दिनेशो राहुरूद्राङ्गे चन्द्रस्तत्रैव सस्थितः ।
 विनाशं कोशराष्ट्रस्य यायिनो मृत्युमादिशेत् ॥ ४६ ॥

इति कपालादियोगपट्टरुम् ।

रुद्रांग (मृतपक्ष का अन्तिम ७ नक्षत्र) में सूर्य हो और राहु के नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो स्थायी की विजय और यायी की हानि होती है । शीर्ष स्थान में सूर्य हो और चन्द्रमा हृदय में हो तो विना युद्ध के ही यायी स्थायी के सभी पदार्थों को ले लेता है । कपाल में सूर्य हो और सपुट में चन्द्रमा हो तो यायी की विजय और स्थायी की हानि होती है । कपाल में सूर्य हो और चन्द्रमा गुद में हो तो युद्ध में यायी की विजय और स्थायी की पराजय होती है । शीर्ष स्थान में सूर्य हो और पुच्छ में चन्द्रमा हो तो दोनों (स्थायी यायी) का परस्पर घोर विग्रह और युद्ध होता है । यदि दोनों रवि चन्द्रमा शीर्ष स्थान में ही हों तो गजाना और देश दोनों का नाश तथा यायी की मृत्यु होती है ॥ ४१-४६ ॥

हृदयादीनि चाङ्गानि जिह्वान्तानि क्रमेण च ।
 दशसंख्यान्यह वक्ष्ये राहुचक्रस्य मध्यतः ॥ १ ॥
 पुष्पितं फलितं चैव निष्फलं झटितं गुदम् ।
 राजसं तामसं वृद्धं मृतं जिह्वां क्रमेण च ॥ २ ॥
 पुष्पिते त्रीणि चत्वारि फलिते निष्फले त्रयम् ।
 झटिते त्रीणि ऋक्षाणि गुदे चैकं भवेत्तथा ॥ ३ ॥
 राजसे त्रीणि ऋक्षाणि तामसे च तथा त्रयम् ।
 वृद्धे चतुष्टयं त्रीणि मृतौ चैकं तथा मुखे ॥ ४ ॥
 त्रीणि पुष्पितऋक्षाणि क्षेमलाभकराणि च ।
 शत्रुभङ्गो भवेद् युद्धे यात्रा मासेन लाभदा ॥ ५ ॥

ततश्चत्वारि धिष्ण्यानि पक्षैकेन फलन्ति च ।
 गजवाजिधनं देशं यायी तु लभते ध्रुवम् ॥ ६ ॥
 अफलाख्यत्रिधिष्ण्येषु पण्मासे यायिनं प्रति ।
 सन्धि सेवां तथा देशं यायी प्राप्नोति निश्चितम् ॥ ७ ॥
 फलं प्राप्नोति वर्षेण छदितैश्च त्रितारकैः ।
 गोधनान्यरिवृन्दानां यायी लुण्ठति च ध्रुवम् ॥ ८ ॥
 गुदऋक्षे जयं लक्ष्मीं पद्मिनी प्रियवादिनीम् ।
 रूपयौवनसम्पन्नां स्त्रियं प्राप्नोति निश्चितम् ॥ ९ ॥
 विग्रहस्य भवेद्दृष्टिर्युद्धे भङ्गस्तथैव च ।
 रोगपीडा भवेद्द्वर्षं राजसाख्यैस्त्रितारकैः ॥ १० ॥
 हस्त्यश्वपुत्रमित्रादि-देशकोशपरिग्रहाः ।
 पङ्क्तिर्मासैर्विनश्यन्ति यायिनस्तामसत्रये ॥ ११ ॥
 तामसोग्रे चतुष्के च तारका वृद्धसंज्ञकाः ।
 सर्वनाशकराः प्रोक्ता मासैकेन न संशयः ॥ १२ ॥
 ततस्त्रिमृत्युऋक्षाणि राज्ञां मृत्युकराणि च ।
 अर्थनाशश्च युद्धं च पक्षैकेन फलं स्मृतम् ॥ १३ ॥
 यद्धे भङ्गं महाभीतिर्द्रव्यनाश कुलक्षयम् ।
 सद्यो मृत्युं लभेद्यायी राहुचक्रे सुनिश्चितम् ॥ १४ ॥

इति दशाङ्गराहुकालानलशुभाशुभफलम् ।

हृदय से जिह्वा पर्यन्त दश अंगों वाला राहुचक्र को कहता है । (१) पुष्पिन, (२) फलित, (३) निष्फल, (४) क्षदित, (५) गुद, (६) राजम, (७) तामम, (८) वृद्ध, (९) मृत, (१०) जिह्वा ये ही दश अंगों के नाम हैं । जीवपक्ष के प्रथम ३ नक्षत्रों को पुष्पित कहते हैं इसमें यात्रा करने से श्रेष्ठ, लाभ, शत्रु का नाश होता है और एक मास में यात्रा का फल प्राप्त होता है । इसके बाद के चार नक्षत्रों की फलित सज्ञा है इसमें यात्रा करने से यायी हार्थी, घोड़ा, धन और देन को प्राप्त करता है । इसके भागे के तीन नक्षत्रों को निष्फल सज्ञा है इसमें यात्रा करने से यायी को स्थायी ६ मास के अन्दर ही सधि करके दस और घन आदि देना है । इसके बाद के ३ नक्षत्रों की क्षदित सज्ञा है इसमें यात्रा करने से यायी

तत अश्विन्यादिभुज्यमाननक्षत्रस्य पूर्वनक्षत्रसख्या लब्ध भुक्तनक्षत्रे सयोज्य सप्तविशत्यधिके सति सप्तविशत्या तष्टितेऽवशिष्ट भुक्तनक्षत्रमश्विन्यादितो भवति । ग्रहान्तराणामप्यनेन प्रकारेण ज्ञेयम् । स्थिरचक्रे इति । यथा स्थिरचक्रे द्विधाङ्गादौ मया पुरा पूर्वं फल कथितं तथा यत्र द्विधाङ्गे चरचक्रे षडङ्गदशाङ्गयोरप्यनेनैव तात्कालिकप्रकारेण फल वदेत् । तात्कालिकश्चन्द्रो रविश्च यत्राङ्गे जायते तत्र पूर्वोक्तक्रमेण फल भवतीति । अन्यत् स्पष्टम् ॥ १-११ ॥

युद्ध कं समय यदि शीघ्र ही यात्रा का योग न प्राप्त हो ता तात्कालिक चन्द्र और सूर्य का साधन कर योग का विचार करना चाहिये । इष्टनाडी को २० से गुणकर ६० का भाग देने से जो छिधि हो उसमें चन्द्रमा क भुक्त नक्षत्र को जोड़ देने से तात्कालिक चन्द्रमा का नक्षत्र होता है । चन्द्रमा के समान इष्टकालिक सूर्य के नक्षत्र का भी साधन करना चाहिये । क्योंकि दोनों (चन्द्र रवि) अहोरात्र में नक्षत्र मण्डल में घूमते रहते हैं । पहले मैं स्थिरचक्र (द्विधागादि राहुचक्र) म चन्द्र और रवि के अनुसार फल कह चुका हूँ । उसी प्रकार से तत्काल चन्द्र रवि से फल को कहना चाहिये । सभी शुभ कार्यों म किन्तु विशेषकर यात्रा समय में हृदय, गुदा और उदर म स्थित चन्द्रमा शुभद होता है । पीछे के ६ नक्षत्रों में और कपाल तथा राहुमुख म चन्द्रमा हो तो सभी कार्यों म रकावट, हानि और मृत्यु होती है । हृदय, गुदा और उदर म चन्द्रमा हो तो ऐस समय में विवाह होने से दोनों वर कन्या प्रसन्न होते हैं । मुन्व, पुच्छ और मस्तक में चन्द्र हो ता दरिद्रता, विद्वेष और वैर होता है । प्रश्न समय में पुष्पित, फलित नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो शुभद होता है । अफल, झटित सज्ञक नक्षत्र में हो तो मध्यम और शेषाग म हो तो मृत्यु होती है । ऊपर खेचरचक्र और नीचे भूचरचक्र होता है दानों के मध्य से राहुकालानल चक्र होता है । राहु जिस नक्षत्र पर हो उसमे भागे १४ नक्षत्रों की खेचर सज्ञा होती है, जैसे कृत्तिका पर राहु है उससे भागे रोहिणी आदि १४ नक्षत्रों की खेचर सज्ञा है । इसी प्रकार राहु के गत १४ नक्षत्रों की भरणी आदि की भूचर सज्ञा है । इस कालानल चक्र को लोभ, भय, स्नेह तथा कार्यकारण के वश से किसी को नहीं देना चाहिये किन्तु गोप्य रखना चाहिये । जो शिष्य बहुत दिन तक सेवा कर चुका हो उसको बार बार परीक्षा करके इस राहुकालानल चक्र को देना चाहिये ॥ १- १ ॥

उदाहरण—संवत् २०१७ फाल्गुन कृष्ण ५ शनिवार को धनिष्ठा नक्षत्र म सूर्य ३८ घ० ५९ प० पर प्रवेश करता है और फाल्गुन शुक्ल ३ शनिवार को ४८ घ० ४५ प० पर शतभिष म प्रवेश करता है । और फाल्गुन शुक्ल १ गुरुवार को १५ घ० पर तात्कालिक रवि चन्द्र का साधन करना है । फाल्गुन कृष्ण ३० को धनिष्ठा नक्षत्र ३३ घ० । ३५ प० है और फाल्गुन शुक्ल १ को शतभिष ३० घ० १० प० है । अतः शतभिष का भयात ४१।२५ और भयोग ५६।२५ हुआ । यहाँ जो भयात


है वही इष्टघटी है उसे २७ से गुणा किया तो १११८१५ हुआ। यहा ६० से भाग देना चाहिये किन्तु ६० उपलक्षण मात्र है वस्तुतः सर्वर्ष से ही भाग देना उचित प्रतीत होता है। अतः मवर्णित भाज्य ६७०९५ में स्वर्णित भाजक भभोग ३३८५ से भाग देने से लघि १९ हुई इसमें चन्द्रमा के गत नक्षत्र २३ को जोड़कर २७ से भाग देने से शेष १५ रहा अतः तात्कालिक चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र पर हुआ।

तात्कालिक सूर्य का साधन—धनिष्ठा का सर्वर्षदिन १३ घटी ५१ पल १ हुआ। धनिष्ठा प्रवेश दिन से इष्ट दिन के घटी तक सूर्य की इष्टघटी ६२१।१ हुई इसको २७ से गुणा किया तो गुणनफल १६७६७।२७ हुआ यह भाज्य हुआ इसको स्वर्णित करने से १००६०४७ हुआ इसमें स्वर्णन किये हुये सर्वर्ष ४९८६१ से भाग दिया तो लघि २० आई इसमें सूर्य के गतनक्षत्र सख्या २२ को जोड़ देने से ४२ हुआ इसमें २७ से भाग देने से शेष १५ गत नक्षत्र सूर्य का स्वाती हुआ और वर्तमान विशाखा नक्षत्र हुआ। इसी प्रकार सभी ग्रहों के नक्षत्रों को साधन करना चाहिये।

अथ सूर्यकालानलम् ।

ऊर्ध्वगास्त्रिचिह्नशूलाग्रास्तिस्त्रिर्युक् च संस्थिताः ।
 द्वे द्वे नाड्यौ स्थिते कोणे शृङ्गयुग्मं तथैकया ॥ १ ॥
 मध्ये त्रिशूलदण्डाधो भानुभावं भ्रमण्डलम् ।
 साभिजिच्च प्रदातव्यं सव्यमार्गेण सर्वदा ॥ २ ॥
 नामऋक्ष स्थित यत्र जेयं तत्र शुभाशुभम् ।
 अधो गतैस्त्रिनक्षत्रैरुद्देशो वधवन्धनम् ॥ ३ ॥
 कोणाष्टके जयो लाभः कुक्षिपट्टके तथा पुनः ।
 शृङ्गयुग्मे रुजो भद्रो मृत्युः शूलं त्रये स्फुटम् ॥ ४ ॥
 सूर्यभात् त्रिचतुःपञ्चरससप्ताष्टगोमिते ।
 गतगम्यर्क्षके लाभजयौ शेषे रुजो मृत्तिः ॥ ५ ॥
 विवाहे विग्रहे युद्धे रोगातं गमने तथा ।
 सूर्यकालानलं चक्रं ज्ञातव्यञ्च प्रयत्नतः ॥ ६ ॥
 रोगे च कुजनक्षत्रं दिनऋक्षं तु युद्धके ।
 प्रयाणे कृत्तिकालेऽप्यमन्यत्रार्कं प्रदीयते ॥ ७ ॥
 इति सूर्यकालानलचक्रं समाप्तम् ।

ऊपर नीचे अर्थात् ऊर्ध्वाधर तीन रेखा जिसके अग्र में त्रिशूल हो नीचे और तीन आड़ी रेखा र्थीचे । दो २ नक्षत्र कोण में और दोनों श्यों में एक २ नक्षत्र रचना चाहिये । मध्य त्रिशूल के नीचे से सूर्य के नक्षत्र से अभिजित् के सहित २८ नक्षत्रों को घामक्रम से रखना चाहिये । नाम का नक्षत्र जहा हो उससे शुभ अशुभ फल का विचार करना चाहिये । अध रेखास्थित ३ नक्षत्र म उद्देग, घघ



और घघन होता है । कोण के आठ ८ नक्षत्रों में तथा मध्य के ६ नक्षत्रों में विजय और लाभ होता है । दोनों श्य के नक्षत्र में रोग और हानि तथा त्रिशूल के ९ नक्षत्रों में नाम नक्षत्र हो तो मृत्यु होती है । विवाद, विग्रह, युद्ध, रोग और यात्रा म इम सूर्यकालानल चक्र का विचार करना चाहिये ॥ १-५ ॥

चन्द्रकालानल चक्र व्योमाकारं लिखेत्ततः ।

चतुर्दिक्षु त्रिशूलानि मध्यभिन्नानि कारयेत् ॥ १ ॥

पूर्वत्रिशूलमध्यस्थ दिनऋक्षादिलिख्यते ।

त्रिशूले च वह्निर्मध्ये मध्ये वह्नित्रिशूलके ॥ २ ॥

नामऋक्षं स्थित यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ।

त्रिशूले चक्रबाह्ये च चक्रमध्ये तथैव च ॥ ३ ॥

त्रिशूलेषु भवेन्मृत्युर्मध्यमं पहिरष्टके ।

लाभक्षेमौ जयः प्रज्ञा चन्द्रगर्भे न सशयः ॥ ४ ॥

वर्जनीयं प्रयत्नेन प्रथमाष्टत्रिपञ्चकम् ।

ऋक्षं द्वाविशक चात्र कालरूपं न सशयः ॥ ५ ॥

दिनभाद् द्वे त्रयं शैलात्रितय च चतुर्दशान् ।

चन्द्रकालानले काले एकविशतितस्रये ॥ ६ ॥

लाभालाभं सुखं दुःखं चैव पराजयः ।


चन्द्रकालानले चक्रे ज्ञानं सशयवर्जितम् ॥ ७ ॥

चन्द्राष्टके जयो लाभो मध्यशूर्पाष्टके मतः ।
राहृष्टके भवेद्वाधिर्मृत्युः केतुचतुष्टये ॥ ८ ॥

इति चन्द्रकालानलम् ।

चन्द्रकालानलमिति । व्योमाकार मडलाकारमन्यत्स्पष्टम् ॥ १-७ ॥

एक गोलाकार चक्र बनाकर चारो दिशाओं में मध्य को घुंघरु करके हुआ त्रिशूल को बनावे यही चन्द्रकालानल चक्र होता है । पूर्व दिशा स्थित त्रिशूल के मध्य से दिन नक्षत्र से त्रिशूल, उसके बाहर मध्य और मध्य बाहर तथा त्रिशूल में क्रम से २८ नक्षत्रों को रखे । त्रिशूल में चक्र में बाहर चक्र मध्य में इस क्रम से १५ नक्षत्रों को रखकर जहाँ नाम का नक्षत्र हो उससे शुभ अशुभ फल का विचार करे । त्रिशूल के नक्षत्रों में नाम नक्षत्र हो तो मृत्यु होती है उसके बाहर के आठ नक्षत्रों में हो तो मध्यम फल होता है गर्भ के नक्षत्रों में हो तो क्रम से लाभ, कुशल, विजय, शुभ फल होता है इसमें संशय नहीं है । प्रथम नक्षत्र से ८ वा १५ वा और २२ वा नक्षत्र इस चक्र में कालरूप होता है । लाभ, हानि, सुख, दुःख, विजय, पराजय का ज्ञान इस चन्द्रकालानल चक्र में जाना जा सकता है इसमें संशय नहीं है ॥ १-६ ॥



इति चन्द्रकालानलचक्रम् ।

अथ घोरकालानलम् ।

शलाकासप्तक चक्रं लिखित्वा चन्द्रभादितः ।

त्रिषु त्रिषु च ऋक्षेषु नव मूर्त्यादयो ग्रहाः ॥ १ ॥

यदङ्गे नामनक्षत्रं दिनऋक्षादि जायते ।

फलं तस्य प्रवक्ष्यामि एकैकस्य यथाक्रमम् ॥ २ ॥

भानुना शोरुसन्तापौ शशाङ्कः क्षेमलाभदः ।

भूसुतो मृत्युमाधत्ते बुधे प्रजा प्रजायते ॥ ३ ॥

जीवे लाभः शुभ शुके सूर्यपुत्रे मत्तृणम् ।


राहुणा घातपातं च केतौ मृत्युर्न संशयः ॥ ४ ॥

यात्राजन्मविवाहेषु सङ्ग्रामे विग्रहेऽपि वा ।

घोरकालानलं चक्रं ज्ञात्वा कर्म समारभेत् ॥ ५ ॥

इति घोरकालानलम् ।

सप्तशलाका चक्र लिप्यनुर इशान्य कोण से चन्द्रमा के नक्षत्र से नक्षत्रों को



स्थापित कर तीन २ नक्षत्रों पर सूर्यादि ग्रहों को स्थापित करै। दिन नक्षत्र से गिनने से जिस ग्रह के अश में नाम नक्षत्र हो उसका फल क्रम से कहता हूँ। सूर्याश में हो तो शोक और मत्ताप, चन्द्राश में कुशल और लाभ, भौमाश में मृत्यु, बुधाश में बुद्धि की वृद्धि होती है। गुरु के अश म लाभ, शुक्र के अश में शुभ और शनि के अश में बड़ा भय होता है। यात्रा जन्म, विवाह,

संग्राम और विग्रह में हम घोर कालानल से विचार कर जो दिन शुद्ध हो उस दिन उक्त कार्यों को करै ॥ १-१ ॥

अथ सप्तशलाकाचक्रम् ।

तीर्यगूर्ध्वगता रेखाः सप्तसङ्ख्या लिखेद्बुधः ।

कृत्तिकादीनि भान्यत्र साभिजिति क्रमेण च ॥ १ ॥

भुक्तं क्रान्तं तथा भोग्यं विद्धं क्रूरग्रहेण भम् ।

शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीय प्रयत्नतः ॥ २ ॥

यस्याभिधाननक्षत्रं विद्धं क्रूरग्रहेण च ।

देशो ग्रामः पुरं सैन्यं नरो नारी विनश्यति ॥ ३ ॥

इति सप्तशलाकाचक्रम् ।

सात तिरछी और सात सीधी रेखाओं को लिखें और उनपर ईशानकोण से कृत्तिका से आरंभ कर अभिजित् सहित सभी नक्षत्रों को लिखें। क्रूरग्रह से युक्त भोग्य

१ ग्रहान्तरे—रोगार्त्तं कुजनक्षत्राद् युद्धादौ रभिभाक्कमात् । गमने वह्निभाघने चन्द्रकालानले क्रमात् ।


तथा भाक्तौ नक्षत्र को शुभ अशुभ कार्यों म प्रयत्न कर त्याग देना चाहिये । जिस मनुष्यादि का नाम नक्षत्र क्रूरग्रह से विद्ध हो उस देश, ग्राम, पुर, सेना, मनुष्य, स्त्री का नाश होता है ॥ १-३ ॥

अथ पञ्चशलाका ।

तिर्यग्धूर्वगताः पञ्च द्वे द्वे रेखे च कोणगे ।
 ईशकोणाग्ररेखातः कृत्तिकादि लिखेद् बुधः ॥ १ ॥
 विशाखाकृत्तिकावेधो भरणीमित्रदेवयोः ।
 धनिष्ठा सार्पयोर्वेधो मघाश्रवणयोस्तथा ॥ २ ॥
 शुभाशुभग्रहैर्विद्धं भं विवाहे विवर्जयेत् ।
 ह्यादिविद्धं महादुष्टं राहुविद्धं तथैव च ॥ ३ ॥
 इति पञ्चशलाकाचक्रम् ।

तिर्यग्धूर्वगता इति । सुगमम् ॥ १-३ ॥

पाच तिरछी और पांच सीधी रेखाओं को खींचे तथा दो २ रेखाकोण म खींचे । ईशान्य कोण की रेखा के भागे से कृत्तिकादि २८ नक्षत्रों को लिखे । इसमें विशाखा और कृत्तिका का वेध भरणी और अनुराधा का, धनिष्ठा और श्लेषाका तथा मघा और श्रवण का वेध होता है । शुभग्रह तथा पापग्रह से वेध किये जाते हुये नक्षत्र को विवाह म त्याग देना चाहिये । दो भादि ग्रहों से तथा राहु से वेध हो तो वह नक्षत्र बड़ा अशुभ होता है ॥ १-३ ॥



अथ वक्रचन्द्रचक्रम् ।

वक्रेन्दुसदृशं चक्रं त्रिंशत्शूलसमन्वितम् ।
 मध्ये द्वादशभान्यत्र पट् पृष्ठे नव शूलके ॥ १ ॥
 मध्यशूलस्य मध्यस्थं शशभृहक्षमादितः ।
 सन्ध्येन गणयेच्चक्रं यावन्प्रोधस्य नामभम् ॥ २ ॥
 शृङ्गे मृत्युर्जयो मध्ये पृष्ठे भङ्गो महाहवे ।
 चातुरङ्गे कवौ कोटे द्वन्द्वयुद्धे विशेषतः ॥ ३ ॥

इति स्वरोदये वक्रचन्द्रचक्रम् ।

नामवर्णस्य या संख्या मात्रासंख्या तथैव च ।

पिण्डिता नवभिर्भक्ता जयो मात्राधिके रणे ॥ ३ ॥

चारह गढ़ी रेखा और पाँच तिरछी रेखा को लिखने से चक्र बन जाता है । इसमें मात्राकारों को लिखे किन्तु चार व ऋ ऋ लृ लृ और अंतिम अ स्वर को छोड़कर लिखे । कोष्ठों के नीचे क्रम से दो कोष्ठों में पाँच २, तीन कोष्ठों में तीन २, दो कोष्ठों में छ २, तीन कोष्ठों में आठ २ और शेष एक कोष्ठ में ९ इन अर्का को लिखे । नाम के वर्ण और मात्रा की जो संख्या हो उसे एकत्र कर ९ से भाग देने से अधिक शेष वाले योधा का संग्राम में विजय होती है ॥ १-३ ॥

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ	अ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह
५	५	३	३	३	६	६	८	८	८	९

उदाहरण—देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा ।
 य = ३, अ = ४, ग = ३, य = ३, अ = ४, द = ६, ष = ४, न = ३, अ = ५ = ३८,
 इसमें नव ९ से भाग देने से २ शेष बचा । इसी प्रकार द = ६, ष = ६, व = ६,
 अ = ४, द = ६, अ = ५, त = ३, अ = ५ = ४२ इसमें ९ से भाग देने से ६ शेष
 बचा । देवदत्त से यज्ञदत्त का पराजय होगा ।

अथ तृतीयमातृकास्वरचक्रम् ।

मनुमार्तण्डदोर्वाणतिथ्यश्वरसदिग्गजाः ।

नवान्तास्तदधः स्थाप्याः पञ्चस्वरकखादितः ॥ १ ॥

उज्जणोनान् हकारान्तान् नवधा कोष्ठकक्रमैः ।

नामभात्राक्षराङ्कैक्यं सप्तशेषाधिके जयः ॥ २ ॥

दत्त रेखा सीधी और छ रेखा तिरछी लिखने से ४५ कोष्ठ का चक्र होता है । इसमें क्रम से १४ १२ १५ १५ ७ १० ८ अर्कों को ऊपर की पक्ति में लिखकर दूसरी पक्ति में पाँच मात्रों अ, इ, उ, ए, ओ को लिखकर कवर्गादि वर्णों को उ अ पा को छोड़कर हकार तक लिखे । नव कोष्ठों में लिखकर योधाओं के नाम की मात्रा और वर्णों का योग कर सात से भाग देने से जिनका अधिक शेष होता है वह विजयी होता है ॥ १-३ ॥

१४	१२	२	५	१५	७	६	१०	८
अ	इ	उ	ए	ओ	क	ख	ग	घ
च	छ	ज	झ	ट	ठ	ड	ढ	त
थ	द	ध	न	प	फ	ब	म	म
य	र	ल	व	श	ष	स	ह	घ

अथ चतुर्थमातृकाचक्रम् ।

भुवनादित्यदोर्वाणतिथिवेदाश्वदिक रसान् ।
वसुनन्दादिकान् लिख्य पडान्त्योज्झितमातृकान् ॥ १ ॥
पुत्रामर्णमात्राणां स्वाङ्गयोगेष्टशेषिते ।
मात्राधिको जयी युद्धे मात्राहीनः पराजयी ॥ २ ॥
इति चतुर्थमातृकाचक्रम् ।

१२ सीधी रेखा और ६ रेखा तिरछी लिखने से ५५ कोष्ठ का चक्र होता है । प्रथम पक्ति में १४।१२।२।५।१५।४।७।१०।६।८।९ इन अकों को लिख । इसके नीचे की पक्ति से १६ स्वरों में चार ऋ ऋ लृ लृ नपुमक स्वरों और अन्तिम स्वर अ को छोड़कर शेष स्वर और हकार तक वर्णों को लिखे । जोधारों के नाम के वर्ण और मात्रा के अकों का योग कर ८ से भाग देने से जिसका अधिक शेष होता है वही विजयी होता है ॥ १-२ ॥

१५	१२	२	५	१५	४	७	१०	६	८	९
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ	अ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
य	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह

अथ आयचक्रम् ।

आयचक्रे द्वादशोर्ध्वारेखाः पट् तिर्यगाश्रिताः ।
मनु-नक्षत्र-दस्त्रा-ऽर्क तिथि पट्-सागरा-ऽग्रयः ॥ १ ॥
अथ सप्तदशाष्टौ च रन्ध्रान्त विलिखेत्क्रमात् ।
ततः स्वरानपण्डांश्च वर्णांश्च इजणोज्झितान् ॥ २ ॥

अत्राक्षराधःस्थैः स्वै स्वैरङ्गैः सङ्कलितं भवेत् ।
 वसुभिर्भाजिते शेषे आया ध्वजमुग्वादयः ॥ ३ ॥
 ध्वजो धूम्रोऽथ सिंहः श्वा सौरभेयः ग्वरो गजः ।
 ध्वांक्षश्चैते क्रमेणैव आयाष्टरुमुदाहृतम् ॥ ४ ॥
 काकाह्वली श्वा च भवेत्सारमयाच्च रासभः ।
 बलवान् रासभादुक्षा वृषभादपि कुञ्जरः ॥ ५ ॥
 कुञ्जरादपि पञ्चास्यः सिंहादपि बली ध्वजः ।
 ध्वजादपि बली धूम्रस्तथा जातिविशेषतः ॥ ६ ॥
 भागहारेण शून्यत्वादष्टमः परिगृह्यते ।
 एकाग्रैः शेषभूताङ्गैर्ध्वजाद्याश्चायचक्रभात् ॥ ७ ॥
 आयचक्रमिदं प्रोक्तं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।
 अत्र नामाक्षरादीनां युक्तिरन्या प्रदुर्गते ॥ ८ ॥
 जयाजयपरोक्षया स्वरोदयपरिश्रितात् ।
 शोडशाक्षरवर्गः स्यात्कादयः पञ्च वर्णकाः ॥ ९ ॥
 चतुश्चतुष्कवर्णां च यशौ वर्गाः प्रकीर्तिताः ।
 नाम्नि वर्णात्स्वरात्संख्या वर्गवर्णवशाच्च सा ॥ १० ॥

१४	२७	२	१२	१५	६	४	३	१७	८	८
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ	अ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ट	झ	ञ	ट
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह

अथ त्रिजयचक्रम् ।

अथ सारतरं वक्ष्ये लम्पटाचार्यभाषितम् ।
 जयपराजयौ येन नामोच्चारणतः स्फुटौ ॥ १ ॥
 लग्नालग्नविभेदेन घोषाघोषक्रमेण च ।
 प्रवेशानिर्गमाभ्या च क्रमाज्जयपराजयौ ॥ २ ॥

पवर्गाश्चाप्युकारश्च लग्नाख्यानक्षरान् विदुः ।
 उक्तवर्णान्यवर्णाः स्युरलग्नाः परिकीर्तिताः ॥ ३ ॥
 वर्गे त्रिचतुरा घोषाः पञ्चमाश्च स्वरास्तथा ।
 आद्या द्वितीया वर्णानामघोषाः शपसैः सह ॥ ४ ॥
 वायुप्रवेशकालः स्यात् प्रवेशः श्वासनिर्गमः ।
 निर्गमाख्यस्ततो ज्ञेयो नामोच्चारणतो जयः ॥ ५ ॥

इति स्मरोदये विजयचक्रम्

अथेति । सुगमम् । लग्नमेति । लग्नप्रविभेदेन लग्नाक्षरयोर्भेदेन घोषा-
 घोषक्रमेण, कानि चिदक्षराणि घोषाणि कानि चिदघोषाणि तयो क्रमेण
 प्रवेशनिर्गमाभ्या च प्रवेशनिर्गम इति द्वे वायुभेदौ ताभ्या क्रमाज्जयपराजयौ
 आद्येन जयो द्वितीयेन पराजय तेषु क्रमात् ज्ञातव्य । प्रथमप्रश्नाक्षरेणैतत्सर्वं
 चिन्तनीयम् । पर्वो इति । पवर्गं पक्षभमउकारोमणा सहित ऊमा च
 (शल ऊमाण) शपसह ण्तान्यक्षराणि लग्नाख्यो लग्ननायक । उक्ताक्षरादन्ये
 अक्षरा षोडशस्वरेण सहिता अलग्ना ज्ञेया । घोषा इति । वर्गाणा तृतीयचतुर्थ-
 वर्णा मानुनासिका ङ ञ न अनेन सहिता अर्थात् गघढजझञ, ढढण ।
 दधन, बभम, लघसहा सस्वरा षोडशस्वरेण सहिता घोषा सर्ववर्गके
 आद्यद्वितीयौ वर्णौ शपवर्णौ मह अघोषा । वायुरिति । नासापुटे वायुप्रवे-
 शकाल प्रवेश । तत एव श्वासनिर्गमकाल निर्गमाख्य काल । अन्य-
 त्स्पष्टम् ॥ १-५ ॥

एषटाचाय का कहा हुआ जय पराजय चक्र केवल नामोच्चारण मात्र मे कह
 रहा हूँ । लग्न, अलग्न से, घाप, अघाप से, प्रवेश निर्गम काल से, जय पराजय का
 ज्ञान हाता है । पवर्ग (प क य म म) उकार के सहित और ण प स ह इनको
 लग्न कहते हैं, हमसं भिन्न मभी वर्णों को अलग्न कहते हैं । मभी वर्णों के तीसरे-
 चौथे पाँचवे वर्णों को और स्वरों का घोष मज्ञा है तथा मभी वर्णों के प्रथम द्वितीय
 वर्ण और शप इनकी अघोष मज्ञा है । नाक में श्वास के प्रवेश काल को प्रवेश
 काल और वायु के निकले के समय को निर्गम काल कहत है । लग्न वर्ण का
 अक्षर यदि प्रश्नाक्षर हो अथवा लग्नवर्ण का उच्चारण प्रथमाक्षर मद्ये, अथवा घोष
 के क्रिया अक्षर का उच्चारण हो अथवा वायु के प्रवेशकाल में प्रश्न हो तो विजय
 होती है ॥ ३-५ ॥

लम्पटाचार्योक्ति जयपराजयचक्रम्

लग्न	अलग्न	घोष	अघोष
प फ घ भ	उकार रहित	गघङ, जज्ञज,	शपकप,
म उ षा	अवर्ग, यग	ढढण, दधन,	चङ्गट्ट,
प स ह	रहित कर्गादय	उभम उ प ओ	तथ, पफ, मह


अथ तोरणचक्रम्

नाडीचतुष्टयं चक्रे लिखित्वा तोरणाकृतिः ।
 कृतिकादि न्यसेद्भानि प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ १ ॥
 स्तम्भमूले स्थितान्यष्टौ सिंहद्वारे तथाष्टकम् ।
 मालायामष्टकं तत्र चतुर्विंशत्यानि तोरणे ॥ २ ॥
 निर्गमे च यदा चन्द्रः प्रवेशे यदि भास्करः ।
 तत्र काले शुभा यात्रा प्रवेशे विघ्नकारिका ॥ ३ ॥
 चन्द्रः प्रवेशरक्षस्थो निर्गमस्थो दिवाकरः ।
 वधवन्धनदा यात्रा प्रवेशे तत्र शोभना ॥ ४ ॥
 चन्द्रादित्यौ प्रवेशक्षेत्रं ह्यथवा निर्गमस्थितौ ।
 मिश्रं फल भवेत्तत्र प्रवेशे चाथ निर्गमे ॥ ५ ॥
 प्रवेशार्थाह्नि कर्तव्या भूभृतां राजपट्टिका ।
 क्रूरग्रहयुतश्चन्द्रः प्रवेशे चाथ निर्गमे ॥ ६ ॥
 तद्दिने भूभुजा चैव निषिद्धा राजपट्टिका ।
 शुभग्रहयुते चन्द्रे सिंहद्वारमसंस्थिते ।
 प्रवेशः पट्टबन्धश्च भूभुजां शोभनः स्मृतः ॥ ७ ॥
 स्तम्भे सौरिर्द्वयं हन्ति सिंहे स्वपरविग्रहः ।
 मालास्थिते चलं राज्यं तोरणे सर्वसिद्धयः ॥ ८ ॥

इति तोरणचक्रम्

दोनों तरफ चार रेखाओं से तोरण की आकृति का चक्र बनाकर उसमें कृत्तिका से चार चार नक्षत्र क्रम से प्रवेश और निर्गम सप्तक मानकर २८ नक्षत्रों को रखे ।

स्तम्भ के मूल में ८ नक्षत्र और आठ नक्षत्र सिंहद्वार में, माला में ८ नक्षत्र और ५ नक्षत्र तोरण में स्थापित करे । यदि निर्गम के नक्षत्र में चन्द्रमा हो और प्रवेश के नक्षत्र में सूर्य हो तो यात्रा शुभद होती है । कर्क प्रवेश नक्षत्र में दोनों हों तो विघ्न कारक यात्रा होती है । चन्द्रमा प्रवेश के नक्षत्र में हो और निर्गम के नक्षत्रों में सूर्य हो तो वध वधा दोनों यात्रा में होता है । यदि दोनों रश्मिचन्द्र प्रवेश नक्षत्र में हों अथवा



निर्गम नक्षत्र में हों तो प्रवेश या निर्गम दोनों में मिश्रित फल होता है । प्रवेश नक्षत्र के दिन राजपट्टिका करना किन्तु चन्द्रमा क्रूरग्रह से युत हो तो पट्टिका नहीं करना । यदि चन्द्रमा शुभग्रह से युत हो और सिंहद्वारस्थ नक्षत्रों में हो तो प्रवेश, पट्टयधन दोनों शुभद होता है । स्तम्भ में शनि हो तो राजा का नाश, सिंहद्वार में हो तो शत्रुओं का नाश होता है, माला में शनि हो तो राज्य चल होता है और तोरण में हो तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं ॥ १-८ ॥


अथ शशिसूर्यकालानलचक्रम्

- द्वादशार लिखेच्चक्रं मेपादिद्वादशान्वितम् ।
 क्षेत्रयुग्मं च तत्रैव ज्ञेयं भास्करचन्द्रयोः ॥ १ ॥
 सिंहादि मकरान्तं च भानुक्षेत्रमुदाहृतम् ।
 कुम्भादिकर्कपर्यन्तं चन्द्रक्षेत्रं न संशयः ॥ २ ॥
 याम्योपरि स्थितं यत्तु भानुक्षेत्रमुदाहृतम् ।
 पूर्वोत्तरस्थितं यत्तु चन्द्रक्षेत्रं विनिदिशेत् ॥ ३ ॥
 चन्द्रक्षेत्रगते सूर्ये चन्द्रे तत्रैव संस्थिते ।
 यायिनो विजयो युद्धे स्थायिनो भद्रमादिशेत् ॥ ४ ॥
 सूर्यक्षेत्रगते चन्द्रे सूर्ये तत्रैव संस्थिते ।
 यायी भद्रं समायाति स्थायिनो विजयो भवेत् ॥ ५ ॥

सूर्ये सूर्यागसंयुक्ते चन्द्रे चन्द्राद्गसंस्थिते ।
 तदा काले भवेत्संधिर्युद्धं तस्य विपर्यये ॥ ६ ॥
 व्यस्तगौ यदि चन्द्राकौ संहारः सैन्ययोर्द्वयोः ।
 कर्त्तर्या यदि चन्द्राकौ संहारः सैन्ययोर्द्वयोः ।
 यात्राया युद्धकाले च चक्रमेतद्विलोकयेत् ॥ ७ ॥

इति शशिसूर्यकालानलचक्रम्

धारह धार का एक चक्र लिखकर उस पर मेपादि १२ राशियों को लिखना चाहिये । उसमें सूर्य और चन्द्र के दो भाग हैं । सिंह से मकर तक सूर्य का क्षेत्र और



कुम्भ से कर्क पर्यन्त चन्द्रमा का क्षेत्र होता है । चन्द्रमा के क्षेत्र में सूर्य हो और उमी क्षेत्र में चन्द्र भी हो तो यायी राजा की युद्ध में विजय और स्थायी की हार होती है । सूर्य क्षेत्र में चन्द्रमा हो और सूर्य भी उसी में हो तो यायी राजा की हार और स्थायी की विजय होती है । सूर्य अपने राश म और चन्द्रमा अपने

क्षेत्र में हो तो आपस में सधि होती है इससे निपरीत हो तो युद्ध होता है । यदि सूर्य चन्द्र कर्त्तरी^१ म हों तो दोनों सेनाओं का नाश होता है । इस चक्र से यात्रा और युद्ध समय का विचार करना चाहिये ॥ १-७ ॥

अथ सघट्टचक्रम्


अश्विन्यादि लिखेच्चक्र सप्तविंशतितारकाः ।
 त्रिकोणं नचभिर्वेधः कर्त्तव्यस्तिर्यगाकृतिः ॥ १ ॥
 अश्विनीरेवतीवेधो वेधश्चाश्विनिज्येष्ठयोः ।
 मघापौष्ण्ये मघाश्लेषा आश्लेषामूलयोस्तथा ॥ २ ॥
 एवं सङ्घट्टचक्रेस्मिन् कार्या ऋक्षगता ग्रहाः ।
 भूपनामर्क्षसङ्घटे युद्ध भवति नान्यथा ॥ ३ ॥

१ कर्त्तरीयोगलक्षणम्—शनि भीमान्तरे सूर्यस्तदा स्यात्सूर्यकर्त्तरी । राहुपूयांतरे चन्द्रस्तदा स्याच्चन्द्रकर्त्तरी ॥

यस्य भूपर्क्षसङ्घटे विद्धं भं यस्य भूपतेः ।
 तस्यापि भ यदा विद्धं तत्तद्युद्धं समादिशेत् ॥ ४ ॥
 अश्विन्यादिकसङ्घटे भावि युद्धं समादिशेत् ।
 यदा कुत्रेति सग्रामो वहिभावे प्रजायते ॥ ५ ॥
 निर्वेधे सौम्यवेधे च युद्धं नास्ति नरेशयोः ।
 क्रूरवेधे भवेद्युद्धं तत्काले घोरदारुणम् ॥ ६ ॥
 शनिभौमार्कपातानां शशिविद्धं तु यद्दिने ।
 तद्दिने जायते युद्धं तत्काले घोरदारुणम् ॥ ७ ॥
 ग्रहवेधयुते पाते पानोपग्रहसंयुते ।
 घातपातसमायोगे सग्रामं दारुणं भवेत् ॥ ८ ॥
 युद्धकांक्षी भवेद्राजा यस्य क्रूरसमं भवेत् ।
 युद्धद्वेषी भवेत्सौम्यैस्तद्द्वन्द्वेषविवर्जितः ॥ ९ ॥
 सौम्य क्रूरविभागेन मित्रामित्रक्रमेण च ।
 वक्रातिचारगत्या च युद्धमत्रास्ति नास्ति च ॥ १० ॥
 आदित्यश्च यदा चन्द्रं एकरेखागतो यदि ।
 तद्दिने जायते युद्धं महाशस्त्रनिपीडनम् ॥ ११ ॥
 कुजराहोर्षदा वेधश्रंद्धरेग्वाग्रसंस्थितः ।
 तद्दिने चाग्निपातश्च लोहपातो न संशयः ॥ १२ ॥
 बुधशुक्रौ यदैकत्र तत्र चेत्सगतः शशी ।
 तदा घृष्टि विजानीयाद्वियुत्पातं न संशयः ॥ १३ ॥
 इन्द्रर्क्षशनिराहृणामेकनाडी यदा भवेत् ।
 तद्दिने दुर्दिनं ज्ञेयमभ्रच्छन्नं न संशयः ॥ १४ ॥
 राहर्ककुजमोमाश्च नाडीवेधगता यदि ।
 कलहं तत्र जानीयादित्युक्तं चादियामले ॥ १५ ॥

इति सघट्टचक्रम्

नव त्रिकोण का तिरछे आकृति का एक चक्र बनाकर उसमें अश्विनी आदि



नक्षत्रों का न्यास करने से तिरछा बंध होता है। अश्विनी रेवती का वेध होता है और अश्विनी उदष्टा का वेध होता है। मघा रेवती का, मघा श्लेषा का और श्लेषा मूल का वेध होता है। इस प्रकार से नक्षत्र स्थापित कर नक्षत्रों पर ग्रहों को रखकर वेध का विचार करना चाहिये। राधा के नाम नक्षत्र पर सघट्ट चक्र में वेध

होता हो तो युद्ध होता है। जिस राजा के नाम का नक्षत्र सघट्ट चक्र में वेधित हो और वही किसी अन्य राजा के नक्षत्र के साथ वेधित हो तो दोनों में युद्ध होता है। अश्वि-यादि सघट्ट चक्र में भावि युद्ध का विचार करना चाहिये। यदि यह प्रश्न हो कि कहां युद्ध होगा तो उसे वृत्तिकादि बनाकर विचार करना चाहिये। यदि वेध ग होता हो अथवा शुभग्रह से वेध होता हो तो राजाओं से युद्ध नहीं होता है। क्रूरग्रह का वेध होता हो तो तत्काल भयकर युद्ध होता है। जिस दिन चन्द्रमा शनि मंगल राहु से वेध करता हो उस दिन बड़ा घोर युद्ध होता है। ग्रहवेध युत राहु और पात तथा उपग्रह का योग हो तो युद्ध होता है। क्रूरग्रह के तुल्य नक्षत्र राजा का हो तो युद्ध होता है और शुभग्रह से युत नक्षत्र पर युद्ध नहीं होता है। शुभग्रह क्रूरग्रह के विभाग से तथा मित्र शत्रु के विभाग से तथा वक्र और अतिचार के क्रम से युद्ध का होना न होना निश्चित होता है। जिस दिन रवि चन्द्रमा एक रेखा पर होते हैं उस दिन शस्त्र द्वारा युद्ध होता है। चन्द्रस्थित रेखाग्र में मंगल और राहु का वेध होता हो तो उस दिन अग्निभय और शस्त्रभय होता है। बुध शुक्र एक ही नक्षत्र पर हों उस नक्षत्र पर जिस दिन चन्द्रमा योग करता है उस दिन वृष्टि और विद्युत् (बिजली) गिरती है। चन्द्रमा, सूर्य, शनि और राहु एक नक्षत्र पर जब होते हैं उस दिन बड़ा दुर्दिन होता है और आकाश मेघाच्छन्न रहता है। राहु सूर्य मंगल और चन्द्रमा का वेध होता हो तो उस दिन बलह होता है ऐसा आदियामल में कहा है ॥ १५ ॥

अथ गूढकालानलचक्रम्


सप्तरेखा लिखेदूर्ध्वा सप्ततिर्यक् तदा लिखेत् ।

साभिजिच्चन्द्रभाथन्तं पडद्गं कल्पयेत्ततः ॥ १ ॥

दिनक्षार्द्रण्यते चक्र गूढं संपुटकर्तरी ।
दडं रुपालं वज्रं च ज्ञातव्यं स्वरवेदिभिः ॥ २ ॥
यस्मिन्नृक्षे स्थितश्चंद्रस्तत्रादौ त्रीणि गूढकम् ।
सपुटे नव भान्यत्र कर्तरी च ततस्त्रिभिः ॥ ३ ॥
दंडे धिष्ण्यानि च त्रीणि कपाले ऋक्षसप्तकम् ।
वज्रागे त्रीणि धिष्ण्यानि पडङ्गस्येति निर्णयः ॥ ४ ॥
यदंगे नामनक्षत्रं योवकारस्य जायते ।
वक्ष्ये शुभाशुभं चास्य गूढकालानले स्थितम् ॥ ५ ॥
गूढस्थे विभ्रमो युद्धे जयो भवति सपुटे ।
कर्तार्यां सक्षतं युद्धे दंडे भंगो न संशयः ॥ ६ ॥
रूपालस्थे भवेन्मृत्युर्वज्रे तस्य महद्भयम् ।
गूढकालानल चक्रमुक्तं वै चादियामले ॥ ७ ॥

इति गूढकालानलचक्रम्

मान रेखा मीधी और सात रेखा तिरछी लिपकर अभिजित् के सहित २८ नक्षत्रों को लिखे और उसी में ६ अंग कल्पना करे । दिन नक्षत्र से गिनकर गूढ, सपुट, कर्तरी, दड, कपाल, यत्र इन ६ अंगों की कल्पना करे । जिस नक्षत्र पर चांद्रमा हो उसमें तीन नक्षत्रों की गूढ सज्ञा, इसके भागे ९ नक्षत्रों की सपुट सज्ञा, इसके भागे ३ नक्षत्रों की कर्तरी सज्ञा इसके भागे ३ नक्षत्रों की दड सज्ञा इसके बाद ७ नक्षत्रों की कपाल सज्ञा और इसके भागे ३ नक्षत्रों की यत्र सज्ञा होती है ये हा ६ अंग हैं । योधा के नाम का नक्षत्र गूढ कालानल के जिम अंग में हो उसमें पल को कह । गूढ सज्ञक अंग में योधा के नाम का नक्षत्र हो तो युद्ध में भ्रम होता है और सपुट में हो तो विजय कर्तार में हो तो अनयुद्ध, दड में हो तो पराजय होता है । कपाल में हो तो मृत्यु और वज्रांग में हो तो बड़ा भय होता है । यह गूढ कालानल चक्र आदियामल में कहा हुआ है ॥ १-७ ॥



अथ कुलाकुलचक्रम्

द्वितीया दशमी पष्ठी कुलाकुलमुदाहृतम् ।
 विपमा अकुलाः सर्वाः शेषाश्च तिथयः कुलाः ॥ १ ॥
 रविचन्द्रौ गुरुः सौरिश्चत्वारो ह्यकुला मताः ।
 भौमशुक्रौ कुलाख्यौ च बुधवारः कुलाकुलः ॥ २ ॥
 चारुणाद्राभिजिन्मूल कुलाकुलमुदीरितम् ।
 कुलानि समधिष्ण्यानि शेषभान्यकुलानि तु ॥ ३ ॥
 तिथौ वारे च नक्षत्रे अकुले यायिनो जयः ।
 कुलाख्ये स्थायिनो जेयः संधिश्चैव कुलाकुले ॥ ४ ॥

इति कुलाकुलचक्रम्

दोनों पक्ष की २।६।१० ये तिथिया कुलाकुल सजक हैं, विपम तिथियां १।३।५।७।९।११।१५ अकुल सजक और शेष ४।८।१०।१२ तिथियां कुल सजक हैं। रवि, चन्द्र, गुरु और शनि ये चार अकुल सजक हैं, भौम और शुक्र वार

कुलाकुल	अकुल	कुल
२।१० ६	१३, ५, ७, ९, ११, १५	४, ८ १२, १४
बु	र च वृ श	म शु
आर्द्रा शत, मूल अभि	श कृ मृ पुन, श्ले, पूषा ह, स्वा, अ, पूषा, श्र, पूमा रे,	भ रो पु म उ फा चि अ पू पा श्र उभा

कुल सजक और बुधवार कुलाकुल सजक है। शतभिष, आर्द्रा, अभिजित् और मूल ये नक्षत्र कुलाकुल सजक हैं। सम नक्षत्र भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद इनकी कुल सजा है और शेष नक्षत्रों की अकुल सजा है। अकुल सजक तिथि वार और नक्षत्र म चायी (चढ़ाई करने वाला) यात्रा करे या युद्धारम्भ

करे तो उसकी विजय होती है। कुल सजक तिथि वार नक्षत्र में स्थायी (घर में पैठा हुआ) युद्ध आरम्भ करे तो उसकी विजय होती है और कुलाकुल में युद्धारम्भ होने से दोनों म सधि हो जाती है ॥ १-४ ॥

अथ कुम्भचक्रम्

कुम्भाकारं लिखेच्चक्रं तिर्यग्रेखासमन्वितम् ।
 क्रमादूर्ध्वमधःस्थं च एकैकोत्तरम् लिखेत् ॥ १ ॥

भानुभाद्विन्यसेत्तत्र रिक्तं पूर्णमिति क्रमात् ।

एवं राशीन्क्रमान्यस्य रिक्तपूर्णं प्रकल्पयेत् ॥ २ ॥

रिक्ते रिक्ता भवेद्यात्रा पूर्णं यात्रा शुभावहा ॥ ३ ॥

इति कुम्भचक्रम्

तिरछी रेखा से युक्त कुम्भ का आकार बनाना उस पर ऊपर नीचे क्रम से एकोत्तर नक्षत्रों को लिखना । सूर्य के नक्षत्र रिक्त और दूसरा पूर्ण सन्नक होता है । इसी प्रकार से १२ राशियोंको रिक्त और पूर्ण क्रम से ऊर्वाधर स्थापित करना । रिक्त सन्नक नक्षत्र में यात्रा रिक्त होती है और पूर्ण सन्नक नक्षत्रों में यात्रा पूर्ण होती है ॥

अथ द्वितीय कुम्भचक्रम्

पूर्वेऽजसिंहचापश्च विन्यसेत्कलशे क्रमात् ।

वृषोऽथ मकरः कन्या दक्षिणे विनिवेशयेत् ॥ १ ॥

युग्मं कुम्भं तुला पश्चाद्दक्षकिंक्षपालयः ।

चतुःखण्डं भवेदेतत्कलशानामथ क्रमात् ॥ २ ॥

रिक्तं पूर्णं कमाज्ज्ञेयं कुम्भस्य विपमे समे ।


रिक्ते तु मरणं विद्याज्जयः पूर्णं न संशयः ॥ ३ ॥

सौम्ययुक्ते तु कलशे ध्रुवं शत्रुक्षयो भवेत् ।

कुम्भाकारमिदं चक्रं कथित चादियामले ॥ ४ ॥

इति द्वितीयकुम्भचक्रम्

पूर्वभाग में क्रम से मेष, सिंह, धन राशियों को और दक्षिण में वृष, कन्या, मकर को रखे । मिथुन, कुम्भ, तुला को पश्चिम में और उत्तर में कर्क, मीन और वृश्चिक को लिखने से कलश का चार खण्ड होता है । विपम और सम राशियों को क्रम से रिक्त और पूर्ण समझना । रिक्त राशियों में यात्रा करने से मृत्यु और पूर्ण में यात्रा करने से विजय होती है । शुभग्रह न



युक्त राशि में यात्रा करने से अवश्य विजय हाता है । यह कुम्भ चक्र आदियामले में कहा हुआ है ॥ ४ ॥

भुक्तघटी ५४ सप्तविंशत्या गुणिते १४५८ एभ्य पष्ट्या हृते लब्ध चतुत्रिंशति । तत्र अश्विन्यादिगणनया चन्द्रस्य भुक्तनक्षत्राणि ४ तैर्लब्ध चतुत्रिंशति योजिते जात ८८ शेष १८ पञ्चदशभिर्भागै लब्ध चरणं तेन चन्द्रो ज्ञात । तत्काले चन्द्रो भरण्या द्वितीयचरणोऽस्तीति । तेन विज्ञात मेपराशे पष्ठो नवाशा- तस्याधिपति बुधस्तस्य वर्ग टवर्ग प्राप्त । क्रूरक्षेत्राक्षर इति । चन्द्रे क्रूरक्षेत्रा- क्षरे गते पापग्रहराश्यक्षरगते सर्वकर्मसु न शुभम् । शुभक्षेत्रे शुभराश्यक्षरगते चन्द्रे शुभ फलमिति प्रस्तारचक्रे चन्द्रनिर्णय कथित । अत्र चन्द्र कन्या- राशेर्नवाशे शुभाक्षरे ट तेन लाभप्रश्ने लाभो भविष्यतीति । अशकेनाशकमिति । अशकेन चन्द्राधिपितनक्षत्रचरणसंख्यया अशक नवाशाराशे या सख्या 'चतु स्या मुनय इत्यादिना ग्राह्या' तेन गुण्य गुणनफले राशिध्रुवका शैला नन्दा इत्यादिना युक्त पुन स्वगुणै गुणयेत्पश्चान्मूलाकैर्भाजयेत् लब्धेन मासादिक द्वेयम् । यथात्रोदाहरणे चन्द्र मेपराशे पष्ठाशे कन्याराशौ तत्परया ६ कन्याराशे गुणका 'गुणा शैला' इत्यादिना कन्याराशे ५ तेन गुणिता ५ × ६ = ३० कन्याराशे 'चतुस्था मुनय' इत्यादिना ध्रुवका ७ युता ३७ पष्टिरीत्येतेन कन्याराशे गुणक ३ तेन गुणिते १११ कन्याराशे मूलाङ्का शैलानन्दा इत्यादिना ७ तेन भक्ते लब्ध मासादिकम् १५।०५।४२ अर्थात् पञ्चदश मास्युपरि पञ्चत्रिंशतिदिनानन्तरे द्विचत्वारिंशत्घटिकानन्तरम् लाभो भविष्यतीति निर्णय ॥ १-६ ॥

नेरह रेखा सीधी और दश रेखा तिरछी खींचने से २०८ कोष्ठ का चक्र होता है । कवर्ग के अक्षरों को क ए ग घ ङ को क्रम से पहले और आठवें कोष्ठ में लिखने

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	राशय
म	शु	बु	च	सू	सु	शु	म	वृ	ग	श	वृ	अधिपा
क	च	ट	प	अ	उ	छ	र	त	प	फ	य	वर्ग
ग	ज	ड	र	आ	ट	झ	घ	थ	व	भ	घ	"
ङ	अ	ण	ल	ह	ट	च	क	न	म	प	त	"
ए	छ	ठ	व	ई	द	ज	ग	घ	फ	ब	द	"
घ	झ	ड	श	व	ण	अ	इ	ध	भ	म	न	"
क	च	ट	प	ऊ	ट	छ	र	त	प	फ	य	"
ग	ज	ड	स	ए	उ	झ	घ	द	ध	भ	घ	"
ङ	अ	ण	ह	ए	ट	च	क	न	म	प	त	"
ए	छ	ठ	य	ओ	द	ज	ग	घ	फ	ब	द	"
७	७	७	७	१२	७	९	१३	१२	७	१२	२५	ध्रुवा
३	७	४	५	७	५	७	४	८	५	६	५	अक्षा

से ९ कोष्ठ म कवर्ग हो जायगा । इसी प्रकार दूसरे और सातवें कोष्ठ में यम के

अक्षरों को क्रम से लिखना चाहिये । एव तीसरे और छठे कोष्ठ में टवर्ग के अक्षरों को लिखना चाहिये । यवर्ग और शवर्ग को चौथे कोष्ठ में और भवर्ग को पाँचवें कोष्ठ में लिखना चाहिये । नवें और बारहवें कोष्ठ में तवर्ग को, शेष २ कोष्ठ में पवर्ग को लिखने से प्रस्तार चक्र बन जाता है । चार २ अक्षरों के मयोग से अश्विनी आदि नक्षत्रों के अक्षर और मेघादि राशियों के नवांश के घर्ण होते हैं । कोष्ठों के सयसे ऊपर के कोष्ठ में क्रम से भौम, शुक्र, बुध, चन्द्र, सूर्य, बुध, शुक्र, भौम, गुरु, शनि, और गुरु को लिखना चाहिये । तात्कालिक चन्द्रमा कोष्ठ के अक्षर में होता है । उसी के अधीन सभी लाभ हानि, जय, पराजय का ज्ञान होता है । इष्टनाडी अर्थात् प्रश्न के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र में है उसके भयात को २७ से गुणाकर गुणफल में ६० का भाग देने से लब्धि और शेष को अलग अलग रखे । लब्धि में अश्विनी से चन्द्रमा के गत नक्षत्र के सत्या को जोड़ देने से तात्कालिक चन्द्रमा का नक्षत्र और शेष में १५ का भाग देने से शेष नक्षत्र का चरण होता है । उदाहरण देखो । कितने दिन में लाभदि होगा इसक लिये चन्द्रमा के नवांश सत्या अर्थात् नक्षत्र चरण सत्या को अक्ष से आगे कहे हुये १२ वें श्लोक से गुण देवे गुणफल म राशि के ११ वें श्लोक में कहे हुये ध्रुवा को जोड़ देवे तथा योगफल को अपने गुणक १४ श्लोकोक्त से गुणकर मूलांक १५ श्लोकोक्त से भाग देने से क्रम से मास दिन घंटी आदि कार्यसिद्धि की अवधि का ज्ञान होता है ॥ १-९ ॥

उदाहरण—संवत् २०१७ वैशाख शुद्ध ४ शनिवार को मृगशिरा नक्षत्र का १८ दंड है और सूर्योदय से १२ दंड पर किसी ने प्रश्न किया कि मुझे लाभ होगा या नहीं और कब होगा । उक्त समय में चन्द्रमा का भयात ५४ घटी हुआ इसे २७ से गुणने से १४५८ हुआ इसमें ६० से भाग देने से लब्धि २४ हुई और शेष १८ हुआ । लब्धि में चन्द्रमा के गत नक्षत्र ४ को जोड़ने से २८ हुये शेष म १५ का भाग देने पर लब्धि १ हुई अतः तात्कालिक चन्द्रमा अश्विनी गत भरणी के दूसरे चरण में हुआ । अर्थात् चन्द्रमा मेघ राशि के ९ वें नवांश में हुआ उसका स्वामी बुध है बुध का २ अक्षर है । अतः चन्द्रमा शुभाक्षर में है इसलिये लाभ होगा । अवधिज्ञान— ६ वें नवांश की सत्या ६ कन्या राशि का गुणकांक ५ से गुणा किया तो ३० हुये, इसमें ध्रुवा ७ को जोड़ दिया तो ३७ हुये इसको राशि-गुणकांक ३ से गुणा किया तो १११ हुये कन्या राशि के मूलांक ७ से भाग दिया तो लब्धि १५ मास शेष को ३० आदि से गुणाकर भाग देने से क्रम से २५ दिन और ४२ घटी प्राप्त हुये । अर्थात् १५ महीने २५ दिन और ४२ घटी के बाद लाभ होगा ।

नाडी फलौ यशौ चर्गो दिने चर्गफलोदयः ।

कपक्षेण च मासेन टवर्गेण ऋतुं वदेत् ।

अयने तपवर्षेण फलं द्रूयाद्विचक्षणः ॥ ११ ॥

चतुःस्था मुनयः ७ । ७ । ७ । ७ । सूर्याः

१२ सप्त ७ नंदा ९ गुणे ३ पवः ५ ।

मासाः १२ शैला ७ इना १२ स्तत्त्वा २५

राशीनां च ध्रुवा इमे ॥ १२ ॥

एते राशिध्रुवाः ।

गुणाः ३ शैला ७ युगाः ४ पंच ५

सप्त ७ पंचा ५ द्रयो ७ युगाः ४ ।

नागा ८ वाणा ५ रसा ६ भूता ५

मेपादेरंशका मताः ॥ १३ ॥

तत्कालेन्द्रंशककृति कृत्वा ध्रुवयुता तथा ।

स्वगुणैर्गुणयेत्पञ्चान्मूलांकैर्भाजयेत्सुधीः ॥ १४ ॥

पष्टिर्गणविधौ नेत्रे पक्षाग्न्यक्षिरविस्तथा ।

चन्द्रभूसुतशुक्राणा गुरुज्ञरविसौरिणाम् ॥ १५ ॥

शैला नंदा रसा वाणा नंदाः शैला युगा दश ।

इनाः १२ सप्त ७ रसा ६ भूता ५ मूलांकाश्च उदाहृताः ॥ १६ ॥

अथ मूलांकाः क्वचित् ।

घना १७ नखा २० श्विप्रकृति

२१ युग्मेपु २५ दिक् १० रसाक्षि च २६ ।

सार्धद्वौ २ । ३० । वेदवेदाश्च ४४

वस्वष्टि १०८ युग्मपञ्च च ५२ ॥ १७ ॥

रसांगाः ६६ त्वाब्धिशनो १४० मूलांका मुनिभापिताः ।

प्रश्नकाले विवाहे वा याने जन्मनि संगरे ।

शशांकस्थ फलं श्रेष्ठं सर्वशास्त्रेषु भापितम् ॥ १८ ॥

इति प्रस्तारचक्रम्

य घर्गं और श घर्गं नाही में फल देते हैं, घर्गं अ घर्गादि दिन में फल दत्त हैं, क घर्गं का फल पक्ष में च घर्गं का मास में ट घर्गं का शत्रु में त घर्गं का अयन में और प घर्गं का वर्ष में फल कहना चाहिये । १० । ७ । ७ । ७ । ७ । १२ । ७ । १ ।

१३।५।१२।७।१२।२५ ये क्रम से मेपादि राशियों के ध्रुवा हैं। ११।३।
 ७।४।५।७।५।७।४।८।५।६।५ ये क्रम से मेपादि राशियों के
 अक्षर हैं। १२। तात्कालिक चन्द्रमा के नवौंश का घर्ष करके उनमें ध्रुवा को जोड़
 देना फिर उस राशि के गुणक से गुणकर गुणनफल में मूलांक से भाग दे देना।
 १३।६०।५।१।२।२।३।१२ ये क्रम से चंद्र, भौम, शुक्र, गुरु, बुध,
 सूर्य और शनि का गुणकांक हैं। १४।७।९।६।५।५।७।४।१०।१०।
 ७।६।५ ये मेपादि राशियों के मूलांक हैं। १५। अथवा मतांतर से १७।२०।
 २१।२५।१०।२६।२।३०।४४।१६८।५२।९६।१४० ये मुनि के कहे
 हुये मूलांक हैं। प्रश्न समय, विवाह, यात्रा, जन्म और सप्राप्त में चन्द्रमा का शुभफल
 सभी शास्त्रों में कहा हुआ है ॥ १-१७ ॥

प्रस्तारे द्वादशारे च ऋक्षाक्षरक्रमेण च ।

नवाशाराशिमार्गेण चक्रं भवति तुंवरुम् ॥ १ ॥

यत्र मेपादिराशिस्थस्तत्कालेन्दुः प्रजायते ।

ग्रहदृष्टिवशात्सर्वं ज्ञेयं तस्य शुभाशुभम् ॥ २ ॥

त्रिदशे पचमे धर्मे चतुर्थाष्टमसप्तमे ।

पादवृद्ध्या निरोक्षन्ते प्रयच्छन्ति तथा फलम् ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वदृष्टी च भौमार्का केरुरौ बुधभार्गवौ ।

सप्तदृष्टी च जीवेदू शनिराहृ त्वधोमुखौ ॥ ४ ॥

मेपो वृषो मृगः कन्या कर्कमीनतुलास्तथा ।

आदित्यादिग्रहेषूचा नीचा यस्तस्य सप्तमः ॥ ५ ॥

मरमोचा दिशो १० रामा ३ अष्टाविंशास्तिर्धीन्द्रियाः ।

सप्तविशास्तथा विंशाः सूर्यादीना तथाशक्ताः ॥ ६ ॥

परमोचात्परं नीचमर्धचक्रात्सख्यया ।


नीचस्थानात्क्रमेणोच उक्तः सर्वत्र खेचरः ॥ ७ ॥

उच्चानीचाच्च यत्तुर्यं समस्थानं तदुच्यते ।

उच्चनीचसमस्थाने चन्द्रं ज्ञात्वा फलं वदेत् ॥ ८ ॥

अथ द्वादशारतुधुरावर्त्तचक्रम् । अत्र तुषुर्द्वे रगायकः तस्य य आर्त्तं गायो
 गमफाति सरिगमपधनिसप्तस्वराणा सप्तादिमरणंस्तत्तालमदपोपोषारैर्यथा
 र्त्तस्तस्येदं चक्रम् । नामाक्षरानयने तुषुर्द्वयं नामाक्षराण्यालोडयति ॥ इति
 व्युत्पत्ति । प्रस्तारे इति । मुगमम् ॥ १-८ ॥

द्वादश पत्रात्मक प्रस्तारचक्र में नक्षत्रों के अक्षरों के क्रम से तुलुरु चक्र होता है ।
 १ । तात्कालिक चन्द्रमा मेपादि जिस राशि पर हो वहाँ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार
 सभी शुभ अशुभ फल को जानना चाहिये । २ । ३ । १० ॥ ५ । ९ ॥ ४ । ८ ॥ और
 सप्तम को अपने स्थान से ग्रह क्रम से १ । २ । ३ । ४ चरण से देखते हैं और वैसा
 ही फल भी देते हैं । ३ । मंगल और सूर्य की ऊर्ध्वदृष्टि, बुध और शुक्र की केकर
 (तिरछी) या ज्यों की र्यों, गुरु और चन्द्र की समदृष्टि और शनि राहु की नीचे
 दृष्टि होती है । ४ । मेघ, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला ये राशिया क्रम से
 सूर्यादिग्रहों की उच्चराशियाँ हैं, अपना उच्चराशि से सातवीं राशि नीच राशि
 होती है । ५ । उच्च की राशियों में क्रम से १०, ३, २८, १५, ५, २७, २०, ये अक्षर
 सूर्यादि ग्रहों के परम उच्च होते हैं । जैसे सूर्य का मेघ राशि में १० अक्षर परम
 उच्च है । ६ । परमोच्चाश तुल्य ही उच्चराशि से ६ राशि के बाद की राशि में
 परम नीच होता है । फिर नीच के बाद ग्रह उच्च म जाता है । ७ । उच्च या नीच
 स्थान से जो चौथा स्थान होता है समस्थान कहते हैं । अत उच्च, नीच और
 समस्थान म चन्द्रमा को जानकर फल को कहे ॥ १-८ ॥



उच्चस्थाने स्थितं चन्द्र भौमादित्यौ प्रपश्यतः ।
 समस्थाने च गुर्विन्दू नीचस्थ राहुसूर्यजौ ॥ ९ ॥

बुधशुक्रौ त्रिकोणस्थं चन्द्रं तत्कालसंभवम् ।
 अन्यत्रस्थं न पश्यन्ति जात्यन्धा इव खेचराः ॥ १० ॥
 सौम्यदृष्टिस्थिते चन्द्रे सर्वसौख्यं प्रजायते ।
 क्रूरदृष्टिस्थिते पुसां मृत्युर्हानिर्महद्भयम् ॥ ११ ॥
 एव शुभयुते चन्द्रे सर्वसौख्यं प्रजायते ।
 क्रूरैः क्रूरफलं तत्र मिश्रमिश्रं न संशयः ॥ १२ ॥
 रक्तं पीतं सितं कृष्णं चद्रे वर्णचतुष्टयम् ।
 जातव्यं च प्रयत्नेन प्रश्नकाले मदा बुधैः ॥ १३ ॥
 रविर्भौमः सितः सौम्यो गुरुः सौरी शशी तमः ।
 वर्गेशा अकवर्गादौ ग्रहा ज्ञेया विचक्षणैः ॥ १४ ॥
 स्यातां रविऋजौ रक्तौ पोतौ जीवबुधौ ग्रहौ ।
 शशिशुक्रौ सितौ वर्णौ कृष्णत्व राहुमन्दयोः ॥ १५ ॥
 यद्बर्गवर्णगश्चन्द्रस्तस्य स्वामी तु यो ग्रहः ।
 तस्य वर्णेन वर्णत्वं शशाकस्य प्रजायते ॥ १६ ॥
 रक्ते चन्द्रे भवेद्युद्धं कृष्णे मृत्युर्न संशयः ।
 पीते शुभं विजानीयात्सिते शुभतरं फलम् ॥ १७ ॥

इति दृष्टितुंरुचक्रम्

भौम और सूर्य उच्चस्थान में बैठे हुये चन्द्रमा को देखते हैं, समस्थान में बैठे हुये तारकालिक चन्द्र को गुरु और स्थूल चन्द्रमा देखता है और नीच में बैठे चन्द्रमा को राहु और शनि देखते हैं । ९ । बुध और शुक्र अपने मूलत्रिकोणराशि वृष राशि में बैठे चन्द्रमा को देखते हैं । इससे मिश्र स्थान में बैठे तारकालचन्द्रमा को ग्रह नहीं देखते हैं जैसे जन्म का अध्या नहीं देखता है । १० । चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो सभी काय शुभ होते हैं और क्रूरग्रह की दृष्टि हो तो मृत्यु और हानि होती है । ११ । इसी प्रकार चन्द्रमा शुभग्रह से युक्त हो तो शुभफल और पापग्रह से युक्त हो तो पापफल और शुभपाप दोनों से युक्त हो तो दोनों फल होता है । १२ । लाल (रक्त), पीला (पीला), मित (सफेद), कृष्ण (काला) ये चार वर्ण चन्द्रमा के होते हैं, प्रत्येक समय प्रयत्न करके हमको जान लेना चाहिये । १३ । सूर्य, भौम, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, चन्द्रमा और राहु ये ग्रह क्रम से अयर्गादि के स्वामी हैं, अर्थात् अयर्ग के स्वामी सूर्य, अयर्ग के भौम, अयर्ग के शुक्र, अयर्ग के बुध, अयर्ग के बुध, अयर्ग के बुध,

पवर्ग के गुरु, यवर्ग के शनि और शवर्ग के राहु स्वामी हैं । १४ । सूर्य, भौम रक्तवर्ण, गुरु बुध, पीतवर्ण, चन्द्रमा, शुक्र श्वेतवर्ण और राहु शनि का कृष्णवर्ण है । १५ । अरुच्यपादि जिस वर्ग के वर्ण (भ्रू) में चन्द्रमा हो उस वर्ग का जो ग्रह स्वामी हो उसका जो रक्तादि पूर्वकथित वर्ण उसी वर्ण के सदृश चन्द्रमा का भी रक्तादि वर्ण होता है । १५ । यदि चन्द्रमा का रक्तवर्ण हो तो शुद्ध होता है, कृष्ण वर्ण हो तो मृत्यु होती है, पीतवर्ण हो तो शुभफल और शुक्लवर्ण हो तो भ्रूयत्त शुभफल होता है ॥ १७ ॥

इति दृष्टितुम्बुरुचक्रम् ।

अथ तुम्बुरावर्तचक्रम्


अंशकुण्डलीचक्रं लिख्यते ।

द्वादशार लिखेच्चक्रं नात्येकैका त्रिधा पुनः ।
 पञ्चमे पञ्चमे स्थाने तिर्यग्बोध तथा कुरु ॥ १ ॥
 अष्टोत्तरशतं चैव नाडीसंख्या प्रजायते ।
 अंशाक्षराणि चक्रस्य नाडिकाग्रे तु विन्यसेत् ॥ २ ॥
 क्रूरवेधाक्षरे चन्द्रो यदा तत्कालसम्भवः ।
 तदा तस्य फल वक्ष्ये विवाहादौ शुभाशुभम् ॥ ३ ॥
 विवाहे क्रूरवेधेन वैधव्यं च विगीलता ।
 यात्राया च भवेद्धानिमृत्युर्भगो महाहवे ॥ ४ ॥
 सर्वहानिकराः क्रूरा ग्रहाः सौम्याः फलार्थदाः ।
 ह्यादिवेधो भवेत्स्य मृत्युस्तस्य न सशयः ॥ ५ ॥
 तत्कालेन्दुफलं सर्वं यदुक्तं रुद्रयामले ।
 गोपितं सर्वशास्त्रेषु मया चात्र प्रकाशितम् ॥ ६ ॥
 स्मरविवरविशेषैश्चक्रवन्धैस्तु भूम्या
 विविधफलपताकामातृकाभेदरम्यम् ।
 नरपतिरुविचन्द्रः सर्वशास्त्रेष्वधीती
 नरपतिजयचर्याशास्त्रमेतच्चकार ॥ ७ ॥

इति नरपतिजयचर्याया स्वरोदये तुम्बुरावर्तचक्र अंशकुण्डलीचक्रम् ।

द्वादशारमिति द्वादशार चक्र लिखेत् तत्रैकागडिका त्रिधा इति पटत्रिंशत् भवन्ति । पुन शब्दोपात्तानात् पुनस्ते त्रिधा इति । एव कृतेऽष्टोत्तरशत जातम् । तथा पचमे पचमे स्थाने तिर्यग्बंध कुर्यादित्यर्थ अन्यत्पष्टम् ॥ १-६ ॥

द्वादश १२ रेखा का एक चक्र बनाये । एक एक रेखा में पहल तीन भाग बरके पुन तीन भाग करने से १०८ गडियां होंगी । इसमें हर एक पांचवें पात्रवें म आएस में बंध का विचार करे । १०८ नाडियों में चक्र के नवमांश के अक्षरों का प्रारक के आगे लिखे । प्रूरग्रह से विद्ध अक्षर पर तारकालिक चन्द्रमा हो तो उसका फल विवाहादि में शुभ अशुभ होता है । प्रूरग्रह के बंध से त्रिंशद् में वैधय और



जुशीलता होती है । यात्रा में हानि और युद्ध म भगता होती है । प्रूरग्रह सब प्रकार की हानि करते हैं और शुभग्रह आधे फल को देते हैं, दो तीन ग्रहों के बंध से मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहीं है । रुद्रयामल में तारकालिक चन्द्र का जो फल कहा है सभी शास्त्रों में गोप्य था जिसे मैंने यहाँ प्रकाशित किया है ॥ १-६ ॥

इति तुंगुरावर्त्तचक्रम् ।

अथ राशितुम्बुरचक्रम्

राशिचक्रं प्रवक्ष्यामि नृपाणां हितकाम्यया ।


रविर्जावस्तथा सोम्यस्तैश्चन्द्रे च समागते ।

जलपातो भवेत्सत्यमित्युक्त विष्णुयामले ॥ १ ॥

रविर्जीवस्तथा शुक्रस्तैश्चन्द्रे च समागते ।
 वायुपातो भवेत्सत्यमित्युक्त विष्णुयामले ॥ २ ॥
 रविर्जीवस्तथा सौरिस्तैश्चन्द्रे च समागते ।
 अग्निपातो भवेत्सत्यमित्युक्तं शक्तियामले ॥ ३ ॥
 रविर्भौमस्तथा राहुस्तैश्चन्द्रे च समागते ।
 लोहपातो भवेद्द्वोर इत्युक्तं रुद्रयामले ॥ ४ ॥
 रवी राहुस्तथा केतुस्तैश्चन्द्रे च समागते ।
 पापाणपातोऽपि भवेदित्युक्तं भानुयामले ॥ ५ ॥

इति राशितुम्बुरुचक्रम्

राजाओं की हितनामना से राशि तुम्बुरुचक्र को कह रहा हूँ । सूर्य, गुरु और बुध का योग तारकालिक चन्द्रमा से हो तो निश्चय ही जल गिरता है ऐसा विष्णुयामल में



कहा है । रवि, गुरु और शुक्र का योग चन्द्रमा से हो तो वायु चलती है । रवि, गुरु और शनि का योग चन्द्र से हो तो निश्चय ही अग्नि का भय होता है ऐसा गौरीजातक में कहा है । रवि, भौम और राहु चन्द्रमा से युत हों तो घोर लोहपात होता है ऐसा रुद्रयामल में कहा है । रवि, राहु और केतु चन्द्रमा से युत हों तो पाप गिरता है ऐसा सुयामल में कहा है ॥ १-५ ॥

इति राशितुम्बुरुचक्रम् ।

अथ नामसाधनम्

प्रथमे नवमे वेधो द्वितीये सप्तमे तथा ।
 तृतीये पञ्चमे वेधो राशौ पष्ठचतुर्थके ॥ १ ॥
 पञ्चमे पञ्चमे राशौ द्वेष्काणे च नवाशके ।
 पंक्तियुक्त्या लिखेद्वर्णान्सरययाऽष्टोत्तरं शतम् ॥ २ ॥
 सर्पाकारो भवेद्वेधस्तेन नामानि साधयेत् ॥ ३ ॥

इति नामसाधनम्

द्वेष्काण और नवांग में पहले और नवें का, दूमेरे और सातवें का, तीसरे और

पांचवें का, छठे और चौथे का वध होता है। इस प्रकार पांचवें पाचव राशि का वध होता है। पक्षि के घम से १०८ वर्षों को लिखने से सर्पाकार वध होता है इसमें नाम का साधन करना चाहिये ॥ १-३ ॥

(इसकी विषय व्याख्या भागे के नवें श्लोक में स्पष्ट की गई है)

अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि तत्कालेन्दुपरिस्फुटम् ।

येन विज्ञायते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ १ ॥

लाभालाभौ सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ।

जयं पराजयं सन्धिं समागमविनिर्णयः ॥ २ ॥

लूका चिन्ता तथा मुष्टी राजावस्थादिकौतुकम् ।

एतत्सर्वं तथा चान्यज्जायते च परिस्फुटम् ॥ ३ ॥

शिलातलेऽम्बुसशुद्धे वज्रलेपे समेऽथ वा ।

स्वयुद्ध्या समभूम्या वा स्फुरत्यत्र यथामतिः ॥ ४ ॥

क्रियते वलयाकारं चक्रं कर्कटकेन च ।

विभागः परिधौ पश्चात् क्रियते राशिमानतः ॥ ५ ॥

कुर्यात्तेषु समं भागं नवधा नवधा पुनः ।

एवं कृते भवन्तीह शतमष्टाधिकं शृङ्गाः ॥ ६ ॥

द्वादशारं भवेच्चक्रं मेपादिद्वादशान्वितम् ।

अस्वराद्याः स्वरा देया राशिवेधा भवन्त्यमी ॥ ७ ॥

प्रस्तारचक्रलिखितान् वर्णान् राशि नवांशकात् ।

अन्योन्यं वेधयेद्वर्णान् सुमती रज्जुरेग्वया ॥ ८ ॥

चक्ररचनाप्रकारमाह—शिलातलेति, ॥ ४ ॥

अन्य ताकालिक चन्द्र से स्पष्ट फल कह रहा हूँ जिससे त्रैलोक्य के धर भ्रष्ट पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। लाभ हानि, सुख दुःख, जीवित-मरण और जय पराजय, सन्धि-समागम का निर्णय, द्विपी टुहू चिन्ता, मुष्टि में स्थित द्रव्य का ज्ञान, राजा की अवस्था आदि कौतुक ये सभी तथा और भी पदार्थों का ज्ञान जिससे होता है। शिलातल या जल में शुद्ध अथवा वज्रलेप में समतलभूमि अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार समतल भूमि बनाकर कर्कटक (परकाण्ड) से वृत्ताकार चक्र का घातवें उसके परिधि का समान १२ भाग करें। फिर प्रत्येक भाग का नव समान भाग करें ऐसा करने से सब १०८ भाग हो जाता है। यह द्वादशारचक्र मेपादि १२ राशियों में युक्त होता है इसमें अर्ग आदि स्वर्णों को देने चाहिये जिससे राशियों का वेध होता

हे । इस प्रकार प्रस्तारचक्र में लिखे वर्ण, राशि नवाक्ष परस्पर वेध का विचार रज्जुरेखा स्वरूप करता चाहिये ॥ १-८ ॥

एरुद्विज्यादिकानंकोल्लिखेद्वर्णानपि क्रमात् ।
 प्रथमे नवमे वेधो द्वितीये सप्तमे तथा ॥ ९ ॥
 तृतीये पञ्चमे राशौ राशौ पठचतुर्थके ।
 पञ्चमे पञ्चमे राशौ द्वेष्काणे च नवाशंक ॥ १० ॥
 अजवृषमिथुनकुलीराः पञ्चमनवमैः सहेन्द्राद्याः ।
 त्रिकोणराशयः प्रोक्ता मेपसिंहहयादिभिः ॥ ११ ॥
 आद्य १ द्वि २ वह्नि ३ तुर्यां शा
 ४ नवा ९ ष्ट नग ७ प ६ णिमथः ।
 वेधयन्तत्रिकोणे तु पञ्चमं पञ्चमोऽशकः ॥ १२ ॥
 द्वेष्काणेऽप्यंशवेधोयं रज्जौ मुरजबन्धने ।
 तुम्बुरे तुम्बुरावर्ते विज्ञेयः स्वरपारगैः ॥ १३ ॥
 प्रथमेन तृतीयं तु तृतीयेनादिम तथा ।
 त्रिकोणेवेध्यतेऽन्योय द्वितीयं समसप्तके ॥ १४ ॥
 आत्यतृतीयौ द्वेष्काणौ वेधयन्तौ परस्परम् ।
 त्रिकोणे च द्वितीयोऽपि द्वितयं समसप्तके ॥ १५ ॥

नवाशवेधमाह—एरुद्विज्यादीति । अथ त्रिकोणवेधो नवाशवेध । यथा अज वृष मिथुन कुलीरा पचमनवमै सहेन्द्राणा । इति । प्रथमे नवमे वेध इति । यथा मेपस्य प्रथमनवमाशेन सिंहस्य नवमनवमाशेन रज्जुरेखया वेध प्रथम । ततो मेपस्य द्वितीयनवमाशेन सिंहस्याष्टमनवमाशेन वेध इति द्वितीये सप्तमे वेधार्थो भवति । यतो मेपस्य द्वितीयो वृष , सिंहस्याष्टमो शुद्धिक वृषात्मनमो भवति, नमसप्तकवेधोऽयम् । एव मेपस्य तृतीयाशो मिथुनस्तेन सिंहस्य सप्तमाशेन तुलया सह वेध । अनेन तृतीयपचमराशौ वेध सम्पन्नो भवति । यथा मिथुनराशे मन्नाशाचूला पचम, तुनात मिथुन नवम, अथ पचमनवमवेध एषं तृतीय पचमयथ उक्तः । एष मेपस्य चतुर्थाशो सिंहस्य पञ्चाशेन वेध अथ तृतीयैकादशवेध । पचमे पचमे राशाविति । यथा मेपस्य पचमोऽश सिंहस्तथा सिंहस्यापि पचम सिंह अनयोर्वेध स्ववेध । एष मेपराशे पञ्चाशादिभि क्रमेण सिंहराशे चतुर्थादि-

व्युत्क्रमेण वेध एव कृतेऽपि राशिनेध पचमपचम वेध सप्तमो भवति ।
अयमेव नवाशवेध । अयमेव द्रेष्काणवेध । यथैकस्मिन् राशौ द्रेष्काणास्त्रय
नव नवमाशाश्चेति प्रसिद्धम् । अत एकस्मिन् द्रेष्काणौ नवमाशास्त्रय ।
यथा मेपराशौ प्रथमद्वितीयतृतीयाशानाम् प्रथमद्रेष्काण, अत पचमराशौ
सिंहस्य सप्तमाष्टमनवमनवमाशास्तृतीय द्रेष्काण, अन्यो प्रथमे त्रमे
वेधो द्वितीये समसप्तके तथेति । आद्यतृतीयौ द्रेष्काणौ वेधयन्त परस्परमिति
द्रेष्काणवेध सम्पन्नो भवति अन्यत्स्पष्टम् ॥ ६-१४ ॥

चक्र मं १ । २ । ३ आदि अक और वर्ण विभागों में लिखकर वेध का विचार
कर । जिसमें प्रथम और नवम का वेध दूसरे सातवें का वेध । तीसरे पाँचवें का
और छठे चौथे राशि का एव नवांश का वेध होता है । प्रत्येक राशियों का दो वेध
होता है, त्रिकोण वेध और नवांश वेध । त्रिकोण वेध—मेप, वृष, मिथुन और बर्क
राशि अपने से पाँचवीं और नवें राशि के साथ पूर्वादि दिशा के स्वामी हैं (अजवृष
मिथुनकुलीरा पचमनवमै सहेन्द्राद्या) इति । अत मेप राशि से ५ वीं सिंह और
नवां धन राशि का वेध होता है । (प्रथमे नवमे वेध, पचमे च वेधः) यह सिद्ध
हुआ । नवाशवेध मेप के प्रथम नवांश स सिंह के नवम त्रयांश का घेर । मप के
द्वितीय और सिंह के आठवें नवांश का वेध अर्थात् मेप का द्वितीय नवांश राशि वृष
और सिंह का आठवां पृथ्विक राशि किन्तु वृष से पृथ्विक सातवीं राशि है अत दूसरे
सातवें वेध हुआ । एव मेप का तीसरा अश मिथुन का सिंह के सातवें अश तुला के
साथ—अर्थात् मिथुन से तुला पाँचवीं राशि है अतः (तृतीये पचमे) यह सिद्ध
हुआ । मेप के चौथे बर्क का सिंह के छठे दन्वा के साथ वेध यह चौथा पुन
वेध हुआ । १ । २ । ३ । ४ का क्रम से ९ । ८ । ७ । ६ अशों के साथ परस्पर वेध
होता है यह वेध परस्पर त्रिकोण पाचवें अश का होता है । द्रेष्काण में भी अश वेध
की ही तरह वेध होता है । यह वेध रज्जुवेध, मुरजवेध में तु-तुल्यक और तुम्बुराजर्क
में जानना चाहिये । प्रथम से तीसरे या और तीसरे का पहले से, दूसरे का सातवें के
साथ परस्पर त्रिकोण का वेध होता है । प्रथम और तृतीय द्रेष्काण का अपने त्रिकोण
के साथ और दूसरे सातवें का परस्पर द्रेष्काण वेध होगा है ॥ ९-१५ ॥

प्रथमः पञ्चदशमेऽन्योन्यं पञ्चमपूर्वयोः ।

नवमादिमयो राश्योस्तृतीयश्च त्रिंशतिः ॥ १६ ॥

द्वितीयैकोनविशौ च द्रेष्काणौ समसप्तके ।

द्रेष्काणान्धवेधोयं कथितश्चादियामले ॥ १७ ॥

द्रेष्काणवेधः पट्त्रिंशदष्टोत्तरगताक्षरैः ।

चन्द्रवेधेन विज्ञेय चौरनाम स्फुटं भवेत् ॥ १८ ॥

राजो मनः स्त्रीशयनासनेषु स्वप्नाद्यवस्था रसभोजनेषु ।
 नपुंसकस्त्रीपुरुषाभिघाते चौरस्य नष्टस्य च चित्तितस्य ॥१९॥
 मूकस्य मुष्टेर्हृदयस्थितस्य धात्वादियोनित्रितयस्य नाम ।
 परोक्षमन्त्रस्य महीपतीनां नामानि मुद्रालिखनस्य चापि ॥२०॥
 द्रेष्काणवृद्ध्या प्रवदन्ति नाम त्रिपंचसप्ताक्षरमोजराशौ ।
 तदन्यराशौ द्विचतुर्थपष्टे नामाक्षरं वै द्वितनौ द्विनाम ॥२१॥

प्रथम पचदशमेति—पूर्वं व्याख्यातम् । तथा मेपस्य सप्तमाष्टमनघम-
 नवमाशोर्धनराशेराद्यद्वितीयतृतीयद्रेष्काणा विध्यन्ते तदापि आद्यतृतीयौ
 द्रेष्काणौ वेधयन्त परस्परमित्यर्थ सम्पन्नो भवति । द्रेष्काणवेधघषेऽयं
 विधि । चतुर्णां राशीनां द्वादश द्रेष्काणा । प्रतिद्रेष्काणे त्रयस्त्रय एव पट्टिंश
 दक्षराणि भवन्ति । तच्च नवाशवर्णेश्चतुश्चतु कृत्वा अश्विन्यादिषु चतुश्चरणेषु
 दत्ता प्रस्तारचक्रेषु १५६ पृष्टेषु दत्तास्तत्रैव द्रष्टव्या । तैर्वर्णैः नाम साधये
 शीराणामन्यत्स्पष्टम् ॥ १६-२१ ॥

पहले और १५ वें द्रेष्काण का अर्धात् पांचवीं राशि और पहली राशि के द्रेष्काण
 नवमाशा का वेध होता है । इसी प्रकार तीसरा और प्रथम राशि के तिसरे और २३ वें
 अक्ष तथा द्रेष्काण का वेध होता है । दूसरे और १९ वें द्रेष्काण और ११वांश का
 परस्पर मम सातवें का वेध होता है । यहा ऐसा समझना चाहिये । जैसे प्रत्येक
 राशि म नव ९ नवमाश और ३ द्रेष्काण होता है । अर्थात् एक द्रेष्काण में ३
 नवमाश हात है । वेध प्रक्रिया जो पूर्व में कहे हैं (प्रथमे नवमे वेधो द्वितीये मममे
 तथा । तृतीये पचमे राशावित्यादि प्रकार से वेध विधि से लेने से उक्त अर्थ मगत
 होता है । जैसे मेप राशिका प्रथम ३ नवमांश का प्रथम द्रेष्काण और पांचवीं राशि
 सिंह का अंतिम नवमांश । ७ । ८ । ९ तृतीय द्रेष्काण हुआ इससे यदि परस्पर
 वेध क्रिया जाय तो प्रथम और तृतीय द्रेष्काण और प्रथम और १५ वें अक्ष का वेध
 तथा पाँचवें और पहले का परस्पर वेध होता है इसकी मगति हो जाती है । तथा
 मेप क ७ वें, ८ वें, ९ वें नवमांश का तृतीय द्रेष्काण हुआ और घन राशि का
 प्रथम, द्वितीय और तृतीय नवमाश का प्रथम द्रेष्काण हुआ इनका परस्पर वेध
 होने म भी प्रथम तृतीय द्रेष्काण का वेध होता है और प्रथम तथा ११वम राशि का
 तीसरा और २३ वें अक्ष का वेध होता है यह अर्थ टीक हो आता है । इसी प्रकार
 मेप राशि ४ । ५ । ६ वें नवमांशों का द्वितीय द्रेष्काण और हममे सातवीं तुला
 राशि का ४ । ५ । ६ ११वांश भी उस राशि का दूसरा द्रेष्काण हुआ हममें मम
 से मेप के ४ ये नवांश मे तुला के ६ वें ११वांश का वेध, मेप के ५ वें मे तुला के
 पूर्व का वेध होता है इससे २रे द्रेष्काण से सातवीं राशि के मम अर्थात् दूसरे

द्रेष्काण का वेध (द्वितीये समसप्तकौ) तथा (द्वितीयैकोनविंशौ घ) नवांश वेध भी हो जाता है । अथवा चारह राशियों के १०८ नवांश के घों का एक मीघे रेखा में क्रम से लिखकर, प्रथम नवम आदि का वेध की रीति से वेध रेखा खींचे तो रज्जु के समान आकार हो जायगा । इस प्रकार नवांश और द्रेष्काण का वेध दोनों मिलाकर मुरजवेध हो जाता है । चर्म की रस्सी को मुरज कहते हैं । यह द्रेष्काण वेध का वेध आदि यामल म कहा हुआ है । द्रेष्काण का वेध ३६ द्रेष्काणों और १०८ अक्षरों का होता है । चन्द्रमा के वेध के अनुसार स्पष्ट चौर का नाम ज्ञान होता है । राजा के मन, स्त्री, शयन, आसरा, स्वप्नादि अवस्था क धानपन में रस और भोजन के पदार्थों के नाम, नपुसक, स्त्री, पुरुष के ज्ञान म, घौर, गट वस्तु की चिंता में, मूक प्रग्ग, मुष्टि प्ररन, हृदयगत घात की, धातु आदि त्रिपो त्रियों के नाम, राजाओं के परोक्ष में मलाह के विषय में मुद्रा के लिखने वाले के नाम क ज्ञान म इस विधि का प्रयोग करना । विषम राशि के अज्ञ और द्रेष्काण में चन्द्रमा हो तो द्रेष्काण वृद्धि के अनुसार ३, ५, ७ अक्षर का नाम । अथात् विषम राशि के विषम नवांश विषम द्रेष्काण में चन्द्रमा हो तो क्रम से प्रथम द्रेष्काण में ३ अक्षर का, २ रे द्रेष्काण म ५ अक्षर का ३ रे द्रेष्काण में हो तो ७ अक्षर का नाम होता है । इससे त्रिपरीत समराशि के समनवांश और द्रेष्काण म चन्द्रमा हो तो प्रथम द्रेष्काण में २ अक्षर, २ रे द्रेष्काण म चार अक्षर और तीसर द्रेष्काण में ६ अक्षर का नाम और द्विस्वभाव राशि क नवांश द्रेष्काण में चन्द्र हो तो दो नाम होता है ॥ १६-२१ ॥

वर्गोत्तमात्मीयनवाशाराशौ नवांशनाथे द्विगुणो द्वि वर्णः ।
 चक्रोच्चसस्थे त्रिगुणो ग्रहस्य त्रिघ्नोऽसकृद्विद्विगुणत्वप्राप्ते ॥२२॥
 नीचास्तसस्थस्य नवाशपस्य वर्णस्य लाभेऽपि वर्दन्ति हानिम् ।
 नामादिवर्णोः परिपाटिलब्धैस्त्रि ३ पंच ५ सप्त ७ द्वि २ चतुर्थ ४ षष्टी ६
 द्व्यक्षरं समचरांशकोदये व्यक्षर द्विपमराशिसस्थिते । -
 नाम चास्य चतुरक्षरस्थिरे निश्चयादसमके षडक्षरम् ॥२४॥
 आद्ये द्वितीये त्रिचतुःपदेषु वर्णाः क्रमेणैव नियोजनीया ।
 विलग्नतोयास्तनभःस्थलेभ्यः प्राप्ता यथानामनि दैवचिह्नः ॥२५॥

वर्गोत्तमेति—स्वनरागे म्यगृहे वर्गोत्तमे च नवाशाराथे ये ये नवाशवर्णा प्राप्राप्तोषा वर्णाना द्विगुणत्व कार्यम् । यथा मेपस्य प्रथमरागो चन्द्रस्तेन चन्द्रेण सिंहम्यान्तिमनयाशवर्णा वेधित । नेनैव धनरागेरनिमात्प्रयो वर्णा वेधिता एव वेधेन कतरा वर्णा प्राप्ता । यदि भौमो वर्गोत्तमाग्निभूषे

यत्र कुत्रापि राशौ तदा ककारद्वय प्राप्तम् । एव गुरुतस्ततो बुधादपि ज्ञेय ।
 अन्यत् स्पष्टम् । ओजराशीना द्रेष्काणनवाशे यदि चन्द्रस्तदा द्रेष्काण
 वृद्ध्या नामाक्षरसख्या भवति । अर्थात् मेपमिथुनसिंहानीना विपमाणा
 तद्द्रेष्काणनवाशे यदि चन्द्रस्तदा त्रिपञ्चमप्राक्षर नाम भवति । तथा द्रेष्काण
 वृद्धि यथा प्रथमद्रेष्काणे त्र्यक्षर नाम भवति । द्वितीये पञ्चाक्षर तृतीये
 सप्ताक्षरमिति । तदन्यराशौ द्विचतुर्थपष्टाक्षर नाम । द्रेष्काणवृद्धिस्तु
 समराशिद्रेष्काणनवाशे चन्द्रस्तदा प्रथमद्रेष्काणे द्व्यक्षर नाम द्वितीय
 द्रेष्काणे चतुरक्षर नाम तृतीये षडक्षर नाम । द्वितनौ द्विनामत्रिपये द्विस्वभाव-
 द्रेष्काणनवाशे चन्द्रे द्विनाम चौरस्य । समे द्वितनौ द्विनाम । यथा विपमे
 द्वितनौ विपमाक्षरैरेव अर्थात् विपमे राशौ प्रथमद्रेष्काणे त्र्यक्षर द्विनाम ।
 द्वितीये पञ्चाक्षर द्विनाम । एव तृतीये द्रेष्काणे सप्ताक्षर द्विनाम । एव
 समराशौ प्रथमे द्रेष्काणे द्व्यक्षर द्वितीये चतुरक्षर तथा तृतीये द्रेष्काणे षडक्षर
 द्विनामेति । षष्ठा परिपाटी । आद्येति । पितृप्राप्तात्कालिकलप्राप्तो प्रथमवर्ण
 प्राप्त सवर्ण नाम्नि प्रथमे योज्य । यश्चतुर्थाच्चतुर्थभागात्प्राप्त स द्वितीय
 स्थाने, य सप्तमात्प्राप्तस्तत्तृतीयस्थाने योज्य, एव य दशमभावात्प्राप्तस्त
 चतुर्थे द्विशुणा त्रिगुणा वा वर्णा देशविशेषेण नामस्तु योजयेत् ॥ २२-२५ ॥

यदि नवांश के स्वामी वर्गोत्तम नवांश या अपने नवांश राशि म हो तो द्विगुणित
 वर्ण नाम में लेना चाहिये । यदि वक्त्री या उच्च राशि में हो तो तिगुना वर्ण लेना
 चाहिये । यदि द्विगुण त्रिगुण दोनों प्राप्त हो तो तिगुना ही लेना चाहिये । जैसे मेप
 राशि के प्रथम नवांश में है तो द्रेष्काण बंध के अनुसार सिंह राशि के अन्तिम तीन
 नवांशों को वेध करता है वेध स फलट ये तीन नवांश वर्ण प्राप्त हुये । यदि नवांश
 स्वामी भीम किसी राशि में वर्गोत्तमादि में हा तो दो, ककार प्राप्त हुआ हुआ भाति
 अन्यत्र भी समझना । यदि नवांशोद नीच राशि म या अस्तगत हो तो वर्ण प्राप्त
 होते हुये भी वर्ण की हाति कहना । गामादि म परिपाटी के अनुसार ६, ५, ७, २,
 ४, ६ प्राप्त होते है । यदि समराशि म चर राशि का नवांश हो तो दो अक्षर का
 नाम । विपम राशि में चर नवांश हो तो तीन अक्षर का, सम राशि में स्थिर नवांश
 हो तो चार अक्षर का, स्थिर राशि में सम नवांश हो तो ६ अक्षर का नाम होता
 है । इसी प्रकार द्विस्वभाव राशि यदि विपम हो चर नवांश हो तो पांच अक्षर का
 दो नाम, यदि समराशि हा और विपमनवांश हो चार अक्षर का दो नाम, विपम
 द्विस्वभाव राशि हो और समनवांश हो तो ६ अक्षर का दो नाम हुना है । एत
 से जो वर्ण प्राप्त हो उमे नाम के प्रथम में, चौथ स्थान से जो वर्ण प्राप्त हो उमे
 दूसरे स्थान म अर्थात् गाम का दूसरा अक्षर, मातर्वे से जो वर्ण प्राप्त हो उमे
 तीसरा अक्षर और द्गाम से जो प्राप्त हो उमे चौथा अक्षर व्यवस्था करना
 चाहिये ॥ २२-२५ ॥

१ अश्विन्यादीन्दुमुक्तानि भानि पष्टिहतानि च ।
 स्वमुक्तनाडीसयुक्तं द्विघ्न नन्दयुतं त्रिधा ।
 दिनेन्दोर्भुक्तभागादि जायते चेष्टकालिका ॥ १ ॥
 दिनेन्दुमुक्तभागादि जायते चेष्टकालिकः ।
 उदयादिष्टनाट्यस्तु पङ्गुणास्तत्र योजयेत् ।
 त्रिंशद्भागपराश्यादिश्चन्द्रस्तत्कालसम्भवः ॥ २ ॥
 शशाङ्कवत्सर्वखेटान् कुर्यात्तत्कालसम्भवान् ।
 तत्कालराशिनक्षत्रे द्रेष्काणे च नवाशके ॥ ३ ॥

अश्विन्यादीन्दुमुक्तानीति । इष्टममये अश्विनीत यावति चन्द्रेण भुक्तानि
 भानि नक्षत्राणि भवति तस्मिन्त्या पष्टिहतानि पष्ट्या गुणितानि कार्याणि ।
 स्वमुक्तनाडीसयुक्तम् इष्टघटीपर्यन्त वर्तमाननक्षत्रस्य यावत्यो भुक्तघटिका
 अर्थात् (भयातम्) ताभिर्घटिकाभिर्युक्तानि विधेयानि योगफल द्विघ्न
 द्विगुणित नदेन इत त्रिधा फल ग्राह्यम् दिनन्दो तत्कालचन्द्रस्य इष्टकालिका
 भुक्ताशादिक जायते । उदयादिष्टनाट्यस्तु इति । सूर्योदयात् प्रदनकालपर्यन्त
 यावत्यो घटिकास्ता उदयादिष्टघट्यस्ता पङ्गुणा पटगुणिता गुणनफल
 पूर्वोक्तत्रिफले प्रथमस्थाने योजयेत् । त्रिंशता भक्ते राश्यादिकस्तत्कालचन्द्रो
 भवति अन्यत्स्पष्टम् ॥ १-३ ॥

प्ररा के समय चन्द्रमा के भुक्त नक्षत्र की सख्या को ६० से गुण कर उसमें
 वर्तमान नक्षत्र के भयात को जोड़कर दूना करके ९ से भाग देवे और तीन गण्डि
 अक्ष, फला, विरला एवमे तात्कालिक चन्द्रमा का भक्त, कला, विरला होता है ।
 सूर्योदय से जो इष्ट घटी हो उसे ६ से गुण कर अक्ष स्थान में जोड़कर ३० से भाग
 देवे से तात्कालिक चन्द्रमा का राश्यादि न्याय होता है । चन्द्रमा के ही तरह सभी
 ग्रहों को तात्कालिक न्याय करके क्योंकि तात्कालिक राशि, नक्षत्र, नैष्ठिक और
 न्याय की आवश्यकता होती है ॥ १-३ ॥

उदाहरण—संवत् २०१० वैशाख शुक्ल ४ तारिखार को १२ दृढ़ पर प्ररा हुआ ।
 उक्त दिन गृहशिरा नक्षत्र १८ दृढ़ है । भयात ५४ दृढ़ है और चन्द्र के भुक्त नक्षत्र
 की मलया ४ इसको ६० से गुणने से फल २४० नक्षत्र की भुक्त घटी ५४ आंशों
 से २९४ हुआ इसको ९ से गुण दिया ५८८ हुआ इसमें ९ से भाग देने से कम
 में भक्त, कला, विरला लब्धि हुई ६५।२०'।०" इसमें प्रथम स्थान में ६ से
 गुणकर इष्ट घटी १२ को जोड़ देने से १३०'।२०'।०" हुआ इसमें ३० का

भाग देने से ४" । १७ । २०' । ० यह राश्यादि तात्कालिक चन्द्रमा हुआ । इसी प्रकार ने अन्य ग्रहों का भी साधन करना चाहिये ।

एताश्च द्वादशावस्था शशाङ्कस्य दिने दिने ।
 शुभाशुभेषु कार्येषु फल नामानुसारतः ॥ ४ ॥
 यथोत्तरचलाऽवस्था राशिद्वेष्काणजाशकाः ।
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भागावस्थां निरीक्षयेत् ॥ ५ ॥
 नवाशका अमी भव्या ह्यकर्कितुलाघ्नपाः ।
 वृषसिंहोद्भवा मध्याः शेषाः स्युर्मृत्युदायकाः ॥ ६ ॥
 स्वक्षेत्रे स्वांशकावस्था शुभदृष्टोऽथवा युता ।
 शुभमध्यगतश्चन्द्रः सर्वकार्येषु शोभनः ॥ ७ ॥
 शत्रुक्षेत्रांशनीचस्यः क्रूरदृष्टोऽथवा युतः ।
 क्रूरमध्यगतश्चन्द्रः स च हानिकरः स्मृतः ॥ ८ ॥
 लग्नाम्नुसप्तमध्यस्थो भवेत्क्रूरग्रहो विधोः ।
 आत्मनो बन्धुवर्गस्य जायायाः कर्मणः क्रमात् ।
 विनाशो जायते शीघ्र तद्वेलाकर्मकारकः ॥ ९ ॥
 एवं शुभग्रहश्चन्द्राद्यदा भवति केन्द्रगः ।
 आत्मबन्धुकलत्राणां कर्मणश्च तदा जयः ॥ १० ॥
 पष्ठा ६ ष्ट ८ मांश १२ गाः सौम्याः
 पापाः केन्द्रान्त्यवित्तगाः ॥ १ ॥ ४ । ७ । १० । १२ । २ ॥
 चन्द्रात्प्रयत्नतस्त्याज्या अन्यत्रैव तु शोभनाः ॥ ११ ॥

इस प्रकार से चन्द्रमा की १२ अवस्था प्रतिदिन याकर उनके नाम के अनुसार शुभ अशुभ कार्यों में फल का विचार करना चाहिये । यथाक्रम से अवस्था

१ इतोऽग्रे प्रयातरे तु—

पष्ठिन् चन्द्रमद्य तस्मालघटिकान्वितम् ।

वेदमिपुवेदासमवस्था-नानुभाजिता ॥

प्रशामनाशौ मरण जपश्चहास्यारतिभीडितमुत्तुष्टा ।

उपराक्षयपरिधरता लवस्था मेपात्क्रामाक्षानमदवपग्य स्युः ॥

इत्यधिक पाठ ।

बलवान् होती है राशि द्रेष्काण और नवाश के क्रम से। इसलिये चन्द्रमा के अन्त से अवस्था का विचार अवश्य करना चाहिये। धन, बर्क, तुला और मीन का मार्गस श्रेष्ठ रूप, सिंह का मध्यम और शेष नवमास अशुभ होत हैं। यदि चन्द्रमा स्वघ्न, स्वनावमास में हो शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युत हो तो अवस्था शुभद्र होती है यदि शुभग्रह के मध्य में चन्द्रमा हो तो सभी कार्यों में शुभद्र होता है। यदि शत्रु के गृह में या नवमास में हो, क्रूर ग्रह से दृष्ट वा युत हो, क्रूर ग्रह के मध्य में हो तो चन्द्रमा की अवस्था हाणिकर होती है। यदि चन्द्रमा में १।४।७।१० स्थान में क्रूर ग्रह होवे तो क्रम से अपना या उस समय (प्रश्न के समय) जो अपना कार्य करता हो, शत्रु वर्ग का, स्त्रियों का तथा उनके काम करने वालों का और कर्म का नाश होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा से केन्द्र में शुभग्रह हो तो क्रम से अपने को, स्त्री को, शत्रुगणों को और कर्म में वृद्धि होती है। चन्द्रमा से ६।८।१२ स्थान में शुभग्रह और पाप ग्रह १।४।७।१०।१२।२ में हों तो नम दिन प्रदान कर कोई कार्य न करे इससे भिन्न स्थान में ग्रह हों तो शुभ फल होता है ॥ ४-११ ॥

चरराज्यंशके चन्द्रे यात्रा भवति निश्चितम् ।

स्थिरेषु तु भवेन्नैव द्विःस्वभावे विलम्बता ॥ १० ॥

नवांशकक्रमेणैव ज्ञेया अक्षरजा ग्रहाः ।

तैश्च चन्द्राक्षरं विद्धं रज्जुवेधे निरीक्षयेत् ॥ ११ ॥

राशिद्रेष्काणधिष्ण्येऽशे यस्य यस्याक्षरे स्थितिः ।

तस्य तस्य फलं वक्ष्ये शशिना रज्जुवेधतः ॥ १४ ॥

राशितोऽत्र दिशो ज्ञेया नक्षत्रात्स्थाननिर्णयः ।

द्रेष्काणैस्तस्करा ज्ञेया द्रव्यनाम नवांशकात् ॥ १५ ॥

मूलमाशेषपितृभे द्विदैवतयमाह्वयम् ।

पूर्वात्रयं च नवरुमधोमुखमिदं स्मृतम् ॥ १६ ॥

पुण्यार्द्रा श्रवणो ब्राह्म वस्तुभं शतमं तथा ।

उत्तरात्रितयं चैव व्योमास्य नवरु त्विदम् ॥ १७ ॥

पुनर्वसुर्मृगशिरः सार्षपदैवतकं तथा ।

हस्तादीनि षडक्षणि तिर्यक्पठयन्ति सर्पदा ॥ १८ ॥

कृष्णः पुमान् रक्तनद्यो रौद्रः परशुशत्रुभृत् ।

प्रथमः स्त्री दीर्घमुग्धी लोहिताम्बरधारिणी ।

स्थूलोदरैकपादा च द्वितीयः समुदाहृतः ॥ १९ ॥

मेपस्य पुरुषः क्रूरः कपिलो वसुरूपधृक् ।

दण्डहस्ता तृतीयस्तु द्रेष्काणः कथितो बुधैः ॥ २० ॥

कुञ्चितः कचकेशा स्त्री स्थूलोदरसमन्विता ।

दीर्घपादा वृषस्यायो द्वितीयः पुरुषाकृतिः ॥ २१ ॥

कलाविद्वेदशकटकर्मणा कुशली स्मृतः ।

वृहत्कायस्तृतीयस्तु वृहत्पादो नरः स्मृतः ॥ २२ ॥

स्त्रीरूपं मिथुनस्यायो रूपयौवनशालिनी ।

नित्यं रजस्वला बन्ध्यालङ्कारेण कृतादरा ॥ २३ ॥

उद्यानस्थः पुमान् धन्वी द्वितीयः रुच्यो स्मृतः ।

पुमान्स्तृतीयो धन्वी च रत्नभूषणभूषितः ॥ २४ ॥

कर्कायः पुरुषो हस्ती सूकरस्य सुखः स्मृतः ।

मध्यस्त्री यौवनोपेता सामर्षारण्यसंस्थिता ॥ २५ ॥

मर्षास्यश्च तृतीयस्तु पुरुषः मर्षचेष्टितः ।

सुवर्णाभरणो नैस्थद्रेष्काणः कथितो बुधैः ॥ २६ ॥

सिंहायः श्वा जम्बुकास्यो गृध्रास्यो शाल्मलीतरौ ।

द्वितीयः पुरुषो धन्वी नतनास स्मृतो बुधैः ॥

नरकूर्ची तृतीयस्तु चण्डकुञ्चितमूर्धजः ॥ २७ ॥

गुरोः कुल वाञ्छति रुन्यका स्त्री कन्या हकाणः प्रथमः प्रदिष्टः ।

पुष्यप्रपूर्णेन घटेन पिष्ट्वा नीलाम्बरैवं मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ २८ ॥

श्यामो द्वितीयः पुन्यो हकाणो विस्तीर्णवस्त्रो धृतलेखनीकः ।


धन्वी तृतीयो युगतिस्तु गौरी देवालये कुम्भदुकूलहस्ता ॥

तौली तुलाया पुरुषो हकाणो वीथ्यापणस्थः पुन्यो द्वितीयः ।

कुम्भः करे गृध्रसुखो विभर्ति कन्दर्पमूर्तिं पुरुषस्तृतीयः ॥ ३० ॥

प्रश्नसमय यदि चन्द्रमा चर राशि और चरण में हो तो निश्चय ही यात्रा होती है । स्थिर राशि स्थिरांग में हो तो यात्रा नहीं होती है और द्विस्वभाव राशि तथा इसके अन्त में हो तो यात्रा विलम्ब से होती है । नयांश के कम से अक्षरस्य ग्रह

को जानकर उसमें रज्जुबंध में चन्द्राक्षर के घघ का विचार करता। जिस राशि के द्रेष्काण, नवमांश चक्षत्र में जिसमें २ अक्षर में उसके स्थितिवशा रज्जुबंध से चक्षत्र का कल होता है। राशि से दिशा का ज्ञान, नक्षत्र से स्थान का निर्णय, द्रेष्काण से चौर का और नवमांश से प्रह्व का निर्णय होता है। मूल, वृत्तिका, मघा, विशाखा, भरणी, शल्पा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ और पूर्वाभाद्र पद ये ९ चक्षत्र अधोमुख हैं। पुष्य, आर्द्रा, ध्रुवण, राहिणी, घण्टा, क्षतभिष, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ और उत्तराभाद्रपद इन ९ चक्षत्रों का ऊपर को मुख है। पुनर्वसु, मृगशिरा, धनिनी, हस्त, चित्रा, स्वामी, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती इन ९ नक्षत्रों की तिर्यक् स्थिति है।



मेष के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप—काले वन का पुरुष, रणभेद, भीषण आहृति, कर्मा को धारण करने वाला। मूरे द्रेष्काण का स्वरूप—लम्ब मुग की की, काले घन को धारण करने वाली, चपे पट और एक धारण से मज्जुत। मघ के तीसरे द्रेष्काण का स्वरूप—दूर पुरुष, कठिन वन कनेक रूप का धारण करने वाला, और हाथ में दूट की लिये दूमे। घृष के तीनों द्रेष्काण के स्वरूप—देद गिर के गड वाली ग्री, लम्बे पटवाली, बड़ पैर वाली घृष के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप

है। कला को जाननेवाला, वेद, गाड़ी आदि के काम में कुशल, पुरुष दूसरे द्रेष्काण में और तीसरे में बड़े शरीर का पुरुष बड़े पैर वाला होता है। मिथुन के तीनों द्रेष्काणों का स्वरूप प्रथम में स्त्री रूपवती यौवन से युक्त, निम्न रजस्वला, धप्या और अलम्बन से युक्त होती है। दूसरे में पुरुष धनुष को लिये हुए यमीचे में रहने वाला। तीसरे में पुरुष धनुष को लिये हुये रत्न आभूषण को लिये हुए। कर्क के तीनों द्रेष्काण का स्वरूप—पहले में पुरुष सूकर (सूअर) के समान मुप वाला, दूसरे में स्त्री, युवावस्था, कलह के कारण जगल में रहने वाली, तीसरे में पुरुष सर्प के समान मुपवाला सर्प ही के समान चेष्टावाला, सुवर्ण के आभूषण से युक्त, नाव पर रहने वाला होता है। सिंह के तीनों द्रेष्काण का स्वरूप—प्रथम में कुत्ते या सियार अथवा गिद्ध के समान मुख, सेमर के पेड़ के पास रहने वाला होता है। दूसरे में पुरुष धनुष लिये हुये नग्न नाकजाला, तीसरे में कूँचा लिये हुये पुरुष टेढ़े शिर के बाल वाला। कन्या के तीनों द्रेष्काण के स्वरूप—प्रथम में गुरु के कुल को चाहने वाली कन्या पुष्प से भरे हुये घड़े से पीसकर नील रंग के वस्त्र को पहिने वाली। दूसरे में—श्याम वर्ण का पुरुष बड़े वस्त्र को धारण कर लेगनी (कलम) को लिये हुए। तीसरे में, धनुष को लिये हुये स्त्री, युवा अवस्था वाली गौरी के मंदिर में घषा और वस्त्र के साथ जानेवाली। तुला के तीनों द्रेष्काणों का स्वरूप—प्रथम पुरुष तराजू लिये हुये, दूसरे में पुरुष माग में व्यापार को करनेवाला, तिसरे में हाथ में घडा लिये हुए गिद्ध के समान मुखवाला, कामदेव के समान शरीर शोभा वाला होता है ॥ १२-३० ॥

स्थानच्युता सर्पनिबद्धपाला कान्ता विवस्त्रा प्रथमो दृकाणः ।

कीटस्य मध्ये युवती सुरूपा भर्तृक्षता सर्पशरीरयष्टिः ॥

सा वाद्यति स्थानसुखं तृतीये एता दृकाणश्चिपिटास्ययुक्तः ॥

धनुषः पुरुषो धन्वी प्रथमः स्याद् द्वितीयकः ।

गौरवर्णास्तृतीयस्तु दण्डी कूर्ची वृहत्पुमान् ॥ ३२ ॥

मृगादिभो रोमशगात्रयष्टिः स्थूलद्विजो रौद्रमुखो धनुष्मान् ।

द्वितीयकः श्यामललोहवर्णालङ्कारयुक्ता युवतिर्दृकाणः ॥

तृतीयकस्तस्य पुमान् सतृणो धन्वी तथा दीर्घमुखः प्रदिष्टः ॥

कुम्भाद्यः पुरुषो गृध्रतुल्यवक्त्र. सकम्बल ।

मध्यो रक्ताम्बरा जाया श्यामान्त्यो रोमकर्णधृक् ॥ ३४ ॥

मीनायः पुरुषो नैस्थो गौराङ्गी वरस्थिता ।

द्वपस्तृतीय. पुरुषो नग्नः सर्पावृताङ्कः ॥ ३५ ॥

इत्यादि स्वयमप्यूह्यं द्रव्यनाम नवांशकात् ।
 ग्रहदृष्टिवशाद्गर्णाः संख्या भुक्तिप्रमाणतः ॥ ३६ ॥
 जीवज्ञशशिभिर्जीवं धातुपातार्किभूसुतैः ।
 मूलमादित्यशुक्राभ्यां मिश्रैर्मिश्रं विनिर्दिशेत् ॥ ३७ ॥
 इति चन्द्रे ग्रहदृष्टे कार्यो द्रव्यस्य निर्णयः ।
 यलाधिकेन निर्देशः कर्तव्यो मिश्रिते ग्रहे ॥ ३८ ॥
 सजीवं जीवचन्द्राभ्यां निर्जीवं बुधवीक्षणात् ।
 धाम्याधाम्यं क्रमाद्विद्याद्वातु पातार्किभूसुतैः ॥ ३९ ॥
 मूलमादित्यशुक्राभ्यां शुक्राशुक्रक्रमेण च ।
 मिश्रं मिश्रैर्वदेद् द्रव्यं तत्कालेन्दुनिरीक्षणात् ॥ ४० ॥

पिना घरप्र के नान स्त्री सर्प को लपेट स्थान से द्युत घुरिघक के प्रथम द्रेष्कान
 में—दूसरे म रूपवती स्त्री, पति से ताडित, सर्प के समान शरीर वाली । तीसरे में
 चिपटे मुण्ठ वाली स्त्री स्थान सुख को चाहने वाली । घन के द्रेष्कानों का स्वरूप—
 प्रथम में धनुष लिये हुए पुरुष, दूसरे में गौरवर्ण का पुरुष तीसरे में दृढ़ और दृष्टा को
 लिये हुये लवे कद का पुरुष । मर के द्रेष्कानों का स्वरूप—प्रथम में रोने स मुक्त
 शरीर वाला लक्ष्मी को लिये हुए, मोटे दांभों वाला, भयकर मुण्ठ वाला पुरुष धनुष
 लिये हुये, दूसरे में श्याम लाहवर्ण क आभूषण को धारण किये हुए युवती, तीसरे
 में धनुष बाण को लिये हुए लम्बे मुण्ठ वाला पुरुष । बुध के द्रेष्कानों का स्वरूप—
 प्रथम में गिद्ध के समान मुण्ठवाला, कम्बल को लिये हुए पुरुष दूसरे में—मर्णांग,
 रक्तवस्त्र को धारण किये हुए स्त्री । श्यामवर्ण, कानों में रोम से युक्त स्त्री, तीसरे में
 होती है । मीन के द्रेष्कानों का स्वरूप—प्रथम में नीला पर बैंग पुरुष, दूसरे में
 गौर वर्ण की स्त्री, तीसरे में नान पुरुष सर्प को लपेटे हुए । नवांश में द्रव्य का नाम
 और ग्रह दृष्टि के अनुसार घन, पक्षपाद-दृष्टि म पक्ष घन, द्विपाद में दो घर्ण, त्रिपाद में
 तीन घर्ण और ४ पाद में ४ घर्ण, ग्रह क भुक्ति के अनुसार मण्डला कहना । गुरु पुरुष,
 चन्द्रमा से जीव, राहु, शनि, नीम से धानु और सूर्य, शुक्र से मूत्र पदार्थ और
 मिश्रित ग्रह से मिर्छा हुई वस्तु कहना । हम प्रकार चन्द्रमा क ऊपर ग्रहों की दृष्टि
 के अनुसार द्रव्य का निर्णय करना, मिश्रित ग्रहों में या बलवान हो नमम द्रव्य का
 निरघव करना । गुरु चन्द्रमा की दृष्टि में मज्जीव घणु, पुष की दृष्टि में निर्जीव पशु,
 और राहु, शनि, नीम से धाम्य, जघाम्य धातु को कहना । सूर्य शुक्र से शुभ्र मूत्र
 और हरा मूत्र कहना, मिश्रित ग्रहों से देने जाने हुए चन्द्र को मिश्रित द्रव्य
 कहना ॥ ३१-४० ॥

द्विपदः स्त्री तुलायुग्मे ६।७।३

चापे ९ कुम्भे ११ पदोनितः ॥

बह्वंघ्री मीन १२ कर्का ४ ली ८

शेषेष्विदौ चतुष्पदः ॥ ४१ ॥

चतुर्धा द्विपदा ज्ञेया देवनृत्यक्षराक्षसाः ।

एवं मेपादिके चन्द्रे ज्ञातव्यं च भ्रमत्रये ॥ ४२ ॥

मेपसिंहहये देवा वृषस्त्रीमकरे नराः ।

नृत्युकूलघटे यक्षाः कर्कालिङ्गपमे सुराः ॥ ४३ ॥

अपदानेरुपादाश्च द्विधा स्थलजलोद्भवाः ।

ते च राशिस्वभावेन ज्ञातव्या ये त्रगाः पशोः ॥ ४४ ॥

हेमं तार च ताम्रं च वङ्गं नागारलोहकम् ।

रंगं कांस्यं च विज्ञेयं नवांशरुक्रमेण च ॥

गुल्मबल्ली तथा कंदं मेपाद्येकैकसंस्थिते ॥ ४५ ॥

पत्र पुष्प फलं मूलं त्वच त्रिशांशके विधौ ।

जातिविप्राधिकारी स्त्री अन्त्यजास्तस्कराः क्रमात् ॥ ४६ ॥

सूर्यादिगृहगे चन्द्रे चिन्तितः पुरुषो भवेत् ।

सूर्यादिवेश्मगे चन्द्रे कुष्ठं लांछनलोहकम् ॥ ४७ ॥

मशकं तिलकस्फोटं चौरस्य च विनिर्दिशेत् ।

गौरोऽतिगौरः श्यामश्च कृष्णां मर्कटसन्निभः ॥ ४८ ॥

चन्द्रे त्रिशांशका वर्णा मानवानां विलोमतः ।

ग्रहदृष्टिकृता वर्णास्ते च वर्णाः पुरोदिताः ॥

ज्ञातव्याः सर्ववस्तूनां मुष्टौ वा चिन्तितेपि वा ॥ ४९ ॥

इति वेधतुम्बुरावर्ते द्रेष्णाणादिज्ञानम् ।

द्विपदा इति । स्पष्टम् ॥ ४१-४६ ॥

साकाशिर षट्त्रया कन्या, तुला और मिथुन के नवांश में हो तो द्विपद जीव, घन और कुम्भ को नवांश में हो तो घटग से हीन मीन, कर्क और शुक्र

के नवांश में हो तो बहुत धरण वाला जीव शेष नवांशों में चन्द्रमा हो तो धार पैर वाला जीव होता है। द्विपद देवता, मनुष्य, यक्ष और राक्षस चार प्रकार के होते हैं इस प्रकार मेवादि राक्षियों में चन्द्रमा के भ्रम से द्रुका ज्ञान होता है। मेघ, सिंह, धन में देवता, गृध्र, कन्या, मकर में मनुष्य, मिथुन, गुला और पुन में यक्ष, कर्क, घृश्चिक, मीन में देवता को जानना। बिना पैर के धीर अनेक पैर के दो प्रकार के स्थल और जल के जीव होते हैं, यह राक्षि के श्यमाप के अनुसार जहाँ का पशु हो उसे जानना। सुवर्ण, चाँदी, तामा, चग, नाग और छोहा, रांगा, कौमा यह ऋषाक्ष के क्रम से जानना। मेपादि एक एक राक्षियों का क्रम से गुण, ब्रह्मी, यक्ष का ज्ञान करना। पत्र, पुष्प, फल, मूल, खचा चन्द्रमा के त्रिंशोत्त से जानना। धिप्र, अत्रिय, स्त्री, अत्यज क्रम से घोर को जानना। सूर्यादि ग्रहों के गृह में चन्द्र हो तो चिन्तित पुरुष कहता। सूर्यादि ग्रहों के गृह के अनुसार कुष्ठ, लाँछन, हाँद, मशक, तिलक, स्कोट, घाव का चिह्न घोर को कहता। गौर, अत्यन्त गौर, श्याम, कृष्ण, मर्कट के समान वर्ण कहता। मनुष्यों से त्रिकोम चन्द्र के त्रिंशोत्त का पल कहना। इस प्रकार सभी वस्तुओं का मुष्टि में अथवा पृच्छा में समझता ॥ ४१-४९ ॥

अथ भूचरखेचरचक्रम् ।

अधःस्थं भूचरं चक्रमूर्ध्वचक्रं तु खेचरम् ।
 स्थिरशीघ्रविभागेन स्थायी यायी चलं क्रमात् ॥ १ ॥
 मेपादिद्वादशारेषु चाममार्गेण भूचरम् ।
 तस्योर्ध्वं खेचरं चक्रं सन्न्यमार्गेण विन्यसेत् ॥ २ ॥
 ये ग्रहा राहुमार्गस्था भूचक्रे ते व्यवस्थिताः ।
 सूर्यमार्गेण ये लग्ना खेचराः खेचरे स्थिता ॥ ३ ॥
 भूचक्रे संस्थितैः पापैः खे चक्रे सौम्यखेचरैः ।
 यायिस्थायिचलं ज्ञेयं क्रमात्स्वरत्रिचक्षणैः ॥ ४ ॥
 सौम्याश्च भूचरे चक्रे प्राराः खेचरगा यदा ।
 संहारो जायते तत्र सैन्ययोद्धयोरपि ॥ ५ ॥
 भूचरस्था ग्रहा यत्र हृद्यन्ते च शुभाशुभाः ।
 यायी संहारमायानि स्थायी चार्थक्षयो जयो ॥ ६ ॥
 खेचरे खेचराः सर्वे सौम्याः सौम्यगता यदा ।
 स्थापिनो चलसंबर्ता यायी भवति सक्षताः ॥ ७ ॥

खेचरे भूचरे चक्रे यदा मिश्राः शुभाशुभाः ।
तदा मिश्रफलं वाच्यं स्थायिनो यायिनोपि वा ॥ ८ ॥
इति भूचरखेचरचक्रम् ।

अथ स्थ इति । स्पष्टम् ॥ १-८ ॥

अथ स्थित भूचर चक्र और ऊर्ध्वस्थ खेचर चक्र होता है । द्वादशभाव चक्र के अन्दर एक और द्वादशभाव चक्र को बनावे उसमें ऊपर वाले को खेचर और अन्दर

	१२	खेचर	
		१	२
११	३	१	१२
			११
		भूचर	
१०	४		१०
९	५	७	९
			८
		७	६

वाले को भूचर कहते हैं । इसी का स्थिर और दीर्घ विभाग करके स्थायी और यायी का बल विचार करते हैं । मेघादि १२ राशियों को रथीये क्रम से चक्र में रखने से भूचर चक्र और दाहिने क्रम से रखने से खेचर चक्र होता है । जो बन्नी ग्रह हैं उन्हें भूचर चक्र में रखना चाहिए जो मार्गी ग्रह हैं उन्हें खेचर चक्र में रखना चाहिए । भूचर चक्र में पापग्रह हों और खेचर में शुभ ग्रह हों तो क्रम से यायी और स्थायी बली होते हैं । यदि शुभ ग्रह भूचर चक्र में हों और पाप ग्रह खेचर चक्र में हों तो दोनों के सेनाओं का सहार होता है । यदि भूचर चक्र में शुभग्रह और पाप ग्रह दोनों ग्रह हों तो यायी का नाश और स्थायी का आधा नाश तथा आधा विजय होता है । यदि सभी ग्रह खेचर चक्र में हों शुभ ग्रह शुभ राशि में हों तो स्थायी बलवान होता है और यायी चत हो जाता है । खेचर और भूचर चक्र में यदि मिश्रित ग्रह शुभ पाप हों तो स्थायी और यायी दोनों को मिश्रित फल बढ़ना ॥ १८ ॥

अथ प्रथमपथचक्रम् ।

अश्विन्यादीनि धिष्ण्यानि पंक्तियुक्त्या लिग्नेद् बुधः ।
नालीचतुष्टये वेधः सर्पाकारपथात्यके ॥१॥

क्रूरवेधस्थिता नाडी तद्विष्ण्येन युते दिने ।

यात्रा युद्धं न कर्तव्यं पथचक्रफलं त्विदम् ॥ २ ॥

इति स्वरोदये प्रथमपथचक्रम् ।

अश्विन्यादीनीति स्पष्टम् ॥ १-२ ॥



सर्प के आकार का चार नादियों से युक्त एक चक्र घनाकर उसमें शरिणी आदि नक्षत्र पंक्ति से छिन्न ददे । जिन नादों में क्रूर ग्रह बंध करता हो उस नाडी के नक्षत्र वाले दिन में यात्रा, युद्ध, न करे यह पथचक्र का फल है ॥ १ २ ॥

अथ द्वितीयपथचक्रम् ।

पथचक्रं प्रवक्ष्यामि ख्यातं यद्ब्रह्मयामले ।

येन विज्ञानमात्रेण सद्यो यात्राफलं वंदत् ॥ १ ॥

अश्विन्यादि लिङ्गेचक्रं रेवत्यन्तं त्रिनाटिकम् ।

सर्पाकारे च ऋक्षाणि प्रत्येकं च वदाम्यहम् ॥ २ ॥

अश्विन्याद्रादितिर्ज्ञेया तथा चोत्तरफाल्गुनी ।

हस्तो ज्येष्ठा तथा मूलं शतभं पूर्वभाद्रकम् ॥ ३ ॥

प्रथमा नाडिका पश्चाद् भरणीभृगशीर्षिके ।

पुष्यः सभाग्यश्चित्रा चमैत्रमाप्यं च वासवम् ॥ ४ ॥

अह्निर्युध्न्यमिति ज्ञेया द्वितीया नाडिका बुधैः ।

तृतीया नाडिका ज्ञेया चह्नित्ररामुजङ्गमम् ॥ ५ ॥

मघा स्वाती द्विदैवत्यं विश्वं विष्णुश्च रेवती ।

ब्रह्मयोगतो ज्ञेयमेतासु च शुभाशुभम् ॥ ६ ॥

पथचक्रमिति—स्पष्टम् ॥ १-६ ॥

जो ब्रह्मयामल में पथचक्र कहा हुआ है उसे मैं यह रहा है जिससे यात्रा में तुरत ही यात्रा का फल प्राप्त होता है । मरौदार त्रिनाडी चक्र में प्रायः चार नाडी में शरिणी आदि नक्षत्रों के छिन्नने का प्रम बंध रहा है । अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु,

उत्तराफाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिष, पूर्वभाद्रपद, ये नक्षत्र प्रथम नाडी के हैं । भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अशुराधा, पूर्वाषाढ, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद ये दूसरे नाडी के नक्षत्र हैं । और तीसरे नाडी में वृत्तिका, रोहिणी, श्लेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढ, ध्रुवण, रेवती ये नक्षत्र हैं इनमें ग्रहों के संयोग से शुभ अशुभ फल समझना ॥ १-६ ॥

यात्रिकं यत्तु नक्षत्रं नाट्या यात्रादिभादितः ।

यावती तावती संख्या तत्रस्थग्रहसङ्गुणा ॥ ७ ॥

अक्षभक्ते तु यल्लब्धं योजनं तदुदाहृतम् ।

शेषात्क्रोशादिका संख्या विज्ञेया दैवचिन्तकैः ॥ ८ ॥

भङ्गस्तत्र तु विज्ञेयो यत्राशे पापखेचरैः ।

सौम्यसंयोगतः सौख्यं विशेषेणापि तच्छृणु ॥ ९ ॥

त्रामः सूर्याद्भवेन्मृत्युः कुजात्सौराच बन्धनम् ।

गहसयोगतो भङ्ग इति पापचिनिर्णयः ॥ १० ॥

त्रियः समागमश्चंद्रात्कलावित्सद्गमो बुधात् ।

जीवेन धार्मिकैः शुक्रात्पण्डितैरुक्तमानतः ॥ ११ ॥

द्विघ्नं स्वक्षेत्रमित्रक्षे त्रिघ्नं वक्रं तथोच्चगैः ।


यात्राया सर्वदा चिन्त्यं पथचक्रमिदं बुधैः ॥ १२ ॥

इति द्वितीयपथचक्रम् ।

यात्रिकमिति । यात्रिक यात्राकर्तुं यत् यात्रानक्षत्र तत्रक्षत्र नाट्या यात्रास्ति तस्यादिभादित अन्विनीत यावती मर्या तावती संख्या तत्रस्थ-ग्रहसङ्ख्या मर्या अत्रेदमवधेयम् । यस्य कस्य नाट्या प्रथमर्षं ग्रहस्थित-स्तत्र एकेन गुणकं यदा द्वितीये तदा द्वितीयो गुणक एव नत्र संख्या नत्रर्षं पर्यन्त धेयम् । तत्र गुणनफले अक्षभक्ते पचभिर्हते वा अक्षभक्ते पाठे मत्रर्षि शत्या हते लब्धं योजन अवशिष्टं ग्रहसङ्ख्या मर्या अक्षभक्ते सति लब्धं क्रोशादिक विज्ञेयम् । अन्यत्स्पष्टम् ॥ ७-१२ ॥

यात्रा करने वाले का जा यात्रा नक्षत्र है वह अरिपनी से गणना से जहाँ निम नाडी में है उम नक्षत्र की मर्या को जिन नाडी में ग्रह बैठे हो उमही मर्या से अर्थात् प्रथम नाडी में ग्रह हो तो १ से दूसरे में हो तो २ से एवं ग्रह मर्या से गुणकर उसमें ५ का भाग देने से लब्धं योजन और शेष को ग्रह मर्या से गुणकर

पुन ५ का भाग देने से होता है । मित्र अक्ष में पापग्रह हो वहां पर यात्रा भा होती है । शुभग्रह के सयोग में सुख विशेष होता है । मूर्य हो तो भय, मौम हो ठा मृत्यु, शनि हो तो बन्धन, राहु हो तो भय होता है । चन्द्रमा हो तो स्त्री समागम, बुध



हो तो कलाविदों में समागम, गुरु से धार्मिकों से, शुभ से पढ़िगों से उक्त दूरी पर समागम या सुख होता है । यदि ग्रह अपने गृह या मित्र के गृह में हों तो दूरी को दूरा उच्च या यक्त हो तो तिगुना यात्रा में इस चक्र में विचार करना चाहिये ॥ ७-१२ ॥

अथ खेचरभूचरचक्रम् ।

खेचरं भूचरं वक्ष्ये मृगयासिद्धिदं नृणाम् ।

ऊर्ध्वं तु खेचर चक्रमधो भूचरमुच्यते ॥ १ ॥

पापरिष्टकरैर्योगैर्मृगयासिद्धिन्तमा ।

धूने हीनपलैः पापैर्युद्धर्योगैर्यलान्वितैः ॥ २ ॥

पञ्चाङ्गसर्वैर्दुष्टैः स्याद्योगैः पापाग्नयोचरैः ।

विशेषाद् धूनलप्रेणौ ज्ञेयौ हेतू यदामि तौ ॥ ३ ॥

सिद्धिर्योगे द्वयोः केन्द्रे क्लेशानर्थप्रदौ च तौ ।

पापांशगौ कुजजौ तु तद्गोपे मृगया नहि ॥ ४ ॥

सौम्यो लग्नपतिः सिद्धि क्रूरो धूनपतिर्यदि ।

जलर्क्षे जलजैः खेटैर्जलै स्यान्मृगया स्फुटम् ॥ ५ ॥

शुभैर्लग्नगतैर्गूणं यावन्नियेक्षितं ग्रहैः ।

तत्संख्याः प्राणिनो यथ्या यक्रोचस्थैस्त्रिसंशुणाः ॥ ६ ॥

कुशलं शुभनक्षत्रे ऋशोऽनर्थस्तथा शुभे ।

शुभपापेन विद्ध चेत्तदा दोषः प्रजापते ॥ ७ ॥


चन्द्राग्नेटकयोर्मध्ये यावद्गान्धशुभग्रहैः ।

अधिष्ठितानि तत्संख्यप्राणिनां वधमाविशेत् ॥ ८ ॥

शुभयुक्तैश्च तत्संख्यप्राणिना च पलायनम् ।
 नक्षत्रजातिवज्जातिमाकृतिं वर्णसंस्थिताम् ।
 पापसंयोगतो ब्रूयाद्राशिभिर्वा यथाक्रमात् ॥ ९ ॥
 द्विगुणं स्वाशमित्रांशे वक्रोच्चे त्रिगुणं वदेत् ।
 ऋक्षपादचतुष्के तु ग्रहयोगक्रमाद्बदेत् ।
 प्रहारं प्राणिनां जात प्राक्पश्चात्पृष्ठपार्श्वगम् ॥ १० ॥

खेचरमिति—स्पष्टम् ॥ १-१० ॥

मृगया (आखेट) में सिद्धि के लिये खेचर भूचर चक्र को कह रहा हूँ । द्वादश चक्र में ऊपर के ६ भाग खेचर और नीचे के ६ भाग भूचर होते हैं । अर्थात् जिन लग्न में मृगया के लिये यात्रा की जाती है उससे ६ राशि पर्यन्त खेचर और सप्तम से लग्न पर्यन्त भूचर होता है । आतकोक्त पापग्रहों से उत्पन्न अरिष्ट योग में यात्रा करने से आखेट की सिद्धि होती है अथवा सप्तम में निर्बल ग्रह हों वली पापग्रह से उत्पन्न युद्ध योग में भी यात्रा सिद्ध होती है । पचाग-समूह तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार के दुष्ट होने में तथा सप्तमस्थ हीनबल पापग्रह अपितु युद्धयोग में बली होने से मृगया की सिद्धि होती है, विशेषतः सप्तमेश और लग्नेश मृगया के सिद्धि में कारण हैं । सिद्धि योग और केन्द्र में शुभग्रहों के होने से बलेश और अनर्थ होता है, भीम और युध पापांश में हों और अस्त हों तो आखेट नहीं होता है । शुभग्रह



लग्नेश हो अग्रग्रह सप्तमेश हो तो मृगया की सिद्धि होती है यदि जलचर ग्रह जलचर राशि में हो तो जल में मृगयार्थ सिद्धि होती है । जितने शुभग्रह सप्तम लग्न को देखते हों उतनी ही सख्या के प्राणियों का वध आखेट में होता है, यदि वे ग्रह घटी या उच्च राशि में हों तो मृगया को त्रिगुणा ममस्ता । शुभ नक्षत्र अर्थात् आखेट करने वाले के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनने से यदि उम दिन ३१७ तारा

१ बुद्धिचक्रद्वयपरकंठवास्तुनामवस्मोतकुम्भधरा सजला राशय । शुभचक्रौ जलात्मकौ प्रहौ ।

नहीं है तो आग्नेय मुद्गर होगा अन्यथा बलेन, अनर्थ आदि होगा । यदि शुभ राशय पापग्रह न घोषित हो तो दोष होता है । चन्द्रमा और आग्नेयकर्ता के नक्षत्रों के मध्य में जितने पापग्रहों से युक्त राशय हों उतने मन्थक प्राणियों का यथ मृगाया में कहना । जितने शुभग्रह से युक्त राशय हैं उतने सख्यक प्राणियों का पलायन कहना । नक्षत्रों की जो जाति हो उसमें जाति, आकृति, यण, पापमयोग से कहना अथवा राशि से कहना । राशय के चार चरण के अनुसार चन्द्रराशि और आग्नेयकर्ता के राशि के मध्य में जो राशियां पापग्रहाक्रान्त हों उसी आकृति के प्राणियों का यथ होगा । यदि ग्रह अपने नयांत या त्रिंशांत में हो तो दून । यज्ञ या उच्च राशि में हो तो त्रिगुना कहना । एग्न से ६ राशि के अर्द्ध पापग्रह हों तो पूर्वाङ्ग म घात और सप्तम से छम के मध्य में पापग्रह हों तो पश्चाद् भाग में घात कहना ॥ १-१० ॥

छागौ तु कृत्तिकापुण्यौ सर्पभं रोहिणीमृगौ ।

आर्द्रास्रुले तथा श्वानौ मूपकौ पितृवासयौ ॥ ११ ॥

मर्पादितौ च मार्जारौ ज्याघौ चित्राविशाखके ।

अर्यम तोयभे गावौ मैत्रे शक्रे तथा मृगौ ॥ १२ ॥

हस्तस्वाती च मल्लिपो तुरद्गावश्विवारुणौ ।

मर्कटौ त्रिष्णुविश्वानर्या याम्यपौष्णे मतद्गजौ ॥ १३ ॥

भगाद्विबुध्न्यभे सिंहौ विज्ञेयां दैवचिन्तकैः ।

पूभार्द्राभिजितौ चभ्रुर्भानां जातिरितोरिता ॥ १४ ॥

अथवा गणयेद्द्वीमान्वक्ष्यमाणक्रमेण तु ।

तस्मिन्नहनि यो चारस्तिथिर्या तद्धिने तु तत् ॥ १५ ॥

एकीकृत्य भवेदेवं चर्गित दलितं भजेत् ।

त्रिघनेन च शेषाकसंख्यप्राणिवध दिशेत् ॥ १६ ॥

दले शेषे विज्ञानोपाद्युद्वादेकः पलायने ।

चक्रितैरपि निर्देश्यं प्राणिनां ते पलायनम् ॥ १७ ॥

अथवापि तिथिर्घारं युक्तं शृन्वा तु यजितम् ।

दलितं शेषनाडीभिर्भक्त शेषाङ्कसंख्यया ।

प्राणिनां यस्मादेड्यमाहृतिं राशिप्रक्षयत् ॥ १८ ॥

स्वहनं जन्मभे घाचयं शुभं चैव त्रिपत्कमे ।

आग्नेयेदाद्य निघने प्रत्यरौ पतनं, दिशेत् ॥ १९ ॥

शेषे तु शोभनं वाच्यं फलं दैवविदा सदा ।

खेचरं भूचर प्रोक्तं नृपाणां मृगयार्थिनाम् ॥ २० ॥

इति नरपतिजयस्मरोदये खेचरभूचरचक्रम् ॥

छागी इति ॥ ११-२० ॥

नक्षत्रों से जीव का ज्ञान—वृत्तिका और पुष्य में छाग, रोहिणी मृगशिरा में सर्प, आर्द्रा मूल में कुत्ता, मघा धनिष्ठा में मूषक । श्लेषा पुनर्वसु में मारजार (विलार), चित्रा विशाखा म ध्यात्र, उत्तराफाल्गुनी पूर्वाषाढ में गौ, अनुराधा-ज्येष्ठा में मृग । एस्त स्वाती में महिष (भैंसा), अश्विनी शतभिष में घोड़ा, श्रवण उत्तराषाढ में खच्चर, भरणी-रेवती में हाथी । पूर्वाफाल्गुनी उत्तराभाद्रपद में मूँद, पूर्वाभाद्रपद अभिजित् मं नकुल, ये नक्षत्रों की जाति कही गयी है । अथवा जिस दिन आखेट को जाना है उस दिन जो वार और तिथि है दोनों की सख्या को एकत्र कर उसमें एक घटाकर शेष का वर्ग कर आधा करके उसमें २० से भाग देने से जो शेष बचे उसी के तुल्य जीवों का वध होता है । शेष को आधा करने से यदि एक हो तो युद्ध से भाग जाता है । यदि नक्षत्र पर वक्षीग्रह हो तो भी एक भाग जाता है । अथवा तिथि वार की सख्या को जोड़कर षड् कर दें, अथवा योगफल को ३ गुणाकर आधा करके इष्ट नाडी (सूर्योदय से जितने घटी पर यात्रा करे उसे इष्ट नाडी कहते हैं) से भाग देने से शेषाक सरया तुल्य प्राणियों का वध कहना, प्राणियों की आकृति राशि नक्षत्र के अनुसार कहना । यात्रा समय जन्मतारा हो तो सगरी भादि से गिरना, विपत्तारा हो तो हाथ में कष्ट, निघन तारा हो तो किसी छग में कष्ट और प्रत्यरि तारा हो तो पतन होता है । शेष ताराओं में शुभफल होता है यह खेचर भूचर चक्र राजाओं के मृगया के लिये कहा है ॥ ११-२० ॥

अथ पञ्चाङ्गम् ।

अथ वक्ष्यामि पञ्चाङ्गं तात्कालिकमनुत्तमम् ।

येन विज्ञातमात्रेण यातुर्यात्राफलं भवेत् ॥ १ ॥

वारादिकं च पञ्चाङ्गमुच्यते तत्र तच्छृणु ।

वारस्तिथिश्च ऋक्षाणि योगश्च समुहृतकं ॥ २ ॥

वारादिकं हि पञ्चाङ्गं गतनाडीगुणाः क्रमात् ।

अष्टौ सविंशतिर्वारे तिथौ त्रिंशच्च भे तथा ॥ ३ ॥

ऋक्षाणि योगे भान्पेव मुहूर्ते तिथयो हताः ।

गतनाडी हता पष्टया भक्ता युक्ते स्वस्वरूपया ॥ ४ ॥

अष्टाविंशत्तथा त्रिंशत्सप्तविंशत्तथा तिथिः ।
 पष्टिभागे फलं लब्ध स्वस्वसंख्यायुतं भवेत् ॥ ५ ॥
 इष्टकालिकपञ्चाङ्गं वाराद्यैः शेषिते भवेत् ।
 सामान्येन प्रमाण स्यात्पञ्चाङ्गं यदि तत्र किम् ॥ ६ ॥
 शुभाशुभानि तत्र स्युरेकस्मिन्नपि वासरे ।
 तस्मात्सूक्ष्ममिदं ज्ञेयमेकस्मिन्नपि वासरे ॥ ७ ॥
 स्थलवत्सर्वकार्याणि विधेयान्यत्र सर्वदा ।
 वर्तमानं तु पञ्चाङ्गं तत्कालघटिकादलैः ॥ ८ ॥
 युक्तं तत्कालपञ्चाङ्गं तदग्रे प्रत्ययो भवेत् ॥ ९ ॥

इति श्रीनरपतिजयचर्याया तात्कालिकतिथ्यादिपञ्चाङ्गचक्रं समाप्तम् ।

अथेति । स्पष्टम् ॥ १-८ ॥

अथ मैं उत्तम पचाग को कहता हूँ जिसके ज्ञान से यात्रा करनेवाले को यात्रा का फल होता है । वार, तिथि, नक्षत्र, योग और मुहूर्त्त को पचाग कहते हैं । गतनाडी (इष्टघटी) को वारादि के ध्रुवाकों से गुणकर ६० का भाग देवे लब्धि में अपनी अपनी सख्या को जोड़ दे तो इष्टकालिक पचाग हो जाता है । वार का ध्रुवा २८, तिथि का ३०, नक्षत्र और योग का २७, तिथि और मुहूर्त्त का १५ ध्रुवा है । वारादि में अपनी-अपनी सख्या से भाग देने से इष्टकालिक पचाग हो जाता है । एक ही दिन में यह शुभ अशुभ विचार करने के लिये यह उत्तम पचाग साधन है । इस पचाग से जैसे स्थूल पचाग से सभी कार्य करते हैं वे सभी कार्य इय सूक्ष्म पचाग से भी करना चाहिये । इसके आगे नामकरण की आवश्यकता तात्कालिक पचाग में होती है ॥ १-८ ॥

उदाहरण—जैसे शनिवार को इष्टघटी १० है इसको वार के ध्रुवांक २८ से गुणा किया तो २८० हुये इसमें ६० से भाग देने से लब्धि ४ और शेष ४० रहे । लब्धि में इष्टवार सख्या ७ जोड़ने से ११ हुये । सात से अधिक होने से ७ न भाग देने से शेष ४ बचा । इष्ट वार से गिने से वर्तमान भौमवार हुआ जिसका भोग्य १० दृष्ट के ऊपर ४० दृष्ट तक रहेगा ।

अथ नाडीचक्रम् ।

आर्द्रादिकं लिम्बेच्चक्रं मृगान्तं च त्रिनाडिकम् ।
 भुजङ्गसदृशाकारं मध्ये मूलं प्रकीर्तितम् ॥ १ ॥
 यद्दिने एकनाडोस्थाश्चन्द्रनामर्क्षभास्कराः ।
 तद्दिने चर्जयेत्तत्र विवादे विग्रहे रणे ॥ २ ॥

आर्द्रादिकमिति । स्पष्टम् ॥ १-२ ॥

आर्द्रा से मृगशिरा तक त्रिनाडी चक्र सर्पाकार लिये मध्य में मूल नक्षत्र को लिये । जिस दिन 'चन्द्रमा', का नक्षत्र, नाम का नक्षत्र और सूर्य का



नक्षत्र एक ही त्रिनाडी के नक्षत्र में हो उस दिन, विवाद, विग्रह और संग्राम न करे ॥ १-२ ॥

इति नाडीचक्रम् ।

अश्विन्यादि लिखेच्चक्रं सर्पाकारं त्रिनाडिकम् ।

तत्र वेधवशाज्जेयं विवाहादि शुभाशुभम् ॥ १ ॥

नाडीवेधेन नक्षत्राण्यश्विन्यार्द्रादिउत्तराः ।

हस्तेद्रमूलवारुण्याः पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥ २ ॥

याम्यं सौम्यं गुरुयोनिश्चित्रा मित्रजलाह्वये ।

धनिष्ठा चोत्तराभाद्रा मध्यनाडीव्यवस्थिता ॥ ३ ॥

कृत्तिका रोहिणी सर्पं मघा स्वातीविशाखिके ।

उषा च श्रवण पूषा पृष्ठनाडीव्यवस्थिता ॥ ४ ॥

अश्व्यादिनाडीवेधर्क्षं पष्ठे च द्वितयं क्रमात् ।

याम्यादि तुर्यतुर्यं च कृत्तिकादि द्विपष्ठकम् ॥ ५ ॥

अश्विन्यादि इति । सुगमम् ॥ १-५ ॥


अश्विनी से सर्पाकार त्रिनाडी चक्र को लिप्यकर उसमें विवाहादि शुभकार्यों में वेध के विचार से शुभ अशुभ का विचार करे । नाडी घट में अश्विनी, आर्द्रा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिष, पूर्वाभाद्रपद, पुनर्वसु इनकी आदि नाडी है । भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, इनकी मध्य नाडी है । कृत्तिका, रोहिणी, श्येवा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढ, श्रवण, रेवती इनकी अत्यनाडी है । अश्विनी के नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का, भरणी से थपे नक्षत्र का, कृत्तिका से ३६ और दूसरे का वेध होता है ॥ १-५ ॥

अहिर्बुध्न्याजपादक्षं शतभं ब्राह्मसार्पभम् ।
 पुष्यं हस्तं समालेख्यं द्वितीयां पक्तिमास्वितम् ॥ ५ ॥
 विधिविष्णुर्धनिष्ठाख्यं सौम्यरौद्रपुनर्वसू ।
 चित्राभं च तृतीयायां पक्तौ धिष्ण्यस्य सप्तकम् ॥ ६ ॥
 विश्वर्क्षं तोयभं मूलं ज्येष्ठा मैत्रविशाखिके ।
 स्वाती पक्त्यां चतुर्थ्यां च कृत्वा चक्रं विलोकयेत् ॥ ७ ॥
 एवं प्रजायते चक्रे प्रस्तारः पन्नगाकृतिः ।
 द्वारशाखे मघायाम्ये द्वारस्था कृत्तिका मता ॥ ८ ॥
 अश्वीशपूर्वापादादित्रिकं पञ्च चतुष्टयम् ।
 रेवती पूर्वाभाद्रेदोर्भानि शेषाणि भास्वतः ॥ ९ ॥
 उदयादिगता नाड्यो भग्नाः पष्ट्याप्तशेषके ।
 दिनेन्दुभुक्तियुक्तोऽसौ भवेत्तत्कालचन्द्रमाः ॥ १० ॥

अहिचक्रमिति । तदहिचक्रम् प्रवक्ष्यामि सर्वह्यभाषितं यथा तथेति । येन
 चक्रेण द्रव्यं शल्यं तथा शूयसाधका ज्ञानन्ति । निविरिति । निरर्त्तनेकस्थो
 निधिर्यत्र सम्भ्रान्तो सम्भ्रमो विषयः । तथात्र इदं चक्रं स्थाप्यम् । सप्तहस्तेन
 दण्डेन त्रिंशद्दण्डो निवर्त्तनमिति स्मरणात् । कीदृशं स्थानं द्वारमुखस्थित-
 स्थानस्य गृहादेर्यद्द्वारं तन्मुखेन स्थितं, प्रश्ने सति ज्ञेयादीं द्वाराज्ञाते एव
 प्रजायते । चक्रे प्रस्तारं पन्नगाकृतिरित्युपसहारखचनादर्थतो भाद्रादित्रिमासेन
 पूर्वादिचतुर्दिक्षु शिरःकल्पनादसौ गेते तेन तन्नुमानेन प्रश्ने मतिस्तस्यास्तस्या
 दिशि अहिचक्रमुखं कृत्तिकादिनक्षत्रव्यवस्थितं कृत्वा व्यग्रहरणोयमित्युपदेश
 इति नरहरिः । लक्ष्मीधरस्तु—तात्कालिकर्षं सगुण्यं पष्ट्या सविभजेत्
 सुधी । बाणवेदैश्च शिष्टाके भास्करादीन् विशोधयेत् । अशुद्धाकेन पूर्वादिपादा
 सूरगजद्विका । भास्करा १२ शुभवाणा ५ । ५ सु ५ मार्गेशे ५ युगद्वय ४ । ४
 इति । ऊर्ध्वं रेखाष्टकमूर्ध्वक्रमेण रेखाष्टकलेख्यम् । तथैव पञ्चरेखास्तिर्यक्
 क्रमेण लिखेत् । एवमहिचक्रमष्टात्रिंशत्कोष्ठकं भवेत् । तत्रेति—त्रयोष्ठकेषु
 पौष्णरेवती । अश्वनी । याम्यर्धमरण्णी । कृत्तिका । मघा । भाग्यपूर्वाफाल्गुनी
 चेति सप्तनक्षत्राणि पूर्वपक्त्या प्रथमपक्त्या लेखनीयानि । अहिर्बुध्न्येति—
 अहिर्बुध्न्यमुत्तराभाद्रपदा । अजपादक्षपूर्वाभाद्रपदा शतभं शतभिपक्त् । मात्रो
 हिणी । सार्पभमश्लेषा । पुण्यो । हस्त । स्वाती नक्षत्रसप्तकं द्वितीयपक्तिस्थ

लेख्यम् । विधिरिति—त्रिष्णुश्रवण धनिष्ठासौम्यम् मृगशिर विधिरभिजित् ।
 त्रिष्णु श्रवण धनिष्ठा सौम्य मृगशिर । रौद्रमाद्रौ । पुनर्वसुचित्रा चेति नक्षत्र-
 सप्तक तृतीयपङ्क्तौ समात्तरयम् । विश्वर्षमिति ।—विश्वर्षमुत्तरापाढतोयम पूर्वा-
 पाढा । जेष्ठा । अनुराधा । विशाखा । स्वाती चेति नक्षत्रसप्तक चतुर्थपक्तिमा-
 स्थितम् कृत्वा चक्र पिलोकयेत् । चिन्तयेदित्यर्थ । एवमिति—एवमनेक-
 प्रकारेण चित्राग्निक्षत्रात् क्रमस्थित्या पञ्चगाकृति सर्वाकृति प्रस्तारो भवति ।
 प्रजायतेत्यर्थ , द्वारशाखेति—मघायाम्भ्ये मघाभरणी द्वारशाखे द्वारोभयपार्श्व-
 स्थिते ज्ञातव्ये । कृत्तिका द्वारस्था मता । कृत्तिकाद्वारमुख । अश्वीरोति ईश
 आर्द्रा । पूर्वापाढा एतानि त्रिनक्षत्राणि आदिभूतानि, अनुक्रमेण त्रिकपञ्चचतुष्टय
 नक्षत्रम् । यथा । अश्वनीभरणीकृत्तिका त्रीणि अर्द्रापुनर्वसु पुष्याश्लेषा मघा चेति
 पञ्चपूर्वापाढोत्तरापाढाभिजित् श्रवणेति चत्वारि नक्षत्राणि तथाश्वनीभरणीकृत्ति-
 कार्द्रापुनर्वसुपुष्याश्लेषामघापूर्वापाढोत्तरापाढाभिजित् । श्रवणरेवतीपूर्वभाद्रपदा ।
 एतानि नक्षत्राणि इन्द्रोश्चन्द्रस्य शेषाणि भानि भास्वत सूर्यस्य ज्ञातव्यानि ।
 उपादिति—उदयेत्यत्रोदयशब्देन सूर्योदयो गृह्यते । तेन यदा प्रश्नो भवति
 तदोदयगता नाड्यस्ता सप्तविंशत्या गुणिता पश्चात् पण्ड्या भाजिता यदाप्त
 तानि नक्षत्राणि शेषाशा ततश्चन्द्रेण यानि नक्षत्राणि मुक्तानि येषा मुक्ता
 स्तानि पूर्वगतनक्षत्रेषु तेषु तेन पूर्वगताशेषु मेलनीया स्वनक्षत्रे सूर्यनक्षत्रे
 यास्तीति ॥ १-१० ॥

सर्वानां मे कह हुये अहिचक्र को कह रहा है । जिससे साधक यह जानते हैं कि द्रव्य,
 हठी, तथा शून्य इनमें से क्या पदार्थ इस भूमि में है ॥१॥ निम्न निवर्तन भूमि में रग्यो
 हुई द्रव्य मूळ गई है वहा पर हम चक्र को स्थान के द्वार पर मुग्य करके स्थापित करे ॥३॥
 आठ रेखा गङ्गी और ५ पाच रेखा तिरछी लिपने से २८ कोष्ट वा यह अहिचक्र हो



जाता है । हममें प्रथम पक्ति में रेवती, अश्विनी भरणी, कृत्तिका, मघा, पूर्वाषाढगुनी,
 उत्तराषाढगुनी इन सात नक्षत्रों को स्थापित करे । दूसरे पक्ति में उत्तराभाद्रपद,

पूर्वाभाद्रपद, शतभिष, रोहिणी, श्लेषा, पुष्य, हस्त को लिखना । तीसरे पक्ष में अभिजित, श्रवण, घनिष्ठा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, चित्रा, एत सात नक्षत्रों को लिखना । चौथे पक्ष, म उत्तराषाढ, पूर्वाषाढ, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, रिशाभा, स्वाती इनको लिखना चाहिये । इस प्रकार से नक्षत्रों की स्थापना करने में सर्प की वाहृति का चक्र होता है जिसमें द्वार की शाखा (याजू) में मघा और भरणी तथा द्वार में वृत्तिका नक्षत्र रहता है । अश्विनी, आर्द्रा, पूर्वाषाढ से क्रम से तीन, पांच और चार नक्षत्र अर्थात् अश्विनी, भरणी, वृत्तिका आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, अभिजित, श्रवण रेवती और पूर्वाभाद्रपद य १४ नक्षत्र चन्द्रमा के हैं और शेष १४ नक्षत्र सूर्य के हैं । उदय से चन्द्र के भुजर्ध घटी को २७ से गुणा कर ६० से भाग देने से लब्धि में चन्द्र के भुजर्ध नक्षत्र की संख्या को जोड़ दो स तात्कालिक चन्द्रमा का नक्षत्र होता है ॥ १-१० ॥

चन्द्रवत्साधयेत्सूर्यमृक्षस्थं चेष्टकालिकम् ।
 पश्चाद्विलोकयेत्तौ च स्वर्क्षे वा चान्यभे स्थितौ ॥ ११ ॥
 चन्द्रऋक्षे यदाकेंद्रं तत्रास्ति निश्चितं निधिः ।
 भानुऋक्षे स्थितौ तौ चेत्तदा शल्यं च नान्यथा ॥ १२ ॥
 स्वस्वभे द्वितयं ज्ञेयं नास्ति किञ्चिद्विपर्यये ।
 नवाशकानुमानेन भूमानं तस्य कल्पयेत् ।
 स्थित न लभते द्रव्यं चन्द्रे कूरग्रहान्विते ॥ १४ ॥
 पुष्टे चन्द्रे भवेन्मुद्रा क्षीणे चन्द्रेऽल्पको निधिः ।
 ग्रहदृष्टिवशात्सोपि विज्ञेयो नवधा बुधैः ॥ १५ ॥
 हेम तारं च ताम्रार रत्नं कास्यायस त्रपु ।
 नागं चन्द्रे विजानीयाद्भास्करादिग्रहेक्षिते ॥ १६ ॥
 मिश्रैर्मिश्र भवेद् द्रव्यं शून्य दृष्टिविपर्यये ।
 सर्वग्रहेक्षिते चन्द्रे निर्दिष्टोसौ महानिधिः ॥ १७ ॥
 शुभक्षेत्रगते चन्द्रे लाभः स्यात्तात्र संशयः ।
 पापक्षेत्रे न लाभो हि विज्ञेयः स्वरपारगैः ॥ १८ ॥
 हेम तार च ताम्र च पापाणं मृन्मथायसम् ।
 सूर्यादिगृहगे चन्द्रे द्रव्यभाण्ट प्रजायते ॥ १९ ॥

भुक्तराश्यंशमानेन भूमानं कामिकैः करैः ।

नीचे द्विघ्नं परं नीचे जलस्थोऽसौ भवेन्नधिः ॥ २० ॥

स्वोच्चस्थे भ्रूध्वगं द्रव्यं नवांशकक्रमेण च ।

परमोचे परे तुङ्गे भित्तिस्थमृक्षसंक्रमे ॥ २१ ॥

चन्द्रवदिति—शुक्रस्थ नक्षत्रस्थ चेष्टनाडीक भ प्रश्नमये इष्टदण्डक कृत्वा एव द्वित्रिन्नि पष्टिदण्डात्मक नक्षत्रस्थ प्रश्ननाले सूर्येण यावन्तो दण्डा भुक्तास्तान् दण्डान् सप्तविंशत्या सगुण्य पष्टिहरणाद्बन्ध शेष भवति । लब्धाश्च सूर्यभुक्ताश्विन्यादिनक्षत्रसख्या मन्व्योज्य सप्तविंशत्यधिके सप्तविंशतिभक्तस्याचशिष्ट भुक्तनक्षत्रसख्या अश्वनीनो भवति पष्टिहरणशेषमुच्यमाननक्षत्रशरीर तन्नक्षत्रस्थ तात्कालिन सूर्यो लेखनीय । पश्चात् स्वनक्षत्रचन्द्रनक्षत्रयोरवस्थितिश्चिन्तनीया । नक्षत्रे सूर्यभुक्ते दण्डे सूर्यभुक्तचतुर्दशदिने सकालनक्षत्रभोग प्रत्यह सप्तदशपलाधिकाश्चत्वारो दण्डा भवन्ति । न्यूनभोगेन कानिचिद्विपलानि ह्रमन्ति । तेन नक्षत्रभोगप्रवृत्तिममयादारभ्य प्रश्नसमयेन यावन्तो दण्डास्ते प्रतिपष्टि चत्वारो दण्डा सप्तदशपलानि पष्टिन्यूने तदनुमानेन न्यूनतासूक्ष्मकालस्य सूर्यमगलादिग्रहनक्षत्रतात्कालिकीकरणे नक्षत्रे इष्टदण्डानयनपूर्वक पितामहश्लोको लिख्यते । शुभप्रवेशादिषु ता नाह्य पष्ट्याभिस्ताडिता । शुभप्रवेशादागत्य घटिकाभिर्विभाजिता । लब्ध दण्डादिक यस्तद्बन्ध पष्टिभिर्हृतम् । अश्विन्यादीनभुक्तेन युक्तस्तात्कालिको रवि । व्याख्यानमेतयोस्तात्कालिकपष्टिकालानलक्रे कृन्मन्त्रेपणीयमिति । पश्चात् तात्कालिकीकरणानन्तर तौ सूर्यचन्द्रमसौ स्वशुद्धे स्वनक्षत्रे परभे परनक्षत्रे वा व्यवस्थितौ त्रिलोकयेत् । इति नररि । चन्द्र इति—चन्द्रनक्षत्रेऽश्विन्या इत्यादि कथित अर्केन्दुनात्कालिकौ स्तस्तदा निधिनियत निश्चिनमस्ति । विरोधादिति—चेष्टादि भानुनक्षत्रे सूर्यनक्षत्रे तौ सूर्यचन्द्रमसौ स्थितौ तदा शन्य भवति अन्यथा नेदमित्यर्थ । स्वस्वभ इति—चन्द्रे रवौ च स्वस्वनक्षत्रे स्थिते द्वितय विधिशन्य चन्द्रस्थाने निधि सूर्यस्थाने शन्य तत शशाके चन्द्रमसि द्रव्य भवति सूर्यभे शन्य भवति नास्ति किञ्चित् विपर्ययम् । चन्द्रभे सूर्यभे चन्द्रे निधि शन्य च नास्ति स्थितमिति—कुरप्रशान्त्रिते तात्कालिकचन्द्रे स्थित द्रव्य न लभ्यते । परिगेवाद्य शुभमश्लयोगाल्लभ्यते इति । एव चन्द्रस्थितौ किं द्रव्यमित्याकाशायामाह । हेमेति सूर्यादिनक्षत्रनिरीक्षिते तात्कालिकचन्द्रे हेमादि द्रव्य जानीयान्, यथा सूर्यनिरीक्षिते हेम सुरर्णम् । न्यूनचन्द्रेक्षिते तार रजतम् । कुजेक्षिते ताम्रम् । बुधेक्षिते आर पित्तलम् । जायेक्षिते पाषाणम् । शुकेक्षिते मृतम् एव राहुनेतौ प्रपुनाग विजानीयान् इति । मिश्रैरिति—

मिश्रैर्नानामहैर्दृष्टिविजित चन्द्रे शून्ये न किमपि भवतीत्यर्थ । सर्वग्रहेक्षिते चन्द्रे असौ महानिधिनिर्देश्य । पुष्ट इति-चन्द्रपुष्टे पुष्टश्चन्द्र शुक्लपक्षैकादशीत कृष्णपक्षपञ्चमीपर्यन्त भवति भाण्डस्थमुद्राद्रव्य भवति । क्षीणचन्द्रे भवत्येव स्वल्पनिधि क्षीणचन्द्र कृष्णैकादशीत शुक्लपञ्चमी यावदिति, उभयपक्षपष्टीतो दशमीपर्यन्त मध्यबलत्वात्तेन तादृशे चन्द्रे मध्यत्व द्रव्यस्येव । सोऽपि निधि-सूर्यादीना नवाना दृष्टिवशान्नप्रधा नवप्रकारेण बुधैर्ज्ञेय । स च, यथा भवति तथा पूर्वश्लोकद्वयेन कथित एव । द्रव्याधारमाह हेमेति-चन्द्रे सूर्यादिगृहे स्थिते सूर्यादिदिशि स्थिते द्रव्याधारभाण्डमाधारभाजन प्रजायते । यथा सूर्यगृहे सिंहे हेम चन्द्रगृहे कर्कटे रजतम्, कुजगृहे मेघे, वृश्चिके वा ताम्रम्, बुधगृहे कन्याया मिथुने वा तार पित्तलम्, गुरुगृहे धनुषि मीने वा पापाणम्, शुक्रगृहे तुलाया वृषे वा मृन्मयम्, शनिगृहे मकरे कुम्भे वा आयस लौहम्, राहुगृहे कन्याया तत्र बुधदृष्टिविहीने त्रपु रग । एव कन्याया सप्तम गृह मीन-केतुगृहे मीने जीवावलोकिते शीशक इति । शुभक्षेत्रेति-चन्द्रगुरुबुधशुक्राणा गृहगते चन्द्रे लाभो नि सशय एव । एव पापगृहे पापक्षेत्रे गते पापराशिगते चन्द्रे न लाभो भवतीति स्वरवेदिभिर्ज्ञातव्यम् । भुक्तराश्यशमाने तात्कालिक चन्द्रेण यावन्तो राश्यशा भुक्तास्तन्मानेन तत्सख्याया कामिकैर्बद्धमुष्टिभि करैर्हस्तैर्भूमान धृतद्रव्यगर्तभूमानम् । नीचे द्विजम्, द्विगुणित, पर नीचे वृश्चि कचृतीयाशे चन्द्रेऽसौ निधिर्जलस्यो द्रष्टव्य । तावत् खात भवतीति यावत् जलस्थ द्रव्य भवतीति स्वोच्चस्य इति-तु पुनरुच्चस्थिते वृषराशिस्थिते चन्द्रे तदशकक्रमेण यावन्तो नवाशका भुक्तास्तावद्धस्तै पूर्वबद्धगर्त बाहूर्ध्वग प्रथम हस्तात्परम् परमोच्चे वृषचृतीयाशे चन्द्रे स्थिते परे तुग । अत्युच्चप्रदेशे द्रव्य-मस्तीति । ऋक्षसक्रमे तात्कालिकक्षत्रशेषपलाते चन्द्रे भित्तिस्थ द्रव्य भवति ॥ ११-२१ ॥

चन्द्रमा के ही भांति दृष्टकालिक सूर्य के नक्षत्र का भी साधन करे । पीछे यह देखा जाहिये कि दोनों अपने नक्षत्र में हैं अथवा दूसरे के नक्षत्र में यदि चन्द्रमा के नक्षत्र में सूर्य और चन्द्र दोनों हों तो उभय रथाग में निश्चय ही द्रव्य है । सूर्य के नक्षत्र में दोनों हों तो हृद्वा है और कोई पदार्थ नहीं है । यदि दोनों अपने २ नक्षत्र में हों तो दोनों पदाथ है इसमें विपरीत हो तो कुछ नहीं है । नयाँन क अनुमान से भूमि का अनुमान करना चाहिये । यदि चन्द्रमा ब्रह्म से युक्त हो तो द्रव्य नहीं मिलता है । पूर्णचन्द्रमा हो तो पूर्ण द्रव्य, क्षीण चन्द्र हो तो अल्पद्रव्य होता है । ग्रह दृष्टि के अनुसार द्रव्य नव प्रकार का होता है । सूर्यादि ग्रहों का क्रम से सुपण, चाँदी, तामा, पित्तल, रत्न कासा, लोहा, शीशा और नाग ये ९ प्रकार के द्रव्य हैं चन्द्रमा को जो ग्रह देखता हो उसके द्रव्य को कहना । मिश्रग्रह देखते हों तो मिश्रित

द्रव्य कहना । दृष्टि विपर्यय हो तो शून्य कहना । सभी ग्रहों से चन्द्रमा १८ हो तो निश्चय ही वहाँ निधि है । चन्द्रमा शुभग्रह की राशि म हो तो द्रव्य का भवरय लाभ होता है । पापग्रह की राशि म हो तो लाभ नहीं होता है । सूर्यादि ग्रहों की राशि म चन्द्रमा हो तो क्रम से सोना, चादी, तामा, पत्थर, मिट्टी और लोहे के घर्तन में द्रव्य कहना । चन्द्रमा के युक्त राशि ज्ञ के मान से भूमि का मान कार्यकर्ता के हाथ से, नीच राशि म चन्द्रमा हो तो दूने हाथ और परमनीच में हो तो जल में द्रव्य है । अपने उच्चराशि में हो तो ऊपर और परम उच्च म हो तो दीवार में उरच स्थान म द्रव्य होता है । ॥ ११-२१ ॥

चन्द्राशभुक्तमानेन द्रव्यसख्या विधीयते ।

तस्या दशगुणा वृद्धिः पट्वर्गेदुचलक्रमात् ॥ २२ ॥

अधिष्ठितं भवेद्द्रव्यं यत्र चन्द्रो ग्रहान्वितः ।

तदधिष्ठापको ज्ञेयो भास्करादिग्रहैः क्रमात् ॥ २३ ॥

ग्रहो मुग्धे ग्रहश्चैव क्षेत्रपालं च मातृकाः ।

दीपेशं भीषण रुद्रं यक्षं नागं विदुः क्रमात् ॥ २४ ॥

ग्रहे होमः प्रकर्तव्यो मुग्धे नारायणीवलिः ।

क्षेत्रपाले सुरामांसं मातृकाया महावलिः ॥ २५ ॥

दीपेशे दीपजा पूजा भीषणे भीषणार्चनम् ।

रुद्रे च चन्द्रजो जाप्यो यक्षे यक्षादिशान्तयः ॥ २६ ॥

नागे नागग्रहाः पृथ्या गणनाथेन सयुताः ।

लक्ष्मीधरादितत्त्वानि सर्वकार्येषु पूजयेत् ॥ २७ ॥

एवं कृते विधानेति निधिःसाध्योपि सिध्यति ।

निधिप्राप्ता नरा लोके चन्दनीया न संशयः ॥ २८ ॥

चन्द्रभुक्तागेति—चन्द्राशभुक्तमानेन तात्कालिकचन्द्रराशेर्वा यावन्तोऽशा भुक्तास्तन्मानेन सख्या विधीयते प्रत्येकभुक्ताशेदशमख्या पट्वर्गे होराद्रेष्णाण नवाशा द्वात्रिंशशेषु बलक्रमादशगुणा वृद्धिः । यदि स्वकीय पट्वर्ग भागे तिष्ठति तदशानुमिते द्रव्य दशगुण भवति । अधिष्ठितमिति—यत्र ग्रहने चन्द्रो ग्रहान्वितो भवति तत्र द्रव्यमधिष्ठितं भवति । वक्तव्यम् । भास्करादि-ग्रहैः प्रत्येकसहिते क्रमात्तदधिष्ठापको द्रव्याधिष्ठापको द्रव्याधिष्ठाता होय । यथा चन्द्रे सूर्यान्विते ग्रह (मुग्धग्रह) कुजसहिते क्षेत्रपाल युधसहिते मातृका । गुरुसहिते दीपेश । शुक्रसहिते भीषण । शनिसहिते रुद्र ।

राहुसहिते यक्ष । केतुसहिते नाग इति क्रमात् । ग्रह इति—ग्रहेऽधिष्ठितरि होमो ग्रहस्यैव कर्त्तव्यस्तद्यथा मुग्धे मुग्धे ग्रहे नारायणी नारायण समुपव लित । पूजोपहारादि , क्षेत्रपालेऽधिष्ठातरि तस्मै सुरामास च देयमिति । मात्रि कायामधिष्ठात्र्या महाबलिर्मानुषबलिर्देय । तदसम्भवे छागादि योग्यरिद्ध बलित्वेनोपकल्प्यम् । दीपेशेऽधिष्ठातरि दीपप्रधानपूजा दीपजा पूजा भीषणे भीषणार्चन भयजनकमर्चन लोहितपुष्पादिकृतम् । रुद्रेऽधिष्ठातरि रुद्रजमत्रस्य जप जपो रुद्राध्याय , यक्षेऽधिष्ठातरि यक्षादिपूजनम् । नागेति—नागेऽधिष्ठातरि नागग्रहा पूज्या । गणनाथेन गणेशेन सयुत । प्रतिशान्तिके गणेशपूजा लक्ष्मीधरादितत्त्वानि पचविंशतिसख्यकानि सर्वकार्येषु पूजयेत् । अथ पञ्चत्रयेण निधिस्थानद्वारज्ञान टीकाकारोक्त लिख्यते । अहिं बलचक्रमिदम् । अहिं शेषनाग सतु माद्राद्यैस्त्रिभिस्त्रिभिर्मासै पूर्वादि शिर कृत्वा वामपार्श्वेण शेते तेन यत्र तस्य शिर । तत्र निधिस्थानस्य द्वार तेन तन्मासेषु प्रश्ने सति तस्या तस्या दिशि अहिचक्रमुख कृत्तिकाक्षत्र व्यरस्थितम् । कृत्वा व्यरहरणीयम् इत्युपदेश । अथान्यपक्ष । चन्द्राधिष्ठित तत्कालनक्षत्रे यद्दिग्द्वार भवति । कृत्तिकादि सप्तसप्तव्यरस्थितात्तद्दिग्द्वार निधिस्थानस्य अथवा प्ररनकर्त्ता निधि नाथो यत्र दिशि तत्र स्थाने प्रविशति तद्द्वार निधिस्थानस्य । इत्मेव पञ्चत्रया दपि कृत निधि साधयेत् । पद्मामने चन्द्रात्पेन ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ह्रूं षड षड वाग्वादिनि स्वाहा । इति मन्त्र त्रिसध्य पण्मासपर्यन्त जपेत् । निधिप्राप्ति- भवति । एवमिति एव त्रिधानेन यथात्रिधानक्रमेण एव कृते पूजाहोमादौ त्वसाध्यो निधि साध्यते । एवत्रिरूपकस्य निधिप्रयोजनमाह । एव प्रकारेण नरो मनुष्यो निधिप्राप्ता वन्दनीयो नमस्करणीय स्तुत्यो भवत्यत्र मशयो न निश्चय एवेत्यर्थ ॥ २२-२८ ॥

इति स्वरोदयविधृतौ अहिचक्रविवरणम् ।

चन्द्रमा के भुक्त अश के मुख्य द्रव्य की मर्यादा कहना । पद्वर्ग से चन्द्रमा यलवान् हो तो अश मर्यादा से दशगुनी वृद्धि होती है । चन्द्रमा जिस राशि में हो वहीं द्रव्य होता है उसके स्वामी मूर्यादि होते हैं । ग्रह उपग्रह (पातादि), क्षेत्रपाल, मातृका, दीपेश, भैरव, रुद्र, यक्ष, नाग क्रम से अधिपति होते हैं । ग्रह हों तो हवन, उपग्रह (पात) हों तो नारायण घलि, क्षेत्रपाल हों तो शराव और मांस मातृका हाँ तो गरबलि । दीपेश हों तो दीप की पूजा, भैरव हों तो भैरव की पूजा, रुद्र हों तो रुद्र का जप, यक्ष हों तो यक्ष की पूजा, नाग हाँ तो नाग की पूजा करनी चाहिये किन्तु मयके साथ गणेश का भी पूजन होना आवश्यक है । लक्ष्मी धरादि तरंगों का पूजन सभी ऋषों में करना चाहिये । ऐसा विधान करने से अगाप्य

निधि भी साध्य हो जाती है निधि को पाकर मनुष्य लोक में वदनीय हो जाता है ॥ २२-२८ ॥

उदाहरण—जैसे सवत् २०१७ वैशाख कृष्ण ८ भौमवार इष्टघटी १०।५० पर को किमी ने प्रश्न किया कि मेरे घर में द्रव्य है या नहीं यह विचारिये । प्रश्न समय श्रवण नक्षत्र का भयात् ११।५१ है इसकी २७ से गुणने से गुणन फल ३१९।५७ हुआ । इसमें ६० का भाग देने से लब्धि ५ और शेष १९।५७ हुआ । लब्धि में चन्द्रमा के गत नक्षत्र की सख्या २१ जोड़ दिया तो तात्कालिक चन्द्र नक्षत्र २६ हुआ ।

सूर्य माधन का उदाहरण—वैशाख कृष्ण २ बुधवार को १०।५४ पर अधिनी में सूर्य हुये । इसे ६० म घटाने से शेष ४९।६ यह अश्विनी का भोग्य हुआ । और वैशाख शुक्ल १ भौमवार को ५२।९ पर भरणी में सूर्य होंगे । दोनों का योग करने से १११।१५ इसमें दोनों के मध्य के दिन १२ जोड़ देने से १३१।१५ यह सूर्य अश्विनी का भोग्य दिन हुआ । इसमें ६० से भाग देने से एक दिन का भोग दिनादि ०।१३।४१।१५ हुआ । अश्विनी का भोग्य घटी ४९।६ इसमें इष्टघटो को जोड़ देने से ५९।५६ हुये इसमें इष्टदिन पर्यन्त दिन मख्या ५ को जोड़ देने से ५।५९।५६ यह इष्टफल तक म्य का अश्विनी नक्षत्र का भुक्त दिनादि हुआ । इसको सवर्णन करने से १२९।५७६० हुआ इसमें एक दिन के भोग से सवर्णन करके ४९२७५ से भाग देने से २६।२ प्राप्त हुआ यही सूर्य का उदयादिगत घटिका हुई । इसको २७ से गुणा किया तो ७०२।१४ हुआ । इसमें ६० से भाग देने से ११ लब्धि और शेष ४२।५४ हुए । लब्धि में सूर्य के भुक्त नक्षत्र मख्या ० जोड़ देने से ११ हुए यही सूर्य का नक्षत्र अर्थात् उत्तराफाशुनी में सूर्य हुआ ।

पद्मासने चन्द्रातपेन ए क्लो ह वैदवद वाग्वादिनि स्वाहा
इति ब्रह्मयामलीयस्प्रोदये अहिपलचक्रं समाप्तम् ।

पद्मासन से रात में बैठकर ओं क्लो ह वैदवद वाग्वादिनि स्वाहा इस मन्त्र को ६ भास तक तीनों सख्याओं (प्रात मध्याह्न और माय) में जब करने से निधि का लाभ होता है ॥ २९ ॥

इति श्वरोदये अहिपलयचक्रम् ।

अथ लाङ्गलचक्रम्

लाङ्गलं दण्डिका यूकं योऽत्रद्वयसमन्वितम् ।
दण्डिकादि लिङ्गेद्भानि दिनेशाक्रान्तभादितः ॥ १ ॥

दण्डिकाहलयूकानां द्विद्विस्थाने त्रिकं त्रिकम् ।


योक्त्रयोः पञ्चके तत्र गणना चक्रलाङ्गले ॥ २ ॥

दण्डस्थे तु गवा हानिर्यूकस्थे स्वामिनो भयम् ।

लक्ष्मीर्लागलयोक्त्रस्थे क्षेत्रारम्भदिनर्क्षके ॥ ३ ॥

लागलमिति—लागल हलाकार चक्र लिखेत् । कीदृशं योक्त्रद्वयसमन्वितम् । यूप यूपकाष्ठ योक्त्र वृषभारोधक काष्ठद्वय तत्सहितम् । तत्र दण्डिकायुपकस्य सूर्यभादित । सूर्योक्तान्तनक्षत्रादण्डिकाया हले यूपे च प्रत्येक द्विद्विस्थानद्वये त्रिकं त्रिकं नक्षत्राणां लिखेत् । योक्त्रयोस्त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि अपरके द्वयं नक्षत्रस्येति । नक्षत्रलेखनस्यायमनुक्रमः । एवमभिजिता सह अष्टाविंशतिनक्षत्राणि मध्ये पञ्चदशऋक्षाणि सन्निविष्टानि भवन्ति । दण्डस्था इति । क्षेत्रारम्भदिनक्षत्रके क्षेत्रारम्भान्दिनक्षत्रे दण्डस्थे त्रिसख्यके गवा वृषभानां हानिनिनाशो भवति । यूपस्थे यूपकाष्ठभागद्वयस्थे पट्सख्याके स्वामिनो भयम् । कृषिकर्तुर्मति । अन्येषु नक्षत्रेषु लक्ष्मीर्भवतीति ॥ १-३ ॥

हल जूआ दो खटे क साथ होता है । सूर्य के नक्षत्र स दिन नक्षत्र (जिम दिन हल चलाना हो) तक क्रम स मध्य मार्ग से दहिका, हल और जूआ म दो स्थानों म ३ तीन और जूआ म पांच २ नक्षत्र देना चाहिये । १।२। दण्ड क नक्षत्र में हल चरान से गो की हानि, जूआ के नक्षत्र



में स्वामी को भय, लागल में हल चलाने से लक्ष्मी का लाभ होता है ॥ १-३ ॥

इति लागलचक्रम्^१ ।

अथ बीजोक्तिचक्रम् ।

सूर्यभादुरगः स्थाप्यस्त्रिनाट्येकान्तरः क्रमात् ।

मुग्धे त्रीणि गले त्रीणि भानि द्वादश चोदरे ॥ १ ॥

१ मतांतरेण लाङ्गलचक्रम् ।

त्रिकं त्रिकं त्रिकं पञ्च त्रिकं पञ्च त्रिकं त्रिकम् ।

सूर्यादिदिननक्षत्रमशुभं च शुभं क्रमात् ॥ १ ॥

अथ च

रामरामगुणा पञ्च रामपद्मगुणा गुणाः ।

विज्ञेयं लाङ्गलचक्रम् अशुभं शुभमुच्यते ॥ २ ॥

पुच्छे तुर्यं बहिः पञ्च दिनभाच्च फलं वदेत् ।
 वदने कृकले विद्याङ्गलकेङ्गारकस्तथा ॥ २ ॥
 उदरे धान्यवृद्धिश्च पुच्छे धान्यक्षयो मतः ।
 इति रोगभय बाह्ये चक्रे बीजोत्तिसज्ञके ॥ ३ ॥
 इति बीजोत्तिसचक्रम् ।

सूर्य के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर त्रिनाडी सर्पाकार चक्र में मुग्र में ३ नक्षत्र, गले में ३ नक्षत्र, १२ नक्षत्र पेट में, ४ नक्षत्र पूँछ में, और बाहर ५ नक्षत्र



रत्नकर फल को कहे । यदि दिन नक्षत्र मुग्र में पड़े तो रूढ़ के सहन अनाज होता है, गले में हो तो (भाग से) जल जाय । पेट में हो तो अन्न की वृद्धि, पूँछ में हो तो अन्न की हानि और बाहर हो तो टिड्डी आदि और रोग का भय होता है ॥ १-३ ॥

इति बाजोत्तिसचक्रम् १ ।

अथ घृपभचक्रम्

घृपचक्रं घृपाकारं सर्वावयवसंयुतम् ।
 लिखित्वा विन्यसेद्भानि घृपनामर्क्षपूर्वकम् ॥ १ ॥


-
- १ राहुभादृष्टम यायासूर्यभूपनग्वानि च ।
 बीजोत्ति यज्ञयेत्तासा पुच्छस्यापि च चतुष्टयम् ॥ १ ॥
 मूर्ध्नि त्रीणि गले त्रय च जगरे क्षिण्यानि च द्वादश ।
 स्यात्पुच्छे च चतुष्टय यहिरयो भानां स्थित पञ्चकम् ।
 सिक्त वज्रलमसवृद्धिमधिव तिस्तद्भुलानि क्रमा
 स्याद्दीतिप्रभय भय च फणितो बीजोत्तिसज्ञकेऽङ्गभाग् ॥ २ ॥
 राहुस्थिते तु नक्षत्र गण्यत च त्रिलागमै ।
 राहुकारि त त्रिजानीयात्सर्वबीजानि यापयेत् ॥ ३ ॥
 २ घृपवारसु प्रवक्ष्यामि यत्रादायुत्तम स्मृतम् ।
 यस्मिन्निधये स्थिते चक्रे तत्रादौ त्रीणि चास्यके ॥ १ ॥

रौद्रं हस्तं तथा पूर्वापाढा भाद्रा तथोत्तरा ।
 चतुर्थी जीवनाडी स्यात्सौम्यनाडी प्रकीर्तिता ॥ ७ ॥
 पुनर्वसूत्तराफल्गुन्युत्तरापाढतारकाः ।
 पूर्वाभाद्रा च शुक्राख्या पंचमी नोरनाडिका ॥ ८ ॥
 पुष्यर्क्ष फल्गुनोपूर्वा अभिजिच्छततारका ।
 पृष्ठी नाडी च विजेया बुधस्य जलनाडिका ॥ ९ ॥
 आश्लेषार्क्ष मघाकर्णधनिष्ठा च तथैव च ।
 अमृताख्या हि विजेया सप्तमी चंद्रनाडिका ॥ १० ॥
 मध्यमार्गे स्थिता सौम्या नाडी तस्याग्रपृष्ठतः ।
 सौम्ययाम्यगतं जेय नाडिकानां त्रिकं त्रिकम् ॥ ११ ॥
 क्रूरा याम्यगता नाट्यः सौम्याः सौम्यदिगाश्रिताः ।
 मध्यनाडी च मध्यस्था ग्रहरूपफलप्रदा ॥ १२ ॥
 एकनाडी गताश्चेत्स्याद् ग्रहाः क्रूराः शुभा यदि ।
 ततो बोधफलं वाच्य शुभं वा यदि वाशुभम् ॥ १३ ॥
 ग्रहाः कुर्युर्महावातं गताश्चंडाख्यनाडिका ।
 वायुनाडीगता वायु दहन्यामतिदाहकाः ॥ १४ ॥
 सौम्यनाडीगता मघा नीरस्था मेघवाहकाः ।
 जलायां वृष्टिदश्चंद्रोऽमृते चाप्यतिवृष्टिदाः ॥ १५ ॥

अथात इति । अधानन्तर वृषचक्रकथनानन्तर सप्तनाडीचक्र प्रपद्यामि
 येन ज्ञातमात्रेण विदो ज्योतिर्विदोवृष्टि जानन्ति । कृत्तिकादीति—कृत्तिकादि
 कृत्तिकामुपक्रम्य साभिजित्सहितानि भानि क्रमेण लिखेत् । तत्र पञ्चगाकृति
 सर्पाकृति सप्तनाडीभिः सप्तरेखाभिर्धेय कर्त्तव्य । तारेति—ताराचतुष्टयवेधेन
 चतुर्नक्षत्रवेधेन एकैकनाडी जायते प्रतिनाडि चत्वारि चत्वारि नक्षत्राणि
 भवन्ति । तासा नाडिकाना नामान्यह वक्ष्ये तथा तासा फलानि च वक्ष्ये ।
 कृत्तिका चेति—कृत्तिकाऽनुराधाविशाखा भरण्या चर्ध्वो उपरि स्थिता आग्ना
 शनिनाडी सचन्द्रानाडीनाम्ना मता ग्याता । रोहिणीति—रोहिणीस्वाती
 ष्येष्ठाऽश्विनेति द्वितीया नाडिका मता । इयमान्त्यप्रभवा नाडी वायुनाटीति ।
 सौम्यमृगशिरश्चित्रामूलरेवत्य एतच् चतुष्टय तृतीया अगारका नाडी । दहनारया
 दहनानाम्नीति । रौद्रमिति—रौद्रादिनक्षत्र हस्तपूर्वापाढ उत्तराभाद्रपदाचेति

चतुर्थी जीवनाडी स्यात् सौम्यानाम्ना नाडी प्रकीर्तिता कथिता । पुर्नवस्विति-
 पूर्नवसूत्ररा फाल्गुनी उत्तरापाठा पूर्वाभाद्रपदा चेति शुक्रारया शुक्रनाडी पञ्चमी-
 नीरानाडी नाडिका । पुण्यर्धमिति-पुण्यपूर्वाफाल्गुनी अभिजित् शतभिषा चेति
 षष्ठी नाडी बुधारया बुधनाडी जलनाडिका विज्ञेया । आश्लेषार्धमिति-श्लेषाम
 घाश्रयणघनिष्ठा चेति सप्तमी चन्द्रनाडी अमृतानाडिका अमृतानाम्नीति सञ्ज्ञिता
 ततो वेधफल वान्य शुभ वा शुभम् । मध्यमार्गमिति-सौम्यनाडी मध्यमार्गस्थिता
 भवन्ति सौम्यनाडीमध्यस्था । एव सर्वनाडी महरूपफलप्रदा भवन्ति । क्रूरयाम्य-
 गतेति-स्पष्टम् । एकनाडीगतेति—द्वयाद्या क्रूरा शुभा वा यदैकनाडीगता
 भवन्ति तदात् शुभाशुभफल वक्तव्यम् । प्रहेति-नाडिका चन्द्रारया
 गता ग्रहा महावातान् कुर्यु वायुनाडीगता प्रशा वायु, दहननाडीगता दाहम् ।
 सौम्येति-नाडीमध्यमा तद्रता मध्यफलप्रदा इति भाष । नीरस्था नीरनाडीगता
 मेघवाहका भवन्ति । जलायामिति-जलनाडीगतो चन्द्रो घृष्टिदश्चन्द्रनाडी तत्र-
 चन्द्रोऽतिघृष्टि दनातीत्यर्थ ॥ १-१५ ॥

अथ म सप्तनाडी चक्र को कहता हूँ, जिसके ज्ञान से घृष्टि का ज्ञान साधकों को
 होता है । कृत्तिकादि अभिजित् के सहित क्रम से नक्षत्रों को लिखकर सप्तनाडी का
 वेध मप के आकार का करना चाहिये । एक २ नाडी में चार २ नक्षत्रों का वेध होता



है उनके नाम यो भीर फल को मैं कह रहा हूँ । कृत्तिका, विनाया, अनुराधा,
 भरणी इनकी प्रथम घटनाडी और इसके स्वामी घनि हैं । रोहिणी, स्वाती, ज्येष्ठा,
 भधिनी की दूसरी वायुनाडी और इसके स्वामी मूर्य हैं । मृगशिरा, चित्रा, मूल,
 रेवती इनकी तीसरी दहननाडी और इसके स्वामी भीम हैं । भाद्रा, दश,

पूर्वाषाढ, उत्तराभाद्रपद, इनकी चौथी गुरु की सौम्य गाम की गाढी होती है। पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, पूर्वाभाद्रपद इनकी पाँचवीं नीरनाडी गुरु की है। पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, अभिजित्, शतभिषा इनकी छठी जलनाडी बुध की है। श्लेषा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा इनकी अष्टम नाडी चन्द्रमा की सातवीं है। मध्य में सौम्य नाडी है उसके आगे और पीछे उत्तर ओर योग्य सप्तक तीन तीग नाडियाँ हैं। क्रूरग्रह योग्यनाडी म हो और शुभग्रह सौम्यनाडी म हों मध्यनाडी ज्यों की र्या हो तो ग्रह के अनुसार फल होता है। एक नाडी में दो तीन जादि ग्रह गये हों चाहे वे क्रूर हों अथवा शुभ हों तो नाडी का शुभ या अशुभ फल होता है जिस कहता हूँ। चन्द्रनाडी में ग्रह हों तो महावायु, वायुनाडी में हो तो वायु और अग्नि नाडी (वहन) म हों तो अत्यन्त गर्म पड़ता है। मध्य की सौम्यनाडी में अथवा नीरनाडी म ग्रह हों तो मेघ का आगमन, जल नाडी में अथवा चन्द्रनाडी म ग्रह हों तो अतिवृष्टि होती है ॥ १-१५ ॥

एकोप्येतत्फल दत्ते स्वनाडीसंस्थितो ग्रहः ।
 सुभूतः सर्वनाडीस्थो दत्ते नाड्युद्भवम्फलम् ॥ १६ ॥
 प्रावृट्काले समायाते रौद्रऋक्षगते रवौ ।
 नाडीवैभसमायोगाज्जलयोगं वदाम्यहम् ॥ १७ ॥
 यत्र नाडीस्थितश्चन्द्रस्तत्रस्थाः खेचरा यदि ।
 क्रूरसौम्यविमिश्राश्च तद्दिने वृष्टिरुत्तमा ॥ १८ ॥
 एकऋक्षसमायुक्ताः जायते यदि खेचराः ।
 तत्र काले महावृष्टिर्यावत्तस्यांशके शशी ॥ १९ ॥
 केवलैः सौम्यपापैर्वा ग्रहैर्विद्धो यदा शशी ।
 तदातितुच्छं पानीयं दुर्दिनं तु भवेद् ध्रुवम् ॥ २० ॥
 यस्य ग्रहस्य नाडीस्थश्चन्द्रमास्तद् ग्रहेण चेत् ।
 दृष्टो युक्तः करोत्यम्भो यदि क्षीणो न जायते ॥ २१ ॥

एकोऽपीति—एकोऽपि स्वनाडीस्थ स्वनाटियुक्त फल करोति । पापोऽयं शनि म्रनाडीस्थ कृत्तिकाच विशाखा भेद्राख्य भरणी तथेत्यत्राद्य स्वनाडीस्थ-
 श्रण्डाख्यनाडीस्थशनिश्चन्द्रो वायु करोति एव सूर्य स्वनाडीस्थो प्रायु, भीम स्वनाडीस्थी दाह करोति । जीव स्वनाडीस्थो मध्यमं, नीरनाडीगत शुक्रो नीर बुधो जलनाडीस्थो जल चन्द्रोऽमृतनाडीगतोऽमृत जल-प्रकृत्यैकोऽपि भीम पुन पुन प्रावृट्काले सर्वनाडीगत सर्वफल चन्द्राख्यादि करोति । मर्य-

स्थानुमरणीय सर्वदैव चिन्त्य । प्रावृट्काले वर्षाकाले प्राप्ते रवौ रौद्रर्क्षगते
नाडीनक्षत्रगने सति नाडीवेधसमायोगे सति अह जलयोग वदामि । यत्रेति-
यत्र नाड्या चन्द्र स्थित तत्र सर्वे खेचरा सर्वे ग्रहा भवेयु क्रूरा क्षीणचन्द्र-
कुजसूर्यशानय सौम्या पूर्णचन्द्रबुधगुरुशुक्राविति मिश्रा पापाशुभाश्च भवन्ति-
तद्दिने उत्तमा वृष्टिर्भवति । एकत्रेति-सौम्ये पापग्रहे केवल सौम्यपापै-
रन्योन्यामिलिते यदा शशी मिलितो भवति तदा पानीय तुच्छमल्प भवतीति
ध्रुव निश्चित दुर्दिन भवेत् । एकश्रुत्तेति-स्पष्टम् । केवलैरिति-स्पष्टम् । यस्येति-
चन्द्रमा यस्य ग्रहस्य नाड्या स्थितो भवति तद्ग्रहेण तेन ग्रहेण दृष्टो युक्त
सन् अभा जल करोति । यदि चन्द्र क्षीणो दृष्टो युक्तस्तदा जल न जायते
पुष्टश्रेद्भवतीति ॥ १६-२१ ॥

एक भी ग्रह अपने नाडी में हो तो उस नाडी का फल देता है । भौम सभी
नाडियों में उा २ नाडियों का फल देता है । वर्षाकाल में आर्द्रा नक्षत्र में रवि के
होने से नाडीवेध होने से जलयोग होता है उसे कह रहा हूँ । जिस नाडी में चन्द्रमा
है उसी में यदि भ्रूग्रह, शुभग्रह या दोनों हों तो उसदिन उत्तम वृष्टि होती है ।
एक ही नक्षत्र में यदि ग्रह हों और उसी नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो उसदिन
अतिवृष्टि होता है । केवल शुभग्रह अथवा पापग्रह से चन्द्रमा विद्ध हो तो अत्यन्त
सुष्ठु वृष्टि होती है और उसदिन दुर्दिन होता है । जिस ग्रह के नाडी में चन्द्रमा हो
यदि उस ग्रह स चन्द्रमा दृष्ट और युक्त हो किन्तु चन्द्रमा क्षीण न हो तो उसदिन
वृष्टि होती है ॥ १६-२१ ॥

पीयूषनाडिगश्चन्द्रस्तत्र खेटाः शुभाशुभाः ।

द्विचतुःपञ्चपानीय दिनान्येकत्रिसप्तकम् ॥ २२ ॥

एवं जलाख्यनाडोस्थे चन्द्रे मिश्रग्रहान्विते ।

दिनार्धं दिवस पञ्चदिनानि जायते जलम् ॥ २३ ॥

नौरनाडिगते चन्द्रे तत्रस्थैः पूर्ववद्ग्रहैः ।

यामं दिनार्धं त्रीणि दिनानि जायते जलम् ॥ २४ ॥

अमृतादित्रये यत्र भवन्ति सर्वग्रेचरा ।

तत्र वृष्टि क्रमाज्ज्ञेया घृत्यर्करमवासरे ॥ २५ ॥

सौम्यनाडोगता सर्वे वृष्टिदास्ते दिनत्रयम् ।

शेषनाट्या महारातदुष्टवृष्टिप्रदा ग्रहाः ॥ २६ ॥

निर्जला जलदा नाडी भवेयोगे शुभाधिके ।

भ्रूराधिकसमायोगे जलदोष्यम्बुदाहकः ॥ २७ ॥

याम्यनाडीस्थिताः क्रूरा अनावृष्टिप्रसूचकाः ।

शुभयुक्ता जलस्थास्नेऽतिवृष्टिप्रदा ग्रहाः ॥ २८ ॥

एकनाडोसमारूढौ चन्द्रमाधरणोसुतौ ।

यदि तत्र भवेज्जीवस्तदा वारिमयी मही ॥ २९ ॥

बुधशुक्रौ यदैकत्र गुरुणा च समन्वितौ ।

चन्द्रयोगे तदा काले जायते वृष्टिरुत्तमा ॥ ३० ॥

जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसितौ ग्रहौ ।

क्रूरैर्दृष्टौ युतौ वापि तदा मेघोल्पवृष्टिदः ॥ ३१ ॥

उदयास्तमये मार्गे वक्रयुक्ते च संक्रमे ।

जलनाडीगताः खेटा महावृष्टिप्रदायकाः ॥ ३२ ॥

प्रजति यदि कुजः पतङ्गमार्गं घट इव भिन्नतले जल ददाति ।

यदि भवति च भास्कराग्रगामी प्रलयघनानपि शोपितुं समर्थः ॥

इति श्रीयामलीयस्मरोदये सप्तनाडीचक्रम् ।

पीयूषेति—प्रावृट्काले अमृताख्यनाड्यागतश्चन्द्र पुनस्तत्रैव भवति । नाड्या शुभाऽशुभादि मिश्रा द्विचतु पञ्चग्रहा भवन्ति तदा पानीयम् । कतिदिनानि पानीय भवति तत्र द्विचतुभिर्ग्रहै पापद्वयमेव चतुर्भिर्ग्रहैर्युक्तो वेधितश्च पीयूष नाडीगतश्चन्द्रस्तदा चतुर्भिर्दिनानि पानीय वाच्यम् । पञ्चभि शुभपापैस्तथा पञ्च दिनानि वाच्य पानीयम् । अथैकनक्षत्रस्थचन्द्रमेकदिनार्पण युक्तमेतत् । द्विचतु- पञ्चपानीय इति कथन कथ सम्पद्यते । तत्रोच्यते प्रावृट् अथ वर्षणयोग यदा एषविधो योगश्चन्द्राद्भवति द्विचतु पञ्चभिर्ग्रहै यथामध्य द्विदिनं चतुर्दिन पञ्च दिनानि पानीयमिति योग्यम् । नरहरिस्तु पीयूषनाडिगोऽमृतनाडीगतश्चन्द्र शुभाऽशुभा सौम्यरूखेटा ग्रहा द्विचतु पञ्च भवति । द्वौ वा पापशुभौ चत्वार पापशुभा पञ्चपापशुभास्तथा षडत्रिसप्तत्तिनानि पानीय पतति । द्विप्रद्वय योगे एकदिनं चतुर्ग्रहयुगे पञ्च पञ्चग्रहयुगे सप्तदिनानि वृष्टिरिति । एवेति—एत द्विचतु पञ्चक्रमेण मिश्रप्रशान्तिवते चन्द्रे जलनामाणांमध्ये दिनानि द्विद्वयम पञ्चत्तिनानि व्याप्य जल पतति द्विग्रहयोगे तिनार्धं चतुर्ग्रहयोगे द्विग्रह पञ्चग्रहयोगे पञ्चदिनानि व्याप्य वृष्टिरुक्तमेव भवतीत्यर्थः । नीरनाडी स्थित इति—चन्द्रे नीरनाडीस्थिते तत्र पूर्वद्विचतु पञ्चसत्यापा पापशुभग्रहा स्थिता नीरनाडीस्था भवन्ति तदा याम दिनार्धम् शीणि दिनानि व्याप्य वृष्टिर्भवति । यामग्रहर अमृतादिमय इति । अमृताणि त्रिनाडीक्रमेण अमृतज

लनीरनाडीत्रयेषु यदि सर्वे खेचरा सर्वे ग्रहा प्रभयेयुस्तदा घृत्यर्कनासरै समास्तुल्यवासरास्तद्वधि वृष्टिर्भवति । पराऽमृतनाडीस्था सर्वे ग्रहास्तदा अष्टादशवासरायधिर्भवति यदि जलनाड्या सर्वे ग्रहास्तदा र्कनासरै द्वादशदिनै समा यावद्द्वादशवासरा च वृष्टिर्भवति । यदा नीरनाड्या सर्वे ग्रहास्तदा रसवासरै पडभिर्दिनै समा पडभिर्दिनानि यावद् वृष्टिर्भवतीति । सौम्येति—सौम्यनाडीचतुर्थनाडिकात हता सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा दिनत्रय वृष्टिदा शेषनाड्या वायुदहनचन्द्रनाड्या स्थिता सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा दिनत्रय वृष्टिदा । शेषनाड्या वायुदहना चन्द्रनाड्या स्थिता सर्वे ग्रहा वायुसहिता वृष्टिप्रदा भवन्ति । एव वातादिवृष्टिसमयो ज्ञात प्रत्यक्षीभवेदिति तात्पर्यम् । निर्जलेति—नाडीशुभाधिका सर्वेऽतिजलदो मेघो निर्जलो भवेत्, जलनाड्या क्रमधिकसमायोगे सति क्रूरा यद्यधिका भवति शनेश्च नाड्या कृत्तिकाविशाखानुराधा भरणीति, रेरे नाड्या रोहणीस्वाती ज्येष्ठाऽश्विनीति । कुनस्य दहना मृगशिरश्चित्रामूल रेवतीति गुरोश्च सौम्यनाड्यो आर्द्राऽस्तपूर्वापाढोत्तराभाद्रेति, शुक्रस्य पद्ममीपुनर्घसूत्राफाल्गुनी उत्तरापाढापूर्वभाद्रपदेति । बुधस्य पृष्ठी जलनाडी पुष्यपूर्वाफाल्गुनी अभिजित् शतभिषेति चन्द्रस्य सप्तमी अमृतनाडीति । श्लेषामघाश्रवणो धनिष्ठेति । याम्या नाटीति—क्रूरा रश्मिनिभौमराहुकेतव याम्यनाडो गता चन्द्रेवायुदहननाडीगता यावत्काल तावत् अनावृष्टिप्रमचका अनावृष्टि सूचयति ते यदि जलसस्था भवन्ति तदा जलराशयो मरारार्धकुम्भमीनकर्कस्तन्नराशगतास्तथा शुभयुक्ता शुभो गुरुबुधशुक्र पूर्णचन्द्रस्ते अतिवृष्टिप्रदा । विशेषतः सौम्यनाडीस्थैरिदं फल वाच्यम् । एकनाडी इति—चन्द्रो धरणीसुतो भवतस्तत्र चेजीवो वृहस्पतिर्भवेत् तदा मही वारिजलपूर्णत्यर्थः । बुधशुक्राविति—यदि बुधशुक्रौ गुरुणा समन्वितौ एकनाडीस्थितौ भवत अर्थात् गुरुशुक्रबुधा एकनाड्या भवन्ति तत्रचेति चन्द्रो भवति तदा तस्मिन्काले उत्तमा वृष्टि जायते । जलयोगेति—जलयोगे समायाते—को अर्थः—यस्मिन्योगे विचारित तस्मिन्योगे यदि चन्द्रशुक्रौ द्वादशवारचके क्रूरदृष्टौ अथवा क्रूरैर्युक्तौ तदा अल्पवृष्टि पूर्णयोगे स्थल्पवृष्टि करोति । उदयान्तेति—प्राणामुदयेस्तमेने च तथा मार्गे तथा षकगे सक्रमणे मङ्गलमक्रमे । तथा जलनाटीगता रोटा मदावृष्टिप्रदा मता कथिता । प्रवतीति—स्पष्टम् ॥ २२-३३ ॥

पीयूष (अमृत) नाडी में चन्द्रमा हो और उसमें शुभ पाप दोनों हों तो एक, तीन, सातदिन तक तीन, चार, पाँच बार पाती बरसता है । इसी प्रकार जलनाडी में चन्द्रमा मिश्रित ग्रह (शुभ पाप) से युक्त हो तो द्वाद दिन या ५ दिन तक वृष्टि होती है । नीरनाडी में चन्द्रमा हो और उसमें मिश्र ग्रह हों तो तीन दिन डेढ़ ग्रह तक वृष्टि होती है । अमृतादि तीन नादियों में सभी ग्रह हों तो क्रम से १८, १२, ९ दिन तक वृष्टि होती है । सौम्य नाडी में सभी ग्रह तीन दिन तक वृष्टि बरते हैं ।

शेषादियों में महावायु और द्रुष्टवृष्टि को करते हैं। निर्जल नाडी में अधिक शुभग्रह हों तो जलद नाडी हो जाती है। जलद नाडी में अधिक पापग्रहों का योग हो तो जलद नाडी केवल चादल ही करके रह जाती है। राग्यानाडी में शूर ग्रह हों तो अनावृष्टि के सूचक होते हैं। शुभयुक्त और जलाश में हों तो वे अधिक वृष्टि करते हैं। एक ही नाडी में चन्द्रमा और मंगल हों यदि उसी म गुरु भी हो तो वृष्टि से पृथ्वी मसुद्र के समान हो जाती है। धुध शुक एक राशि पर गुरु के साथ हों यदि चन्द्रमा योग करे तो उत्तम वृष्टि होती है। जलयोग में चन्द्रमा और शुक को शूरग्रह देखता हो तो मेघ अल्पवृष्टि को देते हैं। ग्रह के उदय या अस्त समय में मार्ग के समय वक्री के समय में सक्रान्ति के समय जलनाडी में स्थित ग्रह अधिक वृष्टि करत हैं। यदि भौम सूर्य के साथ हो तो दूसरे देश में वृष्टि होती है और सूर्य से आगे हो तो प्रलय के चारुलों को भी सोखने में समर्थ होता है ॥ २२-३३ ॥

इति सप्तनाडीचक्रम्

अथ समुद्रचक्रम् ।

कृत्तिकादिलिखेच्चकं मेपसंक्रान्तिवासरात् ।

दिनक्रक्ष भवेद्यत्र तत्र वृष्टिफलाफलम् ॥ १ ॥

अतिवृष्टिः समुद्रे च तदे वृष्टिस्तु शोभना ।

सन्धौच खण्डवृष्टिः स्यादनावृष्टिश्च पर्वते ॥ २ ॥

इति समुद्रचक्रम् । -

मेष सक्रान्ति क दिन जो नक्षत्र हो यहाँ से अभिजित् के सहित २ नक्षत्र समुद्र में २ नक्षत्र तट प्रदेश में १ नक्षत्र पर्वत में और २ नक्षत्र सधि म चारों दिशाओं में दो १

२ तट	२ समुद्र	२ सधि
१ गिरि		१ गिरि
२ सधि	मेपाकदिशमा द्वयदिनसंम	२ तट
२ समुद्र		२ समुद्र
२ तट	२ समुद्र	२ सधि
१ गिरि		१ गिरि
२ सधि		२ तट

नक्षत्र लिखे जैसा कि चक्र में दिया हुआ है। जिस दिन वृष्टि का विचार करना हो उस दिन का जो नक्षत्र है वह जिस भाग में हो वमसे यहाँ का विचार करे। दिन नक्षत्र समुद्र में हो तो आदन्त वृष्टि, तट प्रदेश में हो तो शुभद वृष्टि, सधि म हो तो गड वृष्टि और पर्वत में हो तो अनावृष्टि होती है ॥ २-३ ॥

इति समुद्रचक्रम्

अथ स्त्रीपुंनक्षत्राणि ।

आर्द्रादिदशकस्त्रीणां विशाग्वात्रि नपुंसकम् ।

मूलाचतुर्दशः पुंसां नक्षत्राणि क्रमाद्गुहैः ॥ १ ॥

वायुर्नपुंसके भे च स्त्रीणां भे चात्रदर्शनम् ।

स्त्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिर्भवति निश्चितम् ॥ २ ॥

इति स्त्रीपुंनक्षत्राणि ।

आर्द्रा से १० नक्षत्र स्त्री सञ्जक, विशाखा से ३ नक्षत्र नपुंसक सञ्जक और मूल से १४ नक्षत्र पुरुष सञ्जक होते हैं, उसका फल इस प्रकार है । मकराति के दिन रवि

स्त्री सञ्जक	पुरुष सञ्जक	नपुंसक सञ्जक
भा पुन पु श्लो म पू फा उ फा ह चि स्वा	मू पूषा उषा श्र धनि रात पू मा उभा रे भश्चि भर कृ रो मृग	वि अनु श्यो

चन्द्रमा नपुंसक नक्षत्र में हों तो उस मास में वायु अधिक होती है । स्त्री सञ्जक नक्षत्र में हों तो भेष धिरे रहें और स्त्री पुरुष का संयोग हो तो अत्यन्त वृष्टि होती है ॥ १-२ ॥

इति स्त्री पुयोग

अथ रविचन्द्रयोगचक्रम् ।

ऋक्षप्रवेशे यदि भास्करस्य चन्द्रे त्रिकोणे यदि केन्द्रगे वा ।

जलालयस्थे भृगुजे क्षिती युतो सम्पूर्णमेघा जलदा भवन्ति ॥१॥

मत्स्यः कुलीरे मकरे बृहदकं कुम्भे वृषे चापजलार्धमात्रम् ।

अलौ चतौली जलसंज्ञमाहुः सिंहादिशेषा अजला भवन्ति ॥२॥

कृत्तिकादित्रयं ऋक्षमारुद्रात्पञ्चभिः सह ।

पूर्वाषाढाचतुष्कं च पूर्वाभाद्रपदान्तिमे ॥ ३ ॥

इत्येष चन्द्रनक्षत्रं शेषं सूर्यस्य उच्यते ।

सूर्ये सूर्ये भवेद्वायुश्चन्द्रे चन्द्रे न वर्पति ॥ ४ ॥

चन्द्रसूर्यसमायोगस्तदा वर्पति माघवः ॥ ५ ॥

इति चन्द्रसूर्ययोगः ।

सूर्य के नक्षत्र प्रवेश के समय चन्द्रमा त्रिकोण या केन्द्र में हों और जलघर राशि में शुक्र से देगा जाता हो या युत हो तो सम्पूर्ण मेघ जल देते हैं। मीन, कर्क, मकर राशि में हों तो अत्यन्त जल, कुम्भ, घृप, घन राशि में हों तो आधा जल और वृश्चिक, तुला में हों तो स्वल्प जल और सिंहादि शेष राशियों में हों तो जल नहीं घरसता है। कृत्तिका से ३ नक्षत्र, आर्द्रा से ५, और पूर्वाभाद्रपद से ३ नक्षत्र ये ११ नक्षत्र चन्द्रमा के हैं शेष नक्षत्र सूर्य के हैं, सक्रांति के समय दोनों रवि चन्द्र सूर्य के ही नक्षत्र में हों तो वायु, दोनों चन्द्र नक्षत्र में हों तो वर्षा नहीं, चन्द्र सूर्य का योग हो तो वर्षा होती है ॥ १-५ ॥

अथ वृष्टियोगाः ।

तदनुग्रहयोगः

स्वातीपयोत्तरा रौद्रे प्रजापत्युत्तरासु च ।

यावत्तिष्ठति भूमीजस्तावदेव न वर्षति ॥ १ ॥

इन्दौ शनौ गिरौसस्थौ भानुर्वा भूमिनन्दनः ।

शिशोरिवायुर्वा वर्षं भूलोके भूतिदं भवेत् ॥ २ ॥

कनकं पुरतो गच्छेद्भानुभार्गवयोरपि ।

तुपारवर्षः पर्जन्यो वर्षेयुः खण्डमण्डलम् ॥ ३ ॥

जलराशिस्थिते चन्द्रे जामित्रे नवमे तथा ।

अर्कस्तूनुश्च भौमश्च अतिवृष्टि च मुञ्चति ॥ ४ ॥

कुजजौ रविजश्चैव शुक्रस्याग्रे सदा यदि ।

शुद्धोतिवायुर्दुर्भिक्षं जलनाशकरस्तथा ॥ ५ ॥

प्रावृषोदुसितः सप्तमराशिगः शुभवीक्षितः ।

मन्दत्रिकोणसप्तस्थो अथवा वृष्टिकृद्भवेत् ।

भृगोः सुते प्रवृष्टिश्च शीतरश्म्यंतरस्थितः ॥ ६ ॥

१ ग्रन्थांतरे रोहिणी वामघटम्—

मेपाईदिनभाइचद्वयमधी द्वय तटे ।

एक गिरौ द्वय सन्धी विदिशु च तथा न्यमेत् ॥ १ ॥

सामिजिच क्रमेणै तत्फलं दद्यात् रोहिणी ।

१ बहुवृष्टिः समुद्रे स्यात्तटे वृष्टिश्च घोभना ॥

गिरौ सन्धी स्वल्पवृष्टिरित्याहुः पूर्वधूरय ॥ २ ॥

सौम्ये विशेषेण पतङ्गपुत्राद्यदि त्रिकोणे यदि केन्द्रगे वा ।
जलालयस्थे भृगुजेक्षिते वा मेघाश्च सम्पूर्णजला भवन्ति ॥७॥

गुरौ चन्द्रे च जामित्रे सितादर्काद् गुरावपि ।

जामित्रेर्को ग्रहाः सर्वे अनावृष्टिर्भवेत्तदा ॥ ८ ॥

अत्र च—वृष्टिः शीतकरो भृगुपुत्रात्सप्तमराशिगतः शुभग्रहः ।
सूर्यसुतान्नवपञ्चमगो वा सप्तमगश्च जलागमनाय ॥ ९ ॥

पूर्वे स्वातित्रये भानौ पश्चिमे पितृपञ्चकम् ।

अनावृष्टिर्विजानीयाद्विपरीते प्रवर्षणम् ॥ १० ॥

पुरोद्गारमनावृष्टिः पुरो शुक्रप्रवर्षणम् ।

पुरो देवगुरौ वह्निः पुरो सौम्योयवानिलः ॥ ११ ॥

ज्येष्ठमासि सिते पक्षे रौद्रादि दशतारकाः ।

सजला निर्जला जेया निर्जला सजला भवेत् ॥ १२ ॥

इति वृष्टियोगफलम् ।

स्वाती, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, आर्द्रा, रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जय तक मङ्गल रहता है तत्र तक वृष्टि नहीं होती है । चन्द्रमा शनि गिरि (पर्वत) में हों, सूर्य, मङ्गल हों तो भूलोकवासियों को पेश्वर्य की प्राप्ति होती है । सूर्य और शुक्र से आगे गुरु हो तो पाला की वर्षा गण्ड मण्डल (कहीं कहीं) होती है । चन्द्रमा जल राशि में और शनि मङ्गल सातवें या नवम में हों तो अत्यन्त वर्षा होती है । यदि भौम बुध शनि शुक्र से आगे हों तो अत्यन्त वायु चले, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि हो । प्रावृट् ऋतु में चन्द्रमा शुभ सातवें राशि में हों और शुभ ग्रह से देये जाते हों अथवा शनि त्रिकोण या सप्तम में हो तो वर्षाकारक होता है । शुक्र चन्द्रमा के रश्मि के अन्तर्गत हो तो वृष्टि होती है । विशेषकर शनि से त्रिकोण या केन्द्र में बुध हो और जलघर राशि में गये हुये शुक्र से देया जाता हो तो प्रभूत वृष्टि होती है । शुक्र से सातवें भाग में गुरु और चन्द्रमा हों, सूर्य से सातवें भाग में गुरु हो अथवा सातवें भाग में सूर्यादि सभी ग्रह हों तो अवर्षण होता है । शुक्र से सातवें भाग में चन्द्रमा शुभग्रह से दृष्ट हो तो वृष्टि होती है । शनि से १५ वा ७ भाग में चन्द्रमा हो तो वृष्टि होती है । स्वाती से ३ नक्षत्र पर्व में, मघा से ५ नक्षत्र पश्चिम में, सूर्य के रहने में वृष्टि होती है । इससे विपरीत नक्षत्र में सूर्य हों तो अनावृष्टि होती है । सूर्य से आगे भाग हो तो अनावृष्टि, शुभ हो तो वृष्टि, गुरु आगे हो तो गर्भी अधिक, बुध हो तो वायु चलती है । ज्येष्ठ मास के शुक्र पक्ष में आर्द्रा नक्षत्र से १० नक्षत्र क्रम से मजल और निर्जल होते हैं ॥ १-१२ ॥

इति वृष्टियोगफलम् ।

अथ शुक्रोदयास्तफलम् ।

आदित्ये बहुवात च भूमिजे शशुपीडनम् ।
 बुधे चैव तु दुर्भिक्षं शनिवारे महद्भयम् ॥ १ ॥
 सोमे शुके गुरौवापि सुभिक्षं जायते ध्रुवम् ।
 उदयं भार्गवे चैत्रे वज्जिराजव्यवस्थिते ॥ २ ॥
 वैशाखे च भवेन्नाशो सर्वनाशं चतुष्पदम् ।
 ज्येष्ठे च सजला पृथ्वो आपाढे जलशोपके ॥ ३ ॥
 श्रावणे कम्पिता भूमौ धनधान्यं नभस्यके ।
 आश्विने कार्तिके मार्गं सहितं च प्रवर्तते ॥ ४ ॥
 पौषे चैव तथा माघे राष्ट्रभङ्गं विनिर्दिशेत् ।
 फाल्गुने अल्पवृष्टिश्च उदयास्तभृगोः फलम् ॥ ५ ॥

इत्युदयास्तफलानि ।

यदि शुक्र का उदय या अस्त रविवार को हो तो अधिक वायु चले । भीमवार को शशुपीडा, बुधवार को हो तो दुर्भिक्ष, शनिवार को हो तो भय और सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार को हो तो सुभिक्ष होता है । यदि चैत्र मास में शुक्र का उदय या अस्त हो तो यज्ञवत शासन हो । वैशाख मास में चतुष्पदा का नाश, ज्येष्ठ मास में वर्षा, आपाद् मास में जल का अभाव, श्रावण मास में भूकम्प, भाद्रपद में धनधान्य की वृद्धि, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में हितकर और पौष तथा माघ मास में राष्ट्र का भङ्ग और फाल्गुन मास में अल्पवृष्टि होती है ॥ १-५ ॥

इत्युदयास्तफलम् ।

अथ मेघद्वाराणि ।

भरण्याद्यष्टश्लाणि मेघद्वारं प्रकीर्तितम् ।
 प्रभूत वर्षते मेघः सुभिक्षं जायते ध्रुवम् ॥ १ ॥
 मघादि पञ्च ऋक्षाणि वायुद्वारं प्रकीर्तितम् ।
 उन्नता चैव मेघाश्च न वर्षन्ति कदाचन ॥ २ ॥
 स्वात्यादित्रीणि ऋक्षाणि घर्मद्वारं प्रकीर्तितम् ।
 सुभिक्षं श्लेममारोग्यं षष्ठ्यष्टिश्च जायते ॥ ३ ॥
 ज्येष्ठादि पञ्चश्लाणि रेतद्वारं प्रकीर्तितम् ।
 उन्नता अल्पमेघाश्च अल्पस्तस्यश्च जायते ॥ ४ ॥

घनिष्ठादिपट्टक्षणाणि हेमद्वारं प्रकीर्तितम् ।
सुभिक्षं जायते सर्वं मेघा वर्षति तु ध्रुवम् ॥ ५ ॥
इति स्वरोदये मेघद्वाराणि ।

भरणी मे आठ नक्षत्र मेघ द्वार सञ्जक होते हैं । इसमें सक्रांति हां तो अर्धरात्रि वर्षा होती है । मघा से पाँच नक्षत्र वायु द्वार सञ्जक हैं इसमें सक्रांति होने से घड़े घड़े मेघ दिपाई पड़ते हैं किन्तु वर्षा नहीं होती है । स्वाती से ३ नक्षत्र धर्मद्वार सञ्जक होते हैं इसमें सक्रांति होने से सुभिक्ष, कल्याण, भारोग्यता और अर्धरात्रि वृष्टि होती है । ज्येष्ठा से ६ नक्षत्रों की रेतद्वार सञ्जा है इसमें सक्रांति होने से घड़े घड़े मेघ दिखाई पड़ते हैं अल्पवृष्टि और अल्प उपज होती है । धनिष्ठा से ६ नक्षत्र हेमद्वार कहा जाता है इसमें सक्रांति होने से सुभिक्ष और सुवृष्टि होती है ॥ १-५ ॥

अथ वृष्टिलक्षणम् ।

अतिवातं च निर्वातमत्युष्णं शीतशीतलम् ।
अत्यभ्रं च निरभ्रं च षड्विधं मेघलक्षणम् ॥ १ ॥
यावत् काकोदरा मेघा यावत्सूर्यः शशी समः ।
यावन्नैर्ऋतिको वायुस्तावद्देवो न वर्षति ॥ २ ॥
चित्रास्वातिविशांवासु श्रवणेति जलं तथा ।
तदा स्तुत्यादिक कृत्वा नदीतीरे उपासनात् ॥ ३ ॥
श्रवणे स्वातिपञ्चम्यामस्तं याति दिवाकरः ।
अवृष्टियेदि पर्जन्यो जलसादपि सर्वथा ॥ ४ ॥
उदय सोमजो याति चास्तं याति भृगोः सुतः ।
श्रावणे चैत्रमासे तु तत्र पातं च दुर्लभम् ॥ ५ ॥
उत्तरा पूर्वसस्या च परसस्या च रेवती ।
अश्विनी सर्वसस्या च यदि वर्षति कृत्तिका ॥ ६ ॥
रेवती तोयनाशाय धान्यनाशाय चान्विनी ।
भरणी सर्वनाशाय यदि वर्षति कृत्तिका ॥ ७ ॥
स्वाती ज्येष्ठा मघाद्रा च रोहिण्युत्तरमेव च ।
भूमिजस्तत्र चायाति घनावृष्टिकरः स्मृतः ॥ ८ ॥
इति वृष्टिलक्षणम् ।

अतिवात, विवात, अस्युष्ण, क्षीतशीतल, भायन्न, गिरध—ये ६ प्रकार के मेघ होते हैं । जय तक्र काक के उदर के समान मेघ हो, और सूर्य चन्द्रमा मृष्य होते हैं तय तक्र वृष्टि नहीं होती है । चित्रा, स्वाती, विनासा भवण नक्षत्र जठ के हैं यदि इनका योग हो तो प्रार्थना आदि करने से वृष्टि होती है । भावण मास में पशुमो तिथि स्वाती नक्षत्र में सूर्य का भस्म हो तो अवृष्टि होती है । शुभ का उदय और शुक्र का नस्त यदि श्रावण या चैत्र मास म हो तो भोला आदि गिरते हैं । उत्तरा पूर्वसस्या और रेवती परसस्या और अधिनी सर्वसस्या है । रेवती जलशाक, अधिनी घायनाशक, भरणी सर्वनाशक और वृत्तिका भी सर्वनाशक है । इनमें जलपर्यग से उक्त फल होते हैं । स्वाती, ज्येष्ठा, मघा, आर्द्रा, रोहिणी, तीनों उत्तरा, इनमें मङ्गल हो तो अनावृष्टि होती है ॥ १-८ ॥

इतिवृष्टिलक्षणम् ।


अथ कालदष्टाचक्रम् ।

नवोर्ध्वगानि धिष्ण्यानि नवतिर्यग्गतानि च ।
 अधोगतानि धिष्ण्यानि नव चैव विनिर्दिशेत् ॥ १ ॥
 चतुर्नाडीगतो वेधो मध्ये ऋक्षत्रयोज्जितः ।
 सर्पाकारस्य चक्रस्य कालचक्रं प्रजायते ॥ २ ॥
 त्रीणि मध्यगतर्क्षाणि तानि कालमुग्वानि तु ।
 कोणस्थिते च द्वे धिष्ण्ये ते च दंष्ट्राद्वयं मतम् ॥ ३ ॥
 दिनर्क्षमादितः कृत्वा नामर्क्षं यत्र संस्थितम् ।
 सुवदंष्ट्रागते मृत्युः शुभमन्यत्र सस्थिते ॥ ४ ॥
 ज्वरिते नष्टदष्टे च विवाहे विग्रहे रणे ।
 कालदंष्ट्रास्यगो मृत्युर्वामर्क्षे तु मर्द्दयम् ॥ ५ ॥

इति कालदष्टाचक्रम् ।

नवोर्ध्वगानीति ।—त्रिंशत्त्रयस्य नव श्रेष्ठाणि नक्षत्राणि उर्ध्वगानि अध प्रदेशादूर्ध्वक्रमेण त्रिरिगानि एष तत्र नक्षत्राणि अधोगतानि लेख्यानि । चतुरिति । तस्य सर्पाकारस्य चक्रस्य चतुर्नाडीगतो वेध फलस्य । कीदृशा मध्यश्रेष्ठत्रयोज्जित मध्ये स्यात्त्रये श्रेष्ठत्रयोज्जित मध्ये मित्त मित्तस्या श्रेष्ठत्रयेण रहित । एषविध कुर्वादित्यर्थ । एष व्यवस्थया कालचक्रं प्रजायते । अन्यत्पष्टम् ॥ १-५ ॥

नव नक्षत्र ऊपर को, नवनक्षत्र तिरछे पक्ति म और नवनक्षत्र अधोगत लिखने से । चारगाड़ी से युक्त यह सर्पाकार कालदण्डा चक्र होता है जिसमें मध्य के ३ नक्षत्रों को छोड़कर बंध का विचार करना चाहिये । जो मध्य के तीन नक्षत्र हैं वे कालदण्डा के मुल में है, और कोण में जो दो नक्षत्र हैं वे दोनों दात है । दिन नक्षत्र



से गणना करने से नाम का नक्षत्र जहा हो उससे फल का विचार करे यदि मुख्य और दांत में नाम नक्षत्र हो तो मृत्यु होती है अन्यत्र हो तो शुभद होता है । ज्वर में, नष्ट वस्तु क खोजने में, सर्प के काटने में विवाह में, विग्रह में अथवा सग्राम में काल के दांत में जिसका नाम होता है उसको बड़ा भय या मृत्यु होती है ॥ १-५ ॥

इति कालदण्डा चक्रम् ।

अथ सूर्यफणिचक्रम् ।

सप्तविंशति भान्यत्र पंक्तियुक्ता क्रमेण च ।

द्व्यन्तरे द्व्यन्तरे वेध' फणिचक्रं त्रिनाडिकम् ॥ १ ॥

यत्र ऋक्षे स्थितो भानुस्तदादौ गणघेद्वुधः ।

नाम ऋक्ष स्थितं यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ॥ २ ॥

कुर्यान्मृत्युं च रोगं च नाडोवेधगतं नृणाम् ।

वर्जयेत्सर्वकार्येषु युद्धकाले विशेषतः ॥ ३ ॥

निर्वेधऋक्षमध्यस्थ यस्य नाम प्रजायते ।

सिध्यन्ति सर्वकार्याणि सग्रामे विजयी भवेत् ॥ ४ ॥

इति यामले स्वरोदये सूर्यफणिचक्रम् ।

सप्तविंशति इति स्पष्टम् ॥ १-४ ॥


जीवपक्षे स्थिते चन्द्रे अकुलक्षे प्रवेशके ।
 यानं कविरणे प्रोक्तं ज्ञात्वा प्रावेशनिर्गमौ ॥ १७ ॥
 उदितास्तस्वरो येषां जन्मक्षेत्रदुसंभवः ।
 तद्दिने ते भटाः सर्वे वर्जनीयाः कवौ रणे ॥ १८ ॥
 क्रूरे शीघ्रे प्रवेशक्षे यत्र तत्र विशेषणम् ।
 वक्रस्ते निर्गमे सौम्ये तद्दिशानिर्गमं कुरु ॥ १९ ॥
 प्रवेशक्षे प्रवेशं च निर्गमे निर्गमस्तथा ।
 भूवलं पृष्ठतः कृत्वा प्रोक्तः कविरणे जयः ॥ २० ॥

इति कविचक्रम्

हीनसैन्य इति । म्यायी फोटस्य नृप सदा हीनसैन्य । यायी च सर्वदा
 सैन्याधिक अर्थात् मदा सैन्याधिकया मह प्रयाणं करोतीति । ततोऽयलस्य
 फक्सिगरे युद्धे बलोपाय बलैकजनकमुदमुपाय प्रकार वच्ये । फक्सिगरे डाफ
 युद्धमिति प्रसिद्धम् । प्रयाणे इति । प्रयाणे गमनममये घटप्रयाणे सचारातरं
 निशीथेऽर्द्धरात्रे मृगया गते आखेटके गते शोकार्त्ते शोकजनितपीडाया व्यसने
 प्राप्ते उपस्थिते, सैन्य हीने अनायके स्वार्मिहीने सैन्ये अन्यत्स्पष्टम् ॥ १-२० ॥

कोट में रहने वाला राजा (स्थायी) हमेशा थोड़ी सेना वाला होता है और
 उस पर चढ़ाई करने वाला (यायी) राजा हमेशा अधिक सेना वाला होता है ।
 जो निर्यल है उसे बलवान् होने का उपाय कह रहा हूँ विशेष कर फक्सि मग्राम में ।
 लोक में फक्सिमग्राम को टाक बोलना कहते हैं जैसे कोई कहता है टाक बोलकर छट
 टिया भादि । यात्रा करते समय भयवा पुन दमरे यात्रा का विचार, अर्धरात्रि के
 समय, आखेट के लिये यात्रा में । शोक के समय, दुर्घटना में, निर्यल गन्त में, अपरा
 सेनापति के अभाव में । आठ प्रकार का करि काण होता है जो फिर द्यंल राजाओं
 को चल देता है । इसमें युद्ध आरम्भ करने से विजय होगी ही है इसमें मृत्यु नहीं
 है । सूर्य स प्रयेत और निर्याण दोनों में क्रम से कवि, शिवा, विंगलिका, बपोती,
 युद्धाणन, उदलेगी, घटकी, वली यही आठ भेद हैं । कविपुत्र विम नक्षत्र में आरम्भ
 हो उसके आगे के तीन नक्षत्र पावरु (गिनी) है इस में युद्ध आरम्भ हम से मर्ग
 मिलता जाता है । उससे पीछे के नक्षत्र में मार्ग का अवरोध होता है । गुडनर के
 दिन हस्त नक्षत्र में शिवा अवस्था में शुभ युद्ध होता है । रविवार के दिन श्यामी
 नक्षत्र में विंगला अवस्था में यायी को अग्नि का भय होगा है । मीमन्तार पुनर्वसु नक्षत्र
 में कपोती अवस्था में यायी की शत्रु होगी है । मनिवार वृषि का नक्षत्र में पुनर्वसु
 में यायी की शत्रु होती है । मोमन्तार उत्तराषाढ में उपश्रेय अवस्था में घोड़े को

छोड़कर यायी भाग जाता है। बुधवार शतभिषा नक्षत्र चटकी में यायी के सेना की मृत्यु होती है। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में वकी अवस्था में यायी बध जाता है। दोषपूर्ण होते हुए भी निर्दोष उल्लेखा अवस्था को कवियुद्ध में त्याग देना चाहिये। जिन षोडशांशों का उदित और अस्तस्वर हो और जन्मराशि से सातवें चन्द्रमा हों उनको उस दिन कवियुद्ध नहीं करना चाहिये। जन्मराशि पर या सातवें, पाचवें भयवा नवें चन्द्रमा जिस पुर से भयवा पुर के स्वामी से हों तो उन दोनों का नाश होता है। चौखूटा तीन रेखाओं युक्त कविचक्र को भूमिपर लिखकर स्थान के नक्षत्र से प्रवेश और निर्गम के नक्षत्र को लिखें। जिस (नामोज्झित) अग्रसिद्ध स्थान में शत्रु की सेना हो वहा सेनापति के नाम नक्षत्र से चक्र को लिखे। ईशान कोण से ३ तीन २ नक्षत्र विदिशाओं में प्रवेश के और पूर्वादि दिशाओं में चार चार नक्षत्र निर्गम सञ्जक लिखे।



ईशान कोण से पहले बाहर से मध्य में, पुन पूर्वादि दिशाओं में मध्य से बाहर के तरफ नक्षत्रों को लिखे। बाहर से मध्य के नक्षत्र कोण के प्रवेश सञ्जक और मध्य से दिशाओं के नक्षत्र को निर्गम नक्षत्र कहते हैं। शुभग्रह, मूरग्रह क्रम से प्रवेश और निर्गम में हो पत्नी या अतिचार के हों हमको जानकर कवियुद्ध को करे। जीय पक्ष के नक्षत्रों में अङ्गल सञ्जक नक्षत्र में चन्द्रमा प्रवेश के नक्षत्र में हो तो प्रवेश और निर्गम नक्षत्र के ज्ञान से कवियुद्ध को आरम्भ करे। जन्मनक्षत्र के अनुसार

जिस दिन चन्द्रमा का उदित और अस्तस्वर जिन योधानों का हो उस दिन उन योधानों को कवियुद्ध नहीं करना चाहिए । जिस स्थान में मङ्गलशुभप्रतिप्रद प्रवेश के नक्षत्र में हो वहाँ में सम्प्राम म प्रवेश करे । यकी शुभप्रद जहाँ निगम के नक्षत्र में हो वहाँ उस दिशा से निर्गम करे । प्रवेश क नक्षत्र में प्रवेश और निर्गम के नक्षत्र में निर्गम, भूमिबल को पीछे कर कवि सम्प्राम में विजयी होता है ॥ १-२० ॥

इति कविचक्रम् ।

अथ खलचक्रम्

चतुरस्रं चतुर्द्वारं खलचक्रं लिखेद् बुधः ।
 नन्दादितिथयो न्यस्य पूर्वद्वारक्रमेण च ॥ १ ॥
 पूर्वाशादिचतुष्केषु सप्तसप्तक्रमेण च ।
 कृत्तिकादि लिखेन्मध्ये खले भान्यष्टविंशतिः ॥ २ ॥
 शनिचन्द्रौ कुजः सौम्यो भानुशुक्रौ गुन्स्तमः ।
 मध्ये बहिर्गता ज्ञेया अपसव्यदिशा क्रमात् ॥ ३ ॥
 यद्दिने यद्दिशि स्युस्ते तिथिधिष्ण्यदिनाधिषाः ।
 प्रवेशः खलकद्वारे कर्तव्यस्तदिशा सदा ॥ ४ ॥
 खलकाभ्यन्तरे जालः शनिसूर्येज्यमङ्गलैः ।
 बुध शुक्रेंदुभिर्वाह्ये स्थायी यायी क्रमाज्जयी ॥ ५ ॥
 खलके मध्यनक्षत्रे या ग्रहो यत्र संस्थितः ।
 तत्र स्थानगते चन्द्रे फल वटये शुभाशुभम् ॥ ६ ॥
 सूर्यस्थानगतः शूरो ध्रियते चन्द्रमिश्रिते ।
 भौमस्थाने महाक्रोधी बुधस्थाने महद्रुयम् ॥ ७ ॥
 गुरुस्थाने मतिस्थैर्यं भद्रमायाति भार्गवे ।
 शनिस्थाने क्षतं युद्धं राहुस्यं मरणं ध्रुवम् ॥ ८ ॥
 यक्रस्थाने भवेद्भद्रं शीघ्रस्थाने च भावति ।
 समाचारगते स्थायी क्षीणेन्द्रायवगृह्णति ॥ ९ ॥
 क्रूरं पृष्ठे जगोः युद्धे सौम्ये पृष्ठे पराजयः ।
 क्रूरं च सन्मुखे नृत्युर्जय सौम्येऽग्रसंस्थिते ॥ १० ॥

योधयोः पृष्ठगाः क्रूरा उभयोर्मृत्युकारकाः ।
 सौम्याः सन्धिप्रदा युद्धे मिश्रामिश्रफलप्रदाः ॥ ११ ॥


दिननक्षत्रमारभ्य त्रिभिः सुप्तो द्विशेषके ।
 शून्यैकशेषे ग्राह्यस्तु जागर्तीति विनिश्चितम् ॥ १२ ॥

इति श्रीब्रह्मयामले स्मरोदये पङ्गेन नरपतिजयचर्याया

खलचक्रं ममाप्तम्

चौखटा चार द्वार से युक्त खलचक्र को लिखना चाहिये । उसमें नन्दा आदि तिथि पूर्वद्वार से क्रम से लिखे । पूर्वादि दिशाओं में क्रम से वृत्तिकादि सात २ नक्षत्र को खलचक्र के मध्य में २८ नक्षत्रों को लिखे । अपसव्य (दक्षिण) क्रम से मध्य-घट्टि के क्रम से अर्थात् पूर्वोत्तर, पश्चिम दक्षिण क्रम से ग्रहों का न्यास करे, जैसे पूर्वदिशा में द्वारमध्य में शनि और बाहर चन्द्रमा, उत्तरदिशा में द्वारमध्य में भीम

खलकोट चक्रम्



और बाहर बुध, पश्चिम दिशा में द्वार मध्य में सूर्य और बाहर शुक्र, पश्चिम दक्षिण दिशा में द्वारमध्य में गुरु और बाहर राहु को लिखना । जिस दिन जिस दिशा में तिथि नक्षत्र दिन के अधिपति हों उस दिन उसी दिशा से खलचक्र में प्रवेश करना चाहिये । जैसे पूर्व दिशा में वृत्तिकादि ७ नक्षत्र, ११५१११३ तिथियाँ और शनि पञ्च

चार को पूर्व के द्वार से प्रवेश करना चाहिये । कोट के भीतर रहने वाले (स्थापी) के लिये शनि सूर्य, गुरु, भौम ये चार काल हैं और बाहर रहने वाले (थापी) को बुध, शुक्र और चन्द्रमा ये चार काल हैं । खलक के मध्य में जो उद्यम कहे गये हैं उनमें जो ग्रह जहाँ जिन नक्षत्र पर है उस स्थान पर चन्द्रमा के जाने से शुभ अशुभ फल को कहता है । सूर्य के स्थान पर चन्द्रमा हो तो शूर धीर मर जाता है । भौम के स्थान में अत्यन्त क्रोध, बुध के स्थान पर अधिक भय । गुरु के स्थान पर बुद्धि की स्थिरता, शुक्र के स्थान पर हानि, शनि के स्थान पर युद्ध और राहु के स्थान पर मृत्यु होती है । वृषीग्रह के स्थानपर चन्द्र हो तो हानि और वीर्याग्रह के स्थान पर हो तो वीर्य होती है । समगति के स्थान पर चन्द्र हो तो स्थायी और वीर्य-चन्द्र हो तो युद्ध यदना है । क्रांतिग्रह पाछे हा ता युद्ध में विजय, शुभग्रह पीछे हो तो पराजय होता है । यहाँ नक्षत्रानुसार और दिशा के अनुसार पृथक् दिशा लेनी चाहिये । योधाओं के पीछे मरुग्रह हां तो दोनों की मृत्यु होती है । शुभग्रह पीछे हां तो सुख (सधि) होती है और मिथित ग्रह हां तो मित्र फट होता है ॥ १-१२ ॥

इति खलकचक्रम् ।

अथ समचतुरस्रादिकोटचक्राणि ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि कोटयुद्धस्य निर्णयम् ।
 स्तोकारिः कुरुते यत्र भूरिसैन्यपराभवम् ॥ १ ॥
 यस्याश्रयवलादेव राज्यं कुर्वन्ति भूतले ।
 विग्रहं चतुराशास्तु मीमास्थैः शत्रुभिः सह ॥ २ ॥
 विषम दुर्गम घोर चक्र भीरुभयात्तम् ।
 कपिशोर्पैस्तु शोभाढ्य रौद्राट्टालकमंटितम् ॥ ३ ॥
 प्रतौली यस्य काला स्यात्परिवा कालरूपिणी ।
 रणतूर्यकृताटोपं टिकुलीयंत्रयन्त्रितम् ॥ ४ ॥
 मुशलैर्मुद्गरैः पाशैः कुन्तग्वद्गर्घनुःशरैः ।
 संयुतैः स्रुभटैः शूरेरिति दुर्गं समादिशेत् ॥ ५ ॥
 दुर्गस्थो दुर्गमः शत्रुरसाध्यो येन सिध्यति ।
 कोटचक्रं प्रवक्ष्यामि विशेषादष्टधा पुनः ॥ ६ ॥

अथात इति । अथातः कोटयुद्धस्य निर्णयं संप्रवक्ष्यामि या दक्षिण-कोटे स्तोत्र-मन्त्रपोऽरिर्भूमिसैन्यपराभवः कुरुते इति । यस्येति । यस्य कोटस्थापय-

चलादेव भूतले राजानो राज्य कुर्वन्ति । चतुराशासु चतुर्दिक्षु सीमास्थै सन्निहित-
राजभि मह त्रिप्रह युद्ध कुर्वन्ति । त्रिपममिति । इति प्रकारेण दुर्गभग तत्र
ममादिगेत् । कित्रिशिष्ट त्रिपममसाध्यम् । दुर्गम दु रगम्यम् । चकैलौहनिर्मिता-
स्त्रविशेषैर्भीरुभयावहम् । रोद्र बहुभयजनक तेन वेष्टितम् । कपिशोर्षे कोशिश,
इति प्रसिद्धम् । मृत्स्थाने शोभाढ्यै शोभनै स्वशोभाभिर्लक्षितम् । रौद्राट्टाल
कमडितम् रौद्र भयजनक यदट्टालक तेन मडितम् । यस्येति । यस्य प्रतोली
जलनिस्सरणमार्गं कालाख्य कालो यमस्नन्मुख घातकत्वान् । 'रथ्या प्रतोली
त्रिशिखे'त्यमर । यस्य परिखा कालरूपिणी परंतान् कल्पान्तर्वति जलकृतमार्गं
इव कालरूपिणी परिखा दुर्गापेष्टक खातत्रिशेष । प्रसिद्धरणमडलकृताटोप
रणस्था राजकेषु कृत आटोप आरम्भो यत्र सप्राप्तकरणाय कृत आटोपो यत्र
यस्योपरि चतुर्दिक्षु कोटिश शरप्रक्षेपमार्गालङ्कृत किरीटाकृतिपापाणनिर्मित
रणकरण-मडितमडलानि शोभन्ते यदन्तर्धान गता योद्धारो भटा युध्यन्ते तै
शोभितम् । पुन टिंकुलीयत्रयत्रित कोटिश प्रक्षेपणीयपापाणगोलकप्रक्षेपण
यत्र टिंकुली यत्रित सहितम् । मुशलैशितमुशलादिभिरस्त्रै सुभटे सर्वयोधै
सयुतम् कीटशै धनुर्धरै धनुष्पाणिभि शूरं शत्रुकृतभयकरै ॥ १-६ ॥

अथ मै कोट युद्ध का निर्णय कहेगा जिसमें अल्प सैन्यवाला भी अधिक सेनावाले
राजा का नाश करता है । जिस कोट के आश्रय से ही चारों दिशाओं में स्थित
सीमास्थित राजाओं से दायुता होते हुए भी राजा राज करता है । यह कोट असाध्य,
दु ख से गम्भ, लोहनिर्मित चक्रों से भीरुओं को भय देने वाला । कमीस के रग
से रगा हुआ शोभायमान, अथवा चन्द्र के निरतुल्य पत्थरों से बना हुआ
शोभायमान, बड़े भयकर अट्टालिकाओं से युक्त । जिसके पनाल का मुख यमराज
के मुख के समान, जिसका परिखा (कोट के चारों तरफ की खाइ, जिसमें जल भरा
रहता है और उसमें अनेक प्रकार के भयकर जीव रहते हैं) कालस्वरूप है, रण
करने वाले योद्धाओं से शोभित, जिसमें पापाण के गोले फेकने वाले अनेक टिंकुली
नाम के यन्त्र हैं । जिसमें मुशल, मुद्गर, पादा, भाजा, तलवार, धनुष, पाण-युत
अस्त्रे-अस्त्रे योद्धा शत्रुओं को भय उत्पन्न कराने वाले हैं ऐसे दुर्ग को कह रहा हूँ ।
दुर्गस्थ भयकर असाध्य दाय जैसे साध्य हो जाय देने ८ प्रकार के कोट चक्र को
कहता हूँ ॥ १-९ ॥

प्रथमं मृन्मय कोटं जलकोटं द्वितीयकम् ।

तृतीयं ग्रामकोट च चतुर्थं गिरिगहरम् ॥ ७ ॥

पचम गिरिकोटं च षष्ठं कोटं च डामरम् ।


सप्तमं चक्रभूमिस्थं विषमान्य तथाष्टमम् ॥ ८ ॥

मृन्मये माधयेत् खंडिं जलस्थे बंधमोक्षणम् ।
 ग्रामदुर्गंऽग्निदाह च प्रवेश गह्वरे तथा ॥ ९ ॥
 पर्वते स्थानभेदं च भृवलं भूपडामरे ।
 वक्राख्ये कवियोगं च विपमे स्थायियायिनाम् ॥ १० ॥
 अतिदुर्गं कालकर्णं चक्रावर्तं च टिपुरम् ।
 तलावर्तं च पद्माख्यं यक्षभेदं शमाख्यकम् ॥ ११ ॥
 एतन्नामाष्टकं ज्ञेयं वर्गाष्टकक्रमेण च ।
 यस्य वर्गस्य यो भक्ष्यः स वर्गरतस्य भगदः ॥ १२ ॥
 अ-गरुडः क-मार्जारश्च सिंहश्च, ट शुनीसुतः ।
 त सर्पश्च प-आखुश्च य मृगः श-अजात्मजः ॥ १३ ॥
 तार्क्ष्यस्य भक्ष्यो भुजगो पिठालस्य च मूपकः ।
 सिंहस्य भक्ष्यो हरिण, शुनो भक्ष्य स्त्वजात्मजः ॥ १४ ॥
 दुर्गवर्गस्य ये भक्ष्या वर्गास्तन्नामजा नराः ।
 तद्दुर्गं ते रणे त्याज्या न कर्तव्या गढाधिपाः ॥ १५ ॥
 स्ववर्गात्पंचमे स्थाने खंडिभंगश्च जायते ।
 अवर्गाद्यष्टकं ज्ञेयं पूर्वाद्यष्टदिशि क्रमात् ॥ १६ ॥
 कोटचक्रं लिखेच्चादौ चतुरस्रं त्रिनाडिकम् ।
 कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानि सामिजिन्ति न्यसेद् बुधः ॥ १७ ॥
 घटिः कोटे च मध्ये च दुर्गमध्ये घटिः पुनः ।
 प्रवेशो निर्गमस्तत्र ज्ञातव्य, स्वरवेदिभिः ॥ १८ ॥

प्रथममिति । स्पष्टम् । अतिदुर्गमिति । एतेन छदर्जाक्षर नाम दुर्गं
 प्रथमम् । कालवर्णमिति । प-वर्गाक्षर नाम द्वितीयम् । चक्रावर्तमिति चदर्गाक्षर
 नाम तृतीयम् । टिपुरमिति टयर्गाक्षर नाम चतुर्थम् । तलावर्तमिति । त-वर्गाक्षरं
 नाम पंचमम् । पद्माख्यमिति पदवर्गाक्षरं नाम षष्ठं दुर्गम् । यक्षभेदमिति य-
 गाक्षरं सप्तमम् दुर्गम् । शमाख्यमिति श-वर्गाक्षरं नामाष्टकं दुर्गमिति । इति
 मृन्मयाष्टकंऽतस्य नामानि । दार्जिनि । एतन्नामाष्टकं प्रजापतिभ्यो
 अथ च ट य प य म अष्टौ वर्गाष्टकंऽतस्य । यस्य, वर्गस्य वा भव्य १५००
 स तस्य भेदभास भवति ॥ ५-१८ ॥

पहला मिट्टी से बना हुआ कोट । दूसरा जरुसे । तीसरा ग्राम से । चौथा पर्वतों की गुफा से । पाचवा पहाड़ से । छुग डामर पहाड़ का गड्ढा । मातवां टेढ़ी भूमि में बना हुआ । बार बाठवा विषम (ऊँचा नीचा) बना हुआ । पहले दुर्ग का सदन । दूसरे में जल को निकाल देने से । तीसरे में ग्राम के भाटों दिशा में भाग लगा देने से । चौथे में गुफा में प्रवेश से । पाचवें में पथरों को काटकर । छठे में समतल करके । सातवें में कवियुद्ध से और आठवें में स्थायी और

समचतुरस्रकोटचक्रम्



पायी के अनुसार युद्ध करने से विजय होती है । इन आठों कोटों का अर्थार्थार्थ आठ वर्गों के अनुसार प्रथम म अतिदुर्ग पहले का दृमका स्वामी अर्धवर्ग । गालरुण दूसरे का और स्वर्गस्वामी, तीसरे का अर्धवर्ग, चतुर्थ स्वामी । चौथे का द्विपुर स्वर्ग स्वामी । पाचवें का ललावर्त, तयगस्वामी, छठे का पद्मवर्त, पथरग-स्वामी, सातवें का पद्मभेद, अष्टवर्गस्वामी और आठवें का राम नाम शवर्ग-स्वामी होता है ।

जिस धर्म का जो भक्ष्य होता है वही उसको हानि कारक होता है । अथर्व के स्वामी गरुड, कथर्व के भार्गव, चवर्ग का स्वामी सिंह, टथर्व का स्वामी, सथर्व का सर्प, पथर्व का मूसा, यथर्व का गृध और शयर्व का भेडा स्वामी होता है । गरुड का भक्ष्य सर्प, बिलार का मूसा, सिंह का हरिण, जुत्ता का भक्ष्य भेडा होता है । दुर्ग के धर्म का जो भक्ष्य धर्म उस धर्म के अक्षर के नाम का जो व्यक्ति उस धर्म का उस दुर्ग में सप्राम के लिये न भेजे और उस दुर्ग का स्वामी भी न समझे । जैसे अमरगिरि नाम का दुर्ग है । यह अथर्व का है इसमें तेजसिंह सथर्व का व्यक्ति युद्ध के लिये न भेज क्योंकि दुर्ग स्वयं टनवा भक्षण है । इन अक्षर धर्मों को गणपत्य भी नहीं बगाना चाहिये । अथर्व आगे वग क्रम से पूर्व आदि आगे दिशा में स्थापित करना । अपने धर्म से पांचवां धर्म शत्रु होता है—शत्रु की दिशा में स्थित होकर युद्ध करने से भग हानि होता है । कोट धर्म—चतुरस्र तीन माटी का लिये । उसमें कृत्तिकादि अभिजित् के सहित नक्षत्रों को लिग्ना । याहर, कोट और मध्य में, दुर्गमध्य में और याहर द्वय क्रम से नक्षत्रों को लिये, प्रवेदा और निर्गम स्वरनाभ्रणों को जानना चाहिये ॥ ७-१८ ॥

बहिर्द्वादशभान्यत्र प्राकारे तारकाष्टकम् ।
 दुर्गमध्ये तथा चाष्टौ मध्ये स्तंभचतुष्टयम् ॥ १९ ॥
 कृत्तिका पुष्यभार्षे च मघा स्वातीविशाखिके ।
 अनुराधाभिजित्कर्णौ धनिष्ठाश्विनमाहयम् ॥ २० ॥
 ब्राह्मं पुनर्वसुर्भाग्य चित्रा ज्येष्ठोत्तरा तथा ।
 शतभ रेवती चैव प्राकारे तारकाष्टकम् ॥ २१ ॥
 मृगं रौद्रोत्तराहस्तं मूलमापादपूर्वकम् ।
 पूर्वोत्तरा तथा भाद्रा मध्ये ऋक्षाष्टक त्विदम् ॥ २२ ॥
 पूर्वे रौद्रं यमे हस्त पूर्वापादा च वारुणे ।
 उत्तरे उत्तरा भाद्रा णतत्स्तंभचतुष्टयम् ॥ २३ ॥
 कृत्तिकायं मघाद्यं च मैत्राद्य यास्तवादिकम् ।
 श्रीणि श्रीणि प्रवेशे च द्वादशान्यानि निर्गमे ॥ २४ ॥
 कृत्तिकादिरयं न्यासः सुयोधार्थं प्रदर्शितः ।
 दुर्गभाद्रणना चात्र अर्थ्यालयं ततः फलम् ॥ २५ ॥
 ; ॥ दुर्गनामस्थित धर्मं यद्गुणोदीरित स्पृष्टम् ।

तदीशादि लिखेच्चक्रं क्रमात्स्वरविचक्षणः ॥ २६ ॥

बाह्य के प्रकार में १२ नक्षत्र और मध्य में ८ नक्षत्र और दुर्गमध्य में ८ नक्षत्र एवम् मध्य के चार नक्षत्र स्तम्भ स्वरूप हैं। कृत्तिका, पुष्य, श्लेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, भरणी ये १२ नक्षत्र बाह्य के हैं। रोहिणी, पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ, शतभिष, रेवती ये ८ नक्षत्र प्राकार के भीतर के हैं। मृगशिरा, आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद ये ८ नक्षत्र दुर्ग के भीतर के हैं। आर्द्रा, भरणी, हस्त, पूर्वाषाढ, उत्तराभाद्रपद ये पूर्वादि दिशाओं के चार स्तम्भ के नक्षत्र हैं। कृत्तिका से ३ नक्षत्र, मघा से ३ नक्षत्र, अनुराधा से ३ नक्षत्र और धनिष्ठा से ३ नक्षत्र ये सब १२ नक्षत्र प्रवेश के हैं शेष निर्गम के हैं। यह कृत्तिका से नक्षत्रों का न्यास सुप्त से ज्ञान के लिये कहा है। दुर्ग के नक्षत्र से गणना कर प्रहों से फल कहना चाहिये। दुर्ग के नामादिवर्ण जिम् वर्ण का हो उस वर्ण की दिशा से क्रम से चक्र को लिखना चाहिये ॥ १९-२६ ॥

चतुरस्रं चतुर्दीर्घं त्रिकोणं वृत्तदीर्घकम् ।

अर्धचंद्रं तथा ज्ञेयं गोस्तनं धनुराकृतिः ॥ २७ ॥

चतुरस्रे यथान्यासो भूमिभागक्रमेण च ।

प्रवेशनिर्गमस्तंभास्तथावृत्तादि सप्तके ॥ २८ ॥

दुर्गभित्तिविभागेन दातव्यं धिष्ण्यमंडलम् ।

तत्रस्थैः खेचरैः सर्वैः फलं वाच्यं यथोदितम् ॥ २९ ॥

वाह्यभे मध्यभे चैव यत्रस्थाः क्रूरखेचराः ।

तत्र स्थाने कृते यत्ने हन्ति दुर्गं ससैन्यकम् ॥ ३० ॥

चतुरस्र (चतुष्कोण), चार दीर्घरेखावाला, त्रिकोण, वृत्ताकार। दीर्घवृत्त, अर्धचन्द्र, गोस्तन के आकार का एव धनुष के आकार का कोट होता है। जिस प्रकार से भूमि-भागक्रम से चतुरस्र में नक्षत्रों का न्यासकर प्रवेश निर्गम एव स्तम्भों का निर्णय किया गया है उसी प्रकार से वृत्तादि सातों कोटों में करना चाहिये। उनमें दुर्ग के भीतर के विभाग से नक्षत्रों का न्यास कर उन पर स्थित प्रहों से फल कहना चाहिये। बाह्य और मध्य के नक्षत्र में जहा क्रूरग्रह हों उमी स्थान पर पद्य करने से मेना के सदृश दुर्ग का भंग हो जाता है ॥ २७-३० ॥

बुधशुक्रेन्दुजीवाश्च सदा सौम्यग्रहा मताः ।

शन्यर्कराहुमाहेयाः केतुः क्रूरग्रहा मताः ॥ ३१ ॥

त्रिःप्रकारो ग्रहे चारो वक्र-शीघ्र समो मतः ।
 उचनोचसमास्ते च त्रिधा चक्रे भ्रमन्ति च ॥ ३२ ॥
 ऊर्ध्वं चाधः समस्तिर्यग् हृष्टिभेदश्चतुर्विधः ।
 स्वकं मित्रं समं शत्रुः स्थानभेदश्चतुर्विधः ॥ ३३ ॥
 इज्यो भौमो भृगुर्यत्र बुधः पूर्वादिदिक्स्थितः ।
 कुर्याद् भद्रं वाऽथ भद्रं कूरश्चन्द्रसमन्वितः ॥ ३४ ॥
 सूर्यमुक्ता उदीयन्ते शीघ्रगाश्च द्वितीयगे ।
 समास्तृतीयगे ज्ञेया मन्दा भानौ चतुर्थगे ॥ ३५ ॥
 वक्राः पंचमपष्ठेऽर्के त्वतिवक्राष्टसप्तमे ।
 नवमे दशमे भानौ जायते कृदिला गतिः ॥ ३६ ॥
 शीघ्रगाश्च भवन्त्येते द्वादशैकादशे तथा ।
 राहुकेतू सदा वक्रौ रवौद् शीघ्रगौ सदा ॥ ३७ ॥
 शीघ्रोऽतिचारगत्या च समश्च सममन्दयोः ।
 वक्रातिवक्रकृदिला वक्रगत्या ग्रहा मताः ॥ ३८ ॥
 क्रूरोऽतिक्रूरतां याति सौम्यो याति सुसौम्यताम् ।
 वक्रचारे समुत्पन्ने शीघ्रेऽप्येवं विपर्ययः ॥ ३९ ॥
 मेपो धृपो मृगः कन्या कर्कमीनतुलाः क्रमात् ।
 आदित्यादिग्रहेषूचं नीचं यत्तस्य मत्तमम् ॥ ४० ॥
 उच्चाङ्गीचाव यत्तुर्यं समस्थानं तदुच्यते ।
 उचस्थं मध्यगं नीचं चक्रे चात्र व्यग्रस्थितम् ॥ ४१ ॥
 ऊर्ध्वहृष्टी च भौमाकौ केकरौ बुधभार्गवौ ।
 समहृष्टी च जीवेन्दू शनिराहृ त्वधोहृष्टौ ॥ ४२ ॥

बुध, शुक्र, चन्द्रमा, वृहस्पति ये मन्दग गम ग्रह हैं । रावि, गुरु, राहु, भौम,
 केतु, ये मृगमण्ड हैं । ग्रहों का सवार ३ प्रकार का होता है: एक १ एीम २ मम ३ ।
 ये उच्य, नीच और मम विभाग में एक में पूरते हैं । ऊपर, नीचे, मम, तिरछे वद
 ४ प्रकार की दृष्टि होती है । गुण भौम, शुक्र, बुध ये एगारि दिशाओं में ही यदि
 मरमण्ड के साथ वही चन्द्रमा जी हो तो फेरहा भग भयना मग वरप वाले
 का भग होगा है । गुरु को खोबर दूतरी राति में वरप होवे वाले को लम,

तीसरे में सम, चौथे में मद, पाचवें छठे में वक्र और आठवें सातवें में अतिवक्र, नवम दशम में कुटिलगति बारहवें ग्यारहवें में शीघ्रगति। राहु-केतु सर्वदा वक्रगति और सूर्य चन्द्र सर्वदा शीघ्रगति वाले होते हैं। अतिचार गति से शीघ्र, सम, सममद, वक्र, अतिवक्र, कुटिल ये ही गति होती हैं। क्रूरग्रह वक्र होने से अत्यन्तक्रूर, शुभग्रह सचार से अतिसौम्य होता है। एव प्रकार से शीघ्रगति वाला ग्रह इससे विपरीत होता है ॥ ३१-४२ ॥

सुहृदोऽर्केन्दुभौमेज्या एवं शुक्रज्ञभानुजाः ।

अन्योन्यवैरिणो ह्येते राहोः सर्वे च शत्रवः ॥ ४३ ॥

स्वक्षेत्रस्थे बलं पूर्णं पादोनं मित्रमे ग्रहे ।

अर्द्धं समगृहे जेयं पादं शत्रुगृहस्थिते ॥ ४४ ॥

क्रूरा गर्भे पुरं घ्नन्ति प्राकारे खंडिकारकाः ।

बहिःस्था वेष्टके सैन्यमृत्युदा नात्र सशयः ॥ ४५ ॥

क्रूरा गर्भे शुभा बाह्ये गृह्यते निश्चितं पुरम् ।

सौम्या मध्ये बहिः क्रूरा असाध्यं दुर्गमुच्यते ॥ ४६ ॥

क्रूरं चतुष्टयं मध्ये प्राकारे सौम्यखेचराः ।

भेदाङ्गो भवेत्तत्र विना युद्धेन गृह्यते ॥ ४७ ॥

प्राकारे सस्थिताः क्रूरा मध्ये सौम्यग्रहा यदि ।

दुर्गभगे समुत्पन्ने भंगमायाति वेष्टकः ॥ ४८ ॥

मध्यनाडीस्थिताःसौम्याः क्रूरा बहिरवस्थिताः ।

सैन्यावर्ता बहिः शत्रोर्विना युद्धेन जायते ॥ ४९ ॥

सुहृदोऽर्केन्दु इति । अर्केन्दुभौमेज्या रविचन्द्रभौमगुरव परस्पर सुहृद मित्राणि । एव शुक्रज्ञभानुजा शुक्रबुधशनय अन्योन्य परस्पर मित्राणि । एते अन्योन्य वैरिण । अर्थात् रविचन्द्रगुरूणा शुक्रबुधशनयो वैरिण । तथा शुक्रबुधशनोना रविचन्द्रभौमगुरव वैरिण शत्रव । राहो सर्वे वैरिण । स्वक्षेत्रस्थे इति । स्पष्टम् । क्रूरा इति । क्रूरग्रहा गर्भे दुर्गमभ्याम्भरे स्थित स्तदा पुर घ्नन्ति प्राशयन्ति । प्राकारे प्राकारनक्षत्रे चैत्क्रूरास्तदा खंडिकारका भवन्ति । बहिःस्था बाह्य नक्षत्रगताश्चेत्तदा वेष्टके पुररोधके सैन्याना मृत्युदा विनाशका अत्र सशयो न । क्रूरा गर्भे इति । सुगमम् । क्रूर चतुष्टय मिति । क्रूर चतुष्टय मध्ये दुर्गमध्ये प्राकारे सौम्यखेचरा शुभग्रहाश्चेत्स्थिता-

स्तदा भेदात्स्वमध्यस्मैक्यांतराद् विना युद्धेन युद्धं विना भंगो भवति । प्राकारे-
इति स्पष्टम् ॥ ४३-४६ ॥

रवि, चन्द्रमा, भौम, शुक्र ये परस्पर मित्र हैं, तथा शुक्र, बुध, शनि परस्पर मित्र हैं । तथा ये ही दोनों वर्ग परस्पर शत्रु हैं । अर्थात् रवि, चन्द्र, भौम, शुक्र के शुक्र, बुध, शनि शत्रु हैं, और शुक्र, बुध, शनि, के रवि, चन्द्र, भौम, शुक्र, शत्रु हैं । राट्ट के सभी ग्रह शत्रु हैं । यदि ग्रह अपने गृह में हो तो पूर्णवली होगा है, मित्र के गृह में हो तो चतुर्पात कम वली, सम के गृह में हो तो आधा बल । शत्रु के गृह में हो तो चौथाई बल देता है । क्रूरग्रह गर्भ के नक्षत्रों में हो तो कोट नाश, बाहर के नक्षत्र में हो तो दुर्ग को धरे हुये सैन्य का नाश होता है । क्रूरग्रह गर्भ में हो और शुभग्रह बाहर हो तो निरक्षय ही पुर को शत्रु ले लेते हैं । शुभग्रह मध्य म और बाहर क्रूरग्रह हो तो दुर्ग क्षमाप्य होता है । चार क्रूरग्रह मध्य म हो और शुभग्रह प्राकार म हो तो आप्त्य में भेदभाव होने के कारण विना युद्ध के ही दुर्ग को शत्रु ले लेगा है । प्राकार के नक्षत्रों में क्रूरग्रह हो, मध्य के नक्षत्रों में शुभग्रह हो तो दुर्गभाग का समय आने से दुर्ग के रक्षक नष्ट होते हैं । मध्य की नाही में शुभग्रह और बाहर क्रूरग्रह हो तो काट-प्रहण के समय बाहर की शत्रुसेना में विना युद्ध के ही सै-यावत हो जाता है अर्थात् हाथी-घोड़े आदि इधर उधर भागने लगें, कोई ब्याकुल हो इधर-उधर घूमने लगता है सभी सैन्य अस्तव्यस्त हो जाती है, इसे सै-यावत कहते हैं ॥ ४३-४९ ॥

प्राकारे पुरमध्ये च यदा क्रूरा अधिष्ठिताः ।

सौम्या बाह्ये तदा दुर्गमयत्नेनापि सिध्यति ॥ ५० ॥

सौम्या मध्ये च कोट्टे च बाह्ये पापग्रहा यदि ।

देवैर्ब्रह्मादिभिर्दुर्गं गृह्यते न फदाचन ॥ ५१ ॥

प्राकारे बाह्यगाः क्रूराः सौम्या मध्यगता यदि ।

युद्धं प्राकारस्यंडिश्च पुरभंगो न विगते ॥ ५२ ॥

स्तभान्तरगता यस्य ग्रहाः सौम्याः शुभान्विनाः ।

भवेयुस्तस्य कोटस्य न नाशो त्रिद्यतं क्यचित् ॥ ५३ ॥

यदि साक्षादात् तत्र युद्धे चात्मगणान्वित ।

तथापि न भयं त्रिद्यादिति सत्यं धरानने ॥ ५४ ॥

स्तभान्तरगता यत्र रविगण्डानक्षराः ।

भूमिपुत्रश्च तस्याशु नाशः कोटस्य निश्चिनम् ॥ ५५ ॥

मयैव रक्षिते तत्र युद्धे कोटे न संशयः ।
 तथापि न भवेत्सम्यग् ग्रहदोषाद्वरानने ॥ ५६ ॥
 सौम्या बाह्ये तथाकोटे मध्ये क्रूरग्रहाः स्थिताः ।
 स्वयं दुर्गं प्रयच्छन्ति वेष्टकाय गढाधिपाः ॥ ५७ ॥
 बाह्याभ्यन्तरगाः क्रूराः प्राकारे शोभना ग्रहाः ।
 रिपुद्वयं क्षयं याति विना युद्धेन निश्चितम् ॥ ५८ ॥
 प्राकारस्था ग्रहाः क्रूरा बहिर्मध्ये शुभाः स्थिताः ।
 समं युद्धं भवेत्तत्र खंडिपातो दिनेदिने ॥ ५९ ॥
 सौम्याः क्रूरास्तथाचाष्टौ प्राकारे मध्यबाह्यगाः ।
 एकस्था यत्र कुर्वन्ति सग्रामं तत्र दारुणम् ॥ ६० ॥
 गजाश्वरथभृपालाः सामन्ता मण्डलेश्वराः ।
 भटा मर्दं प्रकुर्वन्ति सैन्ययोरुभयोरपि ॥ ६१ ॥
 चापकुन्तगदापाशखड्गहस्तैर्महाभटैः ।
 अभययोर्द्वयो राज्ञोः सैन्यावर्तः प्रजायते ॥ ६२ ॥
 बाहिन्यो रक्तबाहिन्यो दुस्तराः प्रेतसकुलाः ।
 वसासृक्पंकलिमागो यन्त्रमन्त्रावगुठिताः ॥ ६३ ॥
 गृध्रकाकशिवाश्वेनडाकिनीप्रेतसकुलाः ।
 वेतालपालभूताद्याः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ ६४ ॥
 वेतालचपला भूताः पिशाचाः स्वेच्छया घृताः ।
 ईदृशं च महायुद्धं तत्काले जायते ध्रुवम् ।
 न कश्चिद्विजयी युद्धे द्वयं याति यमालयम् ॥ ६५ ॥

प्राकारे इति । सुगमम् । यदिति । हे वरानने पार्वति । यद्यहमात्मग-
 णान्वित तत्र युद्धे कोटे साक्षाद्दुर्गलक्षणे युद्धं करोमि तथापि दुर्गस्य भय न
 तत्र विद्यते इति मत्स्य विद्यात् इति शम्भु वाक्यम् । स्तम्भान्तरगता इति ।
 सुगमम् ॥ ५०-६५ ॥

जब प्राकार तथा मध्य में क्रूरग्रह हों और शुभग्रह बाहर हों तो दुर्गं दिना
 प्रयास क भी प्राप्त हो जाता है । शुभग्रह मध्य में हों और पापग्रह कोट के बाहर
 हों तो महादि देयता भी दुर्ग को कभी नहीं टे सकते हैं । प्राकार और बाहर में क्रूरग्रह

गङ्ग के स्वामी चन्द्रमा और घेष्टकापीत सूर्य हैं । चन्द्र सूर्य के विभाग में वन और तिर्यङ्ग का विचार करना । गङ्गापीत शुभप्रद और घेष्टकापीत पापप्रद होते हैं । दोनों शुभ पाप राशियों में हैं हमका ज्ञान करना चाहिये । दिशा के स्वामी चन्द्रमा और नक्षत्र के स्वामी मूय होते हैं । चन्द्र सूर्य की गति को जानकर पापे स्वामी को करना चाहिये । घेष्टकापीत मध्य में हो और गङ्गापीत बाहर हो तो गङ्गापीत स्वयं घेष्टक को गङ्ग दे देता है । भूयल को पीछे कर भागे विषयों को करके पाप और पात दिशा को छोड़कर वधियुद्ध को आरम्भ करे । यदि बली क्रूर प्रद प्रवेत के नक्षत्र में होकर पुरमध्य में हो तो कोट का नाश होता है । यदि कोट के नक्षत्रों में हो तो बाहर के राजा का अर्थात् घेरने वाले का नाश होगा है ॥ ७१-७६ ॥

प्रवेतां चालगे वक्रो सक्रूरे सैन्यविग्रहः ।

दुर्भिक्षं मृत्युभगौ च वहिः सैन्यस्य जायते ॥ ७७ ॥

निर्गमर्क्षं वहिःस्थे च क्रूरो वक्रं करोति चेत् ।

प्राकारस्य भवेद्भंगः प्राकारस्थे पुरस्य च ॥ ७८ ॥

पुरमे निर्गमे धक्री कथंचित् क्रूरखेचरः ।

दुर्गं मुक्त्वा तदा काले दुर्गस्थः प्रपलायते ॥ ७९ ॥

यथा क्रूरैस्तथा सौम्यैः फलं ग्राह्यं विपर्ययात् ।

मिश्रैर्मिश्र विजानीयात् कोट्यक्रे न संशयः ॥ ८० ॥

दुर्गग्रहे हिताः पापा घेष्टकानां पुर. स्थिता ।

शुभग्रहाश्च चालस्थाः शीघ्रा वा वक्रिणोऽधरा ॥ ८१ ॥

बाह्य के प्रवेत नक्षत्रों में यदि क्रूरप्रद वक्र होगा हो तो बाहर की गता में दुर्भिक्ष, मृत्यु और पराजय होता है । बाहर के मित्तम के नक्षत्रों में यदि क्रूरप्रद वक्रिणो होता हो तो प्राकार का भंग होगा है और प्राकार में हो तो पुर का नाश होगा है । यदि निर्गम के नक्षत्र में वा पुर के नक्षत्र में कदाचित् क्रूरप्रद वक्रिणी हो तो वा मध्य दुर्ग को छोड़कर दुर्गस्थ जब भाग जाते हैं । जैत क्रूर प्रद में वैसे ही शुभप्रद में वक्र-विपर्यय में होता है । और मिलित ग्रहों में मिश्र वक्र कोर वक्र में होता है । दुर्गप्रद (स्वामी) के द्विपे पापप्रद दिनकर होते हैं, घेष्टक के द्विपे पुत्रियप्रद । बाहर के द्विपे शुभप्रद आते वे शीघ्र गति हों अथवा बली प्रद हों ॥ ७७-८१ ॥

पुरमध्ये हताः सौम्याः पापा वहिर्यस्थिता ।

गङ्गाधिपस्य जयदा फलमार्गात्सिर्गनः ॥ ८२ ॥

उभयोर्विपरोतस्थाः पापाः सौम्याः पुरग्रहाः ।
 भंगो मृत्युस्तदा काले वर्जयन्ति पुरग्रहम् ॥ ८३ ॥
 पुरभंगप्रदान् योगान् ज्ञात्वा परपुरं व्रजेत् ।
 यायी स्थायी च तं कालं दानोपायैः समं नयेत् ॥ ८४ ॥
 उच्चं नीचं समं स्थानं पुरायुक्तं पुनर्ग्रहे ।
 ऊर्ध्वदृष्टिरधोदृष्टिः समतिर्यग्दृशौ पुनः ॥ ८५ ॥
 दुर्गसैन्यं सदैवोच्चैः प्राकारे मध्यवाह्यकम् ।
 नीचस्थं वेष्टकं सैन्यं जातव्यं स्वरवेदिभिः ॥ ८६ ॥

पुरमध्य में शुभ ग्रह और बाहर में पापग्रह हितकर होते हैं । गदाधिप को विजय देने वाले होते हैं । दोनों का विपरीत होने से (अर्थात् भीतर पापग्रह यायी को शुभकर होते हैं किन्तु बाहर हों तो मृत्युप्रद होते हैं । शुभग्रह भीतर हों तो स्थायी को शुभ और बाहर हों तो अशुभ) पापग्रह और शुभग्रह दोनों हानि तथा मृत्यु को देते हैं अत उक्त समय में पुरग्रह का विचार अवश्य करना चाहिये । पुर के भंग होने वाले योगों को देखकर दूसरे के पुरपर चढ़ाई करनी चाहिये । यायी और स्थायी राजा उस समय को दानादि उपायों से ले भाये । पहले ग्रहों का उच्च, नीच, समस्थान कहा गया है तथा ऊर्ध्वदृष्टि, अधोदृष्टि, समदृष्टि, और तिर्यग्दृष्टि भी कही गई है । दुर्गस्थ सेना का उच्च स्थान, प्राकार में जो मध्यभाग है उसे समस्थान । जहा वेष्टक सेना रहती है उसे नीच स्थान कहते हैं ॥ ८२-८६ ॥

कोटं कोटाधिपं नीचे निघ्नन्तौ भौमभास्करौ ।
 समस्थौ च पुरं सर्वमुच्चस्थो निष्फलौ च तौ ॥ ८७ ॥
 प्राकारे वेष्टकान् प्रति उच्चस्थौ राहुसूर्यजौ ।
 प्राकारस्थौ बहिः सैन्यं नीचस्थौ तौ तु निष्फलौ ॥ ८८ ॥
 समदृष्ट्या गुरुश्चन्द्रः पश्यतः सर्वतः सदा ।
 तिर्यग्स्थौ बुधशुक्रौ च फलदौ नात्र संशयः ॥ ८९ ॥
 ऊर्ध्वदृष्टिग्रहे कुर्याद्विक्रुलीयन्त्रसाधनम् ।
 समे च साधयेत्खण्डि रन्ध्रपातमधो मुखे ॥ ९० ॥
 दुर्गमध्ये गते सूर्ये जलशोपः प्रजायते ।
 चन्द्रे भंगः कुजे दाहो बुधे बुद्धिबला नराः ॥ ९१ ॥

वाक्पतौ दुर्गमध्यस्थे सुभिक्षं प्रचूरं जलम् ।

चलचित्तनराः शुके मृत्युरोगौ शनश्चरे ॥ ९२ ॥

राहौ मध्यगते दुर्गे भेदभर्गा महद् भयम् ।

केतौ मध्यगते तत्र विपदानं गढाधिपे ॥ ९३ ॥

फोटमिति । भौमभास्करौ नीचे नीचराशिस्थे फोट फोटाधिप च निघा
न्तौ । यथा कर्कटके भौमस्तुलाया रवि यदि बाह्यात्त्वा स्थितौ यस्मिन्
काले अय योग स्यात्तस्मिन्काले फोट फोटाधिप च हन्ति । समस्तौ चेतस
सर्प पुरम् हन्ति । यथा तुलाया भौम कर्कटगो रविस्तदा सर्प पुर हति ।
तौ भौमभास्करौ उच्चस्थौ उच्चराशिस्थौ निष्कली भवत ॥ ८५-९३ ॥

भौम और सूर्य अपनी नीच राशि में होकर बाह्यनाडी में हों तो फोट और
फोटाधिप दोनों का नाश करते हैं । समराशि में हों तो सम्पूर्ण पुर का नाश करते
हैं । अपनी उच्च राशि में हों तो निष्कल होते हैं । राहु और रवि अपनी उच्च
राशि में अर्थात् मिथुन और तुला में होकर अन्तर्नाडी में हों तो दुर्ग और आवेष्टक
दोनों का नाश होता है । यदि ये दोनों अपनी नीच राशि में हों तो निष्कल होते
हैं । शुक्र और चन्द्रमा सर्वदा समरक्षित न देगते हैं । बुध और शुक सर्वदा समरक्षित
से देगते हैं और उसी से पर देत हैं । जब रवि भौम उर्ध्वरक्षि होकर पुरमध्य में
हों तो पुरमध्य में रहने वाले डिकुला' यत्र को बनावे और बाहर हों तो बाहर वाले
यत्र को बनायें । समरक्षि हों तो दुर्ग में गरिषेद आदि करे । अपोरक्षिगत प्रद हो
तो रम्भपात देर करे अर्थात् भीष सुरग आदि गमकर फोट को छेने का दान करे ।
दुर्ग के मध्य उच्च में सूर्य हो तो जल मूत्र जाता है । चन्द्रमा हा ता दुर्ग का भग
होता है, भौम हो तो क्षमिण्य, बुध हो तो बुद्धिबल से बन्नाली होत है । शुक्र हो
तो दुर्गमध्य में सुभिक्ष और अक्षिण अल होता है । शुक हो तो मनुष्य सर्वल
पित्तवाले होते हैं, रवि हो तो मृत्यु और रोग होता है । राहु दुर्गमध्य में हा तो
आपम में भेद और दुर्गन्ग होता है । येपु हो तो गदापीत को विप दिया जाता है ।
हरी प्रकार दुर्ग के बाहर के ग्रहों से भी विचार करना चाहिए ॥ ८७-९३ ॥

इत्युक्तं तु फलं मध्ये एव याप्यगतेर्भूतैः ।

उपग्रहन्ममायोगादन्यंतं प्राणसंशयः ॥ ९४ ॥

अकारादिस्त्ररा' पंच पूर्वायाशाचतुष्टये ।

मध्यगता' सव्यमात्किञ्च अन्नस्था' संतिहारता ॥ ९५ ॥

१. डिकुला' यत्र नाम पाच्येति वाक्यादिना ह्यन्वयार्थं वना । एतेषु 'द' हे
इति प्रसिद्धम् ।

दुर्गनाम्नः स्वरो यस्मिन् बालो वाऽस्तमितोपि वा ।
 तद्दिने प्रारभेद्युद्धं दुर्गं सिध्यति नान्यथा ॥ ९६ ॥
 दुर्गस्थो यदि मार्गस्थः शीघ्रमित्र-समन्वितः ।
 उपस्थितेपि तत्सर्वं भंगं कुर्याच्च वैरिणि ॥ ९७ ॥
 एंकार्गलविधानं तु कर्तव्यं दुर्गरक्षणे ।
 भंजने यमराजाख्यमित्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ ९८ ॥

इति कोटचक्राणि सपूर्णानि ।

और मध्यगत बाह्यगत दोनों का योग हो तो प्राण का सशय होता है । अकारादि स्वरो को पूर्वादि दिशाओं में सब्य मार्ग से स्थापित करे अर्थात् अकार को पूर्व में इकार को दक्षिण में उकार को पश्चिम में, एकार को उत्तर में तथा ओकार को मध्य में स्थापित करे । जिस दिन जिस दिशा का स्वर अस्त हो उस दिन उस दिशा में दुर्ग का खड होता है । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं मालूम होता है । कारण सर्वदा रविचन्द्र के सचार से अकारादि म एक का अस्त होना स्वाभाविक है इससे सभी कोशों में उक्त दिशायें गडित हांगी इसलिये ऐसा नहीं ठीक है किन्तु कदाचित् ऐसा हो सकता है ऐसा सभ्य है । दुर्ग के नाम का स्वर जिस दिन बाल या अस्तगत हो उस दिन युद्ध को प्रारम्भ करने से दुर्ग की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है । जैसे देवगिरि नामक दुर्गका वर्णस्वर ओकार है उसका उदय पूर्णातिथि को होता है अतः पूर्णातिथि को युद्ध आरम्भ करने से दुर्ग प्राप्ति होगी । अथवा अस्तगतस्वर पांचवा स्वर मृतस्वर उसके उदय में युद्ध आरम्भ करे । दुर्गस्थ ग्रह यदि मार्गी है और शीघ्रगतिग्रह और मित्रग्रह के साथ है तो सभी साधन के उपस्थित होते हुए भी शत्रु का भंग होता है । दुर्ग की रक्षा के लिये चक्रार्गल विधान प्रहयज्ञ आदि करे और दुर्ग के भंग होने के लिये यमराज का विधान आगमोक्त करे ॥ ९४-९८ ॥

इति कोटचक्राणि सपूर्णानि ।

अथ चातुरंगमैन्यप्रिवरणम् ।

श्रुतं देव मया सर्वं युद्धशास्त्रमनेकधा ।
 सूचनं चातुरंगस्य सविशेषं वद प्रभो ॥ १ ॥
 शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ब्रह्मयामलनिमित्तम् ।
 सारात्सारतरं सारं रहस्यमिदमद्भुतम् ॥ २ ॥

यस्य विज्ञानमात्रेण दैवज्ञो लभने यशः ।
 जयं ददाति भूपानां यस्यासौ मंडले स्थितः ॥ ३ ॥
 पूजितव्यः समूपालैर्दानमानार्थपूर्वकम् ।
 ममापि सदृशो देवि ज्ञातव्योसौ न चान्यथा ॥ ४ ॥
 तेनाचार्येण देवेशि स्वसैन्यार्थेष्टशांतिरुम् ।
 पौष्टिकं च प्रकर्तव्यं रक्षामृत्युंजयादिकम् ॥ ५ ॥
 शलाकामसकं चक्रमीशादौ कृत्तिकादिकम् ।
 साभिजित्मन्व्यमालिख्यमष्टाविंशतितारकम् ॥ ६ ॥
 कृत्तिकापिन्धमैत्रारण्यवस्तुभ च द्विदैवतम् ।
 अह्नियाम्यश्रवोमैत्रं कोणभानि क्रमादिह ॥ ७ ॥
 मध्ये रौद्रं करश्चापि अह्निर्वुध्न्यं ततो भयम् ।
 परस्परं वेधगत स्तंभश्च सैन्ययोर्द्वयोः ॥ ८ ॥
 चातुरंगमिदं सैन्यं गजवाजिपदातयः ।
 रथश्च चातुरंगानां राज्यमूलं चतुष्टयम् ॥ ९ ॥
 अन्वादिसप्तनागानां वाजिनां पुण्यसप्तकम् ।
 स्वात्पादिमत्तपत्नीनां गधानामभिजिदादिकम् ॥ १० ॥
 वह्निभान्द्रवणे याम्ये वेधमाहुर्द्विदैवने ।
 पिन्धवात्मार्षेऽच्युते याम्ये मैत्राढोगाह्नियाम्यने ॥ ११ ॥
 वासवादच्युते मार्षं द्विदैवे वेधमादिशत ।
 ण्यं वेधेषु सरंषु सुधीर्षं विचारयेत् ।
 यस्मिन्धिष्ण्ये ग्रहो योस्ति ततश्चित्योस्त्ययग्रहः ॥ १२ ॥
 रवेर्बहिक्षयः कालो धिष्ण्ये स्यादप्रमेऽष्टमे ।
 शिवामृत्युकृत्सोमात्सर्पाऽसृग् रोक्कः कृत्जातः ॥ १३ ॥
 सौम्याद्वागृष्णः क्रोधो जीवात् स्याद्विष्णुः कथं ।
 ब्रह्माय मार्गदो दैत्यो ग्रहाद् ग्रह उपग्रहा ॥ १४ ॥
 शनैश्चराच्चिग्रगुणः काले केतुस्तथा यमः ।

राहोः शेषस्तथा शंखः कुलिकश्च तृतीयकः ।
 क्रमात्केतोस्तु त्रिशिखः शिखी स्याद् धूमकेतुकः ॥ १५ ॥
 रविर्यायी नृपो ज्ञेयः शनिः स्थानी महीपतिः ।
 रथी रथाधिपः सोमः केतुर्द्विरदनायकः ॥ १६ ॥
 अश्वाध्यक्षः सुरगुरुः पदातीशो महीसुतः ।
 शनैश्वरः स्यन्दनेशः सैहिकेयो गजाधिपः ॥ १७ ॥
 भार्गवस्तुरगाधोशः पदात्यधिपतिर्बुधः ।
 रविर्यायी नृपो यस्तु राज्यं ग्रहीतुमागतः ॥ १८ ॥
 चंद्रः शनिरयाधीशौ राहुकेतू गजाधिपौ ।
 भौमचंद्रौ पदातीशौ गुरुशकौ ह्याधिपौ ॥ १९ ॥
 चरलग्ने चराशे च शीघ्रगो बलसंयुतः ।
 सेना भिनत्त्यसौ खेटः शत्रुमार्गवेपया ॥ २० ॥

श्रुतमिति । स्पष्टम् । रपेरिति । रपे सकाशात् रविस्थितनश्वरात्स्पष्टेऽष्टमे
 नश्वरे बह्वरादिक तिष्ठति । यथा रपे अष्टमे नश्वरे वह्नि, बह्नेरष्टमे धनु,
 क्षयादष्टमे काल । तत अष्टमे धिष्ण्ये नश्वरे शिवा तत मृत्यु ततोऽष्टमे शे
 फलिरिति रवेरुपग्रहा एव चन्द्रादीनामुपग्रहाणा स्थितिर्जया । रविर्यायीति ।
 स्वदेशसीमामुत्सृज्य यो रणार्थं याति स याथी रागा तस्याधिपति रवि अर्वात्
 रविबलेन याचिबलम् । एव गढाधिप स्थायी नृप शनि तस्याधिपति शनि-
 बलेन गढाधिपबलम् । शेष स्पष्टम् । यदि शीघ्रग ग्रहो बलसंयुत चरलग्ने
 चरागे स्थितस्तदासौ यद्गजाधिपति स सेनाग शत्रोर्मार्गवेपया भिष्यति ।
 चेत्स शीघ्रगो सफलस्तदा शत्रुसेना भित्त्वा आगमिष्यति ॥ १-२० ॥

पावती जी ने भैरव से कहा—हे देव ! मैंने सभी युद्ध गात्रों को अपने चार
 सुन चुकी अब विशेषकर चातुरग सेना का विशेष वर्णन कीजिये । भैरवजी ने कहा—
 ठीक ! सुनो ब्रह्मयामल में बड़े हुए सार का भी सार पदार्थ भद्रसुत रच्ये ना,
 वह रहा है । जिसके जान लेने ही से दैवत्व यश को प्राप्त करते हैं । जिसके नष्ट
 म यह स्थित होता है उउ राचाओं की विजय होती है । यह देव रागा राम राग
 गाग दृश्यादि से पूजनीय होता है । हे देवि यह मेरे मन्त्र हो जाना है । मेरे शिष्य
 से अपनी सेना के लिये आठ प्रकार की गान्धिया पौष्टिक गान्धिया और रणाय
 तथा गृध्रुजप जपादि को कराये । सप्त दालका चक्र बनावर उममें दृशागादि क्रम म
 कृत्तिका से आरम्भ कर अभिजित के सहित २८ राशय सप्त मार्ग से लिखकर । कृत्तिका,

मया, अनुराधा, घनिष्ठा, विशाखा, श्लेषा, भरणी, ध्रुवण और अनुराधा ये कोल के नक्षत्र हैं। मघ्य में आशा, हरश, उत्तराशाढपद, पूर्वामाढपद ये दोनां मेघाओं के नक्षत्र के नक्षत्र हैं। हार्धा, घोषा, पैदल, रघु यही चातुर्ग सेना है और राग्य का मूल है। अधिपति से मात नक्षत्र हाथियों का, पुष्य से मात नक्षत्र घोड़ों का, स्वाता से मात नक्षत्र पैदल सैनिकों का और अभिमित्र से मात नक्षत्र रातों का है। वृत्तिरा ३, भरणी का, भरणी और विशाखा का, मघा से श्लेषा का, ध्रुवण भरणी का, अनुराधा विशाखा, श्लेषा और भरणी का, घनिष्ठा ध्रुवण का, श्लेषा विशाखा का, वेध होता है। वेसे वेधां में सभी वेधों का विचार करे। जित नक्षत्र न जो प्रद हो वतने भयप्रद का विचार करे। श्विनक्षत्र से भाग्ये नक्षत्र पर अति नामक रति का भयप्रद होता है, इममे आठवें पर चय नाम का, इममे ८ वें पर काल नाम का, इममे आठवें शिवा, इममे आठवें मृगशिरा इममे आठवें कृत्ति नाम का सूर्य का उपप्रद होता है, इम प्रकार से सूर्य के अग्नि, चय, शान, शिवा, मृगशु, कृत्ति, वे ९ प्रद भयप्रद होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा से मय और शरद्वर्ग मीम से घोरक नाम का। शुभ से यायु, उष्यग शोध नाम के, गुरु से विरुच और वध, मष्ठा, शुक्र से दैत्य, प्रद और उपप्रद। शमैश्चर म विप्रगुल, वाळपेगु और वग, राहु का शेष, राग्य और कुटिक और केतु म शिम्बी, शिम्बी, भूमेशेगु म उपप्रद होते हैं। सूर्य यायी राजा का स्वामी और जनि ग्यापी राजा का स्वामी होता है। रवी और रघु का स्वामी चन्द्रमा, हाथियों का स्वामी भनु है। घोड़ों का स्वामी गुरु, पैदल सेना का स्वामी मीम है, जनि रघु का स्वामी, हाथियों का स्वामी गुरु होता है। शुक्र घोड़ों का स्वामी, पैदलों का स्वामी गुरु होता है। रवि यायी गुरु का भयान्त्र का राग्य मेने भाया है उमका स्वामी होता है। चन्द्रमा और जनि रघु के स्वामी, राहु केतु हाथियों के स्वामी, मीम चन्द्र पैदल सेना के स्वामी, गुरु शुक्र घोड़ों के स्वामी होत है। यदि कोई राजा मति प्रद कर लगन और ज्ञान म हो तो वह प्रद जिन विभाग का स्वामी है उस विभाग की सेवा करने का पता लगाने लाती है। यदि वह प्रद बली हो तो मनु मता का भेद करके प्रद करे लाती है ॥ १-१० ॥

यक्रमंदगताः श्वेदा नारोत्तति तदा यमृम् ।

अस्नगाः ज्ञानुगेत्स्था प्रहा मृत्युप्रदायताः ।

राहुवाशुभिराक्रानो रोषितो जियते गमे ॥ २१ ॥

स्थिरराशिगता श्वेदा स्थिरांशरगता अपि ।

स्थायिनो यन्मापन्न स्थिता जेष्यन्ति ते स्थिर ॥ २२ ॥

द्विस्यभाषगता ये च द्विन्यभाषाशक्तेः प्रहाः ।

समयुद्धं भवेत्तत्र नृनिम्नन्य जयं पश्यन् ॥ २३ ॥

चरराशौ स्थिरांशस्थौ धावंतं प्रतिधावति ।
 मित्रदृष्टः समुदितो यो ग्रहः स जयी भवेत् ॥ २४ ॥
 स्थिरलग्ने चराशे यो धावेद्वीरः पराङ्मुखम् ।
 द्विस्वभावे स्थिरांशस्थे स्थिरतामवगच्छति ॥ २५ ॥
 स्थिरलग्ने द्विमूर्त्यंशे व्यावृत्तस्य भवेन्मृतिः ।
 द्रेष्काणयोधतो मृत्युर्धारयेत्तं गतायुधम् ॥ २६ ॥
 मित्रभे मित्रभावस्थे युक्तदृष्टेशकोदये ।
 बलवत्युदयेऽत्युच्चे नाथे विजयमादिशेत् ॥ २७ ॥
 अत्यरिद्वेषियुग्दृष्टे नीचस्थेऽस्तंगते प्रिये ।
 विबले मित्रहृद्योने तस्य स्यात्संगरे वधः ॥ २८ ॥
 जन्माभिपेकभे यस्य पापग्रहयुते यदि ।
 तदा मृत्युमवाप्नोति संगरस्थो महीपतिः ॥ २९ ॥
 सुरेज्यो भास्करः सोमश्चाद्रिर्वर्णाधिपाः क्रमात् ॥ ३० ॥

धकेति—वक्रगतिर्मदगतिर्वा ग्रह चमूम् न आरोहति । अन्येपणाय परसैन्य
 नाधिगच्छति । अस्तगता ग्रहा शत्रुगेहस्था वा ग्रहास्तदा मृत्युप्रदायका ।
 राहुशत्रुभिराक्रान्तो राहुणा वा शत्रुभिराक्रातो गमे गवेपणया रोधितो
 म्रियते । यथा भौम शीघ्रगो भूत्वा चरेलग्ने चराशे स्थितस्तदा पदातिग
 शत्रुगवेपया गच्छति । एव गुरु वक्रगतिभापन्न स्थिरे लग्ने स्थिराशे समर्थ
 स्थितस्तदाऽश्वसेना शत्रु प्रति गन्तु नोत्सहते । एव गुरुश्चेदस्तमित शत्रुगृहणो
 वा तदाश्वसैन्य मृत्युमाप्नोति । एव भौमश्चेद्राह्नाक्रान्त शत्रुभिर्वा आक्रान्तग-
 स्तदा पदातिग सेना शत्रुगवेपया म्रियते । एवमग्रेऽपि बोद्धव्यं । चरराशा
 विति । यो ग्रहश्चरराशौ स्थिराशे स्थितस्तदा तस्य सेनाग धावत आगत प्रति
 धावति । यथा राहु गजाधीश चरराशौ स्थिराशस्थश्चेत्तदा हतुमागतमपि
 त गजारूढ प्रति धावति शेष स्पष्टम् ॥ २१-३० ॥

जो ग्रह धमी या मदगति होता है उसकी सेना शत्रु की सेना के खोजने में
 नहीं जाती है । जो ग्रह अस्त हो या शत्रु के गृह में हो उसकी सेना शत्रु को प्राप्त
 होती है । राहु धधधा अपने शत्रु से जो ग्रह आक्रान्त हो उसकी सेना शत्रुमार्ग के
 खोजने में मर जाती है । जो ग्रह स्थिर रहति स्थिरांश में है तो उसकी सेना स्थायी
 राजा को बल देती है और वह स्थायी दूसरों को मार देता है । यदि ग्रह द्विस्वभाव

मघा, अनुराधा, धनिष्ठा, विशाखा, श्लेषा, भरणी, श्रवण और अनुराधा ये कोण के नक्षत्र हैं। मघ्य में भार्वा, हस्त, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद ये दोना सेनाओं के स्तम्भ के नक्षत्र हैं। हाथी, घोडा, पैदल, रथ यही चातुरंग सेना है और राज्य का मूड है। अश्विनी से सात नक्षत्र हाथियों का, पुष्य से सात नक्षत्र घोड़ों का, स्वाती से सात नक्षत्र पैदल सैनिकों का और अभिजित् से सात नक्षत्र रथों का है। कृत्तिका स भ्रम का, भरणी और विशाखा का, मघा से श्लेषा का, श्रवण भरणी का, अनुराधा विशाखा, श्लेषा और भरणी का, धनिष्ठा श्रवण का, श्लेषा विशाखा का, वेध होता है। ऐसे वेधों में सभी वेधों का विचार करे। जिस नक्षत्र में जो ग्रह हो उससे भवग्रह का विचार करे। रविनक्षत्र से आठवें नक्षत्र पर अग्नि नामक रवि का भवग्रह होता है, इससे आठवें पर ज्य नाम का, इससे ८ वें पर काल नाम का, इससे आठवें शिवा, इससे आठवें मृत्युनामक इससे आठवें कलि नाम का सूर्य का उपग्रह होता है, इस प्रकार से सूर्य के अग्नि, ज्य, काल, शिवा, मृत्यु, कलि, ये १ ग्रह भवग्रह होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा से सर्प और अशुक् भौम से घोरक नाम का। बुध से वायु, उल्बण क्रोध नाम के, गुरु से त्रिकच और कच, मद्रा, शुक्र से वैत्य, ग्रह और उपग्रह। शनैश्चर से चित्रगुप्त, कालकेतु और यम, राहु का शेष, शय और कुलिक और केतु से त्रिशिखी, शिखी, भूमकेतु ये उपग्रह होते हैं। सूर्य यायी राजा का स्वामी और शनि स्थायी राजा का स्वामी होता है। रथी और रथ का स्वामी चन्द्रमा, हाथियों का स्वामी केतु है। घोड़ा का स्वामी गुरु, पैदल सेना का स्वामी भौम है, शनि रथ का स्वामी, हाथियों का स्वामी केतु होता है। शुक्र घोड़ों का स्वामी, पैदलों का स्वामी बुध होता है। रथि यायी नृप का अर्थात् जो राज्य लेने आया है उसका स्वामी होता है। चन्द्रमा और शनि रथ के स्वामी, राहु केतु हाथियों के स्वामी, भौम चन्द्र पैदल सेना के स्वामी, गुरु शुक्र घोड़ों के स्वामी होते हैं। यदि कोई शीघ्र गति ग्रह चर लग्न और चराश में हो तो यह ग्रह जिस विभाग का स्वामी है उस विभाग की सेना शत्रु के मार्ग का पता लगाने जाती है। यदि यह ग्रह बली हो तो शत्रु सेना का भेदन करके वह लूट आती है ॥ १-२० ॥

चक्रमंदगताः खेटा नारोहन्ति तदा चमृम् ।

अस्तगाः शत्रुगेहस्था ग्रहा मृत्युप्रदायकाः ।

राहुशत्रुभिराक्रातो रोधितो म्रियते गमे ॥ २१ ॥

स्थिरराशिगताः खेटाः स्थिरांशरुगता अपि ।

स्थायिनो बलमापन्न स्थिता जेष्यति ते रिपून् ॥ २२ ॥

द्विस्वभावगता ये च द्विस्वभावांशके ग्रहाः ।

समयुद्धं भवेत्तत्र भूमिस्तस्य जयं वदेत् ॥ २३ ॥

चरराशौ स्थिरांशस्थौ धावंतं प्रतिधावति ।
 मित्रदृष्टः समुदितो यो ग्रहः स जयी भवेत् ॥ २४ ॥
 स्थिरलग्ने चरांशे यो धावेद्वीरः पराङ्मुखम् ।
 द्विस्वभावे स्थिरांशस्थे स्थिरतामवगच्छति ॥ २५ ॥
 स्थिरलग्ने द्विमूर्त्यंशे व्यावृत्तस्य भवेन्मृतिः ।
 द्रेष्काणयोधतो मृत्युर्धारयेत्तं गतायुधम् ॥ २६ ॥
 मित्रभे मित्रभावस्थे युक्तदृष्टेशकोदये ।
 बलवत्युदयेऽत्युच्चे नाथे विजयमादिशेत् ॥ २७ ॥
 अत्परिद्वेषियुग्दृष्टे नीचस्थेऽस्तंगते प्रिये ।
 विचले मित्रहृद्योने तस्य स्यात्संगरे वधः ॥ २८ ॥
 जन्माभिपेक्षभे यस्य पापग्रहयुते यदि ।
 तदा मृत्युमवाप्नोति संगरस्थो महीपतिः ॥ २९ ॥
 सुरेज्यो भास्करः सोमश्चाद्रिर्वर्णाधिपाः क्रमात् ॥ ३० ॥

वक्रेति—वक्रगतिर्मदगतिर्वा ग्रह चमूम् न आरोहति । अन्वेपणाय परसैन्य
 नाधिगच्छति । अस्तगता ग्रहा शत्रुगोहन्था या ग्रहास्तदा मृत्युप्रदायका ।
 राहुशत्रुभिराक्रान्तो राहुणा वा शत्रुभिराक्रान्तो गमे गवेपणाया रोधितो
 म्रियते । यथा भीम शीघ्रगो भूत्या चरेलग्ने चरांशे स्थितस्तदा पदातिग'
 शत्रुगवेपया गच्छति । एव गुरु वक्रगतिमापन्न स्थिरे लग्ने स्थिरांशे समव
 स्थितस्तदाऽश्वसेना शत्रु प्रति गन्तु नोत्सहते । एव गुरुश्चेदस्तमित शत्रुगृहणो
 वा तदाश्वसैन्य मृत्युमाप्नोति । एव भौमश्चेद्वाक्रान्त शत्रुभिर्वा आक्रान्तग-
 स्तदा पदातिग सेना शत्रुगवेपया म्रियते । एवमग्नेऽपि बोद्धव्य । चरराशा
 विति । यो ग्रहश्चरराशौ स्थिरांश स्थितस्तदा तस्य सेनाग धावत आगत प्रति
 धावति । यथा राहु गजाधीश चरराशौ स्थिरांशस्थश्चेत्तदा हतुमागतमपि
 त गजारूढ प्रति धावति शेष स्पष्टम् ॥ २१-३० ॥

जो ग्रह वक्री या मदगति होता है उसकी सेना शत्रु की सेना के खोजने में
 नहीं जाती है । जो ग्रह अस्त हो या शत्रु के गृह में हो उसकी सेना शत्रु को प्राप्त
 होती है । राहु भयया अपने शत्रु से जो ग्रह आक्रान्त हो उसकी सेना शत्रुमार्ग के
 खोजने में मर जाती है । जो ग्रह स्थिर राशि स्थिरांश में है तो उसकी सेना स्थायी
 राजा को बल देती है और वह स्थायी दूसरों को मार देता है । यदि ग्रह द्विस्वभाव

राशि और उभी क अश म हो तो युद्ध समान होती है और स्थायी विजयी होता है । यदि ग्रह चरराशि स्थिराश म हो तो उसकी सेना बढ़ाई करती है तथापि अन्य उमर्क प्रति मारने को दौड़ते हैं । जो ग्रह मित्र से दृष्ट है और उदित है उसकी सेना विजयी होती है । स्थिरलग्न और चराश म जो ग्रह है उसकी सेना युद्ध से पराजित क प्रति दौड़ती है । द्विस्वभावराशि स्थिराश म जो ग्रह है उसकी सेना स्थिर होती है । जो ग्रह स्थिरलग्न द्विस्वभावांश म हो उसकी सेना शत्रु सेना का पारवर लोटना चार मृत्यु को प्राप्त होती है । युद्धकाल म ग्रह जिस द्वेष्काण म हो उनका अधिपति बली हो तो उसकी सेना युद्ध को करती है और बांधने से बच रहते हुए भी बलीव हो जाती है । अर्थात् जिस द्वेष्काण म ग्रह हो वह यदि शत्रुगृह, नीच म हो तो उसकी सेना द्वेष्काण विधिष्ट पुरुष से घबरा को प्राप्त होता है । अशनाथ मित्र की राशि में, मित्र भाव से युक्त दृष्ट हों और उदित हों और उन राशि को स्वामी उदित और बली हों तो विजय होती है । अति शत्रु से युक्त दृष्ट हों तथा नीच राशि म और अस्तगत और निर्बल तथा मित्र की दृष्टि से रहित हों तो सम्राज में बंध होता है । जिस राजा के जन्म का नक्षत्र और राश्या भिषेक का नक्षत्र पापग्रह से युक्त हो तो वह राजा युद्ध म मृत्यु को प्राप्त होता है । जिस घण का राजा होता है उसका स्वामी गुरु । जिस घण का मन्त्री होता है उसका स्वामी सूर्य होता है, जिस घण का सेनापति होता है उसका स्वामी चन्द्रमा होता है, जिस घण का कोटाधीश होता है उसका स्वामी बुध होता है ॥ २१-३० ॥

वर्णप नीचराशिस्थेऽस्तगते शत्रुवीक्षिते ।

शत्रुगोहस्थिते क्राते रणे मृत्युमवाप्नुयात् ॥ ३१ ॥

भौमराजाकिकेतुनामतेपामप्युपग्रहाः ।

शूद्राद्यन्त्यस्थजातीनामधिपास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ३२ ॥

अवनीशो दिनमणिस्तपस्वी रोहिणीप्रियः ।

स्वर्णकारस्तु भृपुत्रो ब्राह्मणो रोहिणीभवः ॥ ३३ ॥

श्रेष्ठी गुरुः कविर्वैश्यो वृषलः सूर्यनदनः ।

सेहिकेयो निपादश्च ध्वजिः केतुः स्मृतो बुधैः ॥ ३४ ॥

रविजा. क्षत्रवर्णा. स्युः भौमजा वैश्यजातयः ।

बुधजाता नष्टविप्रा भौमजा वह्निजीचिनः ॥ ३५ ॥

वृहस्पत्युद्भवा विप्रा भृगुजाः कविगायकाः ।

शुद्धादयः केतुजाता निषादा राहुसंभवाः ।
 अंत्यजाः शनिसंभूता मृति यांत्यधिपेऽस्तगे ॥ ३६ ॥
 शीघ्रगाश्चरराशिस्था आरोहंत्यग्रतो रिपुम् ।
 शीघ्रगाः स्थिरराशिस्थाः पश्चात्प्राप्तं प्रवर्तते ।
 मंदगाः स्थिरराशिस्थाः पालयन्ति निजां चमूम् ॥ ३७ ॥
 शनौ नीचगते पौरा रवौ नीचगतेऽध्वगाः ।
 धंधनं शत्रुसंयुक्तं मृत्युः शत्रुनिरीक्षिते ।
 सक्षतौ शत्रुसंयुक्तौ परयुक्तौ भयं नहि ॥ ३८ ॥
 शीघ्रगा मित्रसंयुक्ताः शुक्लेणालोकिता यदि ।
 तथा संधि विजानीयात्सेनयोरुभयोरपि ॥ ३९ ॥
 योपिदंशगते चंद्रे योपिदूग्रहविलोकिते ।
 योपिल्लग्नगते वापि तदा स्त्री सैन्यपालिका ॥ ४० ॥

वर्णपति अपनी नीच राशि में हो या अस्तगत हो अथवा शत्रु से देखा जाता हो अथवा शत्रु के गृह में हो और शत्रु से आक्रान्त हो तो सप्राप्त में मृत्यु होती है । भौम राहु, शनि, केतु इनके भी उपग्रह होते हैं जोकि शुद्धादि जातियों के अधिपति होते हैं । सूर्य राजा, चन्द्रमा तपस्वी, भौम स्वर्णकार, चन्द्रमा ब्राह्मण । गुरु धेड़ी, शुक्र वैश्य, शनि शूद्र, राहु निषाद और वेतु ध्वजि होते हैं । सूर्य से उत्पन्न चप्रिय वर्ण, चन्द्रमा से उत्पन्न वैश्यजाति, बुध से उत्पन्न धर्मभ्रष्ट (नागर) और भौम से उत्पन्न अग्निजीवी (सोतार या लोहार आदि) होते हैं । गुरु से उत्पन्न ब्राह्मण और शुक्र से उत्पन्न कवि या गायक होते हैं । केतु से उत्पन्न शूद्रादि और राहु से उत्पन्न निषाद, शनि से उत्पन्न अत्यज (चांडाल) जिम वर्ण के स्वामी अस्त हों उनकी मृत्यु कहना । शीघ्र गति ग्रह चरराशि में हो तो उसकी सेना जागे जाकर शत्रु को घेर लेती है । शीघ्रगति ग्रह स्थिर राशि में हो तो उसकी सेना पीछे से जाकर घरती है । मंदगति स्थिर राशि में हो तो वह अपने ही सेना की रक्षा करता है । शनि नीच राशि में हो अथवा अस्त हो शत्रु से युक्त हो तो पुर में रहने वाला (स्थायी) यथा को पाता है, रवि नीच राशि में हो तो (यात्री) मार्ग ग्धित बन्धन को प्राप्त होता है । और यदि शत्रु से देखा जाता हो तो मृत्यु होती है । शत्रु से युक्त हो तो चत होकर बन्धन को प्राप्त होता है । यदि शुभ ग्रह से युक्त हों तो अक्षत ही रहते हैं । शीघ्र गति ग्रह अपने मित्रग्रह से युक्त हो और शुक्र से

देला जाता हो तो दोनों सेनाओं में सधि (सुलह) हो जाती है। यदि चन्द्रमा स्त्री के नवाश (समराशि) में हो और स्त्रीग्रह (शुक्र) से देला जाता हो भयवा स्त्रीलग्न में घैठा हो तो स्त्री सेनानायक होती है ॥ ३१-४० ॥

ग्रहश्चोपग्रहो वापि बलवान्शत्रुवीक्षितः ।
सेनामुखे बली शूरो रेखाविद्धं हनिष्यति ।
तस्यैव दापयेद्दीक्षा जयाख्यां जयवर्द्धिनीम् ॥ ४१ ॥

वक्रगे मित्रसदृष्टे वाममार्गान्निवर्तते ।
अतिचारे मित्रदृष्टे मध्यमार्गान्निवर्तते ॥ ४२ ॥

उच्चगो बलसयुक्तः पुष्टो मित्रविलोकितः ।
आगच्छेदक्षतो युद्धे निकृत्य परसैनिकम् ॥ ४३ ॥

अस्तगो दुर्बलः खेदः शत्रुग्रहनिरोक्षितः ।
तद्गृहागं समाप्नोति शत्रुबंधनजं भयम् ॥ ४४ ॥

भौमादिभिः खड्गपातः शुक्रोज्ज्याद्यैस्तु कुंतजः ।
सोमसूर्यादिभिर्वाणान्मन्दाद्यैर्मुद्गरोद्भवः ॥ ४५ ॥

राह्यादिभिविपभयं केत्वाद्यैर्वचनाद्भवम् ।
बुधाद्यैः सवेघातः स्यात्ततश्चात्पातको बुधैः ॥ ४६ ॥

शुरूशुकौ यत्र सस्थौ तत्र स्थाने पराजयः ॥
तस्मात्तत्र प्रकुर्वीत स्वरजैर्दंडरक्षणम् ॥ ४७ ॥

चक्राण्युक्त्वा सर्वतोभद्रमुख्या-
न्युराशाना भगहेतूनि दुर्गं ।
मुष्यं संख्यं दुर्गमध्येपि सैन्ये,
सेनानाथं वच्मि तत्तद्गुणाश्च ॥ ४८ ॥

यो बली स्याद्दशघलः पट्टली चेंदुना बली ।
सेनामुखे स कर्तव्यस्तद्बलादग्निल घलम् ॥ ४९ ॥

यज्जन्मभे चन्द्रदिवाश्रौ स्तो यस्यास्तवालस्थविराः सुराःस्युः ।
स देवसेनापिपिक्रमापि कार्या न सेनाधिपतिस्तदानीम् ॥ ५० ॥

ग्रहश्चोपग्रह इति । ग्रहोपग्रहयोर्मध्ये यो बली शत्रुणा वीक्षित तद्गणे यो भट सेनानायक स रेखाविद्ध चातुरगचक्रे य ग्रहं वेधयति तदा तद्ग्रहागो-
हिष्टसेनामध्ये हनिष्यति । तस्यैव जयाख्या जयवर्द्धिनी दीक्षा दापयेत् ।
अन्यत्सुगमम् ॥ ४१-५० ॥

ग्रह या उपग्रह दोनों में जो बलवान् शत्रु से दृष्ट हो तो उस ग्रह की जो सेना उसका जो सेना नायक और वह ग्रह जिस ग्रह को वेध करता हो उसके सेना को वह नष्ट करता है । उसी सेना नायक को जय को बढ़ाने वाली जय नाम की दीक्षा देने चाहिये । यदि ग्रह बली हो मित्र ग्रह से दृष्टा जाता हो तो वाम मार्ग से सेनापति लौट आता है । अतिचार हो मित्रग्रह से देखा जाता हो तो शत्रु सेना का नाश कर बिना घाव आदि लगे ही लौट आता है । यदि ग्रह भस्त हो दुर्बल हो शत्रुग्रह से देखा जाता हो तो उस ग्रह की सेना से वह शत्रु द्वारा पचन को प्राप्त होता है । भौम आदि उपग्रहों से विद्ध हो तो एतद् द्वारा, शुक्र गुरु से कुन्त (भाला) से, चन्द्र सूर्यादि से पाण से, ज्ञानि आदि से मुद्गर से । राहु आदि से विष का भय केतु आदि से वचन से भय कहना पुषादि से सभी प्रकार के घाव और उपात कहना । गुरु शुक्र जिस नक्षत्र में हों और वह नक्षत्र जिस स्थान में हो उस स्थान में स्थित योधाओं का अथवा उस स्थान का पराजय होता है इसलिये उस स्थान की रक्षा करनी चाहिये । इन सभी चक्रों को कहा है कि तु मुख्य चक्र सर्वतोभद्रचक्र ही है जो कि राजाओं को दुर्ग विजय के हतु है । 'मुख्य सेना में अथवा दुर्गमध्य में स्थित सेना के सेनानायक और उनके गुणों को कह रहा हूँ । जो ग्रह दशवर्गल से बली हो और चन्द्रमा के पट्टल से बली हो वह ग्रह जिस वर्ण का हो उस वर्ण के मनुष्य को सेनापति बनाना चाहिये क्योंकि उसी के बली होने से सभी बलवान् होते हैं । जिसके जन्म नक्षत्र पर अथवा जन्म राशि पर चन्द्र और सूर्य हों, जिसका पाल, वृद्ध, मृत्यु स्वर भस्त हो उसे चाहे वह देवसेना के सेना नायक इन्द्र हो क्यों न हों उन्हें सेनापति नहीं बनाना चाहिये ॥ ४१-५० ॥

शिशुर्ज्वरी रोगयुतः सुरापो भीरुस्तथा भीरुकुलोद्भवश्च ।
गुर्वार्यदेवद्विजनिदको यः कार्यो न सेनाधिपतिः स भूप ॥५१॥

सर्वतोभद्रचक्रादौ यस्य बंधो न विद्यते ।
तं वीरं कल्पयेत्तत्र चातुरगे महात्वे ॥ ५२ ॥

क्षेत्रनामाधिको वीरो रिपुनामाधिकस्तु यः ।
तस्यैव दापयेद्दीक्षा जयाख्यां जयवर्द्धिनीम् ॥ ५३ ॥

अश्वचक्रम्

घोड़े के समान चक्र घटाकर उसमें घोड़े के ताम के १८ चक्र से मुस से आरम्भ कर नक्षत्र क्रम के अनुसार २८ नक्षत्रों को लिखे। मुस, धांप, कान, शिर, पोंछ, चारों पैरों में दो २ नक्षत्र और पाच २ पीठ और पेट में देवें। जहा शानि हो उससे फल का विचार करे। यदि घोड़े के मुस, धांप, पेट और शिर के नक्षत्र में शानि हो तो मप्राम म उस घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने से राजा शत्रुओं को मार देता है। कान, पैर, पांछ के १८ चक्रों में जिस घोड़े के शानि हो वह घोड़ा युद्ध में श्रम,



हानि करता है। इन स्थानों में जय शानि हो तो राजा उस घोड़े को पट्टबंधन में, यात्रा में, युद्ध में रथाग कर दे। जिस राजा का घोड़ा पृथ्वी पर घूमना है उसके देशान्तर स्थित सभी शत्रु शक्ति रहते हैं। जिसके पास घोड़ा है उसी की पृथ्वी है ऐसा वचन पंडितों का है। बिना घोड़े के राजा के सभी पदार्थ शोभायमान नहीं होते।

इति अश्वचक्रम् ।

अथ शुद्धमुहूर्तनिषेये अश्वचक्रम्

अश्वाना कर्म कर्तव्यं स्वातौ तिष्ये पुनर्वसौ ।
 धनिष्ठाद्वितये हस्ते रेवतीरोहिणीद्वये ॥ १ ॥
 सूर्यभात्स्थिरशुक्लेषु सुग्वे रामा यशस्तथा ।
 हृदये पञ्च लाभोयं पादे पष्टश्च भंगदः ॥ २ ॥
 पुच्छे वेदा महाहानिः पृष्ठेऽधिर्मृत्युरादिशेत् ।
 अश्वकारं लिग्नेचक्रं पूर्वग्रंथानुसारतः ।
 स्कंधारभ्यमुखस्यांतं सूर्यभात्साभिजिन्न्यमेत् ॥ ३ ॥
 पञ्चदशययमैर्वेदवाणादन्नक्रमेण च ।
 जन्मनक्षत्रमारभ्य गणयते चन्द्रमे विधिः ।
 नवभिस्तु हरेद्भागं शेषं वाहनमुच्यते ॥ ४ ॥

प्रन्यान्तरे—

अश्वकारं लिखेच्चक्रं साभिजिद्धानि विन्यसेत् ।

स्कन्धे च सूर्यभात् पञ्च पृष्ठे च दशमं न्यसेत् ॥ ५ ॥

पुच्छे द्वौ दीयते प्राज्ञैश्चतुष्पादे चतुष्टयम् ।
 उदरे पंच ऋक्षाणि मुखे द्वे तुरगस्य च ॥ ६ ॥
 धनलाभो मुखे सम्यग् वाजिर्नश्यति चोदरे ।
 चरणस्थे रणे भंगः पुच्छे पत्नो विनश्यति ॥ ७ ॥
 अर्थलाभो भवेत्पृष्ठे स्कंधे स्कंधपतिर्भवेत् ।
 रासभो रत्नहता च वाजी रत्नप्रदो भवेत् ॥ ८ ॥
 हस्ते लक्ष्मीजयौ दद्यान्मेपे च मरणप्रदः ।
 जंबुकश्चायुषं हन्ति सिंहे वैरं च गर्जनम् ॥ ९ ॥
 काके वार्ता कलिश्चैव शिखिहंसौ शुभावहौ ॥ १० ॥

इति सरोदये अश्वचक्रम्

घोड़ों क सभी कर्म स्वाती, पुष्य, पुनर्वसु, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में करना चाहिये । इसमें जिस समय अश्वकृत्य करना हो उस दिन के नक्षत्र को सूर्य के नक्षत्र से गिनकर अश्वमुख्य म ३ नक्षत्र की कल्पना करे इसमें कर्म करने से यश का लाभ, इसके बाद ५ नक्षत्र हृदय में कल्पना करे । इसमें कृत्य करने से लाभ पुन ५ नक्षत्र उदर में कल्पना करें इसमें अश्वकृत्य करने से लाभ, पुन ६ नक्षत्र पाद में कल्पना करें इसमें कार्य करने से कार्य की हानि, पुन ५ नक्षत्र पोंछ में कल्पना करें इसमें कृत्य करने से मृत्यु होती है । पूर्व कहे अनुसार अश्व का आकार बनाकर फल का विचार करें । इसमें सूर्य के नक्षत्र से अभिजित् सहित अश्व के स्कंध से मुख पर्यन्त ५ अंगों में क्रमसे १५।२।२।३।५ नक्षत्र स्थापन करें । जन्म नक्षत्र से अंग के नक्षत्र तक गिन कर नौ से भाग देने से दोष वाहन होता है । एक अश्व क आकार का चक्र बनाकर उसमें अभिजित् के सहित नक्षत्रों का न्याय करें । सूर्य के नक्षत्र से ५ नक्षत्र स्कंध में, पुन १० नक्षत्र पीठ में, पुनः २ नक्षत्र पोंछ में, ४ नक्षत्र चारों पैरों में ५ नक्षत्र उदर में और इसके बाद २ नक्षत्र घोड़े क मुख में स्थापित करें । मुख के नक्षत्र में कृत्य करने से धन का लाभ । पेट के नक्षत्र में घोड़े की हानि । पैर के नक्षत्र में सप्राय में हानि, पोंछ के नक्षत्र में स्त्री की हानि, पीठ के नक्षत्र में धन का लाभ, स्कंध के नक्षत्र में स्कंध का स्वामित्य, होता है । यदि रामभ (गद्दा) वाहन हो तो रत्न की हानि । घोड़ा वाहन हो तो रत्न का लाभ, हाथी वाहन हो तो लक्ष्मी और विजय, भेड़ (भेड़ा) वाहन हो तो मृत्यु, जंबुक (सियार) वाहन हो तो आयुष्य की हानि । सिंह वाहन हो तो वैर और गर्जन । फाक वाहन हो तो क्षमता और मयूर या हंस वाहनों से शुभ होता है ॥ १-१० ॥

अथ रथचक्रम्


रथचक्रं लिखेच्चादौ शकटाकृतिशोभनम् ।
 रथाग्रे त्रिभिर्शूलं च चतुश्चक्रं त्रिनाडिकम् ॥ १ ॥
 भानुभ मध्यशूलाग्रे ततः सव्यगतानि तु ।
 त्रीणि त्रीणि लिखेदेवं सप्तविशतिसंख्यया ॥ २ ॥
 महारथिकर्भं यत्र तत्र वक्ष्ये शुभाशुभम् ।
 शृंगे मृत्युर्जयं चक्रे रथे सधिस्रिदडके ॥ ३ ॥

इति रथचक्रम्

रथचक्रमिति । सुगमम् ॥ १-३ ॥

रथचक्रम्

गाड़ी के आकार का रथचक्र बनायें। रथ के आगे तीन त्रिशूल बनायें और चार पहिया (चक्के) हों; तीन देवा में लगी ह। भगंत गाड़ी स बैलों को जोतने के स्थान तक तीन लकड़ी लगी हो। सूर्य का नक्षत्र मध्य के शूलाग्र में रखना वहाँ से सध्व मार्ग से तीन तीन नक्षत्र प्रत्येक स्थानों में रखना दृम प्रकार



२० नक्षत्रों को रखना। जहाँ महारथी का नक्षत्र हो उससे दृम-भङ्गम पङ्क को कहे। शूलाग्र में नक्षत्र हो तो विजय और तीन नाडियों में हो तो सधि होती है ॥ १-३ ॥

इति रथचक्रम् ।


अथ व्यूहचक्रम्

व्यूहचक्रं तथाष्टारं घृत्ताकारं त्रिनाडिकम् ।
 दंडं चतुष्टयं गद्ये कर्तव्यं च चतुर्दिशि ॥ १ ॥
 पूर्वदंडाग्रतो न्यस्य भानुभाद्यं भ्रमण्डलम् ।
 प्रवेशे निर्गमे चैव त्रीणि त्रीणि प्रदक्षिणम् ॥ २ ॥
 शशिसंज्ञाष्टकं मध्ये तद्बाह्ये भानुसंज्ञकम् ।
 तृतीये राहुसंज्ञं च केतुर्दण्डचतुष्टये ॥ ३ ॥
 चद्रक्षे विजय लाभः सूर्यागे मध्यमं फलम् ।
 राहुः क्षाष्टके विघ्नं मृत्युः केतुचतुष्टये ॥ ४ ॥
 एवमुक्तचतुःस्थाने यद्दिने यस्य नामभम् ।
 तद्दिने तत्फलं तस्य सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ ५ ॥

इति यामलीय-स्वरोदये व्यूहचक्रम्

व्यूहचक्रमिति । स्पष्टम् ॥ १-५ ॥

व्यूहचक्रम्



आठ रेखा से युक्त घृत के आकार का तीन नाडियों से युक्त चार दह चारों दिशा में घाहर करना । पूर्ण दिशा के द्वादश से सूर्य के नक्षत्र स नक्षत्रों को लिखना चाहिये । प्रवेश और निर्गम में ३ तीन २ नक्षत्र प्रदक्षिण घूम स लिखें । मध्य

के ८ नक्षत्र चन्द्रसंज्ञक, उसके बाहर के ८ नक्षत्र सूर्यसंज्ञक हैं, तीसरे चक्र के ८ नक्षत्र राहुसंज्ञक और चारों दंड के ४ नक्षत्र केतुसंज्ञक हैं। चन्द्र के नक्षत्र में विजय और छाम, सूर्य के नक्षत्र में मध्यम फल, राहु के ८ नक्षत्रों में विघ्न और केतु के नक्षत्रों में मृत्यु होती है। इस प्रकार चारों स्थानों में कह दिये नक्षत्रों में जिस दिन जिसके नाम का नक्षत्र जहाँ हो उस दिन उस फल को सभी कार्यों में कहना ॥ १-५ ॥

इति प्यूहचक्रम् ।

अथ कुंतचक्रम्


कुंताकारं लिखेच्चक्रं मूलदंडशिखान्वितम् ।
 दिनभादि समारभ्य कर्तव्यं नवक्षत्रयम् ॥ १ ॥
 नामभं नवके यत्र तत्र ज्ञेयं शुभाशुभम् ।
 मूले मृत्युर्जगं दंडे शेषं तुल्यता रणे ॥ २ ॥
 प्रभुभं यत्र नवके तत्र क्रूरैः फल वदेत् ।
 मूले मृत्युर्जयो दंडे शिखाया संगरो भवेत् ।
 दंडयुद्धेषु सर्वेषु कुंततश्चितयेद् बुधः ॥ ३ ॥

इति कुंतचक्रम्

कुन्ताकारमिति । स्पष्टम् ॥ १-३ ॥

कुन्तचक्रम्

कुन्त (भाटा) के आकार का एक चक्र मूल दंड और शिखा से युक्त बनाना ।



दिन के नक्षत्र में नौ नौ नक्षत्र तीनों स्थानों में कल्पना करना । जहाँ जिस नक्षक में नाम का नक्षत्र हो उससे शुभ अशुभ फल को कहे । मूल में हो तो विजय, दंड में हो तो विजय और शेष नक्षक में हो तो रण में समता होती है । रवामी का नक्षत्र जिस नक्षक में हो उसमें दंडयुद्ध में फल का विचार कर । मूल में हो तो मृत्यु, दंड में हो तो विजय, शिखा में हो तो संपन्न होता है ॥ १-३ ॥

इति कुन्तचक्रम् ।


अथ खड्गचक्रम्

खड्गचक्रं लिखेदादौ नवभेदसमन्वितम् ।
 योधधिष्ण्यं समारभ्य त्रीणि त्रीणि लिखेद् बुधः ॥ १ ॥
 यवं वज्रं तथा मुष्टिः पालिका वंधधारयोः ।
 खड्गं तीक्ष्णं विजानोयान्नवागानि विभेदतः ॥ २ ॥
 यवादौ यत्र वंधान्ता जायंते क्रूरखेचराः ।
 मृत्युर्भगो भयं युद्धे सौम्यैर्लाभो जयस्तथा ॥ ३ ॥
 खड्गे धाराद्वये तीक्ष्णे क्रूरैर्जयति संगरे ।
 सौम्यैर्यत्र भवेद्भगो मिश्रैर्मिश्रफलं ततः ॥ ४ ॥
 इति खड्गचक्रम्

खड्गचक्रमिति । स्पष्टम् ॥ १-४ ॥

खड्गचक्रम्

नव भागों स युक्त पहले खड्गचक्र को बनाकर योधा के नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र लिखे । यत्र, वज्र, मुष्टि, पालिका, यध, दो धार, खड्ग, तीक्ष्ण ये ही नव भाग हैं । यव से यध पर्यन्त के नक्षत्रों में क्रूरग्रह हों तो मृत्यु, भय और भय युद्ध में होता



है, शुभग्रह हों तो लाभ और जय होता है । खड्ग के दोनों धाराओं में तथा तीक्ष्ण भाग में क्रूरग्रह हों तो सामान में विषय, जहा शुभग्रह हों वहां हानि और मिश्रग्रह में मिश्रित फल कहना चाहिये ॥ १ ४ ॥

इति खड्गचक्रम् ।

अथ दुरिकाचक्रम्


यथा खड्गं तथा विद्याच्छुरिका तत्र निर्णयम् ।
 क्रूरसौम्यविभागेन योधधिष्ण्यानि विन्यसेत् ॥ १ ॥

इति दुरिकाचक्रम्

यथेति । सुगमम् ॥ १ ॥

छुरिकाचक्रम्

जैसा गद्गदचक्र में वैसा ही छुरिका में भी है। योद्धा के नशत्र से नशत्रों का न्यास कर दूर सौम्य के विभाग से फल को जाने ॥ १ ॥



इति छुरिकाचक्रम् ।

अथ चापचक्रम्

चापचक्रं समालिख्य गुणवाणसमन्वितम् ।
 शशिनक्षत्रतो भानि त्रीणि त्रीणि समालिखेत् ॥ १ ॥
 त्रीणि बाणस्य मूले तु मध्ये मूर्ध्नि क्रमात्तथा ।
 चापस्य मूलमध्येर्ध्वे त्रीणि त्रीणि तथा पुनः ॥ २ ॥
 गुणे तु त्रीणि त्रीण्येव योधनक्षत्रतः फलम् ।
 शरमूले भवेन्मृत्युर्मध्ये व्याधिः फले जयः ॥ ३ ॥
 गुणमध्ये भवेद्भ्रंगश्चापमध्ये धनक्षयः ।
 चापोर्ध्वे विजयो ज्ञेयो गुणोर्ध्वे लाभसंयुतः ॥ ४ ॥
 चापाधो विग्रहो मृत्युर्गुणाधोपि तथा फलम् ।
 पापग्रहयुते नेष्टं विद्येपेण तु नान्यथा ॥ ५ ॥
 सौम्ययोगे जयं लाभ चापचक्रे समादिशेत् ।
 शुभपापसमायोगे यत्नाधिकफलं स्फुटम् ॥ ६ ॥


इति चापचक्रम्

चापचक्रमिति—गुणवाणसमन्वित चापचक्रं समालिख्यम् । शशिनक्षत्रात् त्रीणि त्रीणि भानि समालिखेत् । त्रीणीनि । प्रथमतो बाणमूलाद्गणना बाणस्य मूले यत्र धनुर्गुणसयोगस्तत्र त्रीणि नक्षत्राणि, बाणमध्ये त्रीणि उपरि फलाग्रे त्रीणि एव बाणे नत्र नक्षत्राणि ज्ञेयानि । एव चापस्य मूले मध्ये ऊर्ध्वे च प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि न्यसेत् । गुणे इति । एव गुणे मौढ्यः त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि लिखेत् । तत्र योधनक्षत्रस्थित्या फलम् भवति । अत्रेणमयधेकम्—बाणस्याग्रे दिनक्षत त्रीणि भानि तत्र योधनक्षत्रमत्रलोकयम् । तदग्रे नीणि मध्ये तत्रापि योधनक्षत्रं यत्तन्ते न वा ततोऽपमाने नीणि एव नत्र भानि श्विननक्षत्रत एवो

दशमनक्षत्रात्त्रीणि त्रीणि कृत्वा धनुर्मूले मध्ये कोटी च तत्र योधनक्षत्र विचारयेत् । तत एकोनविंशतिनक्षत्रात् मौर्वीमूले त्रीणि, मध्ये त्रीणि, अते धनुर्लग्नमौर्व्या त्रीणि तत्र योधनक्षत्र विचारयेत् । शरमूले शत । दिनर्क्षत त्रिषु नक्षत्रेषु यदि योधन तदा धनुपान युद्धेत् मृत्युभयात् । अन्यत् स्पष्टम् ॥१-३॥

चापचक्रम्

गुण (रज्जु) और बाण से युक्त धनुष चक्र को बनाकर उसमें ही चापमा के नक्षत्र (दिननक्षत्र) से तीन तीन नक्षत्र लिखे । बाण के मूल म ३ नक्षत्र, मध्य में



३ नक्षत्र, और आखीर (बाण के नोक) म ३ नक्षत्र इस प्रकार नव नक्षत्र बाण म न्यास करे । दशम नक्षत्र से ३ नक्षत्र धनुष के मूल में, ३ नक्षत्र मध्य में और ३ नक्षत्र ऊर्ध्व भाग में

न्यास करे । इसके बाद १९ वें नक्षत्र से तान नक्षत्र मौर्विका के भादि में, पुन ३ नक्षत्र मध्य में और ३ नक्षत्र ऊर्ध्व भाग में न्यास करे । इसके बाद देखना चाहिये कि योधा का नक्षत्र कहा किस अंग में है उससे फल को विचारे । बाण के मूल में योधा का नक्षत्र हो तो बाण युद्ध से योद्धा की मृत्यु होती है । मध्य म हो तो ब्याधि और फलक में हो तो विजय हाती है । इसी प्रकार रज्जु के मध्य में वा धनु के मध्य में हो तो धन का नाश, चाप के ऊर्ध्व भाग में हो तो विजय और रज्जु के ऊर्ध्व भाग में हो तो धन का लाभ होता है । धनुष वा रज्जु के अधःभाग में हो तो विग्रह होता है । विशेष कर पापग्रह से युत नक्षत्र हो तो भयंकर फल होता है अन्यथा नहीं होता है । शुभग्रह के योग म विजय और लाभ होता है शुभ,पाप दोनों की युति हो तो जो बली हो उसका फल चापचक्र में कहना ॥ १-६ ॥

इति चापचक्रम् ।

अथाग्निचक्रम्

अथातः संप्रवक्ष्यामि अग्निचक्रं चरानने ।

होमे च शांतिके चैव चितनीयं प्रयत्नतः ॥ १ ॥

सैका तिथिर्वारयुता कृतात्ता शेषे गुणेऽग्ने भुवि वहिवासः ।

सौम्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्चनाशौ दिवि भूतले च ॥२॥

त्रीणि त्रीणि भवेदक्षे सूर्यक्षेत्रनुक्रमात् ।

आदित्ये च भवेच्छोकं बुधे चैव श्रिया सुखम् ॥ ३ ॥

शुके चैवार्थलाभश्च शनौ पीडा न संशयः ।
 चन्द्रे लाभं विजानीयाद्भौमे च निधनं भवेत् ॥ ४ ॥
 गुरौ चैवार्थलाभश्च राहौ हानिश्च निश्चितम् ।
 केतौ चैव भवेन्मृत्युरग्निचक्रं वरानने ॥ ५ ॥
 रविर्भं दीयते पूर्वं गण्यते सृष्टिनार्गतः ।
 शुभाशुभफलं वक्ष्ये अग्निचक्रं सदा बुधैः ॥ ६ ॥

इत्यग्निचक्रम्

अग्निचक्र

अथ मैं अग्निचक्र को कहता हूँ जिसे शान्ति क लिये किये हुये हवन में विचारना चाहिये । वर्तमान तिथि में १ चोढ़ कर चार-मक्या को जोड़कर उसमें चार का भाग दे यदि ३ या ० शेष पचे तो अग्नि वा वास भूमि में होता है उम दिन हवन करने से सुख होता है और एक, दो शेष पचे तो क्रम से शाकाग और भूनए पर अग्नि घाम होता है उस दिन हवन करने से प्राण और धन का नाश होता है । सूर्य के नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र अभीष्ट दिन के नक्षत्र तक गिने उसमें पहले ३ नक्षत्र क स्वामी सूर्य हैं इसमें हवन करने से शोक, फिर ३ नक्षत्र बुध का इसमें हवन करने से लक्ष्मी और सुख का लाभ, फिर ३ नक्षत्र क स्वामी शुक हैं इसमें हवन कराने से धन का लाभ, फिर ३ नक्षत्र शनि के हैं इसमें हवन करने से पीडा होती है, फिर ३ नक्षत्र चन्द्रमा क हैं इसमें हवन करने से लाभ, फिर ३ नक्षत्र भीम का है इसमें हवन करने से मृत्यु होती है । फिर २ नक्षत्र गुरु का है इसमें हवन करने से प्रभ्य का लाभ, फिर ३ नक्षत्र राहु का है इसमें हवन करने से हानि, फिर तीन नक्षत्र केतु का है इसमें हवन करने से मृत्यु होती है । इस प्रकार सूर्य के नक्षत्र से अग्निचक्र द्वारा शुभ अशुभ फल कहा गया है ॥ १-६ ॥

इति अग्निचक्रम्

अथ शनिचक्रम्

शनिचक्रं नराकारं लिखित्वा सौरिभादितः ।
 नामऋक्षं भवेद्यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ॥ १ ॥
 मुखैकं दक्षदोस्तुर्गं पद्पादौ पंच हृत्करे ।
 वामे तुर्यं त्रयं शीपं नेत्रे गुणो द्विकं द्विकम् ॥ २ ॥
 मुखे हानिर्जयो दक्षे भ्रमः पादं त्रियो हृदि ।
 वामे शीपं भयं राज्यं नेत्रे सौर्य मृतिर्गुदे ॥ ३ ॥

तुर्थाष्टद्वादशे पक्षे यदा विघ्नकरः शनिः ।
 तदा सौख्यं वपुःस्थाने हृच्छीर्षे नेत्रदक्षयोः ॥ ४ ॥
 तृतीयैकादशे पक्षे यदा सौख्यकरः शनिः ।
 तदा विघ्नं शरीरस्थे मुखगुह्याघ्रिवामदोः ॥ ५ ॥
 यस्य पीडाकरः सौरिस्तस्य चक्रमिदं स्फुटम् ।
 लिखित्वा कृष्णद्रव्येण तैलमध्ये क्षिपेद् बुधः ॥ ६ ॥
 निक्षिप्य भूमिमध्यस्थे कृष्णपुष्पैः प्रपूजयेत् ।
 तुष्टिं याति न संदेहः पीडा मुक्त्वा शनैश्चरः ॥ ७ ॥
 यथोक्त यामले तंत्रे सूनोः सूर्यस्य पूजनम् ।
 यथोक्तविधिना सर्वं कर्तव्यं मंत्रपूजनम् ॥ ८ ॥
 जपेत्प्रतिदिनं मंत्रं संख्ययाष्टोत्तरं शतम् ।
 पूजयित्वा विधानेन ततः शांतिं प्रयच्छति ॥ ९ ॥

इति शनिचक्रम्

शनिचक्रमिति । नराकार शनिचक्रं लिखेत् । तत्र शन्यधिष्ठितनक्षत्रत-
 न्यास कारयेत् । यत्र भागे नामनक्षत्र भवेत्तत्र शुभाशुभ फल भवति ।
 मुखेकमिति । तत्र मुखे एक नक्षत्र, ततो दक्षदोर्दक्षिणभागी चत्वारि नक्षत्राणि,
 पादौ चरणयोः त्रीणि त्रीणि एव पट्, प्रथम दक्षिणचरणे ततो वामचरणे,
 पचहन् पचनक्षत्राणि हृदये इत्यर्थ । वामे करे ग्रामहस्ते चतुष्टय, शीर्षे शिरसि
 त्रय, नेत्रे द्विक, गुह्ये द्विक एव सर्वत्र नक्षत्रन्यास कृत्वा फल विचारयेत् ।
 मुखे हानिरिति । मुखे नामनक्षत्रस्थिते हानिः, दक्षे हस्ते जय । पादौ भ्रमो
 भ्रमणम् । हृदि शीर्षवति धामे हस्ते भयम् । शीर्षे राज्यम् । नेत्रे सौख्यम् ।
 गुदे मृति मरणम् । तुर्येति । यदा जन्मराशित चतुर्थे द्वादशेऽष्टमे द्वितीये
 राशौ शनि तदा चेच्छनिनक्षत्रत नामनक्षत्र हृच्छीर्षेनेत्रदक्षभुजेषु पतति तदा
 चतुर्थाष्टमद्वादशद्वितीयस्थानज शनिकृत दुष्टफल आधित्या शुभफलदायको
 भवति । तृतीयैकादश इति । एव यदा जन्मराशित तृतीयैकादशे पक्षे शनि
 सौख्यकरस्नस्मिन् समये शनिनक्षत्रत नामनक्षत्र चेन्मुखगुह्याघ्रिवामदोर्मध्ये-
 पतति तदा तृतीयैकादशादिशुभफल आधित्या विघ्नमेव सर्वत्र ददाति ॥ ९-६ ॥

शनिचक्रम्

मनुष्य के आकार का शनिचक्र बनाकर उसमें शनि के नक्षत्र के चतुर्षो को
 लिखकर जहां नाम का नक्षत्र हो उससे शुभ अशुभ फल का विचार करे । एक

मामने दीवता है । जिसके ग्रामाग म चन्द्रग्रह और शुभग्रह दक्षिण हों तो उस बोधा की हार निग्रय ही युद्ध में होती है चाहे वह महाशूर-वीर ही क्यों न हो ॥ १-१७ ॥

त्रिरोप—यहाँ युद्धलग्न म जा ग्रह हो उसकी पूर्वदिशा, दूसरे, तीसरे म स्थान कोण । चौथे म उत्तर, पाचवें, छठे में वायव्य कोण । सातवें में पश्चिम, आठवें में नैर्ऋत्य कोण, दशम में दक्षिण और एकादश, द्वादश म अग्नि कोण समझना चाहिये ।

इति शातनरचक्रम्

अथ डिम्बचक्रम्

डिम्बचक्रे न्यसेद्भानि भानुभाद्वित्रि मस्तके ।

मुखे त्रीणि द्वय स्कंधे एकैक बाहुहस्तयोः ॥ १ ॥

पंच हृत्ताभिगुह्येषु एकैकं पट् च जानुनि ।

चरणाभ्यां तथैकैक जन्मभं यत्र तत्फलम् ॥ २ ॥

शीर्षस्थे छत्रलाभश्च वक्त्रे मिष्टान्नभोजनम् ।

स्कंधे धनी च बाहुभ्यां स्थानम्रष्टो भवेन्नरः ॥ ३ ॥

पाणिभ्या तस्करो लक्ष्मीर्हृदयत्पायुश्च नाभिमे ।

गुह्ये कामो भ्रमो जानौ स्तोकजीवी च पादयोः ॥ ४ ॥


इति डिम्बचक्रम्

डिम्बचक्रे इति । स्पष्टम् ॥ १-४ ॥

अथ डिम्बचक्रम्

डिम्बचक्र में सूर्य के नक्षत्र से ३ नक्षत्र मस्तक पर, ३ नक्षत्र मुख में इसके बाद

२ नक्षत्र कंधे पर, एक एक नक्षत्र भुजा और हाथ में । पांच नक्षत्र हृदय में, नाभि और गुह्य स्थान में एक-एक नक्षत्र, ६ नक्षत्र अर्धों में, शरणों में एक एक नक्षत्र स्थापित करे । जहा जन्मनक्षत्र हो वहाँ से फल कहे । शिर में जन्म नक्षत्र हो तो राजपगाम, मुख में हो तो मिष्टान्न भोजन, कंधे में हो तो धनी, बाहुओं में हो तो स्थान मे भ्रष्ट हो । दोनों हाथों में हो तो चार, हृदय में हो तो लक्ष्मी का लाभ, नाभि में हो तो अक्षयपु, गुह्यस्थान में हो तो कामी, अर्धों में हो तो भ्रमण, दोनों पैरों में हो तो अक्षयपु होता है ॥ १-४ ॥



इति डिम्बचक्रम्

अथ पक्षिचक्रम्

चञ्चुमस्तककण्ठेषु हृदयोदरपत्सु च ।
 पक्षयोश्च त्रिक चैव शशिभाद्रिन्यसेद् बुधः ॥ १ ॥
 चञ्चुस्थे नामभे मृत्युः शीर्षे कण्ठोदरे हृदि ।
 विजयः क्षेमलाभश्च भगदं पादपक्षयोः ॥ २ ॥

इति पक्षिचक्रम्

चञ्चुमस्तक इति । सुगमम् ॥ १-२ ॥

पक्षिचक्रम्

चन्द्रमा के नक्षत्र से पक्षी के चाँच, मस्तक, कठ हृदय, पेट, पैर और दोनों पंखों (पखों) में तीन २ नक्षत्र को देवै । यदि चाँच में गाम का नक्षत्र हो तो मृत्यु, शिर, कठ, पेट, हृदय में हो तो विजय, कुशल और लाभ होता है, पैर और पख में हो तो हानि होती है ॥ १-२ ॥



इति पक्षिचक्रम्

अथ वर्गचक्रम्

अगरुडः कमार्जारश्चः सिंहः शुनीसुतः ।
 तः सर्पो मूपकः पञ्च यो मृगः शस्त्वजात्मजः ॥ १ ॥
 वसु ८ भूत ९ रसा ६ वेदा ४ मुनि ७ चन्द्रा १ ग्नि ३ याहवः ।
 पूर्वादिक्रमतो ज्ञेया वर्गोपरि दिगष्टके ॥ २ ॥
 नाम्नि वर्गादिवर्णानामङ्काः कार्याः पृथरूपृथक् ।
 पिण्डिता वसुभिर्भक्ता शेषमायो ध्वजादिकः ॥ ३ ॥
 शेषमंख्या , ध्वजो धूमः सिंहश्चावृपरासभाः ।
 गजध्वांशौ क्रमेणैव आया अष्टौ भवन्ति ते ॥ ४ ॥
 ध्वाक्षश्चरासभवृपगजसिहध्वजा नलाः ।
 यथोत्तरयलाः सर्वे ज्ञातव्याः स्वरपारगैः ॥ ५ ॥

प्रभौ योधे पुरे देशे मित्रनारीगृहेषु च ।
 आयाधिके भवेद्दामो न लाभो बलवर्जिते ॥ ६ ॥
 इति वर्गचक्रम्

अगरुड । इति । स्पष्टम् ॥ ६ ॥

वर्गचक्रम्

अवर्ग के गरुड, कर्ग के मार्जार, धवर्ग के सिंह, टवर्ग के श्वान, सवर्ग के सर्प, पवर्ग के मूषक, यवर्ग के मृग और शवर्ग के भेदा ये स्वामी हैं । पूर्वादि दिशाओं के क्रम से आठों घणों के ८।५।६।७।८।९।१०।११।१२ ये ध्रुवांक हैं । नाम सं घर्ग और स्वर्ग के

ध्रुवाको को एकत्र कर आठ से भाग देने से शेष ध्वजादि भाय होते हैं । ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृष, रासभ, गज, स्वाँष ये आठ भाय हैं ।

स्वाँष, श्वान, रासभ, वृष, गज, सिंह, ध्वज और धूम ये चयोत्तर पछी हैं । प्रभु, योधा, पुर, दश, मित्र, स्त्री, गृह के विचार म जिसका भाय अधिक हो उससे उसको लाभ होता है । जैसे देवदत्त को हरेराम से लाभ होगा या नहीं ?

घ०२ अज० ध्वंक्षा	अ ८ मकरु ध्वज	क०५ मार्जार धूम
घ०३ मृग जज		ख ६ सिंह सिंह
घ०४ मूषक शशभ	त ७ सर्प वृष	ट०४ श्वान रज

देवदत्त के क्रम से ७ + ३ + ७ + ७ + ७ स्वर्गोंका + ३२ = ६३ हममें ८ से भाग देने से शेष ७ बचा । इसी प्रकार हरेराम में क्रम से २ + ३ + ३ + १ स्वर्गों का + ३२ = ४१ इसमें आठ से भाग देने से शेष १ बचा अतः हरेराम को देवदत्त से लाभ होगा न कि देवदत्त को ॥ १-६ ॥

इति वर्गचक्रम्

अथ आयचक्रम्

ध्वजो धूमोय सिंहः श्वा सौरभेयः चरो गजः ।
 ध्वांक्षश्चेति क्रमेणैव आया अष्टौ दिगष्टके ॥ १ ॥

प्रतिपदानुदीयन्ते तिथिमुक्तिप्रमाणतः ।
 अहोरात्रे पुनः सर्वं यामभुक्त्या भ्रमन्ति च ॥ २ ॥

आया वर्गाष्टके ज्ञेया दिगष्टकक्रमेण च ।
 स्वोदये नृत्युद ज्ञेयं सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ ३ ॥

ध्वजेति । स्पष्टम् । प्रतिपदेति । प्रतिपदादितिर्गो तिथिमुक्तिप्रमाणतो

ध्वजादयो आया उदीयन्ते यथा प्रतिपदि ध्वजोदय । द्वितीयाया धूमस्य । तृतीयाया सिंहस्य । चतुर्थ्यां श्वान । पचम्या वृषस्य । षष्ठ्या ररस्य । अष्टम्या ध्वाक्षस्य उदयो एव पुनरभेऽपि उच्यन्ति । तु पुन सर्वे ध्वजाद्गाऽहोरात्रमध्ये-
यामभुक्त्या भ्रमन्ति । यस्मिंस्तिथौ यम्योदयस्तमुपक्रम्याष्टप्रहरेऽष्टगम प्रति-
प्रहर प्रत्येकस्योदय । यथा प्रतिपदि प्रथमप्रहरे ध्वज । द्वितीयप्रहरे धूम ।
तृतीयप्रहरे सिंह । चतुर्थप्रहरे श्वान । पञ्चमप्रहरे वृष । षष्ठप्रहरे रर ।
सप्तमप्रहरे गज । अष्टमप्रहरे ध्वाक्ष उदेति । एव द्वितीयाया प्रथम-
प्रहरे धूम । द्वितीयप्रहर सिंह । एव क्रमेण सर्वास्वपि तिथिषु अनुस्म-
रणीयम् ॥ १-३ ॥

इत्यायचक्रम

आठों दिशाओं में क्रम से ध्वज, धूम सिंह, श्वान, वृष, रर, गज और ध्वांश

ध्वाक्ष ८।३०	ध्वज १।९	धूम २।१०
गज ७।१५		सिंह ३।११
रर ६।१९	वृष ५।१३	श्वान ४।१२

ये आठ आय हैं । ये प्रतिपदादि तिथियों में क्रम से उदित होते हैं । और तिथि भोग के अनुसार अहोरात्र में उदित होते हैं । जैसे प्रतिपदा के प्रथम प्रहर में ध्वज, २ रे में धूम, ३ रे में सिंह, ४ वें में श्वान, ५ वें में वृष, ६ वें में रर, ७ वें में गज और और आठवें प्रहर में ध्वांश उदित होता है । एव आय तिथियों में भी समझना । आठवर्ग जो आठों दिशा में हैं

उसी के साथ आय भी हैं । जिस दिशा में आय उदित हो उसी दिशा में उसके वर्ग को भी उदित समझना । जिस दिशा में भवना वर्ग और आय उदिता हो उस दिशा में अपने सभा कार्य न करें ॥ १-३ ॥

इति इत्यायचक्रम

अथ ग्रामचक्रम

ग्रामनक्षत्रमारभ्य कर्तुर्नक्षत्रं गणयते ।
शिखः-पञ्चार्थलाभं च सुखे त्रीण्यर्थनाशनम् ॥ १ ॥
याणा हृदि धनं धान्य द्वौ पादौ पङ्क दरिद्रता ।
द्वौ गुणौ भय पीडा नाभौ चत्वारि सम्पदम् ॥ २ ॥
पृष्ठैक प्राणसन्देहो हस्ते चक्रेकलाभदम् ।
जन्मराशिस्थितो ग्रामस्त्रिपट्सप्तमगोपि वा ॥ ३ ॥
सिद्धार्थाश्च विनश्यन्ति आपत्य च दिनेदिने ॥ ४ ॥

चतुर्थश्चाष्टमो यश्च द्वितीयो वा यदा भवेत् ।
 तत्र चोत्पश्यते द्रव्यं यत्र चैवं विनिर्दिशेत् ॥ ५ ॥
 पञ्चमो नवमो ग्रामो द्वादशैकादशे दशे ।
 महालाभो भवेत्तस्य प्रभवेच्च चिरायुषम् ॥ ६ ॥
 अन्यच्च ।

पञ्चमो नवमो ग्रामो दशमैकादशस्थितः ।
 द्वितीये वसते नित्यं धनधान्यसमन्वितम् ॥ ७ ॥
 चतुर्थश्चाष्टमो ग्रामो द्वादशेऽपि यदा भवेत् ।
 तत्र चोपार्जितं द्रव्यं तत्रैवापि विनश्यति ॥ ८ ॥
 इति ग्रामचक्रम्

ग्राम क नक्षत्र से गृहकर्ता क नक्षत्र तक गिर कर कम से पाँच नक्षत्र गिर में स्थापित करे उसमें यदि वासकर्ता का नक्षत्र हो तो धन का लाभ । इसके बाद तीस नक्षत्र गुप्त में स्थापित करे इसमें धन का नाश होता है । इसके बाद पाँच नक्षत्र हृदय में रखे । इसमें धन धान्य का लाभ । दानों पैरों में छ नक्षत्र स्थापित करे । इसमें वासकर्ता का नक्षत्र होने से दरिद्रता, इसके बाद द्वा नक्षत्र गुह्य स्थान में स्थापित करे । इसमें भय और पीडा होती है । इसके बाद चार नक्षत्र तामि में स्थापित करे । इसमें सम्पत्ति का लाभ होता है । इसके बाद एक नक्षत्र पीठ में स्थापित करे । इसमें प्राण का मद्दह होता है । इसके बाद दोनों हाथों में एक एक नक्षत्र स्थापित करे । इसमें लाभ होता है । यदि जन्मराशि ही ग्राम की राशि हो अथवा ३, ६, १० की राशि हो तो अपने अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं और चमलता दिन दिन बढ़ती जाती है । यदि ग्राम की राशि ४, ८, १२ हो तो गिरतर द्रव्य का लाभ होता है । ५, ९, १३, ११, १० हो तो भायत लाभ और आयुष्य की वृद्धि होती है । मगगर से—जन्मराशि से ५, ९, १०, ११, १२ हो तो गुप्त्य धन धान्य से परिपूर्ण होकर वास करगा है । यदि ४, ८, १२ हो तो उपसक्त किया हुआ द्रव्य यही प्राप्त हो जाता है ॥ १-८ ॥

अथ पट्टचक्रम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चित्राद्दे शोभयेद्दुध' ।
 रत्नितारादिगणयन्तं चन्द्रमादि च यां न्यसेत् ॥ १ ॥
 त्रीणि त्रीणि क्रमेणैव फलं तस्य शुभाशुभम् ।
 मन्थे मृत्युस्तथा लक्ष्मीर्गन्धिविनां तथैव च ॥

सौभाग्यं विधवा वन्ध्या धन पुत्रः क्रमेण च ॥ २ ॥
त्रिकक्षमर्कादिकूलक्षयं च पूर्वार्धलक्ष्मोर्मृतिदुर्वलत्वम् ।
सौभाग्यवन्ध्या विधवा च नारी पुत्रप्रसूतिर्धनपट्टकाले ॥

इति विवाहपट्टचक्रम्

विवाह में पट्टचक्र को कह रहे हैं—सूर्य क नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिने । क्रम से तीन तीन नक्षत्रों का शुभ अशुभफल होता है । शेष स्पष्ट ही है ॥ १-३ ॥

अथ विरंचिचक्रम्

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मद्यः प्रत्ययकारकम् ।
विरंचिनाम-विख्यातं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ॥ १ ॥
कृत्तिका चोत्तराफाल्गुन्युत्तरापादपूर्वकम् ।
पंक्तियुक्त्या लिखेद्भानि क्रमेण नवकत्रये ॥ २ ॥
वेधोपि कर्णगस्तत्र कर्तव्यो नवकत्रये ।
ऋरसौम्यघ्नहैर्विद्ध ज्ञेय तस्य शुभाशुभम् ॥ ३ ॥
जन्म सम्पद्विपत्क्षेमप्रत्यरिः साधको वधः ।
मित्रातिमित्रगास्तारा नवभेदा भवन्ति च ॥ ४ ॥
जन्मत्रयस्य वेधेन मृत्युः ऋरग्रहेण च ।
जय लाभ शुभैस्तत्र मिश्रैर्मिश्रफले विदुः ॥ ५ ॥
जन्मत्रये स्थितः सौरिः क्षेमभे राहुभूमिजौ ।
मित्रातिमित्रगे सूर्ये जायते वधयन्धनम् ॥ ६ ॥
जन्मत्रये यदा जीवः क्षेमभे बुधभार्गवौ ।
मित्रातिमित्रगे चन्द्रे जय लाभं सुखानि च ॥ ७ ॥
त्रिपञ्चसप्ततारासु रोगोत्पत्तिर्यदा तदा ।
चिररोगो मृतिस्तासु ऋरविद्वासु जायते ॥ ८ ॥

इति विरञ्चिचक्रम्

अथात इति । स्पष्टम् । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति ।
अथात इति । स्पष्टम् । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति ।
अथात इति । स्पष्टम् । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति ।
अथात इति । स्पष्टम् । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति ।
अथात इति । स्पष्टम् । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति । जन्मत्रयस्येति ।

विरधि चक्र को कहता हूँ जो कि प्रमिद और दयताओं को भी दुर्लभ है। कृत्तिका, उत्तराशाढगुनी, उत्तराषाढ को एक पक्ष में लिखें। इसके बाद क्रम से नव २ नक्षत्र एक एक पक्ष में लिखें। तीनों नक्षत्रों में तिरछे तिरछे षष्ठ का विचार करना चाहिये। क्रूरग्रह तथा शुभग्रह क षष्ठ से शुभ अशुभ फल को कहना। इसमें जन्म, सप्त, विपत्, क्षेम, प्रथरि, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र ये नव ताराएँ होती हैं। तीनों आशुति में जन्म की तारा अर्थात् जन्मनक्षत्र और उससे १० वें नक्षत्र में क्रूरग्रह हो तो मृत्यु के समान वध, शुभग्रह हो तो विजय और लाभ, मित्र ग्रह हों तो मित्र वल कहना। तीनों आशुति में जन्म की तारा न क्षनि हो, क्षेम तारा में राहु भीम हो, मित्र अतिमित्र में मृत्यु हों तो वध और वधन दोनों होता है। तीनों जन्म तारा में गुरु हो, धर्मतारा में बुध शुक्र हों मित्र या अतिमित्र में चन्द्रमा होतो विजय लाभ और सुख होता है। यदि तीमरी, पांचवीं या सातवीं तारा में रोग उपपन्न हो तो अधिक दिन तक राग रहता है, यदि क्रूर ग्रह से वध हो तो मृत्यु होती है ॥ १-८ ॥



इति विरधिचक्रम्

अथ भास्वच्चक्रम्

रेखात्रयं त्रिशूलाभ तिर्यग्रेखासमन्वितम् ।
 एकैका कोणगा तत्र मध्याथो भानुभादितः ॥ १ ॥
 लिखेत्सव्यक्रमेण च चक्रे भास्वति तारकाः ।
 अधस्त्रये भवेन्मृत्युश्चतुर्भिः कोणगैः शुभम् ।
 द्वादशा मध्यमाः प्रोक्ता ऊर्ध्वगा भस्मकारकाः ॥ २ ॥

इति भास्वचक्रम्

त्रिशूल के समान तीन रेखा क्षरी और गण तिरछी रेखा जिनके उभयों मूर्ध क नक्षत्र में एक-एक नक्षत्रकोण में और दोष मध्य और ऊपर नीचे स्थापित करें। नीचे वाले नक्षत्र में मृत्यु—कोणवाले नक्षत्र में शुभफल, ऊपर वाले नक्षत्र में मध्यम फल और ऊपर वाले नक्षत्र में अर्थात् वध होता है ॥ १-२ ॥

अथ द्येनचक्रम्

द्येनचक्रं समालिख्य पक्षिरूपं सुशोभनम् ।
 चंचलमे भानुम कृत्वा अष्टारिंशति चिन्पसेत् ॥ ३ ॥

ऋक्षैकं चञ्चुकोटिस्थं शीर्षे ग्रीवे त्रिकं त्रिकम् ।
 पादपृष्ठे चतुष्कं च उदरे नव भानि च ॥ २ ॥
 नामऋक्षं स्थितं यस्य चञ्चुग्रे वधवन्धनम् ।
 लाभो हृच्छीर्षग्रीवासु विरुद्धं पादपृष्ठयोः ॥ ३ ॥
 इति श्येनचक्रम्

पक्षि के आकार का श्येन चक्र को सुन्दर बनाकर सूर्य के नक्षत्र को चोंच के भागे लिपकर वहाँ में २८ नक्षत्रों को क्रम से लिखना । चोंच के भागे १ नक्षत्र इसके दाहिने शिर कट में तीन तीन नक्षत्र, पैर पीठ में चार चार नक्षत्र, पेट में ९ नक्षत्र । जिसका नाम वा नक्षत्र चोंच के भागे हो उसका वध या बन्धन होता है । हृदय, शिर, ग्रीवा में हो तो लाभ, पैर और पीठ में हो तो विरुद्ध फल होता है ॥ १-३ ॥



इति श्येनचक्रम्

अथ सवत्सरचक्रम्

चक्रं सांवत्सरं वक्ष्ये यदुक्तं कौशलागमे ।
 येन विज्ञायते सम्यग्वर्षे वर्षे शुभाशुभम् ॥ १ ॥
 द्वादशार लिखेच्चक्रं तत्र मेपादिराशय ।
 सस्थाप्याः क्रमयोगेन मीनान्ताः सव्यमार्गगाः ॥ २ ॥
 तत्र चक्रं समालेख्य मेपादिराशिमार्गतः ।
 प्रभवान्प्रवृत्तमेकैकं पष्टिः पञ्चप्रवर्तनैः ॥ ३ ॥
 एव राशौ स्थितं यत्र वत्सरं वर्तमानजम् ।
 तद्वाशिस्थं फलं वीक्ष्य यत्किञ्चिद्द्वार्षिकं मतम् ॥ ४ ॥
 चैत्रे या प्रतिपच्छुक्ता तस्याः काले प्रवेशजे ।
 एतद्विलोकयेच्चक्रं कालज्ञानविनिश्चितम् ॥ ५ ॥
 तत्र सर्वान् महान्न्यस्य राशौ ये यत्र सन्धिना ।
 वर्षराशोविचिन्त्यास्ते रेखास्थानगता गताः ॥ ६ ॥

वर्षोपचयगाः क्रूराः सौम्याश्छिद्रान्त्यवर्जिताः ।
 ग्रहा रेखाप्रदा ज्ञेया मितमध्यग्रहे स्थिताः ॥ ७ ॥
 स्वर्धे द्विघ्नं फलं दत्ते स्त्रोचे विघ्न तथैव च ।
 फलार्धं शशुगोहस्यो नीचस्थो निष्फलो ग्रहः ॥ ८ ॥
 एव रेखाप्रमाणेन वर्षविशोपका मताः ।
 ज्ञातव्या दैशिकेन्द्रेण वर्षमध्ये प्रयत्नतः ॥ ९ ॥
 एवं वर्षफलं प्रोक्तं चैत्रमासाद्यवासरात् ।
 आपादे कार्तिकेप्येवं जलं धान्यं विचिन्तयेत् ॥ १० ॥
 तत्र देशे पुरे ग्रामे फल भिन्नं प्रदृश्यते ।
 तम्मात्तत्कारणं वच्मि येन जानाति साधकः ॥ ११ ॥
 देशादिराशिनाथस्य यो रेखादायको ग्रहः ।
 मित्रोदासीनशत्रुत्वे फलं भिन्नं करोति सः ॥ १२ ॥
 मित्रं द्विघ्नं फलं दत्ते समः सौम्यं करोति सः ।
 शत्रुः सर्वहरो ज्ञेयः सर्वदा कालचिन्तकैः ॥ १३ ॥
 एव विचार्य कर्तव्या कालविशोपका युधैः ।
 यथा जलं यथा धान्यं स्वस्वकाले विचिन्तयेत् ॥ १४ ॥
 इति मन्त्रसरचन्द्रम्

जो कोशलागम में सवत्सर चक्र कहा गया है उसे मैं कह रहा हूँ । जिसमें प्रत्येक वर्ष में शुभ अशुभ जाना जाता है । १२ घाटे के चक्र लिखा है उसमें मेरे से तीन पर्यन्त मध्य भाग तम में राशियों को लिखा । उस चक्र में भूरादि राशि मार्ग से प्रथम आदि मन्त्रसर को पाँच परिवर्तना में लिखा । इस प्रकार जिस राशि में बतलाना सवत्सर हो उस राशि के वर्तमान फल का देवहर चारिक फल को पढ़ । चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को वर्ष प्रथम समय इस चक्र में काट जाय का कर । उस समय जो प्रद जिस राशि पर हो उसके उस राशि पर लिखा वह वर्ष ही राशि से प्रहों के फल का विचार करे । वर्ष राशि में उपचय स्थान ३१११ में मरणा हो भीर २११२ को छोड़ कर दोष स्थान में शुभप्रद हों ता प्रद रेखा प्रद क्षम है । यदि प्रद क्षम गूट में हो तो दूना, अगो वरुण में हो ता निगूण, शत्रुगूट में हो तो भाषा फल देता है । अथ नीच राशि में हो ता निष्फल होता है । इस प्रकार से रेखा में वर्ष का विशोपक का होता है । यह वर्ष का चैत्र भाग क आदि दिन में कहा गया

हे । पृथ जापाद और कात्तिक में जल धान्य की सरया का विचार करना । इसमें देश, पुर, ग्राम म भिन्न भिन्न फल होता है हमका कारण कह रहा हूँ । देशादि राशिनाथ के जा रेखाप्रद ग्रह हैं वे मित्र सम शत्रु आदि राशियों में होकर भिन्न फल



को देते हैं । मित्र दूना फल, समग्रह समान नीर शत्रुग्रह सभी फल का अपहरण कर लेता है । हम प्रकार से विचार कर कालविशेष करना । जिससे जल और धान्य अपने अपने समय में विचारे जा सकें ॥ १-१४ ॥

इति सवामरचक्रम्

अथ स्थानचक्रम्

स्थानचक्रं प्रवक्ष्यामि यदुक्त लम्पटागमे ।
 येन विजायते सम्यक् स्थाने स्थाने शुभाशुभम् ॥ १ ॥
 स्थानपीडाप्रभावेण राज्ञः पीडा प्रजायते ।
 तस्मादपीडिते स्थाने स्थातव्यं सर्वदा नृपैः ॥ २ ॥
 स्थाननामोद्भव राशि कृत्वादी द्वादशारके ।
 राशिमण्डलक न्यस्य वाममार्गेण संस्थितम् ॥ ३ ॥
 नव तत्र ग्रहा स्थाप्या मासचन्द्रश्च राशिग ।
 तेषा विलोकनं वीक्ष्य स्थानराशिगत तथा ॥ ४ ॥

तृतीयैकादशे पादं द्विपादे व्योमयन्धुगे ।
 त्रिकोणे व्यंघ्रि मूर्धन्यस्ते पूर्णं पश्यन्ति खेचराः ॥ ५ ॥
 शन्यर्कराहुकेत्वाराः पञ्च क्रूरग्रहा मताः ।
 शेषं चतुष्टयं सौम्यं भासेन्दुश्चापि पञ्चमः ॥ ६ ॥
 एवं पञ्च ग्रहाः क्रूराः पञ्च सौम्यास्तथैव च ।
 तेषां शुभाशुभां हृष्टिं कृत्वा स्थानफल वदेत् ॥ ७ ॥
 एकैकग्रहजा हृष्टिः पूर्णपादचतुष्टयम् ।
 पञ्चमे नवमे तेषां पादोना विंशतिर्भवेत् ॥ ८ ॥
 तत्र विंशोपका ज्ञेयाः सौम्यक्रूरग्रहोद्भवाः ।
 एवं प्रसाभयेद्दृष्टिं युग्मग्वेदैः शुभाशुभम् ॥ ९ ॥
 बही स्तोकोनिता शोपा जायन्ते ह्यशुभाशुभाः ।
 ते च विंशोपकास्तस्य स्थानस्य फलनिर्णयं ॥ १० ॥
 एव देशे पुरे ग्रामे चल यत्र शुभाशुभम् ।
 तत्र स्थाने स्थितो राजा दुष्टारिष्टैर्न पीड्यते ॥ ११ ॥
 स्थानफलप्रभावेण स्वयलस्य धलादयः ।
 शत्रुसैन्यं क्षयं याति यावत्स्थाने शुभे स्थितेः ॥ १२ ॥

इति स्थानफलनामम्

एतदागम मं कटे ह्यु स्थान चक्र को कद रत्ना ह्ये त्रिभने प्रत्यकराग के शुभ
 अशुभ फल को जाना जाता है । स्थान के पादा के प्रभाव से राजा का पदा हाता है ।
 अतः विना पादा के स्थान में राजा को सर्वदा रहना चाहिये । पहला स्थान ५ भाग से
 राशि बनाकर वही का लाभ मानकर ५३ राशि चक्र में क्रम से अल्प राशियों का
 स्थापित करे । उदात्त ९ प्रश्नों को यथास्थान रूप के और मानिक चक्र का उक्त राशि
 में रखे । उनके दृष्टियों को स्थान राशि पर देखे । जोमर, इन्द्र, देव, शरणा, दशम
 अशुभ में हो शरणा, नव पादों में जाग जाग और अल्प समय में पूनर्दृष्टि से दृष्टि देखने
 हैं । राशि, मूर्य, राहु, कर्क और मीन से पाद करमद हैं । शरणा और शुभमद हैं और
 नाम अशुभमा नें शुभमद है । इस प्रकार ५ प्रश्न और ५ ही शुभमद हैं । इनकी
 शुभ अशुभ दृष्टियों को दृष्टकर यथावत् को २६ । एक-एक मद को पाद द्विपाद,
 त्रिपाद और एतदृष्टि ८ को है दृष्टके अशुभात् त्रिपाद से भूत यत्किंच । तत्र त्रिपाद
 में अशुभात् क्रम २० अर्थात् १- त्रिपादक दत्ता है । इस प्रकार शुभमद और अशुभमद

के विशेषकों को ले आकर दो २ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार शुभ अशुभ का निर्णय करे । जो अधिक या कम शुभाशुभ दृष्टि होती है, वही उनके विशेषक होते हैं स्थान बल ले आने के लिये । अर्थात् प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि जातकोक्त विधि से स्पष्ट कर लेवै जो आये वही विशेषक होता है । इस प्रकार जिस दश, ग्राम, पुर में शुभाधिक हो उस स्थान पर रहने से राजा दुष्ट अरिष्टों (दुष्टों) से पीड़ा नहीं पाता है । स्थान बल के प्रभाव से अपने बल का उदय होता है । यदि शुभ स्थान में रहे तो शत्रु मेना नष्ट हो जाती है उम स्थान के बल प्रभाव से ॥ १-१२ ॥

इति स्थानबलचक्रम्

अथ चन्द्रशुद्धोन्नतिचक्रम्

मीनमेपोदये चन्द्रः सततं दक्षिणोन्नतः ।

उदगुन्नतशोपे स्यात् समस्तु वृषकुम्भयोः ॥ १ ॥

विड्वरः स्यात्समे चन्द्रे दुर्भिक्ष दक्षिणोन्नते ।

ईतिरोगभयं शूले सुभिक्षं चोत्तरोन्नते ॥ २ ॥

मीन और मेष राशि पर चन्द्रमा शुक्लपक्ष के द्वितीया तिथि को हो तो निरन्तर दक्षिण शृंग उन्नत होता है । वृष और कुम्भ राशि में चन्द्र हो तो सम शृङ्ग होता है शेष राशियों पर उत्तर उन्नत शृङ्ग होता है । समशृङ्ग होता है । समशृङ्ग चन्द्रमा का हो तो विप्रद, दक्षिण शृङ्ग उन्नत हो तो दुर्भिक्ष, त्रिशूल के आकार का शृङ्ग हो तो दिव्ही आदि और रोग का भय होता है । उत्तर शृङ्ग उन्नत हो तो सुभिक्ष होता है ॥ १-२ ॥

नारदीयसंहितायाम्—

याम्यशुद्धोन्नतश्चन्द्रः शुभदो मीनमेपयो ।

सौम्यशुद्धोन्नतः श्रेष्ठो नृयुग्मकरयोस्सदा ॥ ३ ॥

समोक्षघटयोः कर्किचापयो' शरसन्निभः ।

चापवत् कीटहर्योस्तु शूलवत् तौलिकन्ययोः ॥ ४ ॥

विपरीतोदितश्चेन्दुर्दुर्भिक्षकलहप्रदः ।

यथोक्तोऽभ्युदितश्चन्द्रः प्रतिमासं सुभिक्षकृत् ॥ ५ ॥

आपाढद्वयमूलेन्द्रधिष्ण्याना याम्यगः शशी ।

अग्निप्रदग्धोपचरवनसर्पविनाशकृत् ॥ ६ ॥

विशाग्वामैत्रयोर्याम्यपार्वग' पापकृच्छशी ।

मध्यमः पितृदैवत्यो द्विदैवतं शुभात्तरे ॥ ७ ॥

अप्राप्य पौष्णभाद्रुकपट्टक्षाणि शशी शुभः ।
 मध्यगो द्वादशार्द्रायामतीत्य नवयामरान् ॥ ८ ॥
 यमेन्द्रोहीशतोपेशमरुतधार्यतारकाः ।
 ध्रुवादितिद्विदैवत्यमध्यमाश्च पराः समाः ॥ ९ ॥
 याम्यशृद्धोन्नतः श्रेष्ठः सौम्यशृद्धोन्नतः शुभः ।
 शुक्ले पिपीलिकाकारे दानिर्वृद्धिर्यथार्थकृत् ॥ १० ॥
 सुभिक्षकृद्विशालेन्दुरविशालोर्धनाशनः ।
 अधोमुखः शम्भयं कलहो दण्डसन्निभे ॥ ११ ॥
 कुजाद्यैर्निहतैः शृद्धे मण्डले वा यथाक्रमान् ।
 आयार्घ्यघृष्टिन्पतिजनानां नाशकृच्छशी ॥ १२ ॥

इति भृगोन्ननिचरम्

यदि मीन मेष राशि क चन्द्रमा हां और द्वावि ग्यग उक्तग हा ता शुभद होता है । मिथुन और मकर के चन्द्रमा में सौम्य ग्यग हो तो शुभद होता है । वृष कुम्भ राशि क चन्द्र के शृद्ध गम, वफ धन राशि क चन्द्र क ग्यग पाण महत, शृद्धि धन राशि क चन्द्र का ध्रुप और कृपा गुण राशि के चन्द्र का शृद्ध क ममान ग्यग होता है । इसर विपरीत यदि चन्द्र उदय हा, ता दुभित और कलदवारर हाता है । कहे दुप अनुमार यदि चन्द्र का उदय हा तो प्रायक माम म सुभित ही रहता है । पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, मूल, ज्येष्ठा का चन्द्रमा याग्यभाग का होता है । यह भिक्षित्री, पा, मर्ष का नाश कारक होता है । विद्याया, अनुराधा का चन्द्र याग्यपार्थ में होता है और पाप होता है । मघा का चन्द्र मरक म और विद्याया का उत्तर में शुभ होता है । रगती के पूर्व ६ मघ्य का चन्द्र शुभ, आर्द्रा का शृद्धकर १२ मघ्य का चन्द्र मघ्य दिन पर्यन्त मध्यम हाता है । भरणी, ज्येष्ठा, स्वेदा, मघा, पूर्वाषाढ, रगती, अधिनी क चन्द्रमा मध्यम । भुव संज्ञक, पुनर्धनु, विद्याया के मरकम अश्व के मम होने है । द्वावि ग्यग के श्रेष्ठ और उत्तर ग्यग क शुभद होता है । शृद्धरप मं चिरी क भावार के ही गो वम मे हाति और शृद्धिपाक हाते हैं । विद्याया चन्द्रमा हो ता शृद्धि वारक और छाटा हा ता धमनाश कारक हाता है । शर्ये गुण हो तो वृष का भय, शृद्धाकार हा तो कलह कारक । मीनदि ६ ग्नीं मे कीदित ग्यग का चन्द्रमंडल हा ता अशु के भाद, रागा आदि का ता कान चण्य चन्द्र हाता है ॥ १-१२ ॥

इति चन्द्रगुण परिचयम्

एतानि सर्वचक्राणि ज्ञात्वा युद्धं समाचरेत् ।
जयेद्विह न सन्देहः शक्रतुल्येपि वैरिणि ॥ १ ॥

इति चक्राध्याये चतुरशीतिचक्राणि समाप्तानि ।

इन सभी चक्रों को जानकर युद्ध को आरम्भ करे तो इन्द्र के समान शत्रु को भी जीत लेता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥

इति चतुरशीतिचक्राणि

पञ्चावस्थास्वरूपं स्वरवलविमलं देहतत्त्व प्रधानं
राशौभे वेधहृद्यं ग्रहवशाफलदं स्थायियाधिप्रधानम् ।
वर्गाद्याद्यैश्च वर्णैर्धलविधिसहितं मातृकाभेदरम्यं
भूपादीनां जयार्थं नरपतिरकरोच्चक्रबन्धप्रबन्धम् ॥ २ ॥

इति श्रीनरपतिजयचर्यायां यामलीयस्वरोदये चक्र-
बन्धाख्यस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

दिक्षु भ्रमति तत्काले गिरिजास्वाष्टसु तिथौ ॥ ४ ॥
 रविः कृजो गुरुश्चान्द्रिः शुक्रसौरान्दुराहवः ।
 पूर्वाद्याः प्रहरार्धं तुर्यं तुर्यं दिशि भ्रमः ॥ ५ ॥
 शुक्रवारकमादहि रात्रौ व्यत्ययतो भ्रमः ।
 कृष्णपक्षे गतिर्धामा जयदः पृष्ठदक्षिणे ॥ ६ ॥
 यस्यैवं राहुमाप्नोति जयं विपममद्गरे ।
 नैवात्र बलवान्काला भूचलो नात्र योगिनो ॥ ७ ॥
 एतस्य बलमाश्रित्य दुर्गभङ्गस्य घांछया ।
 प्रस्थित, क्षणमात्रेण दुर्गं गृह्णाति दुर्जयम् ।
 दुर्गस्था दुर्जया ये च न ते स्युः सम्मुखास्तदा ॥ ८ ॥
 कालक्षतिथिभिर्घातो यत्र योधस्य वर्तते ।
 प्रवेशं कारयेत्तत्र दिशि यस्यां शुभग्रहाः ॥ ९ ॥
 दक्षपृष्ठगताः पापा क्षतदा न भवन्ति हि ।
 सम्मुखं वामभागस्था भवन्ति क्षतदायकाः ॥ १० ॥
 ऋरास्तु दक्षिणे यस्य शोभना वामभागगाः ।
 तदा शूरो भवेद्योधा विपरीते तु भङ्गदाः ॥ ११ ॥
 स्वमित्रसमशत्रूणां गृहे पापास्तु घातदाः ।
 अर्धपादोनसम्पूर्णद्विगिणं द्विगयत्रिभे ॥ १२ ॥

तिथि का ३० से गुणाकर १६३ स भाग द्वा से वर्तमान तिथि से तात्काजिब
 तिथि होती है । यदि तिथि उचित हो तो अवरुणाम, अग्नि हो या बहुत लाभ,
 प्राप्त हो या विष्णु, मर्या काल में हानि और अरुणकाल में लाभ होगा है । यदि
 तात्काजिब तिथि हानी है यदि अग्नि की उदय होता है, यदि योगिनी पापा, अथा
 और समर म. वामभाग में शुभ होनी है । अथ, अग्नि, अथक रथ पा, अथ,
 अथ, अग्नि । आठ योगिनी के नाम है जो तिथियों से अगण करनी है । गुरु,
 शीम, गुरु, गुरु, शुक, अग्नि, अथ, राहु से पा पा पूर्वादि दिशाओं में अथपुत्र के
 अनुकार कीये कीये दिशा में अगण करते हैं । शुक्रवार से अथ से अथ में और अग्नि
 में उदये शुभ है । अथपथ से अथकी वामगति होगी है । व कीये और अथके शुभ
 होने है । अथके अथ राहु की अग्नि अथ होगी है व अथके अथके में भी अथकी
 होने है । गुरु में अथकी अथ होगी है, अथकी भी अथके नहीं है ता है, अथकी

का भी बल प्रधान नहीं होता है । केवल इमीके बल का सहारा लेकर किले के जीतने की इच्छा में यात्रा करने वाला छणमात्र में दुर्गम दुर्ग को जात नता है शेष स्पष्ट है ॥

चैत्रादयस्त्रिगुणिता मासास्तत्तिथिसंयुताः ।

नवभक्ताः क्रमाज्जेया शेषा यात्रा नवैव तु ॥ १३ ॥

निष्फला राक्षसी चैव साधारणी च हारिणी ।

तारणी कालयुक्ता च महाबलवती तथा ॥ १४ ॥

ऐन्द्री ऐरावती चेति क्रमात्तत्फलमुच्यते ।

निष्फला कार्यहारिणी राक्षसो व्याधिदायिनी ।

साधारणी सत्फलदा हारिणी मृत्युदायिनी ॥ १५ ॥

तारण्यां सफल कार्य कालयुक्ता च कालदा ।

महाबलायां लभते राज्यमैन्द्री च हानिदा ।

ऐरावती च सफला गतस्य सफला क्रिया ॥ १६ ॥

इति यात्रा

चैत्रादि मास को तिगुना कर वर्तमान तिथि को जोड़कर ९ से भाग देने से शेष नव प्रकार की यात्रा होती है, उनके नाम क्रम से निष्फला राक्षसी, साधारणी, हारिणी, तारणी, कालयुक्ता, महाबलवती, ऐन्द्री, ऐरावती हैं । इसका फल निष्फला में कार्य का नाश, राक्षसी व्याधि को देने वाला, साधारणी श्रेष्ठफल को देने वाली, हारिणी मृत्यु को देने वाली, तारण्यां म कार्य सफल, कालयुक्त म काल की प्राप्ति । महाबला में राज्य का लाभ, ऐन्द्री म हानि, ऐरावती में यात्रा करने से सपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है ॥ १२-१६ ॥

अथ ओड़ीभूमिः

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भूवलानि समासतः ।

चतुर्विधेषि सग्रामे येन म्याद्विजयो नृपः ॥ १ ॥

चैत्राद्या ईशवायव्ये रक्षोग्रोन्द्रघनाधिपे ।

वारुण्यां दक्षिणे रुद्रवायुरक्षस्तथानिले ॥ २ ॥

उड़ीभूमिरियं ख्याता प्रोक्ता या ब्रह्मयामले ।

चतुर्विधेषि सग्रामे जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ ३ ॥

इति ओड़ीभूमिः

अथेति । अथानेकचक्रकथनानंतरम् नमामत सक्षेपत भूवलानि सम्प्रव

द्यामि । यत्र भूवलोन्मिन्न चतुर्विधोऽपि हस्त्यश्वरथपदानिप्रधानोऽपि समाने विजयी न भवति । चैत्राद्या इति । इमे पेशान्या, वायव्ये, रक्षमि नैऋत्या, आग्नेया अग्निर्कोणे, इत्रे पूर्वदिशि, धनाधिपे उत्तरदिशि, धान्ये पश्चिम दिशि, दक्षिणे दक्षिणदिशि, ईशान्यमायज्यनैऋत्याग्निर्कोणे चैत्राद्या चैत्रोपक्रम्य मामा ज्ञातव्या । उहीति । सा इय भूमि उहीभूमि भोक्ता वधिता । सा ब्रह्मयामले रयाता प्रसिद्धा । सा भूमि चतुर्विधहस्त्यश्वरथपदानिप्रधान समामे पृष्ठे दक्षिणे जयदा भवति । अयमर्थः । चैत्रे मासे भूमिरैशान्यां तन्मासे युद्धप्रसंगे ना त्स्फु पृष्ठस्था या दक्षिणभागस्था कार्या जयो भवति । एवमग्रेऽपि बोध्यम् ॥ १-३ ॥

अथ मे सचेप स भूयल को कर्तुंगा । मिसको जानकर चारों प्रकार क समाम मे विजय हाती है । चैत्रादि भाग हम से ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्निर्कोण में हम से न्याय करें । इस उहीभूमि बदन है जो कि ब्रह्मयामल में प्रसिद्ध है । चारों प्रकार के समाम में पीछे और दक्षिण भाग में हम परसे युद्ध करके विजय हाता है । जैसे—चैत्र

चैत्र	भाग	भावाद्
मार्ग		प्राणान
भावाद्		काविक
चैत्राद्य	भाषित	माप
वीथ		उपेष्ट

भाग में युद्ध करना है तो भूमि का नाम इशान प्राण म है । अथ ईशान कोन से पीछे या दक्षिण परसे युद्ध करने से विजय हाती है ॥ १-३ ॥

इति ओहीभूमि

अथ जालन्धरीभूमि.

वायुरुद्राग्निनैऋत्ये याम्यतोपोत्तराभ्रज ।

पूर्वदिशि—

अग्निरुद्रानिते रक्षे चैत्रादौ भ्रमणं भवेत् ॥ १ ॥

एवं मासोदयो यत्र तत्रस्था पृष्ठदक्षिणे ।

इयं जालन्धरी भूमि संग्रामे जयदा भवेत् ॥ २ ॥

इति जालन्धरी भूमिः

वायु इति । वायु वायव्यकोणे नद्र इशान्यकोणे, अग्निर्कोणे, नैऋत्यकोणे, याम्यतोपोत्तराभ्रज, अग्निर्कोणे, उत्तरे, पूर्वदिशि अग्निर्कोणे इत्रे ईशान्यकोणे वायुकोणे रक्षे नैऋत्यकोणे चैत्रमासे नमारण्य मासमा भ्रमणं भवेत् । एव

मिति । एवमनेन प्रकारेण यत्र पूर्वोदी भागे भासोदयस्तत्र भागे पृष्ठदक्षिणे स्थिते सग्रामे जय स्यात् । इय जालधरी भूमि जालधरदेशे एकैव प्रथला जयदा ॥ १-२ ॥

वायु, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, अग्नि, ईशान, वायु और नैऋत्य कोण में चैत्रादि महीना भ्रमण करते हैं । जहां इस प्रकार मास का भ्रमण हो उसे जालधरी भूमि कहते हैं । यह भी पीछे और दाहिने करके युद्ध करने से सग्राम में विजय को देने वाली है । यह जालधर में प्रतिद्ध हैं ।

वैशाम्ब	कार्तिक	उषेष्ट
पौष		मार्ग
भाद्रिनि		श्रावण
चैत्र	भाद्रपद	भाषाढ़
माघ		फाल्गुन

इति जालधरी भूमि ।

अथ पूर्णा भूमिः

पूर्णाख्यां कथयिष्यामि पूर्णपीठाद्विनिर्गताम् ।

द्वन्द्वयुद्धेऽथवा दुर्गं यामार्धं भुक्तिरत्र च ॥ १ ॥

पूर्वोत्तरे यमे शक्रे तोयान्तकोत्तरे जले ।

यथा दिने तथा रात्रौ पृष्ठदक्षिणगो जयेत् ॥ २ ॥

इति पूर्णा भूमिः ।

पूर्णपीठ से निकली हुई पूर्णानाम के भूमि को कहता हूँ जो कि द्वन्द्व युद्ध या दुर्ग युद्ध में उपयोगी है । दिन और रात में प्रहरार्ध तुल्य एक मास का भोग क्रम से पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण भागों प्रहरार्धों में घूम होता है । इसमें भी पीछे और दाहिने करके विजय होती है ॥ १-२ ॥

	५ ३१५	
३ २१६		६ ३१८
	५ ३१७	

इति पूर्णा भूमिः ।

अथ कामाख्या भूमिः

इन्द्रे यमे जले सौम्ये मेपादिभ्रमणं त्रयम् ।

रविसंक्रान्तितो मासा ज्ञातव्या यत्र संस्थिताः ॥ १ ॥

तत्स्थानाद्भ्रमणं सव्यं चतुर्नाडीदिगष्टके ।
 पृष्ठदक्षिणगा युद्धे कामारूयाऽरिक्षयङ्कुरी ॥ २ ॥

इति कामारूया भूमिः ।

इन्द्रे इति । इन्द्रे पूर्वदिशि । यमे दक्षिणदिशि । जले पश्चिमदिशि ।
 सीम्ये उत्तरदिशि । एव दिक्चतुष्टये मेपादिमानमुपक्रम्य भ्रमणत्रयमावृत्ति-
 प्रयम् । तत्र स्थानचतुष्टये रविमक्रातित सूर्यराशिभोगक्रमेण माना- सस्थिता
 ज्ञातव्या । एव कृते नीर वैशाख भाद्रपद-पौषमासा पूर्वदिशि एवममेऽपि
 शेष रूपम् ॥ १-७ ॥

मेपादि राशियों का पूर्व दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में क्रम से तीन भ्रमण
 होता है । जहाँ पर जो राशि है वहाँ उस

	पू ३१°१९	
उ ४१°१९		द २१°१०
	प ३१°१९	

राशि का मूल मास जानना । जैसे मान
 न चत्र, मेर से वशाख आदि । प्रत्येक
 दिशा में चार चार दृष्ट का भाग होता है ।
 जैसे वैशाख, भाद्रपद भीर पौष मास में
 प्रथम चार दृष्ट पूर्व दिशा में भूमि को
 समझना चाहिये । यह कामारूया भूमि
 युद्ध में पीछे और दाहिने हाथ को भास
 करती है ॥ १-२ ॥

इति कामारूया भूमिः ।

अथ कोलापुरी भूमिः

शक्रोत्तरे जले याम्ये चैत्रादौ भ्रमणत्रयम् ।
 मासोदयगता यत्र तस्मात् घटिका तस्मात् ॥ १ ॥
 तत्राष्टनाडिकामुक्तिरुदयत्र पुनः पुनः ।
 इयं कोलापुरी भूमिः पृष्ठदक्षिणगा शुभा ॥ २ ॥

इति कोलापुरी भूमिः ।

शक्रोत्तरे इति । शके पूर्वदिशि । उत्तरदिशि । जले पश्चिमदिशि । याम्ये
 दक्षिणदिशि । चैत्रादौ मासे क्रमेण भ्रमणत्रयम् मन्वि । यथा—चैत्र मास

मार्गशीर्षाणा पूर्वस्या दिश्युदय । तत्र यस्या दिशि यस्य मासस्योदयस्त-
स्मात् स्थानात् घटिकाक्रमेण उदय । अन्यत्स्पष्टम् ॥ १-२ ॥

चैत्रादि मासों का क्रम से पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन आवृत्ति उदय होता है । जो मास जहा उदित हो वहां से क्रम से घटिका, क्रम से उदित होते हैं । एक मास का एक दिशा में ८ घटी उदय फिर दूसरे ८ घटी में दूसरे दिशा में इस प्रकार से उदय समझना चाहिये । यह कोलापुरी भूमि है जो कि पीछे और दाहिने विजय को देती है ॥ १-२ ॥

	चै श्रा मार्गं	
चै भाद्र पौ.		भापा का फा
	उये भाधि मा	

इति कोलापुरीभूमि ।

अथ एकवीरा भूमिः

रुद्रे जलाग्नि-सौम्ये च नैर्ऋत्येन्द्रानिले यमे ।

ईशोऽम्बुपावके सौम्ये चैत्रादिभ्रमणं भवेत् ॥ १ ॥

एकवीरा महाभूमिः प्रोक्ता या चादियामिले ।

पृष्ठदक्षिणगा युद्धे जयदा नात्र संशयः ॥ २ ॥

इति एकवीरा भूमिः ।

रुद्रे इति । रुद्रे पेशान्याम् । जले पश्चिमदिशि । अग्ने आग्नेय्याम् । सौम्ये उत्तरदिशि । नैर्ऋत्या राक्षसे । इन्द्रे, पूर्वदिशि । अनिले वायव्या । यमे दक्षिणस्याम् । ईशे ईशान्याम् । अम्बु पश्चिमायाम् । पावके आग्नेय्याम् । सौम्ये उत्तरदिशि । चैत्रादि चैत्रमासानामादिभूतमासाना भ्रमण भवेत् । श्रेष्ठ स्पष्टम् ॥ १ ॥

चैत्रादि मासक्रम से ईशान, पश्चिम, अग्नि, उत्तर, नैऋत्य, पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, अग्नि और उत्तर दिशा में भ्रमण करते हैं । इसे एकवीरा भूमि कहते हैं जो कि आदियामल में कही हुई है । युद्ध में पीछे और दाहिने विजय को देती है ॥२॥

चै मार्गं	भाद्र	उये मा
भापा फाल्गु		का
भाधि	चैत्रा मा	था

इति एकवीरा भूमि ।

अथ शिलिन्ध्रा भूमिः

चैत्रादि-पूर्वतो वामं भ्रमन् काष्ठाचतुष्टये ।
 शिलिन्ध्राख्या महाभूमिर्जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥
 बुधश्च मङ्गलः सौरिर्विधुर्गुरुरिति क्रमात् ।
 सर्वे ग्रहा एवमेव रविशुक्रौ च पश्चिमे ॥ २ ॥
 इति यामले शिलिन्ध्रा भूमिः ।

पूर्वदिशा से क्रम से वाम क्रम से चारों दिशा में चैत्रादि मासों का भ्रमण होता है । इसे शिलिन्ध्राभूमि कहते हैं । यह पीछे और दाहिने जयप्रद होती है ॥ १ ॥

	चै त्रा मार्ग	
चै भा पौ		भा का फा
	ज्ये षाश्वि मा	

इति शिलिन्ध्रा भूमिः ।

अथ महामारी भूमिः

चक्रे द्वादशपत्राख्ये मेपाद्या वाममार्गतः ।
 यत्रस्थोऽर्कस्ततः सव्ये भुक्तिः सार्द्धघटीद्वयम् ॥ १ ॥
 महामारी समाप्याता भूवलानां बलोत्कटा ।
 समरे जयदा प्रोक्ता पृष्ठदक्षिणसस्थिता ॥ २ ॥

इति महामारी भूमिः ।

द्वादशचक्र में मेपादि राशियों को वाम मार्ग से रखना चाहिये । जहाँ सूर्य हो वहाँ २३ ढाई घटी के अनुसार एक एक राशि के भोग की कल्पना करे ॥ १ ॥ यह महामारी भूमि कही जाती है जो कि भूखलों में उत्कट बल को देनेवाली है और समर में पीछे दाहिने विजय को देती है ॥ २ ॥

शु ३०	मे २॥	मी ५.
मि २०॥		कु ७॥
क २५		म १०
शि २२॥		घ १२॥
२० का	दु १०॥	शु १५

इति महामारी भूमिः ।

अथ क्षेत्रपाली भूमिः

विलोमाः पूर्वतो मासाश्चैत्राद्या दिक्चतुष्टये ।

प्रहराः सव्यमार्गेण मासस्थानाद्द्वि गण्यते ॥ १ ॥

चातुरङ्गे कवौ कोटे जयदा षष्ठदक्षिणे ।

क्षेत्रपाली महाभूमिर्भूयलानां बलोत्तमा ॥ २ ॥

यद्दलाद्दलयुक्तानि भूयलान्यपराणि हि ।

एतद्दलेन रहिता वृथा चतुरशीतयः ॥ ३ ॥

इति क्षेत्रपाली भूमिः ।

। विलोमा इति । पूर्वदिशमारभ्य विलोमाद्वैपरीत्येन वामावर्त्तेन दिक्चतुष्टये पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणसङ्घके चैत्रमासाद्देदिक्चतुष्टये क्षेत्रपालीभूमेर्भ्रमणत्रयं भवति मास तत्रैव तिष्ठति । तत्र मासस्थानात् दिवा स स्थानमुपक्रम्य प्रहरो दिनचतुर्थभागं चतुः सव्यमार्गेण प्रदक्षिणक्रमेण उदयति । यथा चैत्र उदये प्रहरं यावत् मासस्थाने पूर्वे तिष्ठति । तदुपरि द्वितीयप्रहरे दक्षिणस्या तिष्ठति । एव सर्वत्र । अन्यत्स्पष्टम् ॥ २-३ ॥

चारों दिशाओं में दिशा क विलोम रीति से चैत्रादि मासों को स्थापित करना । एक एक प्रहर वाम मार्ग से इतकी स्थिति होती है ॥ १ ॥ चातुरंग युद्ध में, कवियुद्ध में, कोट युद्ध में पीछे और दाहिने विजय देनेवाली होती है ॥ २ ॥ जिसके बल से अन्य भूयल बली होत हैं । इसके बल से हीन ८४ बल वृथा होते हैं ॥ ३ ॥

	१५ चै त्रा मार्ग	
भा का का १५	/	पं मा पी २५
	उपे आ मा ७३	

इति क्षेत्रपालीभूमिः ।

अथ वंशजा भूमिः

पावके सौम्यनैर्ऋत्य इन्द्रवायुयमे हरे ।

जलाग्न्युत्तरनैर्ऋत्ये पूर्वे चैत्रादिमासतः ॥ १ ॥

वंशजेयं महाभूमिर्देत्यवशजयङ्करी ।

दक्षषष्ठगता युद्धे जयदा नात्र सशयः ॥ २ ॥

इति स्वरोदये वंशजा भूमिः ।

चैत्रादि मासों में क्रम से अग्नि उत्तर, नैऋत्य, पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, अग्नि, उत्तर, नैऋत्य और पूर्व में वशजाभूमि वास करती है ॥१॥ यह भूमि एकवीरा के ही समान है। अर्थात् इस भूमि में दोनों का बल प्राप्त होता है। जैसे चैत्र मास में वशजा अग्निकोण में और एकवीरा ईशान कोण में, यहाँ यदि वशजा को पीछे करें तो एकवीरा दाहिने होगी इसलिये दोनों का बल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना। यह वशजा भूमि दैत्यवश को विजय करने वाली है। किन्तु दाहिने पीछे हो सो ॥ २ ॥

आग्नि	आपा फा	चै मास
चै पी		भाद्र
धा	फा	व्ये मा

इति वशजा भूमि ।

अथ रुद्रभूमिः

दानवानां वधार्थाय रुद्रो रुद्रेण चिन्तितः ।

तं रुद्रं च प्रवक्ष्यामि जयाय विजयार्थिनानाम् ॥ १ ॥

दशदोर्दण्डपञ्चास्यं त्रिनेत्रं च जटाधरम् ।

महाप्रेतासनारूढ त्रिशूलायुधधारिणम् ॥ २ ॥

एन्द्रे वायौ यमे रुद्रे वारुणेऽग्नीन्दुराक्षसे ।

प्राच्यन्तके जले सौम्ये चैत्रमासाययं क्रमः ॥ ३ ॥

दिनं दिनार्धयामं च प्रहरार्धं तथाग्रतः ।

एवं भुक्तिप्रमाणेन पृष्ठदक्षिणगो जयी ॥ ४ ॥

इति स्वरोदये रुद्रभूमिः ।

दानवानामिति । स्पष्टम् । दिनमिति । दिन दिनार्धयाम प्रहरार्धं चेति भुक्तिचतुष्टयम् । तत्र दिने मासस्थाने दिनान्ते रात्रौ द्वितीयदिशि याति । पुनर्दिनार्धं तत्रैव तिष्ठति । अपराह्णे द्वितीयदिशि याति । पुन पूर्वरात्रौ तृतीय दिशि याति । अर्धरात्रौपरि चतुर्थदिशि याति । एव दिन दिनार्धं व्याख्यातम् । स एव रुद्रो मासोदयस्थानात् प्रहरे प्रहरं यावत्तत्रैव तिष्ठति । द्वितीयप्रहरे द्वितीयदिशि याति । तृतीयप्रहरे तृतीया दिशम् । चतुर्थप्रहरेण चतुर्थी दिशमित्यष्टदिशोऽष्टप्रहरेण, भुक्ते । यामार्धमिति मासोदयस्थानात् प्रहरार्धं

स्थित्वा, द्वितीयप्रहरार्धे द्वितीया दिश याति पतति । तृतीयप्रहरार्धेन तृतीया दिशमित्यादिक्रमेण षोडशभिरर्धप्रहरैर्मासस्थानान्चतुश्चतु कृत्वा दिशि परिभ्रमति अत उक्तं याम प्रहरार्धं च । अन्यत्स्पष्टम् ॥ १-४ ॥

युद्ध में महादेव जी दानवों के वध के निमित्त जिस रुद्र की चिंता की थी, मैं उस रुद्र को विजयेच्छु जनों के विजय के लिये कह रहा हूँ दश मुजाओं से युक्त, पांचमुख, तीन नेत्र, महाप्रेतवाहन पर बैठे, त्रिशूल आयुध को लिये शकर जी ने चिंता की थी । पूर्व, वायु, दक्षिण, ईशान, पश्चिम,

आपा	चै मार्ग	भाद्र
आ फा	-	ज्ये पौ
चै पौ	श्रा मा	का

अग्नि, शैश्याय, पूर्व, दक्षिण, उत्तर इस क्रम से चैत्रादि मासों में भूमि का वास होता है । दिन, दिनार्ध, प्रहर, प्रहरार्ध भुक्ति के अनुसार आगे-आगे चलती है । जैसे जहाँ मास की स्थिति है वहाँ से रात्रि में दूसरे दिशा में दिनार्ध तक वहीं रहती है फिर अपराह्न में दूसरे दिशा में जाती है । फिर पूर्व रात्रि में तीसरे दिशा में फिर अर्धरात्रि से चौथे दिशा में जाती है । पुनः मासोदय स्थान से १ प्रहर तक उसी दिशा में, दूसरे प्रहर में दूसरे दिशा में, तीसरे में तीसरी दिशा और चौथे में चौथी दिशा में इस प्रकार आठ प्रहर में घूमती है । पुनः मासोदय स्थान में प्रहरार्ध दूसरे प्रहरार्ध में दूसरे दिशा में हर्यादि क्रम से घूमती है अर्थात् १६ प्रहरार्धों में क्रम से एक-एक दिशा में चार चार चार घूमती है । इस प्रकार भुक्ति के अनुसार भूमि को पीछे और दाहिने करके युद्ध करने से विजय होती है ॥ १-४ ॥

इति रुद्रभूमि ।

अथ कालानली भूमिः

सप्तरेखाङ्किते चक्रे रुद्रादौ मासभादितः ।

सव्यमार्गेण भ दत्त्वा चाष्टाविशतिसंख्यया ॥ १ ॥

मामक्षाद्दिनभ ज्ञात्वा तस्मात्तात्कालिकं च भम् ।

रेखायामुदयाद् भुक्तिः सपादघटिकाद्वयम् ॥ २ ॥

मासर्धं मासनामर्धं दिने दुर्दिनभं तथा ।

नाडिकाभ्रमणायत्र तत्र तत्कालसंज्ञकः ॥ ३ ॥

मासेन्दोर्मासभानु स्याद्दिनेन्दोर्दिनभास्करः ।

घटिकेन्दोर्घटीभानुस्त्रिपञ्चर्धं सदा भवेत् ॥ ४ ॥

दक्षपृष्ठे रवि कुर्याद् वाममग्रे निशाकरम् ।

जयेदिह न सन्देह एकोपि शतमाहवे ॥ ५ ॥

शक्तिरूपः स्थितश्चन्द्रः कालरूपी दिवाकरः ।

चन्द्रसूर्यान्तराले च कालरेखाऽभिधीयते ॥ ६ ॥

कवौ कोटे तथा द्वन्द्वे चातुरङ्गे महाहवे ।


लङ्घनीया न सा योधैः कालरेखाऽर्कसम्मुखो ॥ ७ ॥

इति सरोदये कालानलीभूमिः ।

सप्तरेखाकिते इति । सप्तरेखाङ्कित ऊर्ध्वतिर्यक् क्रमेण सप्तसप्तरेखाभि
कृतचक्रे रुद्रादौ ईशानकोणादौ मासभादित तत्तन्मासि वह्नित आरभ्य क्रमेण
प्रदक्षिणक्रमेण भ नक्षत्रमष्टाविंशतिसख्यकान् लिखेत् । तत्र मासनक्षत्राणि यथा
फाल्गुनस्य पूर्वाफाल्गुनी । चैत्रस्य चित्रा । वैशाखस्य विशाखा, ज्येष्ठस्य ज्येष्ठा,
आषाढस्य पूर्वाषाढा, श्रावणस्य श्रवण, भाद्रस्य पूर्वाभाद्रपद, आश्विनस्य
अश्विनीति एव मासनक्षत्र रुद्रकोणरेखाया दत्त्वा पूर्वादिपु सदा कृत्वा साभिजि-
ह्विखेत् । मासर्क्षोदिति । मासर्क्षोद्दिनभ दिननक्षत्र तस्माद्दिननक्षत्रात्तात्का-
लिक च 'उद्यादिगता नाड्यो भङ्नेत्यादिना ।' प्रकारेणानीत चन्द्रनक्षत्रम् ।
अस्य तात्कालिकनक्षत्रस्य उद्यानतर सपादघटिकाद्वयम् पचदशपलाधिक
दण्डद्वय या भुक्ति समयो भोग पुन पुनर्भवति । मासर्क्षमिति । मासचिह्नित-
चन्द्रनक्षत्रमेव मासर्क्षं तद्दिनभ च ह्यात्वा नाडिकाभ्रमण च सपाददण्डद्वय-
क्रमेण यत्र प्रतिनाडिकाक्रमेण दिननक्षत्रादारभ्य भ्रमण नाडिकाया तत्काल
सभव । अयमर्थ । सप्तशलाकाचक्रे दिनभ कस्या दिशि वर्तते । दिनभोद-
यात्तात्कालिक भ कस्या दिशीति । एव मासचन्द्र दिनचन्द्रत्तात्कालिकचन्द्र
नक्षत्राणि व्यवस्थाप्य सूर्यकालस्थितिमुपदर्शयति—मासेन्दोरिति । मासचन्द्रा
दारभ्य मासमानु । दिनेन्दोर्दिनचन्द्रनक्षत्राद्दिनमानुघटिकेन्दोस्तात्कालिक-
चन्द्रनक्षत्रात् घटीमानुर्भवेत् । कुत्रेति जिज्ञासायाम् । त्रिपचर्क्षं त्रिगुणित
पचसख्याके नक्षत्रे पचदशे नक्षत्रे घटीमानुस्तात्कालिकमानु इत्यथधेयम् ।
यथा मासर्क्षं चेदीशाने तदा मासचन्द्रात्पचदशे नक्षत्रे पश्चिमरेखाया मामसूर्य
जानीयान् । यथा चैत्रे मासि चित्रामासर्क्षं तत पचदशर्क्षं रेवती, तत्रस्थो रवि ।
अनेन प्रकारेण मासचन्द्रो यातो । पूर्वपश्चिमे चाद्य, रेखायाम् । प्राक्चन्द्रं
पश्चाद् रवि । यदि युद्धदिने कृत्तिका तदा सा पश्चिमे चतुर्थनाड्या स्थित
अतो दिनचन्द्रपश्चिमे कृत्तिकास्थानात्पचदशे नक्षत्रे अनुराधाया दिनरवि
प्राचि चतुर्थनाड्याम् । कृत्तिकाया युद्धसमये चेद्गतघटिका दश १० तदा सपाद

घटिकाद्वयविचारेण कृत्तिकात् चत्वारि भानि भुक्तानि पचमे पुनर्वसुभे तत्का
लचन्द्र । तत्कालचन्द्रादक्षिणे आधरेखाया रवि । अत्रोदाहरणम् । यथा
सवत् २०१७ कार्तिशुक्ल २ शनौ सूर्योदयात् २० घटीषु युद्धविचारे मासर्क्ष
कृत्तिका, दिनर्क्ष विशाखा चेति । 'उदयादिगता नाह्यो भग्ने'त्यादिना शत
भिपत्ति घटीचन्द्र । मासचन्द्र कृत्तिकायाम् । दिनचन्द्रो विशाखायाम् ।
एव क्रमेण घटीभानु पूर्वाफाल्गुन्याम् । मासभानु अनुराधायाम् । दिन-
भानु भरण्याम् । दक्षपृष्ठे इति । रविं सूर्यं दक्षपृष्ठे दक्षिणे पृष्ठे च कुर्यात् ।
निशाकर चन्द्र वामाग्रे वामे अग्रे च कुर्यात् । एव कृते एकोऽपीह आहवे
समामे शत जयेत् । इह सन्देहो न । यथा चैत्रे मासि दिनचन्द्रतात्कालिक-
चन्द्राभ्या दिनतात्कालिकरवी प्राग्दक्षिणे । अत्र यदि प्रागवस्थित रविं पृष्ठस्थ
दक्षस्थ च प्राक् क्रियते तदा वामे अग्रे च चन्द्रद्वय भवति । अधिवल प्राप्य
जयो भवतीत्यर्थ । शक्तिरूप इति । चन्द्र शक्तिरूपेण स्थित । दिवाकर
माससूर्य कालरूपेण स्थितश्चन्द्रसूर्ययोरन्तराले मध्ये कालरेखा प्रीथीयते
क्रियते । कर्षो इति । इमा रेखा न लघयेत् । यथा एक सैन्य दक्षिण पश्चिमे
स्थितमपरं पूर्वोत्तरे अत्र युद्धे द्वय याति यमालयम् । न कस्यापि जय ।
यत कालरूपी दिवाकर । अर्थादर्कसमुत्पत्ती कालरेखा योर्धनं लघनीयेति
स्पष्टम् ॥ १-७ ॥

सात तिरछी और सात खड़ी रेखा से सप्तशलाका चक्र को घनाकर ईशानकोण
से अभिजित् के सहित २८ नक्षत्रों का न्यास करे । मास नक्षत्र, दिन नक्षत्र और
तात्कालिक नक्षत्र को जानकर रेखाग्र में इनका
न्यास करे । यहाँ तात्कालिक नक्षत्र का भोग २
३६ १५ पल होता है । मास का नक्षत्र मास
के नाम से-दिन नक्षत्र दिन चन्द्र, के सवा दो
घटी के मात्र से, तात्कालिक नक्षत्र होता है ।
मासिक चन्द्र से मासिक सूर्य, दिनचन्द्र से
दिसूर्य और घटीचन्द्र से घटीसूर्य होते



हैं । ये सभी सूर्य चन्द्रनक्षत्र से १५ वें नक्षत्र पर होते हैं । दाहिने और पीछे सूर्य
को भीर बायें और सामने चन्द्रमा को करके युद्ध करे तो एक भी घोषा युद्ध में
सैकड़ों को जीत लेता है । चन्द्रमा शक्तिरूप और सूर्य काटरूप से चक्र में स्थित
हैं । चन्द्र और सूर्य के मध्य में कालरेखा रहती है । यह कालरेखा सूर्य के सामने
रहती है । अतः कवियुद्ध (हाका) में, कोटयुद्ध में द्वन्द्वयुद्ध में और अनुराग महायुद्ध
में इस कालरेखा को घोषाओं को नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १-७ ॥

(इति सूर्यचन्द्रकालावली भूमि ।

अथ निरामया भूमिः

पावकाद् द्वादशारे च घटी पञ्चक्रमोदयः ।
 उदयाद्द्वामार्गेण भ्रमो ज्ञेयो निरामये ॥ १ ॥
 पावकाद् द्वादशानां तु चैत्रादीनां क्रमोदयः ।
 अग्निप्राग्युद्धचन्द्रेषु वायुवारुणनैऋते ॥ २ ॥
 यमाग्निपूर्वगादिक्षु मासे वामभ्रमोदयः ।
 पञ्च पञ्च घटीमानमासस्थानक्रमोदयः ॥ ३ ॥
 यत्रोदयगता भूमिः सा कार्या पृष्ठदक्षिणे ।
 ततो जयमवाप्नोति संग्रामेऽपि चतुर्विधे ॥ ४ ॥

इति निरामया भूमिः ।

द्वादश कोष्ठात्मक चक्र में पांच २ घटी के क्रम से उदय होनेवाले वाम मार्ग से मार्गों को निरामया भूमि में समझना । अग्निकोण से चैत्रादि मार्गों का क्रम से अग्नि, पूर्व, ईशान, उत्तर, वायु, पश्चिम, नैऋत, दक्षिण, अग्नि इस क्रम से उदय होता है । पांच २ घटी एक २ मास का एक २ दिशा में क्रम से होता है । जहाँ भूमि का उदय हो उसे पाँचे या दाहिने करके युद्ध करने से चारो प्रकार के भी संग्राम में विजय होती है ॥ ४ ॥

उये मा	वै पी	चै मा
भा फा		का
भा	भा	भा

इति निरामया भूमिः ।

अथ जयलक्ष्मी भूमिः

वह्यादिकोणगा वामा भासा यामास्तु सव्यगाः ।
 दक्षपृष्ठस्थिता युद्धे जयदा जयलक्ष्मिका ॥ १ ॥

इति स्वरोदये जयलक्ष्मी भूमिः ।

अग्नि आदि कोणों में वाम क्रम से प्रहर के अनुसार मासों का भ्रमण होता है। यह जयलक्ष्मी भूमि दाहिने और पीछे विजय देती है।

वै भा पौ ४	५	चै आ था सा १
उ		द
ज्ये मा आधि ३	५	आ का फा २

इति जयलक्ष्मीभूमि ।

अथ महालक्ष्मी भूमिः

वारुणाद्वागमा मासाश्चैत्रादिदिक्चतुष्टये ।

उदयास्तेन मार्गेण प्रहरार्द्धे दिगष्टके ॥ १ ॥

महालक्ष्मीरियं ख्याता यथोक्ता ब्रह्मयामले ।

दक्षपृष्ठगता युद्धे तस्य भङ्गो न विद्यते ॥ २ ॥

इति महालक्ष्मी भूमिः ।

वारुणादिति । वारुणात्पश्चिमदिग्भागाद् चैत्राद्या मासा दिक्चतुष्टये वामगा विपरीतगामिन । पश्चिमदक्षिणपूर्वोत्तरगतास्त्रिरावृत्त्या ज्ञेया । यथा चैत्रश्रावणमार्गा पश्चिमायाम् । वेशात्पभाद्रपदपूर्वो दक्षिणस्याम् । ज्येष्ठाश्विनाद्या पूर्वस्याम् । आषाढकार्तिकफाल्गुन उत्तरस्याम् । मासस्थानादेव तेन मार्गेण विपरीतमार्गेण पूर्ववत् प्रहरमुदयो दिगष्टके भूमेरुदय । यथा चैत्रे प्रथमप्रहरे पश्चिमे । ततो द्वितीयप्रहरे नेर्ऋत्ये । तत तृतीये प्रहरे दक्षिणे-चतुर्थे आग्नेये । तत पूर्वे तत ईशाने । तत उत्तरे ततो वायव्ये इति क्रम । स्थस्थानाद्वागममार्गेण प्रहरभ्रमण ज्ञेयम् । शेष स्पष्टम् ॥ १-२ ॥

पश्चिम दिशा से वाम मार्ग से चैत्रादि मास चारों दिशा में उदयास्त मार्ग से आठों प्रहरों में आठों दिशा में भ्रमण करते हैं। इसे महालक्ष्मी भूमि कहते हैं जो कि ब्रह्मयामल में कही हुई है। जिसके दाहिने और पीछे होती है उसकी पराजय नहीं होती है ॥ १-२ ॥

६	ज्ये आधि मा ५	९
आ का फा ७		वै आ पौ ३
८	चै था मार्ग १	२

इति महालक्ष्मी भूमिः ।

अथ जया भूमिः

अपसव्यगता मासाः पूर्वादिदिक्चतुष्टये ।
दक्षपृष्ठे जयो युद्धे जयभूमिरियं मता ॥ १ ॥
इति जया भूमिः ।

पूर्वादि चारों दिशा में चैत्रादि मास घास क्रम से चैत्रादि मास में उदित होने वाली भूमि को जय भूमि कहते हैं । यह दाहिने और पीछे रहने से युद्ध में विजय देती है ॥ १ ॥

	चै त्रा मास	
चै भा पी		था का का
	उये भाधि मा	

इति जया भूमि ।

अथ विजया भूमिः

इन्द्रवह्निजले सौम्ये नैर्ऋत्येन्द्रयमोत्तरे ।
इन्द्रवातान्तके रुद्रे चैत्रमासाद्ययं क्रमः ॥ १ ॥
एषा सा विजया भूमिर्युद्धे दक्षिणभागगा ।
जयदा नात्र सन्देहश्चातुरङ्गे महाहवे ॥ २ ॥

इति विजया भूमिः ।

पूर्व, अग्नि, पश्चिम, उत्तर, नैऋत्य पूर्व दक्षिण, उत्तर पूर्व, वायु, दक्षिण, ईशान कोण में चैत्रादि मास अमण करने वाली भूमि को विजया भूमि कहते हैं । यह महायुद्ध चातुरङ्ग में दक्षिणभाग में हो तो विजय होती है ॥ १-२ ॥

मासं का	चै भा मासं	चै
था का		भाधि मा
पी	उये	था

इति विजया भूमिः ।

अथ भैरवी भूमिः

षट्कोणमालिखेच्चक्रं पूर्वापरसमन्वितम् ।

षट्कं कर्कादिकं प्राच्यां मकराद्यं च पश्चिमे ॥ १ ॥

पूर्वाग्निवायुरुद्रे च नैऋत्ये वरुणालये ।

घटीपञ्चप्रमाणेन कर्कादौ भ्रमणं भवेत् ॥ २ ॥

तोयवाताग्निनैऋत्ये शूलिनीन्द्रदिशि क्रमात् ।

भ्रमो मृगादिगे षट्के प्रोक्ता भूमिश्च भैरवी ॥ ३ ॥

जयदा दक्षिणे भागे मृत्युदा वामभागके ।

सम्मुखे भङ्गदा युद्धे पृष्ठस्था सन्धिकारिका ॥ ४ ॥

इति यामले भैरवी भूमिः ।

षट्कोण चक्र पूर्वापर से युक्त बनाकर अर्थात् दक्षिण से उत्तर तक ६ राशि उत्तर से दक्षिणतक ६ राशि का न्यासकर । अर्थात् कर्क से ६ राशि प्राची में और मकर से ६ राशि पश्चिम में कल्पना करे । कर्कादि ६ राशियों का क्रम से पांच घटी भोग के अनुसार पूर्व, अग्नि, वायव्य, ईशान, नैऋत्य और पश्चिम में न्यास करे । पश्चिम, वायव्य, अग्नि, नैऋत्य, ईशान और पूर्व दिशा में क्रम से मकरादि ६ राशियों में सूर्य के रहने से भूमिका भ्रमण होता है इसे भैरवी भूमि कहते हैं । यह दक्षिण भाग में हो तो विजय, वाम भाग में हो तो मृत्यु, सामने हो तो हानि, पीछे हो तो सधिकारक युद्ध में होती है ॥ १-४ ॥

इति भैरवी भूमि ।

अथ बाला भूमिः

यत्रोदयगता बाला विशेषात्पृष्ठतो रणे ।

नश्यन्ति शत्रुसङ्घाता' सिंहादेव यथा मृगाः ॥ १ ॥

अर्द्धयामोदया बाला सम्मुखी जयदा मता ।

तदूर्ध्वं वामगा श्रेष्ठा पृष्ठगा निश्चितं शुभा ॥ २ ॥

इति स्वरोदये बाला भूमिः ।

जहा युद्ध में बालाभूमि का उदय हो विशेष कर पीछे तो बहा शत्रुसमूह नष्ट हो जाता है जैसे सिंह से मृगसमूह नष्ट हो जाता है। अर्ध प्रहर बाला भूमि का उदय होता है सामने हो तो विजय देने वाली इसके बाद बायें कोष्ठ और पीछे निश्चय ही शुभद होती है ॥ १-२ ॥

८	४	३२
१२		२८
१६	२०	२४

इति बाला भूमि ।

अथ योगीश्वरी भूमिः

मेघादि विन्यसेचक्रं द्वादशारेऽपसव्यतः ।

पूर्वाद्युदयतः सव्ये भ्रमः पञ्चघटीमितः ॥ १ ॥

इयं योगीश्वरी भूमिर्जयदा पृष्ठदक्षिणे ।

अहोरात्रेण सा सर्वं चक्रं कामति सर्वदा ॥ २ ॥

इति योगीश्वरी भूमिः ।

द्वादशचक्र में मेघादि राशियों का अपसव्यक्रम से सव्यमार्ग से पाचघटी के प्रमाण से उदय होता है। इसे योगीश्वरीभूमि कहते हैं जो कि पीछे और दाहिने रहने से विजय को देती है। यह सर्वदा अहोरात्र में सभी राशिचक्र में ये भोग करती हैं ॥ १-२ ॥

शु ६०	मे ५	मी १०
मि ५५		कु १५
क ५०		म २०
सि ४५	शु ३५	घ ३५
क ५०		रु ३०

इति योगीश्वरी भूमि ।

अथ चण्डी भूमिः

इन्द्रनैर्ऋत्यसोमाग्नितीपेरुद्रान्तकानिले ।

घटीद्वयप्रमाणेन दिनार्धे भ्रमणं क्रमात् ॥ १ ॥

एवमेवापराहोऽपि चण्डी आस्म्यति सर्वदा ।

यस्य दक्षिणगा युद्धे तस्य भद्रो न विद्यते ॥ २ ॥

इति स्वरोदये चण्डी भूमिः ।

पूर्व, नैऋत्य, उत्तर, अग्नि, पश्चिम, ईशान, दक्षिणा और वायव्य में दो घटी मुख्य समय में भ्रमण करती है। इसी प्रकार अपराह्न में भी भ्रमण करती है जिसके दाहिने होती है उसकी पराजय नहीं होती है ॥ १-२ ॥

१२	२	८
६		१४
१६	१०	४

इति चढी भूमि ।

अथ यामभूमिः ।

उदयात्पूर्वतः सव्ये यामे यामे दिगाष्टके।
यामे भूमिर्भ्रमत्येवं जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥
इति यामभूमिः ।

उदय से प्रहर २ पूर्वदिशा से आठों दिशा में याम भूमि भ्रमण करती है पीछे और दाहिने विजय देती है ॥ १-१ ॥

८	१	२
७		३
६	५	४

इति यामभूमि ।

अथ भुम्भुका भूमिः

ईशाद्या वामतो यान्ति यामार्धं ककुबष्टके।
भुम्भुकाख्या भ्रमत्येवं जयदा वामसम्मुखी ॥ १ ॥
इति भुम्भुका भूमिः ।

ईशान कोण से वामभाग से प्रहरार्ध मात्र आठों दिशा में भुम्भुका भ्रमण करती है। बायें और सामने विजय देती है ॥ १-१ ॥

४	३२	२८
८		२४
१२	१६	२०

इति भुम्भुका भूमि ।

अथ कर्तरी भूमिः


कृत्वा त्रिरेखा मेपाद्यास्तिर्यग्गास्तु तथा पुनः ।
पूर्वरेखादितो न्यस्य मेपाद्याः सव्यमार्गगाः ॥ १ ॥

यत्र राशौ स्थितश्चन्द्रस्तदृण्डे क्रमतो रविः ।

रविः पृष्ठे शशी चाग्रे जयदा कर्तरी स्मृता ॥ २ ॥

इति यामले कर्तरी भूमिः ।

तीन रेखा खड़ी और तीन रेखा पदी लिखकर पूर्व रेखा से सम्यमार्ग से मेपादि राशियों को लिखे । जिस राशि पर चन्द्रमा हो उमी के ऊपर रवि होता है । रवि पीछे और चन्द्रमा आगे हो तो विजय होता है । इसे कर्तरीभूमि कहते हैं ॥ १-२ ॥



इति कर्तरी भूमि ।

अथ शार्दूली भूमिः

चैत्रायुत्तरतो भासा द्वादशारे च सृष्टिगाः ।

यत्रस्थास्तत्रतो यान्ति पञ्चपञ्च घटोः क्रमात् ॥ १ ॥

भङ्गदा पृष्ठगा प्रोक्ता मृत्युदा वामतः स्थिता ।

जयं ददाति दक्षायगे शार्दूली समरे स्थिता ॥ २ ॥

इति स्वरौदये शार्दूली भूमिः ।

द्वादशपङ्क में चैत्रादि मासों को यथाक्रम सृष्टि मार्ग से न्यास करना । जहाँ पर जो भास है वहाँ से पाँच २ घटी के प्रमाण से भूमि का भ्रमण होता है । पीछे हो तो पराजय, याँवें हो तो मृत्यु दाहिने सामने हो तो विजय होती है । इसे शार्दूली भूमि कहते हैं ॥ १-२ ॥

इति शार्दूली भूमि ।

अथ सिंहली भूमिः

वाममार्गेण पूर्वोदियामार्धं च दिगष्टके ।

वामाग्रे जयदा प्रोक्ता सिंहली समरे सदा ॥ १ ॥

इति यामले सिंहली भूमिः ।

प्रहरार्धं तुल्य भोग वाममार्ग से भाठों दिशा म भ्रमण करती है । बायें और सामने विजय को देनेवाली है । इसे सिंहलीभूमि कहते हैं ॥ १-१ ॥

८	४	३२
१२		२८
१६	२०	२४

इति सिंहली भूमि ।

अथ तन्वीभूमिः

तिथ्यादावुदयं याति नाडिका षट् प्रमाणतः ।
पूर्व्याभ्योदके सौम्ये ब्रह्मस्थाने तथैव च ॥ १ ॥
तन्वी भूमिरियं ख्याता जयदा पृष्ठदक्षिणे ।
ब्रह्मस्थानोदये मृत्युः सैन्ययोरुभयोरपि ॥ २ ॥

इति तन्वीभूमिः

प्रत्येक तिथ्यादि मे ६, ६ घटी के प्रमाण से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ईशान कोण में उदय होनी है । इसे तन्वी भूमि कहते हैं पीछे और दाहिने जिनय को देने वाली है । ब्रह्मस्थान में उदित हा ता दानों सैन्यों की मृत्यु होती है ॥ १-२ ॥

	६	
२४		१२
	१८	

इति तन्वीभूमि ।

अथ महामायाभूमिः

चैत्रात्र्याः पूर्वतो मासाः स्वयकोष्ठचतुष्टये ।
पृष्ठदक्षिणगा भव्या महामाया त्वियं मता ॥ १ ॥
इति महामायाभूमिः

चैत्रादि मासों में दाहिने क्रम से चार दिशाओं में उदय होती है इसे महामाया भूमि कहते हैं । पीछे दाहिने शुभप्र होती है ॥ १ ॥

	सै था मार्ग	
भा का फा		सै भा पी
	उपे भा मार्ग	

इति महामायाभूमिः

अथ माहेश्वरीभूमिः

दक्षिणायुदयं याति चैत्रायं दिक्चतुष्टये ।

जयदा पृष्ठदक्षस्था भूमिरेषा महेश्वरी ॥ १ ॥

इति माहेश्वरीभूमिः

दक्षिण दिशा से चारों दिशा में उदय होने वाली भूमिको महेश्वरी कहते हैं जो कि पीछे और दाहिने विजय को देती है ।

	आ का धा	
ज्ये आ मा		चै आ मार्ग
	चै जा पौ	

इति महेश्वरीभूमिः ।

अथ देवकोटिभूमिः

अर्धयामो भ्रमेत्सव्ये शक्रस्थानादिगष्टके ।

पृष्ठस्था जयदा युद्धे देवकोटिरियं मता ॥ १ ॥

इति देवकोटिभूमिः

पूर्वदिशा से आठों दिशा में आधे २ प्रहर के अनुसार भ्रमण करने वाली भूमि को देवकोटि भूमि कहते हैं । यह पीछे हो तो विजय देती है ॥ १ ॥

३२	४	८
२८		१२
२४	२०	१६

इति देवकोटिभूमिः ।

अथ शिवाभूमिः

इन्द्रात्तिथियुग भुक्तिः सव्यमार्गे दिगष्टके ।

दक्षिणे जयदा प्रोक्ता शिवा भूमिर्महाहवे ॥ १ ॥

इति शिवाभूमिः

पूर्व दिशा से दाहिने क्रम से दो २ तिथि के भोग में आठों दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को शिवा भूमि कहते हैं । यह युद्ध में दाहिने विजय देने वाली होती है ॥ १ ॥

३०	११२	३१४
१३१४		५१६
१११२	९१०	७१८

इति शिवाभूमि

अथ शक्तिभूमिः

आदौ तिथित्रयं रुद्रे त्रयं चैव जलोद्भवे ।
ततश्चैका यमाशायामग्निभागे तिथिद्वयम् ॥ १ ॥
वायौ सौम्ये तथैकैका पूर्वस्यां तु तिथित्रयम् ।
नैर्ऋत्यैका कृता पृष्ठे शक्तिभूमिर्जयप्रदा ॥ २ ॥

इति स्वरोदये शक्तिभूमिः

पहले तीन तिथि ईशानकोण में, इसके बाद तीन तिथि पश्चिम में, फिर एक तिथि दक्षिण में, पुन दो तिथि अग्निकोण में इसके बाद वायु और उत्तर में एक २ तिथि इसके बाद पूर्व दिशा में तीन तिथि और नैर्ऋत्य कोण में एक तिथि में उदय होने वाली भूमि को शक्तिभूमि कहते हैं । यह जयप्रद होती है ॥ १-२ ॥

११२३	१२१३१४	८१९
११		७
१०	४१५६	१५

इति शक्तिभूमि ।

अथ धूम्राभूमिः

चैत्रादिवायुतो मासाः संहारेण दिगष्टके ।
पुनः पश्चिमतः शेषाश्चतुर्दिक्षु क्रमेण च ॥ १ ॥
पृष्ठदक्षिणगा श्रेष्ठा भङ्गदा वामसम्मुखो ।
इय धूम्राभिधा भूमिः सर्वशत्रुभयङ्करी ॥ २ ॥

इति धूम्राभूमिः ।

वायु कोण से सहारमार्ग दाहिने क्रम से चैत्रादि मासों में आठों दिशा में पुन पश्चिम से चारों दिशा में शेषमासों में उदय होने वाली भूमि को धूम्रा भूमि कहते हैं। यह पीछे और दाहिने विजय को देती है और सभी शत्रुओं को भय देने वाली होती है ॥ १-२ ॥

आ	भा, मा	आ
का पी		आ का
चै	चै मार्ग	ज्ये

इति धूम्राभूमि ।

अथ माना भूमिः

वह्निशक्रोत्तरे वायौ यमे रुद्राम्बुपावके ।
नैर्ऋत्येन्द्रयमे तोये चैत्रादिभ्रमणं ततः ॥ १ ॥

पृष्ठस्था जयदा नित्यमन्यत्रैषा न शोभना ।
इयं मानाह्वया भूमिर्युद्धकाले महाबला ॥ २ ॥

इति माना भूमिः

चैत्रादि मासों में क्रम से अग्नि, पूर्व, उत्तर, वायु, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, अग्नि, नैर्ऋत्य, दक्षिण, पश्चिम दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को माना भूमि कहते हैं। यह सर्वदा पीछे ही विजय देती है। अथवा शुभदा नहीं होती है युद्धकाल में अधिक बली होती है ॥ १-२ ॥

भा	चै पी	चै का
ज्ये		आ मा
आ	आ फा	मा

इति माना भूमि ।

अथ वराटिकाभूमिः

चैत्रादिमासपट्टके तु पूर्वभागे कृतोदया ।
शेषपट्टके तु वारुण्यां पृष्ठे भव्या वराटिका ॥ १ ॥

इति वराटिका भूमिः

चैत्रादि छ मास में पूर्वभाग में और दोष ३ मासों में पश्चिम भाग में उदय होने वाली भूमि को चराटिका भूमि कहते हैं यह पीछे शुभद होती है ॥१॥

चै	घै	श्या	था	भा
अश्वि का मार्ग पी मा फा				

इति चराटिका भूमि ।

अथ त्रिमुण्डाभूमिः

वह्नितः सव्यमार्गेण मासाश्चैत्रादिकोणगाः ।

पृष्ठदक्षिणगा युद्धे त्रिमुण्डा जयदा मता ॥ १ ॥

इति त्रिमुण्डाभूमिः

अग्निकोणमे दाहिने क्रमसे चैत्रादि मासों में कोण में उदय होने वाली भूमि को त्रिमुण्डा भूमि कहते हैं यह पीछे और दाहिने विजय को देती है ॥

आ	का	फा	चै	श्या	मा
ज्ये	आ	मा	चै	मा	पी

इति त्रिमुण्डा भूमि ।

अथ मत्सरीभूमिः

वायुतः सव्यमार्गेण यामार्धं ककुभं प्रति ।

सन्मुखी वरदा प्रोक्ता मत्सरीयं महाहवे ॥ १ ॥

इति मत्सरीभूमिः

वायु कोण से दाहिने क्रम से प्रदार्ध भ्रमण करने वाली आठों दिशा के अग्नि को मत्सरी भूमि कहते हैं सन्मुख विजय को देने वाली होती है ॥ १-२ ॥

१२	१६	२०
८		२४
४	१२	२८

इति मत्सरीभूमि ।

अथ धर्माभूमिः

पूर्वतः सृष्टिमार्गेण वेदसंख्या घटी क्रमात् ।
दक्षपृष्ठे स्थिता श्रेष्ठा धर्माभूमिरियं मता ॥ १ ॥

इति धर्माभूमिः

पूर्व दिशा से सृष्टि मार्ग दाहिने क्रमसे चार चार घटी के प्रमाण से घूमने वाली भूमि को धर्मा भूमि कहते हैं, दाहिने ओर पीछे विजय को देने वाली है ॥ १ ॥

३२	४	८
२८		१२
२४	२०	१६

इति धर्माभूमि ।

अथ मृताभूमिः

द्वादशारेन्द्रतः सन्ध्ये चैत्रादिभ्रमणं क्रमात् ।
वामाग्रे संस्थिता युद्धे मृताख्या मृत्युदायिका ॥ १ ॥

इति मृताभूमिः

द्वादश चक्र में पूर्व दिशा से सन्ध्य मार्ग से आठों दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को मृता भूमि कहते हैं यह वार्ये और समुख युद्ध में मृत्यु देती है ॥ १ ॥

श्रावण	चैत्र	वैशाख
माघ		द्वे
पौष		भाद्रपद
मार्ग	भाद्रिन	श्रावण
षा		माघपद

इति मृताभूमिः ।

अथ सृष्टिभूमिः

इन्द्रवायुयमे रुद्रे जलान्निशशिराक्षसे ।
यामोदयाद्भवेद् भूमिः सृष्टिः पृष्ठे जयप्रदा ॥ १ ॥

इति सृष्टिभूमिः

पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, अग्नि, उत्तर, नैऋत्य, म उदय होने वाली भूमि को सृष्टि भूमि कहते हैं यह पीछे विजय देने वाली होती है ॥ १ ॥

४	१	३
७		२
२	५	८

इति सृष्टिभूमि

अथ यामले क्षयाक्षया भूमिः

चैत्राद्याः पूर्वतो मासा वामहस्तदिगष्टके ।
पुनर्मार्गादितो मासाः शेषाः काष्ठाचतुष्टये ॥ १ ॥

क्षयाभूमिर्जयादेवं दक्षिणेन तथा ऽक्षया ।
क्षया वामेऽक्षया दक्षे जयदा नात्र सशयः ॥ २ ॥

इति यामले क्षयाक्षया च भूमिः

पूर्वादि दिशाओं में वारें क्रम से चैत्रादि मासों में आठों दिशा में तथा मार्गशीर्ष से चारों दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को क्षया और दाहिने मार्ग से घूमने वाली को अक्षया भूमि कहते हैं । क्षया भूमि वारें और अक्षया दाहिने विजय को देती है ॥ १-२ ॥

वै	वै मार्ग	का
ज्ये पौ		भा फा
भा	श २१	भा

इति क्षयाक्षया भूमि ।

अथ दुर्मतीभूमिः

तुर्यां तुर्यां दिशं याति वामं चैत्रादिपूर्वतः ।
समरे दक्ष-पृष्ठस्था दुर्मतीय जयप्रदा ॥ १ ॥

इति दुर्मतीभूमिः

पूर्व दिशा से चौथी २ दिशा को घूमनेवाली भूमि को दुर्मती भूमि कहते हैं। यह युद्ध में दाहिने और पीछे विजय को देती है ॥ १ ॥

आ मार्ग	चै	भा मा,
वाश्वि फा		ज्ये मा
घै	धा पी	का

इति दुर्मतीभूमि

अथ प्रहराभूमिः

पूर्वोत्तराग्निनैर्ऋत्ये यमे तोयानिले शिवे ।

प्रहरार्द्धोदया सा तु पृष्ठस्था प्रहरा भुवि ॥ १ ॥

इति प्रहराभूमिः

प्रहरार्ध के अनुसार पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैर्ऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायु, कोण, ईशान कोण में भ्रमण करने वाली भूमि को प्रहरा भूमि कहते हैं यह पीछे विजय देने वाली है ॥ १ ॥

१०	८	२४
१६		४०
५६	४८	३२

इति प्रहराभूमि ।

अथ स्फरोदये गौरीकालीभूमिः

पूर्वोत्तरदिशोः शुक्ले कृष्णे पश्चिमयाम्ययो ।

जयदा पृष्ठभागेन गौरी काली क्रमेण च

अग्रस्था शुभदा गौरी काली पृष्ठे शुभावहा ॥ १ ॥

इति स्फरोदये गौरीकालीभूमिः

शुक्लपक्षमें पूर्व उत्तर और कृष्णपक्ष में पश्चिम वायु में भ्रमण करने वाली पीछे भाग में हो तो विजय होती है। गौरी सामने हो तो शुभदा और वाली पीछे हो तो शुभदा होती है ॥ १ ॥

	शुक्ल	
शुक्ल		कृष्ण
	कृष्ण	

इति गौरीकाली भूमिः ।

अथ नारहरी भूमिः

वह्निः सव्यमार्गेण यामभोगो दिगष्टके ।

नारह्याख्यका भूमिर्जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥

इति नारहरीभूमिः

अग्नि कोण से एक २ प्रहर के योग से सव्यमार्ग से
आठों दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को नारहरी भूमि
कहते हैं । पीछे और दाहिने विजय देती है ॥ १ ॥

७	८	१
६		२
५	४	३

इति नारहरी भूमि ।

अथ यामले वलाभूमिः

पूर्वोत्तरे जले याम्ये वह्नीशे वायुराक्षसे ।

यमेन्द्रे सौम्यतोये च चैत्रादिमासभोगगा ॥ १ ॥

इय भूमिर्वलाख्या सा सन्मुखी वामगा शुभा ।

भङ्गदा दक्षपृष्ठे च युद्धकाले न संशयः ॥ २ ॥

इति यामले वला भूमिः

चैत्रादिमासों में क्रम से पूर्व,
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, अग्नि, ईशान,
वायु, नैऋत्य, दक्षिण, पूर्व, उत्तर,
पश्चिम में भ्रमण करेवाली वला भूमि
है । यह सामने बायें शुभद होती
है और दाहिने पीछे युद्ध में पराजय
देती है ॥ १-२ ॥

भा	चै पी	धा
वै मा		आ मार्ग
आ	उये फा	षा

इति वला भूमि ।

अथ यामले भूचरी खेचरी भूमिः

मेपादिद्वादशारे च वाममार्गेण भूचरी ।

खेचरी दक्षमार्गेण भ्रमो भवति सर्वदा ॥ १ ॥

है। इसे भद्रा भूमि कहते हैं, इसे यात्रा, युद्ध, पुर तथा ग्राम और गृह के प्रवेश में कल्याण को चाहने वाले सामने और बायें र्वाग देवें ॥ १-२ ॥

इति भद्राभूमि

अथ केरलाभूमिः

इन्द्रवह्नीशसौम्ये च नैर्ऋत्येन्द्रयमे जले ।

तोये याम्योत्तरे वायौ भ्रमश्चैत्रादिमासतः ॥ १ ॥

जयदा पृष्ठदक्षस्था भंगदा वामसम्मुखी ।

केवलेयं महाभूमिर्युद्धे चैवं चतुर्विधे ॥ २ ॥

इति केरला भूमिः

चैत्रादि मासोंमें पूर्व, अग्नि, ईशान, उत्तर, नैऋत, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और वायव्य कोणमें चैत्रादि मासोंमें घूमती है यह केरला नाम की महाभूमि है जो कि चतुर्विध मग्नम में बायें और सामने पराजय को देती है ॥ १-२ ॥

ज्ये	शै' भा	शै
भापा सा		भा शै
भा	का मार्ग	का

इति केवलाभूमि

अथ त्रैलोक्यविजयाभूमिः

इन्द्रचन्द्राग्निनैर्ऋत्ययाम्याम्बुवायुन्द्रगा ।

नैर्ऋत्यामनिले सौम्ये त्रेन्द्राग्नियमाधिपे ॥ १ ॥

प्रतिपदादि भ्रमत्येषा जयदा पृष्ठदक्षिणे ।

त्रैलोक्यविजया भूमिर्भूयलाना घलोत्कटा ॥ १ ॥

इति त्रैलोक्यविजया भूमिः

प्रतिपदादि तिथियोंमें क्रम से पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैर्ऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायु, ईशान, नैर्ऋत्य, पश्चिम, उत्तर, ईशान, पूर, अग्नि और दक्षिण में घूमने वाली को त्रैलोक्यविजया भूमि कहते हैं मूलज में उलट घल देने वाली पीछे और दाहिने विजय का देती है ॥ १-२ ॥

८१३	११४	३१५
२१२		५१०
७११	६१०	४१९

इति त्रैलोक्यविजयाभूमि ।

अथ कालपाशाभूमिः

वारेहः पूर्वदिग्भागे ततः सव्येन मन्दगः ।
 यत्रस्थस्तत्र कालः स्यात् पाशस्तस्य तु संमुखः ॥ १ ॥
 दक्षिणस्थः शुभः कालः पाशो वामदिगाश्रयः ।
 यात्रायां समरे श्रेष्ठस्ततोऽन्यत्र न शोभनः ॥ २ ॥

इति कालपाशाभूमिः

वर्तमान वार को पूर्व दिशा में कल्पना कर प्रदक्षिण क्रम से गणना करने से जहाँ शनिवार हा वहाँ काल होता है और उसके सामने पाश हाता है । काल दाहिने और पाश बायें शुभद होता है । यह यात्रा और युद्ध में ही शुभद है अन्यत्र अशुभ होता है ॥ १-२ ॥

	र	ष
श काल		मौ पाश
शु	वृ	षु

इति कालपाशाभूमि ।

अथ करालिकाभूमिः

चैत्राद्याः पूर्वतो मान्ना वामगा विकृचतुष्टये ।
 यत्रस्थास्तत्रतो याति यामार्द्धेन दिगष्टके ॥ १ ॥
 भङ्गदा पृष्ठवक्षे च जयदा वामसमुखी ।
 इय करालिका भूमिः सग्रामे शशुनाशिनी ॥ २ ॥

इति करालिका भूमिः

पूर्व दिशा से आरम्भ कर बायें क्रम से चैत्र आदि मास में चारों दिशा में जहाँ रहती है वहाँ यामाध २ भ्रमण करती है इसे करालिका भूमि कहते हैं । सग्राम में बायें और सामने विजय देती है, शशुका नाग बरती है ॥१-२॥

	चै या मार्ग	
चै भा पी		भा का पा
	उये आशि मा	

अथ करालिकाभूमि ।

अथ वडवाभूमिः।

मध्यवाह्यक्रमेणैव पूर्वतो वाममार्गगा ।
वामार्द्धमुदयं याति सर्वकाल दिगष्टके ॥ १ ॥

वाह्योदया तु वाह्यानां मध्यस्थानां तु मध्यगा ।
यायिनां वाह्यगा देया स्थायिनां तु हि मध्यगा ।
वडवेयं महाभूमिः शत्रूणा क्षयकारिणी ॥ २ ॥

इति वडवा भूमिः

पूर्व दिशा से मध्य और वाह्यक्रम से वाममार्ग से सभी समय वामार्धं तुष्य भोग से आगे दिशा में भ्रमण करती है । जो वाह्योदय है वह पादर के (यायो) को दना और जो मध्य में है उसे मध्य स्थायी को देने से शत्रुओं का नाश होता है । यह वडवाभूमि है ॥ १-२ ॥

२	१	८
३		७
४	५	६

इति वडवाभूमि ।

अथ अपराजिताभूमिः

चैत्राद्याः पूर्वतो वामं भ्रमणं दिक्चतुष्टये ।
सम्भुवी जयदा प्रोक्ता भूमिरेपाऽपराजिता ॥ १ ॥

इति अपराजिताभूमिः

चैत्र आदि मासों में पूर्व दिशा से वामे मार्ग से चारों दिशा में भ्रमण करती है इसे अपराजिता भूमि कहते हैं । सामने विजय को देती है ॥ १ ॥

	चै धा मार्ग	
या पी		आ का का २१६
	उपे धा, मा	

इति अपराजिताभूमि ।

अथ रौद्रीभूमिः

नैर्ऋत्यादि भ्रमो वामे तुर्ये तुर्ये दिगष्टकं ।

चैत्रादिमासगा रौद्री जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥

इति रौद्रीभूमिः

नैर्ऋत्य कोण से चैत्र आदि मासों में चौथे २ दिशा में क्रम से आठों दिशा में भ्रमण करती है । इसे रौद्री भूमि कहते हैं । यह पीछे और दाहिने विजय देती है ॥ १ ॥

=	चै पी	आ
का		आपा फा
ज्ये म	भाद्र	चै मार्ग

इति रौद्रीभूमि ।

अथ वामलोचना भूमिः

उदयाद्द्युदलं यावद्दक्षिणस्थो जयो भवेत् ।

तद्दूर्ध्वं चोत्तरस्या तु भूरपा वामलोचना ॥ १ ॥

इति वामलोचना भूमिः

प्रतिदिन उदय से दिनार्ध तक दक्षिणस्थ उत्तराभिमुख योद्धा और दिनार्ध के बाद उत्तरस्थ दक्षिणाभिमुख योद्धा विजयी होता है । इसको वामलोचना भूमि कहते हैं ॥ १ ॥

अपराह		एवाह

इति वामलोचनाभूमि ।

अथ शिशुभूमिः

चैत्राद्यापूर्वतो वामं भ्रमणं दिक्चतुष्टये ।

सम्मुखी जयदा प्रोक्ता शिशुभूमिरियं मता ॥ १ ॥

इति शिशुभूमिः

पूर्व दिशा से आरम्भ कर चारों दिशा में घाम क्रम से घुमने वाली भूमि को शिशुभूमि कहते हैं। सामने विजय देने वाली होती है ॥ १ ॥

	ऐ ध्या मार्ग	
ऐ भा पौ		भा का पा
	ज्ये भाधि मा	

इति शिशुभूमिः

अथ मातंगीभूमिः

कर्कादिरुद्रविदिशो मकराद्यग्निऋणतः ।
यामैकं सव्यमार्गेण मातंगो पृष्ठगा जयेत् ॥ १ ॥

इति मातंगीभूमिः

ईशान कोणसे कर्कादि और अग्नि कोण से मकरादि एक २ प्रहर के प्रमाण सव्य भूमि से भ्रमण करी वाली भूमि को मातंगी कहते हैं। यह पीछे विजय देनेवाली है ॥ १ ॥

क	ति	क म
मि		प शु
पृ	मे. घ	शु. भी

इति मातमी भूमि ।

अथ अभेद्याभूमिः

पूर्वतो घाममार्गेण घट्टः पच दिगष्टके ।
अभेद्या जयदा प्रोक्ता सम्भुग्वी भयरे सदा ॥ १ ॥

इति अभेद्याभूमिः

पाच २ घटी के प्रमाण से पूर्व दिशा से आरंभ कर आठों दिशा में भ्रमण करने वाली भूमि को अमेघा कहते हैं । यह युद्ध में सामने विजय को देती है ॥ १ ॥

१०।५०	५।४५	४०
५५।१५		३५
६०।२०	२५	३०

इति अमेघा भूमि ।

अथ दहनीभूमिः

द्वादशारे घटी पञ्च पूर्वतो वाममार्गगा ।

जयदा वामपृष्ठस्था दहनीभूमिराह्वे ॥ १ ॥

इति दहनीभूमिः

द्वादशभाय चक्र में पाच २ घटी के प्रमाण से पूर्व दिशा से वाम क्रम से उदय होती है इसे दहनी भूमि कहते हैं । बायें और पीछे विजय को देती है ॥ १ ॥

१०	५	६०
१५		५५
२०		५०
२५	३५	४५
३०		४०

इति दहनी भूमि ।

अथ जिताभूमिः

चह्रयादिचैत्रतो मासाः सव्यमार्गेण कोणगाः ।

पञ्चनाडी भ्रमन्त्येव जिता पृष्ठे जयप्रदा ॥ १ ॥

इति जिताभूमिः

अग्नि कोण से सत्य क्रममे कोणों में पांच २ घड़ी क प्रमाण से चैत्र आदि पास मं भ्रमण करने वाली भूमि को जिताभूमि कहते हैं। यह पीछे विजय को देती है ॥ १ ॥

आ वा फा	चै शा मार्ग
उपे आ ना	वै भा पी

इति जिताभूमि ।

अथ वायुबलाभूमिः

द्वादशारेन्दुतो वामं चैत्रादौ यत्र सस्थिताः ।

तत्रतो घटिकाः पञ्च सव्यमार्गण निर्मिताः ॥ १ ॥

जयदा दक्षिणे भागे मृत्युदाऽन्यत्र सस्थिता ।

प्रोक्ता वायुबला भूमिः स्वरशास्त्रे धलोत्कटा ॥ २ ॥

इति वायुबलाभूमिः

द्वादश चक्र में उत्तर दिशा से वाम क्रम से पांच २ घटी के क्रम से चैत्र आदि मार्गों में रहने वाली भूमि को वायु बलाभूमि कहते हैं। यह दक्षिण भाग में हो तो विजय देती है अन्यत्र भागमें मृत्यु देती है ॥ १-२ ॥

का	पीप	मार्ग
फा		कातिक
चैत्र		शाश्वर
वैशाख	आषाढ	भा
श्वेष्ट		घा.

इति वायुबलाभूमि ।

अथ वर्गकालानलीभूमिः

अष्टारे वाममार्गेण न्यसेद्वर्गाष्टक क्रमात् ।

भ्रमणं सृष्टिमार्गेण यामाद्धैमुदयो भवेत् ॥ १ ॥

योधनामोदिते वर्गे पृष्ठदक्षिणतः कृते ।

वर्गकालानली भूमिर्द्वन्द्वयुद्धे जयावता ॥ २ ॥

इति वर्गकालानलीभूमिः

आठ चक्र में धाममार्ग से आठों चर्गों (अकचटत पयश) को रखना चाहिये । इसमें सव्यमार्ग से प्रहरार्ध तुष्य समय में उदित होती है । योधा का नाम जिस चर्ग में जिस दिशा में हो उसे पीछे और दाहिने करके द्व द्व युद्ध करने से विजय होती है इसे वर्गकालानली भूमि कहते हैं ॥ १-२ ॥

इति वर्गकालानलीभूमि ।

अथ कपालिकाभूमिः

दिनमध्यस्थनाड्येका कपालम्ये दिवाकरे ।

नश्येद्यायी जयेत्स्थायी भूमिरेषा कपालिका ॥ १ ॥

इति कपालिकाभूमिः

दिन मध्य में एक घटिका पर्यन्त सूर्य कपालस्थ रहते हैं उस समय यायी का नाश और स्थायी की विजय होती है । इसे कपालिका भूमि कहते हैं ॥ १ ॥

इति कपालिका भूमि ।


अथ अनलानिलाभूमिः

पूर्वाह्णे पाचके कोणेऽपराह्णे वायुकोणगा ।

जयदा दक्षपृष्ठस्था भूमिरेषाऽनलानिला ॥ १ ॥

इति अनलानिलाभूमिः

पूर्वाह्न में अग्निकोण में और अपराह्न में वायुकोण में रहती है । इसे अनलानिला भूमि कहते हैं । दाहिने पीछे रहे तो विजय होती है ॥ १ ॥



इति अनलानिला भूमि ।


अथ चन्द्रसूर्यभूमिः

दक्षपृष्ठे रवेर्विम्बं जयार्थं रणमूर्द्धनि ।

चन्द्रविम्बं ततो रात्रौ पुरो धामे तु शोभनम् ॥ १ ॥

इति चन्द्रसूर्यभूमिः

दाहिने और पीछे दिन में सूर्य विम्बको और रात्रि में चन्द्रविम्ब को सामने और धामे करके युद्ध करने से विजय होती है ॥ १ ॥



इति सूर्यचन्द्रभूमि ।

अथ ग्रहभूमिः

दक्षपृष्ठस्थिताः क्रूराः सौम्या वामाग्रसंस्थिताः ।

संग्रामे जयदाः प्रोक्ता मिश्रामिश्रफलप्रदाः ॥ १ ॥

इति ग्रहभूमिः

मूर ग्रह दाहिने और पीछे और शुभग्रह बायें और सामने ही तो युद्ध में विजय होती है और मिश्रितग्रह हों तो मिश्र फल होता है ॥ १ ॥

इति ग्रहभूमिः ।

अथ राशिभूमिः

भास्करो यत्र सतिष्ठेद् द्वादशारेऽपसव्यतः ।

राशिर्दक्षिणपृष्ठस्था संग्रामे जयदा मता ॥ १ ॥

इति राशिभूमिः

द्वादश चक्र में सूर्य जहां हो वहां से राशियों को अपसव्य स्थापितकर राशियों को दाहिने और पीछे कर युद्ध करने में विजय होती है ॥ १ ॥

इति राशिभूमिः ।

अथ लग्नभूमिः

सूर्यराश्यादितः सव्यलग्न तत्कालसंभवम् ।

पृष्ठदक्षिणगं कृत्वा जयेद्युद्धे न संशयः ॥ १ ॥

इति लग्नभूमिः

सूर्य निम्न राशि पर है वहां से सव्य लग्न से माहात्मिक लग्न को पीछे और दाहिने पर युद्ध करने में विजय होती है ॥ १ ॥

इति लग्नभूमिः ।

अथ राहुकालानलाभूमिः

राहुकालानले चक्रे कृत्वा चन्द्रदिवारुरां ।

घटनाग्नेभेदेन कथयिष्यामि मूलम् ॥ १ ॥

राहोर्मुखस्थितश्चन्द्रः पृष्ठभागे जयप्रदः ।


गुह्यसम्पुटगो युद्धे वामाग्रे च जयावहः ॥ २ ॥

कपालपुच्छयोश्चन्द्रो वाममार्गं जयप्रदः ।

भानुः सर्वत्र सर्वाङ्गे जयदः पृष्ठदक्षिणे ॥ ३ ॥

इति राहुकालानलाभूमिः

राहु कालानल चक्र में चन्द्रमा और सूर्य से मुलादि अग विभाग से फल को कहता है राहु के मुख में चन्द्रमा हो तो पाछे भागमें, गुह्य और सपुट स्थानमें हो तो बायें और सामने, कपाल और पोंछ में हो तो वाम भाग में रहने से विजय होता है। सूर्य सभी अर्गों में पीछे और दाहिने रहने से विजय देता है ॥ १-३ ॥



इति राहुकालानलाभूमि ।

अथ स्वरभूमिः

अकाराद्याः स्वराः पञ्च नन्दादितिथिषु क्रमात् ।
 सव्यमार्गोदयास्ते च पञ्चस्थानेषु सर्वदा ॥ १ ॥
 ततस्तिथ्यादितो भुक्तिः प्रत्येकं रविनाडिका ।
 दक्षपृष्ठस्थिता शस्ता वामाग्रे मृत्युदायिका ॥ २ ॥
 मध्यभागोदये मृत्युः सैन्ययोरुभयोरपि ।
 किञ्चित्स्थायी जयी युद्धे स्वरभूमिरियं मता ॥ ३ ॥

इति स्वरभूमिः

अकारादि पांच स्वर नन्दा आदि तिथियों के क्रम से सव्यमार्ग से पांच स्थान में उदित होते हैं। तिथ्यादि से प्रत्येक स्वर का भोग १२ घटी के अनुसार होता है। दाहिने और पीछे श्रेष्ठ तथा बायें और सामने मृत्यु देवाली होती है। मध्य भाग में उदित हो तो दोनों सैन्यों की मृत्यु होती है ॥ १-३ ॥

	अ	
	११६११	
घ	ओ	इ
४१९१३४	५१९०१५	२०७१२
	उ	
	३१८१३	

इति स्वरभूमि ।

अथ त्रिकालरुद्रभूमिः
 चैत्रादिपूर्वतः सव्ये चतुर्दिक्षु त्रयं त्रयम् ।
 त्रिकालरुद्रभूम्येषा जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥
 इति त्रिकालरुद्रभूमिः

चैत्र से चारों दिशा में सव्य क्रम से प्रत्येक में तीन २ मास में उदय होता है। इसे त्रिकालरुद्रभूमि कहते हैं। पीछे और दाहिने विजय को देती है ॥ १ ॥

	चै चै उये	
पौ. मा फा		भा भा भादी
	भा भा मार्ग	

इति त्रिकालरुद्रभूमिः ।

अथ ऋक्षराहुः

सप्तरेखाङ्किते चक्रे कृत्तिकादि न्यसेद् बुधः ।
 धिष्ण्ये यत्र स्थितो राहुर्ऋक्षराहुः स उच्यते ॥ १ ॥

इति ऋक्षराहुः

सप्तरेखाका चक्र में कृत्तिकादि नक्षत्रों के न्यास से निम्न नक्षत्र में राहु हो वर्धे ऋक्षराहुभूमि होती है ॥ १ ॥

इति ऋक्षराहुः ।

अथ मासराहुः

द्वादशारेऽपसव्येन मासांश्चैत्रादिकान्न्यसेत् ।
 वहन्मासस्थितो राहुर्मासराहुः स उच्यते ॥ १ ॥
 यस्मिन् राशौ राहुरस्ति तत्समक्याके मासि स्थाप्या ।

इति मासराहुः

द्वादशरेखी चक्र में चैत्रादि मासों को अपसव्य षट्क से न्यास करने से निम्न राशि में राहु हो उस मास में एव मास रहता है ॥ १-२ ॥

इति मासराहुः ।

अथ पक्षराहुः

पूर्वोत्तरगतः कृष्णे शुक्ले पश्चिमदक्षिणे ।

पक्षभुक्तिप्रमाणेन पक्षराहुरयं मतः ॥ १ ॥

इति पक्षराहुः

कृष्ण पक्ष में पूर्व उत्तर में और शुक्ल पक्ष में पश्चिम दक्षिण में एक पक्षराहु रहता है । हमे पक्ष राहु कहते हैं ॥ १ ॥

इति पक्षराहु ।

अथ दिनराहुः

त्रिंशद्दण्डाङ्किते चक्रे वह्नितः पूर्णिमादिकान् ।

तिथीन् विन्यस्य स्यादेवं दिनराहुरिहोच्यते ॥ १ ॥

सप्तरेखाङ्किते चक्रे कोणरेखाद्वयाङ्किते ।


कृत्वा विलोममार्गेण संस्थाप्यं तिथिमण्डलम् ॥ २ ॥

पूर्णिमाद्यग्निरेखातस्तिथिरेखा क्रमेण च ।

तिथिभोगभ्रमो राहुर्दिनराहुः स उच्यते ॥ ३ ॥

इति दिनराहुः

३० दण्ड के चक्र में अग्निकोणसे पूर्णिमा से तिथियों का नास करने से दिन राहु होता है सप्तरेखा चक्र में दो कोणों में एक रेखा कर तिथियों का न्यास विलोम मार्ग में करने से अग्नि कोण की रेखा में पूर्णिमा रखकर अन्य तिथियों को अन्य रेखाओं पर रखकर तिथिभोग के मुख्य दिन राहु होता है ॥ १-३ ॥



इति दिनराहु ।

अथ राण्डराहुः

पेन्द्रया कृष्णे तृतीयाया सप्तम्यां शूलिनो दिशि ।

दशम्या धनदाशया वायव्यां भूतवासरे ॥ १ ॥

शुक्लपक्षे तु चारुण्यां चतुर्थ्यां समुदेत्यसौ ।
 नैर्ऋत्ये च तथाष्टम्यामेकादश्या यमे दिशि ॥ २ ॥
 आग्नेये पञ्चदश्या च मासराहृदये सति ।
 खण्डगत्या भ्रमत्येवं खण्डराहृस्तथोच्यते ॥ ३ ॥

इति खण्डराहुः

कृष्णपक्ष तृतीया को पूर्व में सप्तमी को ईशान कोण में, दशमी को उत्तर में, चतुर्दशी को वायव्य कोण में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को पश्चिम में, अष्टमी को नैर्ऋत्य कोण में, पञ्चादशी को दक्षिण में और अग्नि कोण में पूर्णिमा को उदय होता है । इस प्रकार खण्डगति में भ्रमण करनेसे खण्ड राहु कहा जाता है ॥ १-३ ॥

०	३	१५
१०		११
१४	५	८

इति खण्डराहुः ।

अथ अर्द्धयामराहुः

इन्द्रवायुयमे रुद्रे तोयान्निशशिराक्षसे ।
 यामार्द्धसुदितो राहुर्भ्रमत्येवं दिगष्टके ॥ १ ॥
 इति अर्द्धयामराहुः

पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, अग्नि, उत्तर नैर्ऋत्य कोण में प्रहरण क समान उदित होता है ॥ १ ॥

४	१	९
०		३
२	५	८

अथ गूढार्धराहुः

ईशानयमवातेन्द्र रक्षःमोमाग्निवारुणे ।
 पूर्वाह्नेऽपि भ्रमत्येवमपराह्णेऽप्ययं क्रमात् ।
 जलाग्निस्तीम्पनैर्ऋत्ये दाक्रानिलयमे हरे ॥ १ ॥

इति गूढार्धराहुः

ईशान, दक्षिण, वायव्य, पूर्व, नैर्ऋत्य, उत्तर, अग्नि, पश्चिम में पूर्वाह्न में और पश्चिम, अग्नि, उत्तर, नैर्ऋत्य, पूर्व, वायव्य, दक्षिण और ईशान में अपराह्ण में भ्रमण करता है । इसी प्रकार रात के पूर्व रात और अपराह्ण में भी भ्रमण करता है ॥ १ ॥

इति गूढार्धराहुः ।

अथ मुहूर्तराहुः

पूर्वरात्रौ भ्रमत्येवं अपराह्णेऽप्ययं क्रमात् ॥ २ ॥

अहः पञ्चदशांगेन मुहूर्तः परिकीर्तितः ।

एवं मुहूर्तको राहुर्जातव्यः स्वरवेदिभिः ॥ ३ ॥

इति मुहूर्तराहुः

दिनमान के १५ वें भाग के बराबर एक मुहूर्त होता है प्रत्येक मुहूर्त में गूढार्ध राहु के दिशा में भ्रमण करने वाले को मुहूर्त्त राहु कहते हैं ॥ १ ॥

इति मुहूर्तराहुः ।

अथ कुलिकराहुः

रविः सोमः कुजः सौम्यो गुरुः शुक्रः शनिस्तमः ।

ऐन्द्रादीशानपर्यन्तमर्द्धयामभ्रमः स्मृतः ॥ १ ॥

अर्द्धयामोदयः खेटः स्थाप्यः प्राच्यां ततः शनिः ।

यत्रास्ते तद्दिशि ज्ञेयं बुधैः कुलिकजं तमः ॥ २ ॥

दिनवारोदयाज्ज्ञेया तुर्यतुर्यदिशि क्रमात् ।

ज्ञेयः कुलिकजो राहुः स्थाने यत्र शनैश्वरः ॥ ३ ॥

इति कुलिकराहुः

रवि, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु को अग्निकोण में ईशान पर्यन्त प्रहरार्ध भोग के अनुसार स्थापित करे ग्रह को पूर्व दिशा में स्थापित करे फिर जहाँ शनि हो वहाँ कुलिक राहु को समझो अथवा दिन का उदय जहाँ हो वहाँ से चौथे २ दिशा के अनुसार जिस स्थान पर शनि हो वहाँ कुलिक राहु को समझ ॥ १-३ ॥

इति कुलिकराहुः ।

अथाष्टमिधराहुः

सम्मुखी वामसंस्था वा यस्येयं राहुमण्डली ।

पराजयो भवेत्तस्य चादे घृते रणादिषु ॥ १ ॥

यस्य दक्षिणपृष्ठस्था छेपा राहुपरम्परा ।

सहस्रं च शतेनापि परमैन्यं निकृन्तति ॥ २ ॥

इत्यष्टमिधराहुः

इस प्रकार से जिसके सामने और बायें में ८ प्रकार के राहु हों उसका जूझा और सग्राम में पराजय होता है । चिबके दाहिने और पीछे हों उसकी हजारों सैकड़ों शत्रुओं से युक्त शत्रुमेता को काट देता है ॥ १-२ ॥

इत्यष्टविधराहु ।

अथ राशिचन्द्रः

दिशि यस्यां स्थितश्चन्द्रः सव्यमार्गेण राशिगः ।

राशिचन्द्रः स विज्ञेयः सर्वदा स्वरवेदिभिः ॥ १ ॥

इति राशिचन्द्रः

मेपादि राशियों में चन्द्रमा जिन दिशा में सम्य क्रम से हो उसे राशि चन्द्र कहते हैं ॥ १ ॥

	मे सि ध	
क घू मी		शू क म
	मि उ कु	

इति राशिचन्द्रः ।

अथ उदयचन्द्रभूमिः

सप्तशलाकाकार्ये कृत्तिकादिसमन्विते ।

शुक्रपक्षे द्वितीयायां यत्र भेऽस्त्युदितः शशी ॥ १ ॥

इति उदयचन्द्रभूमिः

सप्तशलाका चन्द्र में कृत्तिकादि नक्षत्रों में शरपण की द्वितीया तिथि को चन्द्रमा जिस दिशा में उदित हो उसे उदय चन्द्र कहते हैं ॥ १ ॥

इत्युदयचन्द्रः ।

अथ मासचन्द्रभूमिः

चक्रे सप्तशलाकार्ये चतन्मासर्क्षगः शशी ।

मासचन्द्रो भवेदेयं ज्ञानग्यं स्वरवेदिभिः ॥ १ ॥

इति मासचन्द्रभूमिः

सप्तशलाका चक्र में जिस दिशा में चतन्मास चक्र में चन्द्रमा प्रदिश हो उसे मासचन्द्रभूमि कहते हैं ॥ १ ॥

इति मासचन्द्रभूमिः ।


अथ पक्षचन्द्रभूमिः

पूर्वोत्तरगतः शुक्ले कृष्णे पश्चिमदक्षिणे ।

पक्षभुक्तिप्रमाणेन पक्षचन्द्र इहोच्यते ॥ १ ॥

इति पक्षचन्द्रभूमिः

शुक्लपक्ष में पूर्व-उत्तर कृष्णपक्ष में पश्चिम दक्षिणमें पक्षभोग के अनुसार पक्षचन्द्र होता है ॥ १ ॥



इति पक्षचन्द्र ।

अथ दिनचन्द्रभूमिः

चक्रे सप्तशलाकारूपे गन्द्रघां मध्येऽर्कभं न्यसेत् ।

ततो वामन चन्द्रर्क्षं दिनचन्द्र इहोच्यते ॥ १ ॥

इति दिनचन्द्रभूमिः

सप्तशलाका चक्र म पूर्व दिशाम सूर्य के नक्षत्र को रचना यहां से घामक्रम से चन्द्रनक्षत्र को गिनता जहां हा उमी दिशा में दिन चन्द्र होता है ॥ १ ॥

इति दिनचन्द्र ।

अथ तात्कालिकचन्द्रः

दिनऋक्षात्तु सव्येन सपादघटिकाद्वयम् ।

प्रतिनाड्यां भवेद्भुक्तिरपस्तात्कालिकः शशी ॥ १ ॥

इति तात्कालिकचन्द्रः

दिन नक्षत्र से सवा दो घटी भोग के अनुमार सव्यभाग से जहां चन्द्र नक्षत्र हो वहीं तात्कालिक चन्द्रमा होता है ॥ १ ॥

इति तात्कालिकचन्द्र ।

अथ सप्तविधचन्द्रः

सप्तमो विम्बरूपेण प्रत्यक्ष इह दृश्यते ।

वामाग्रे जयदशान्द्र एवं सप्तविधः स्मृतः ॥ १ ॥

इति सप्तविधचन्द्रः

सातवों विम्बरूप से प्रायः दिग्दर्श पड़ता है, बायें और सामने चन्द्रमा विजय की देता है ॥ १ ॥

यह सात प्रकार के चन्द्रमा हैं ।

अथ अयनभानुः

दक्षिणायनगो भानुर्जयदो याम्यपश्चिमे ।

उत्तरायणसंस्थोपि जयदः शक्रसोमयोः ॥ १ ॥

इति अयनभानुः

दक्षिणायन में सूर्य हा तो दक्षिण और पश्चिम में तथा उत्तरायण में हो तो पूर्व और उत्तर, विजय होती है ॥ १ ॥

हरपमभानुः ।

अथ दिनभानुस्तात्कालिको भानुश्च

सप्तरेखाङ्किते चक्रे भानुर्भं यत्र संस्थितम् ।

दिनभानुर्भवेदेवं चन्द्रवक्षोष्टकालिक ॥ १ ॥

इति दिनभानुस्तात्कालिको भानुश्च

सप्तगण्डिका चक्र में जहाँ सूर्य का चरण हा वही दिनसूर्य और चन्द्रमा की ही भाँति दृष्टकालिक सूर्य को भी समझना ।

इति दिग्दशकालिक सूर्य

अथ यामले सूर्यविम्बभूः

प्रत्यक्ष दृश्यते यस्यां भानुविम्बं दिशि स्थितम् ।

दक्षवृष्टस्थिता एते कर्त्तव्या जयकाङ्क्षिभिः ॥ १ ॥

इति यामले सूर्यविम्बभूः

प्रायः में सूर्य क्षिम दिशा में ही उभ विम्बभानु पड़ते हैं । यदिने भीध विजय की देते हैं ॥ १ ॥

इति सूर्यविम्बभूः ।

अथ तिथियोगिनी

पूर्वस्यामुदये ब्राह्मी प्रथमे नवमे तिथौ ।
 माहेश्वरी चोत्तरस्यां द्वितीयादशमीतिथौ ॥ १ ॥
 एकादश्यां तृतीयायां कौमारी वह्निकोणगा ।
 चतुर्थी द्वादशी प्रोक्ता वैष्णवी नैर्ऋती तथा ॥ २ ॥
 वाराही दक्षिणे भागे पञ्चमो च त्रयोदशी ।
 षष्ठी चतुर्दशी चैव इन्द्राणी पश्चिमे स्थिता ॥ ३ ॥
 पूर्णिमाया च सप्तम्यां वायव्ये चण्डिकोदयः ।
 नष्टचन्द्रदिनाष्टम्या महालक्ष्मीः शिवालये ॥ ४ ॥

इति तिथियोगिनी

११९ तिथि को पूर्व में ब्राह्मी नामक योगिनी का उदय होता है । २११० तिथि को उत्तर में माहेश्वरी का, ३१११ तिथि को अग्निकोण में कौमारी का, ४११२ तिथि को नैर्ऋत्य कोणमें वैष्णवीका, ५११३ तिथि को दक्षिण दिशा में वाराही का, ६११४ तिथि को पश्चिम दिशा में इन्द्राणी का, ७११५ तिथि को वायव्य कोण में ३।३०।८ चण्डिका का और तिथि को ईशान कोण में महालक्ष्मी योगिनी का उदय होता है ॥ १-४ ॥

महालक्ष्मी ८१३०	ब्राह्मी ११९	कौमारी ३१११
माहेश्वरी २११०		वाराही ५११३
चामुण्डा ७११५	इन्द्रावती ६११४	वैष्णवी ४११२

अथ तत्कालयोगिनी

यत्रोदयगता देवी ततो यामार्द्धभुक्तिदा ।
 भ्रमन्ती तेन मार्गेण भवेत्तत्कालयोगिनी ॥ ५ ॥

इति तत्कालयोगिनी

अहां पर जिस तिथि को लो योगिनी उदित हो वहां से प्रहरार्ध २ उसी मार्गसे इष्टघटी पर्यन्त भ्रमण करने वाली को तत्कालिनी योगिनी कहते हैं ॥ १ ॥

इति तत्कालिनीयोगिनी ।

अथ वारयोगिनाचक्रम्

इन्द्रचन्द्राग्निनैर्ऋत्ये याम्ये तोयानिले हरे ।
 सूर्यादिषु च वारेषु वर्जयेद्वारयोगिनीम् ॥ ६ ॥

दिक्स्थाना संमुखे दृष्टिर्विदिक्स्था वारुणे मता ।
 कोणस्थानां च कोणे च तिथिदिश्युदयः क्रमात् ॥७॥
 जयदा पृष्ठदक्षस्था भङ्गदा वामसम्मुखी ।
 त्रिविधं योगिनोचक्रमित्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ ८ ॥
 इति प्रारयोगिनीचक्रम्

रविवार भादि वारों में क्रम से पूर्व, उत्तर, भूमि, नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, पायप, ईशान कोण में भ्रमण करती है । इसे प्रारयोगिनी कहते हैं । जो दिशा में है उनकी सामने दृष्टि होती है । जो पश्चिम में है उनकी विदिशाओं में दृष्टि होती है । पीछे और दाहिने योगिनी विजय देती है, बायें और सामने योगिनी पराजय देती है । यह तीन प्रकार का योगिनी चक्र ब्रह्मयामले में कहा है ॥ १-३ ॥

इति त्रिविधयोगिनीचक्रम् ।

अथ तिथिकालः

मध्यवाह्यक्रमेणैव वामं प्रतिपदाविषु ।
 वर्तमाने तिथौ काल वर्जयेदाश्रयद्वये ॥ १ ॥

इति तिथिकालः

प्रतिपदा भादि तिथियों का यामक्रम से मध्य और वाह्य में रूपों से चक्र बन जाता है । जैसे ११३१७३९ १११३१५ तिथि को मध्य में काल रहता है इसमें वायी का युद्ध नहीं करता चाहिये ॥ १ ॥

४	३	२
३	१	१५
५	५	१३, १७
७	९	११
८	१०	१९

इति तिथिकालः ।

अथ यामले पट्त्रिंशत्कालः

पट्त्रिंशद्भुचक्रं कृत्वा गताहानि च योजयेत् ।
 अष्टशेषे भवेत्कालो जयदः पृष्ठदक्षिणे ॥ १ ॥

इति यामले पट्त्रिंशत्कालः

दिन के पितने दृष्ट करते ही उन्हें ३६ से गुणाकर ८ से भाग देने से जो शेष बचे वही पूर्वादि दिशा के अनुसार कालवार दिशा होती है ॥ १ ॥

इति पट्त्रिंशत्कालः ।

अथ वारकालचक्रम्

शन्यर्कभौमजीवेषु मध्ये कालः प्रकीर्तितः ।

बाह्ये शुक्रेन्दुसौम्येषु वर्जनीयः सदा रणे ॥ १ ॥

इति वारकालचक्रम्

शनि, रवि, भौम और गुरुवार को मध्य में और शुक्र, चन्द्र, बुधवार को बाहर काल रहता है युद्ध में त्याग देना चाहिये ॥ १ ॥

इति वारकालः ।

अथ वायुचक्रम्

दक्षे पृष्ठे स्थितो वायुर्जयदो भवति ध्रुवम् ।

वामाग्रे भङ्गदः प्रोक्तः सर्वयुद्धेषु सर्वदा ॥ १ ॥

इति वायुचक्रम्

दाहिने पीछे की वायु हो तो निश्चिन विजय होती है । बायें और सामने की वायु हो तो सर्वदा युद्ध में पराजय होती है । जैम पूर्व की वायु चलती हो यदि पूर्व दक्षिण मुद्र हो तो सम्मुख और वाम भाग होगा इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना ॥ १ ॥

इति वायुभूमि ।

अथ स्वरोदये शारीरभूमिः

युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति निश्चितम् ।

यदा सूर्यप्रवाहस्तु यायी विजयते तदा ॥ १ ॥

पार्थिवे सक्षतं युद्ध सन्धिर्भवति वारुणे ।

विजयो वह्नितत्त्वेन वायौ भङ्गो मृतिस्तु रे ॥ २ ॥

पूर्णनाडीगतः पृष्ठे शून्यग च तदग्रतः ।

शून्यस्थाने गतः शत्रुर्त्रियते नात्र संशयः ॥ ३ ॥

पूर्वोत्तरदिशोश्चन्द्रभानौ पश्चिमयाम्ययोः ।

स्थितस्तत्र जयो युद्धे स्थायी यायी क्रमेण च ॥ ४ ॥

वामनाड्युदये चन्द्रः कर्तव्यो वामसम्मुखम् ।

सूर्यवाहे तथा सूर्यः पृष्ठदक्षिणगो जयेत् ॥ ५ ॥

इति स्वरोदये शारीरभूमिः

युद्ध समय यदि चन्द्रनाडी अर्थात् वामस्वर चलता हो तो रघावी की विजय होती है। यदि मूय नाडी दक्षिण स्वर चलता हो तो बायीं का विजय होता है दोनों स्वरो के चलने समय पांच तारों में यदि पृथ्वी तार का उदय हो तो युद्ध में बाध लगना है। जल तार हो तो सधि, अग्नि तार हो तो विजय, वायु तार हो तो पराजय और आकाश तार हो तो शुरुयु होती है। पूर्ण गार्हापत दिना में बाधा होकर शून्य नाडी की दिशा में वायु को दिग्धर कर मारना से वायु मर जाता है। चन्द्र (वायु वायु चलती हो) नाडीके चलते समय पूर्ण उत्तर दिशामें रघावी और सूर्य (दक्षिणनाडी) नाडीके चलते समय बायीं पश्चिम दक्षिणमें रहनेसे युद्धमें विजयी होता है। बायें स्वर के चलने के समय पिण्डरूप चन्द्रमा का बायें और सामने और दक्षिण स्वर के चलते रहने के समय सूर्य दिग्घको पीछे दाहिने करके युद्ध करने से विजय हाता है ॥१-५०

अथ स्त्रकालः

इन्द्रो वायुयमेशकं च हुतसुग् यक्षेशदैत्येश्वरौ
सूर्यादौ घटिकाचतुष्कमुदये रौद्रो भ्रमन्सर्वदा ।

धृते कुक्कुटमेपहस्तिमहिषी स्याद्द्वन्द्वयुद्धे जयोः

मृत्युः श्वेचरवालवादविजयः पृष्ठे तु चामे जयः ॥१॥

इति स्त्रकाल

एतानि मूयलान्यत्र ज्ञातव्यान्युदितः क्रमात् ।

सन्निपाते विशेषेण भूमिमंलापको घली ॥ १ ॥

मासाख्या च तुरङ्गाद्ये दिनाख्या कविन्द्वरे ।

यामाख्या कोटसमामे तूक्ष्माख्या ग्वलके रणे ॥ २ ॥

मासे पक्षे दिने नाख्या यदुक्तं भ्रमण पुरा ।

यथा दिने तथा रात्रौ ज्ञातव्यं स्वर्गदिभिः ।

तस्माद्दीक्ष्य प्रयत्नेन घल देयं स्वरोदये ॥ ३ ॥

युद्धस्य प्राग्दिने सायं व्रतस्थः स्वरपारगः ।

भास्करस्य महामन्त्रं जपेद्युतनन्दपया ॥ ४ ॥

दशाशं होमयेत्कृण्टे त्रिकोणे द्वादशाहुले ।

अर्कस्य च शमीपुष्पैर्मध्याज्यार्कपरिष्कृतैः ॥ ५ ॥

“ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः” इति मन्त्रः स्याद्द्वान्तं

होमयेत् ।

युद्धारम्भे ह्यारूढः स्वरजो हृदमानसः ।
 पुनरेव जपेन्मन्त्रं शनकैः सूर्यसम्मुखम् ॥ ६ ॥
 शुक्लवासोत्तरं कृत्वा ततः सूर्यं विलोकयेत् ।
 यावच्च दृश्यते चिह्नं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ ७ ॥
 सम्पूर्णतेजसा युक्ते व्यक्ते निकटवर्तिनि ।
 श्वेते च कर्चुरे पीते सूर्ये यायी जयी भवेत् ॥ ८ ॥
 खण्डिते खण्डसयुक्ते छिन्ने भिन्ने च वक्रिते ।
 धूम्रे कृष्णेऽम्णे सूर्ये स्थायी जयति सर्वदा ॥ ९ ॥
 भूवलानि समाप्यन्ते चतुरशीतिसंख्यया ।
 यदाश्रयबलादाशु शशुश्रीः करगामिनी ॥ १० ॥
 अब्देऽप्यब्दार्द्धमासे निजदलसहिते वासरे चैव यामे
 यामस्यार्धे मुहूर्ते भ्रमति च घटिका तद्ब्रह्मदाशाष्टकेऽपि ।
 सद्ग्रामे चातुरङ्गे रुविरणखलके काटयुद्धे भटाना
 निःसन्देह जयार्थं नरपतिगदित भूवल तथ्यसारम् ॥ ११ ॥

इति श्रीनरपतिजयचर्याया स्मरोदये पडङ्गे
 सप्ताध्याये भूयलाध्यायश्चतुर्थः

—७३—

ये सब भूयल वदित क्रम के जानना । जहां दो भूमिओं का मतिपात हो वहां
 मेलापक भूमि होती है जो कि बली होती है । भररयुद्ध में याम-भूमि, कवि युद्ध में
 दिन भूमि, बोट युद्ध में याम भूमि, गलक युद्ध में सूक्ष्म (तागवालिफ भूमि)
 भूमि शुभद होती है । मास, पक्ष, दिन, नाका आदि में जैम क्रमगत कहा गया है वहां
 जैम दिन में वैसे ही रात में भी समझना चाहिये । अग प्रयान में पल को दंगकर
 घोषा को समय दना चाहिये । युद्ध के एक दिन पहले घन रहकर माय काल सूर्य
 के मग्न को दश हजार जप करके जप का दाना गमी सुप्प, मधु, घा, मदार के लक्ष्मी
 के साथ हवन बारह अंगुल के त्रिकोण कुण्ड में करे । युद्ध के समय घोड़े पर चढ़कर
 सूर्य के सामने एक सौ पार मग्न को जपकर मफद कपड़ा आंग पर लगाकर सूर्य
 विषय को दावकर शुभ अशुभ चिह्नों से पल का निर्णय करे । यदि सूर्य सम्पूर्ण मग्न से

युद्ध समय यदि चन्द्रनाडी अर्थात् वामस्वर चलता हो तो रघापी की विजय होती है। यदि मूय नाडी दक्षिण स्वर चलता हो तो पायी का विजय होता है दोनों स्वरों के चलते समय पांच तारों में यदि पृथ्वी तार का उदय हो तो युद्ध में घबरा लगना है। जल तार हो तो मधि, भगिन तार हो तो विजय, वायु तार हो तो पराजय और आकाश तार हो तो शून्य होती है। पूर्ण गार्गीगण दिशा में घोषा होकर शून्य नाडी की दिशा में वायु को स्थिर कर मारने से वायु मर जाता है। चन्द्र (वाम वायु चलती हो) नाडीके चलते समय पूर्व उत्तर दिशाओं रघापी और सूर्य (दक्षिणनाडी) नाडीके चलते समय पायी पश्चिम दक्षिणमें रहनेसे युद्धमें विजयी होते हैं। रायें स्वर के चलने के समय विद्यमान चन्द्रमा को बायें और सामने और दक्षिण स्वर के चलने रहने के समय सूर्य विजयको बाँधे दाहिना करके युद्ध करने में विजय होता है ॥१-५०

अथ रुद्रकालः

इन्द्रो वायुयमेशकं च हुतमुग् यक्षेशदैत्येश्वरौ
सूर्यादौ घटिकाचतुष्कमुदये रौद्रो भ्रमन्सर्वदा ।

धूने कृत्कृटमेपहस्तिमहिपी स्याद्द्वन्द्वयुद्धे जयोः

मृत्युः गेचरबालवादविजयः पृष्ठे तु घामं जयः ॥१॥

इति रुद्रकालः

एतानि भूयलान्यत्र ज्ञातव्यान्युदितः क्रमात् ।

सन्निपाते विशेषेण भूमिमेलापको थली ॥ १ ॥

मामाख्या च तुरङ्गान्ये दिनाख्या कविमङ्गरे ।

यामाख्या कोटसमामे सूक्ष्माख्या गल्के रणे ॥ २ ॥

माने पक्षे दिने नाद्यां यदुक्तं भ्रमणं पुरा ।

यथा दिने तथा रात्रौ ज्ञातव्यं स्वरवेदिभिः ।

तस्माद्दीक्ष्य प्रयत्नेन यत्नं देयं स्वरान्तरे ॥ ३ ॥

युद्धस्य प्राग्दिने सायं घनस्थः स्वरपारगः ।

भास्करस्य महामन्त्रं जपेद्युतसन्धया ॥ ४ ॥

दशाशं होमयेत्कृण्टे त्रिकोणे द्वादशाहुते ।

अर्कस्य च शमीपुष्पैर्मध्वाज्यार्कपरिष्कृतेः ॥ ५ ॥

“ॐ हौं ह्रीं ह्रूं मः सूर्याय नमः” इति मन्त्रं न्याहान्त
होमयेत् ।

युद्धारम्भे ह्यारूढः स्वरजो दृढमानसः ।
 पुनरेव जपेन्मन्त्रं जनकैः सूर्यसम्मुखम् ॥ ६ ॥
 शुक्लवासोत्तरे कृत्वा ततः सूर्यं विलोकयेत् ।
 यावच्च दृश्यते चिह्नं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ ७ ॥
 सम्पूर्णतेजसा युक्ते व्यक्ते निकटवर्तिनि ।
 श्वेते च कर्बुरे पीते सूर्ये यायी जयी भवेत् ॥ ८ ॥
 खण्डिते खण्डसयुक्ते छिन्ने भिन्ने च वक्रिते ।
 धूम्रे कृष्णेऽरुणे सूर्ये स्थायी जयति सर्वदा ॥ ९ ॥
 भूचलानि समाप्यन्ते चतुरशीतिसंख्यया ।
 यदाश्रयबलादाशु शशुश्रीः करगामिनी ॥ १० ॥
 अब्देऽप्यब्दाद्धमामे निजदलसहिते वासरे चैव यामे
 यामस्यार्थं मुहूर्ते भ्रमति च घटिका तद्ब्रह्माशाष्टकेऽपि ।
 सद्भामे चातुरङ्गे कविरणखलके कोटयुद्धे भटाना
 निःसन्देह जयार्थं नरपतिगदित भूचल तथ्यसारम् ॥११॥

इति श्रीनरपतिजयचर्याया स्मरोदये पडङ्गे
 समाध्याये भूचलाध्यायश्चतुर्थः

—०—

ये सब भूचल उदित क्रम क जानना । जहां दो भूमिओं का मतिपात हो यहाँ
 मेलपक भूमि होती है जो कि घली होती है । अरगयुद्ध में मामभूमि, अग्नि युद्ध में
 दिन भूमि, कोट युद्ध में याम भूमि, एलक युद्ध में सूक्ष्म (तागवालिर भूमि)
 भूमि शुभद होती है । मास, पक्ष, दिन, नादा आदि म जैमक्रमन कहा गया है यहाँ
 जैसे दिन म वैम ही रात म भी समझना चाहिये । अत प्रयान से चल को दूरकर
 योधा को समय दना चाहिये । युद्ध के एक दिन पहल मत रहकर माय का सूर्य
 के मय को दग हजार जप करके जप का दगांग दामी गुप्प, मधु, घी, मदाय के लक्ष्मी
 के साथ हवन बारह अगुल क त्रिमाण कुण्ड म करे । युद्ध क समय पादे पर खदकर
 सूर्य के सामन एक सौ बार मय को जपकर मपेद कपदा आंग पर लगाकर सूर्य
 विषय को दगकर शुभ अशुभ बिद्दों से फल का निर्णय करे । यदि सूर्य मपूर्ण तेज से

सुक्त, व्यक्त, मिश्र में, सपेद, चितम्बरा, पीछे रस के दिताई पड़े तो यार्थी की विजय होती है यदि गदित, गड सुक्त, द्विप्र, मिस देदे, पूष गर्ग, बाले वा मज्ज दिताई पड़े तो स्थायी की विजय होनी है । यह ८५ प्रकार के मूलक का ममात कर रदा हैं मिसक भाधय से प्रीय हो सानु की लक्ष्मी हस्तगत हाती है । यह नरपति का कदा हुआ सारस्वरूप मूलक यय, इ माम, माम, पय, दिा, महर, प्रदार्थ, सुहृत्, घटिका में भाठों दिता में भ्रमण करता है, चातुरग सुक्त में, वयि सुक्त, त्यक्त पुर, कोट पुत्र में योधाओं को नि सदेह विजय को देता है ॥ १-११ ॥

इति श्यरोदये भूतलाप्यायश्चतुर्थः ।



अथ शान्त्यध्यायः

अथ मृत्युञ्जयमन्त्रः

पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि मन्त्रयन्त्रादिकं बलम् ।
यस्य प्रभावतो युद्धे दुर्वलस्य बलं भवेत् ॥ १ ॥
चतुरस्रं चतुर्द्वारं त्रिरेखं पद्मगर्भितम् ।
हस्तत्रयप्रमाणं च तण्डुलैर्मण्डलं लिखेत् ॥ २ ॥
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वावयवसंयुतम् ।
मासभूमिप्रवेगे च गोमयेनोपलेपिते ।
पद्मपत्रे लिखेद्देवाश्चतुःपष्टिप्रमाणतः ।
एकैकपद्मपत्रेषु वसुसंख्या दले दले ॥ ३ ॥
भैरवी भैरवा सिद्धिर्ग्रहा नागा उपग्रहाः ।
पीठोपपीठसयुक्ता दिक्पालैश्च समन्विताः ॥ ३ ॥

इति मृत्युञ्जयमन्त्रम्

कर्णिकाया न्यसेद्देव शिवं साङ्गं सहस्रकम् ।
प्रणवादिनमोन्तैश्च नाममन्त्रैस्ततोऽर्चयेत् ॥ ५ ॥
मण्डलाग्रे लिखेत्सङ्घं वीर तत्र निवेशयेत् ।
तीर्थोदकान्वितैः कुम्भैः सदूर्वाक्षतपल्लवैः ॥ ६ ॥
मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण शतवाराभिमन्त्रितैः ।
अभिपिञ्चेत्ततो वीर शुभलग्ने स्वरोदयो ॥ ७ ॥

“ॐ ज्ञसः” इति मृत्युञ्जयमन्त्रः

अभिपिक्तस्ततो वीर सग्रामे विजयो भवेत् ।
शस्त्रैर्न भिद्यते तस्य शरीरं शत्रुचोदितैः ॥ ८ ॥
एतन्मण्डलमध्यस्थोऽभिपिक्तः पुरुषो यदा ।
ततः प्रभृति युद्धेषु शत्रुं जयति सर्वदा ॥ ९ ॥

राज्यघ्नो लभेद्राज्य क्षीणायुर्त्रिंशत्तये न च ।
मृत्वा पीडा ग्रहाः सर्वे जान्ति कुर्वन्ति भर्जदा ॥१०॥

इति अभिषेकविधिः

अभिषेकात्पर पूजा कर्तव्या पूर्वमण्डले ।
मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ ११ ॥

“ॐ जू मः”

पश्चात्समर्पयेन्मन्त्रं रणदीक्षा भवेदियम् ।
तया समन्वितं चोरस्त्रिदशैरपि दुर्जयः ॥ १२ ॥

इति रणदीक्षा

पूर्वोक्तमण्डलस्यान्तर्यामिशस्त्राणि विन्यसेत् ।
पूजयेद्विधिवत्तानि ततो जागरणक्रिया ॥ १३ ॥

“ॐ त्वा ग्यौ गृ खै त्वा ग्यः रौद्रमूर्तये गङ्गाय नमः” ।

इति गङ्गामन्त्रः

“ॐ प्रा कौ कू कू कौ काः” ॐ भैरवरूपाय रक्षायुधाय
फलकाय नमः ।

इति फलकमन्त्रः

“ॐ ला लौ लं ले लौ लः इन्द्रायुधाय धनुषे नमः ।”

इति धनुमन्त्रः

“ॐ आं श्रीं श्रुं श्रुं श्रीं श्रुः” ब्रह्मादिपञ्चदेयतामूर्तये
पञ्चपाणाय नमः ।

इति पञ्चपाणमन्त्रः

“ॐ प्रां कौं कूं कूं कौं काः शुक्तिनो मूर्तये भैरवायुधाय
कुन्ताय नमः ।

इति कुन्तमन्त्रः

“ॐ अघोरेश्वरि चानुण्डे महाचामुण्डे सा श्रीं ह्रुं ऐं श्रीं
ह्रुः भगवतीमूर्तये फाल्गुयनीश्वरिणाय नमः”

इति शक्तिमन्त्रः

इति गणाङ्गपूजाविधिः

छागौ मातुलभाग्नेयौ तद्रोमकृतडोरके ।
 मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण दातव्य ग्रन्थिसप्तकम् ॥ १ ॥
 एवं कृतविधानेन जायते रणकङ्कणम् ।
 दक्षहस्तप्रबद्धेन युद्धे च विजयी भवेत् ॥ २ ॥
 इति यामले रणकङ्कणम्

कर्पूरं कुङ्कुमं चैव गोरोचनसमन्वितम् ।
 कोकिलाक्षस्य लेखिन्या श्वेतवस्त्रेऽतिशोभने ॥ ३ ॥
 ॐ कारद्वयमध्यस्थे साध्यनाम पटे लिखेत् ।
 तद्गर्भस्थं हकारं च टकारपरिवेष्टितम् ॥ ४ ॥
 पृथ्वीसम्पुटमध्यस्थ वर्गाष्टकयुतं ततः ।
 प्रणवाद्यरिनामेह हुंफडन्त दिगष्टके ॥ ५ ॥
 मन्त्रमेतं शत जप्त्वा पटं तन्मूर्ध्नि बन्धयेत् ।
 भीहं नयति वीरत्वं समरे च जयप्रदम् ॥ ६ ॥

इति वीरपट्टप्रिधिः

पूर्वोक्तेन विधानेन रणपट्टमितो लिखेत् ।
 कृत्वा हनुमतो रूपं हृदि मन्त्रममुं लिखेत् ।
 “ॐ हा हौं हूं ह्रौं हो हः हनुमते नमः ॥”
 मन्त्रमध्ये लिखेन्नाम निजयोधस्य सम्भवम् ।
 मूर्ध्नि बद्धेन तेनैव हनुमत्तुल्यविक्रमः ॥ ७ ॥

इति मरोदये रणपट्टप्रिधिः

त्रिशूलं दक्षिणे हस्ते कपालं वामके तथा ।
 भैरव रूप पूर्वद्रव्यै समालिखेत् ।
 त्रिपुरामन्त्रमाभ्या ग्रन्थनेन तु वेष्टयेत् ।
 मूर्ध्नि बद्धेन तेनैव त्रैलोक्यं जयति ध्रुवम् ॥ ८ ॥
 ॐ ह्रीं सां त्रिपुरायै नमः ॥ इति त्रिपुरामन्त्रः
 इति जयपट्टप्रिधिः

कन्याकृतितसूत्रेण अष्टोत्तरगुणेन च ।
 कर्तव्यो दोरकस्तेन स ग्रन्थिः कटिमानतः ॥
 मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण ग्रन्थयोऽष्टोत्तरं शतम् ।
 कृत्वैव मेग्वला जाता कटियद्धारिणाशिनी ॥

“ॐ जू सः” इति मेग्वलामन्त्रः

ब्रह्मणीकचर्चं कृत्वा यो योधः प्रविशेद्रणम् ।
 प्रभवन्ति न तस्याङ्गे प्रहाराः शत्रुनोदिताः ॥

इति कचम्

अनुलोमविलोमेन मन्त्रं मृत्युञ्जयं न्यसेत् ।
 रक्षान्तं च पद्मेषु न्यासोऽयं शत्रुवारणः ।

इति न्यासः

रसना घटिका ग्रस्ता अङ्गुष्ठोनामिकातले ।
 एतन्मुद्राप्रभावेण संग्रामे विजयी भवेत् ॥

इति मुद्रा

अष्टोत्तरमण्डलं च अघोरं मन्त्रमुत्तमम् ।
 जपयित्वा ततो घोरं मन्त्रराजमनुत्तमम् ॥
 पूर्वोक्तेरेव च द्रव्यैर्भूर्जपत्रे सुशोभने ।
 लिप्येन्मृत्युञ्जय मन्त्रं तन्मन्त्रं वीरनामकम् ॥
 मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण ग्रथितं तत्र नामकम् ।
 रक्षा कृत्वा करे पदूच्या संग्रामे विजयी भवेत् ॥

“ॐ जूं गः” इति रक्षा

आरण्यकलकं मूलं पुष्पाकेण तु शृण्वते ।
 कन्याकृतितसूत्रेण शशमेन तु दारकम् ।
 ग्रन्थयेन्मृत्युञ्जयेन प्रत्येकं च पृथक् पृथक् ।
 अष्टोत्तरशतेनैव जायते घोरकङ्कणम् ॥ ९ ॥

“ॐ कुमारि अवतर २ हरवाणाग्रवासिनी त्रिपुररुपं
सत्येन सर्वायुध भङ्गय २ स्वाहा”

इति मन्त्रः

अङ्कसंस्थेन तेनैव दुर्जयस्त्रिदशैरपि ।
स्तम्भयेत्सर्वशस्त्राणि सर्वशक्तिसमन्वितः ॥ १० ॥

इति वीरकङ्कणम्

अथौषधयः

ईश्वरी ब्रह्मदण्डी च कुमारी चैष्णवी तथा ।
वाराही वज्रिणी चंडो तथा रुद्रजटाभिधा ॥ ११ ॥
लाङ्गलो सहदेवी च पाठा राजी पुनर्नवा ।
मुद्गरी भूतकेशी च सोमराजी हनूजटा ॥ १२ ॥
श्वेतापराजिता गुञ्जा श्वेता च गिरिकर्णिका ।
क्षुद्रिका शङ्खिनो चैव विडङ्गी शरपुङ्खिका ॥ १३ ॥
खर्जूरी केतकी ताडो पूगो स्यान्नारिकेलिका ।
अञ्जनः काञ्चनारश्च चम्पकोऽश्मन्तकः क्रुद्धः ॥ १४ ॥
अपामार्गोऽर्कभृङ्गौ च ब्रह्मगृक्षो चटस्तथा ।
शतमूली चलायुग्मं गोजिह्वोपलसारिका ॥ १५ ॥
अष्टलोहरसा वज्रा हरिद्रा तालकं शिला ।
एताश्चौषधयो दिव्य जयार्थं संग्रहेद् बुधः ॥ १६ ॥
सूर्येन्दुग्रहणे प्राप्ते दोषोत्सवदिनत्रये ।
पुष्यम्रलार्कयोगे च महानवमिवासरे ॥ १७ ॥
खादिरेण च कीलेन प्रोद्धरेत्ता महौषधीः ।
यलिपूजाविधानेन सर्वकर्मसु सिद्धिदाः ॥ १८ ॥

तत्र मन्त्रः

येन त्वां खनते ब्रह्मा हन्द्रो विष्णुर्महेश्वरः ।
तेनाहं खनयिष्यामि तिष्ठ तिष्ठ महौषधि ॥ १९ ॥

तदोद्धृता कटोसूत्रं शिरःप्रभृतिषु स्थिता ।
 त्रिदशरूप्यवध्योऽसौ युद्धे चैव चतुर्विधे ॥ २० ॥
 इति यामले ओषधयः

वज्रो चण्डी च चक्री च त्रिशूली मुद्गरी तथा ।
 देहस्था समरे पुसां सर्वायुधनिवारिणा ॥ २१ ॥
 गृहीतं पुष्यनक्षत्रं अपामार्गस्य मूलकम् ।
 लेपमात्रेण वीराणां सर्वशस्त्रनिवारणम् ॥ २२ ॥
 अञ्जनः काञ्चनारश्च चम्पकोऽश्मन्तकः कुङ्कुम् ।
 लेपेन विजयी युद्धे वज्रदेहो भवेन्नरः ॥ २३ ॥
 खर्जूरीमुखमध्यस्था कटिबद्धा च केतकी ।
 भुजदण्डस्थितस्तालेः सर्वशस्त्रनिवारणः ॥ २४ ॥
 दक्षबाहुस्थितश्चाकीं वामेन्दुहृदये धरा ।
 रुद्रः पृष्ठस्थितो युद्धे वज्रदेहा भवेन्नरः ॥ २५ ॥
 त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा रसं वज्राभ्रसंयुतम् ।
 वक्त्रस्थं च ऊरुस्थं च सर्वायुधनिवारणम् ॥ २६ ॥
 गिरिकर्णां शर्मां गुञ्जा श्वेतवर्णां समाहरेत् ।
 चन्दनेनान्विता, सर्वास्तिलकेन जयी रणे ॥ २७ ॥
 अध पुष्पो शिम्वा चैव श्वेता च गिरिकर्णिका ।
 गोरोचनसमायुक्तं, तिलक शशुमोहनम् ॥ २८ ॥
 कनकार्कवटो वह्निः पन्डिदुः पञ्चमस्तथा ।
 करोति तिलक यस्तु पश्येत्तं पञ्चधा रिपुः ॥ २९ ॥
 कृष्णसर्पकपालं तु चितामृत्तिकयान्वितम् ।
 सितगुञ्जा वपेत्तत्र तस्या मूल समाहरेत् ॥ ३० ॥
 कृततिलक भेट दृष्ट्वा पश्येत्स्व वावृतं रिपु ।
 श्वर्गणैर्भक्ष्यमाण तु पतितं च ततो भुवि ॥ ३१ ॥

छाया यस्य जले जाति सग्राह्यः कासमर्दकः ।
अनेन तिलकनारिः कूपं वापीं प्रपश्यति ॥ ३२ ॥

इति सरोदये तिलकम्

ब्रह्मदण्डी च कौमारी ईश्वरी वैष्णवी तथा ।
वाराही वज्रिणी चण्डी महालक्ष्मीस्तथैव च ॥ ३३ ॥

एताश्चौषधयो दिव्यास्तथैता मातरः स्मृताः ।
हृदि गुल्फे ऋरे चक्षाः सर्वशस्त्रनिवारिकाः ॥ ३४ ॥

इति यामले ढस्का

वङ्गसोसकशुक्लाभ्रहेमतारसमन्वितैः ।
वज्रायमादिभिर्युक्तः क्रियते पारदो रसः ॥ ३५ ॥

वज्राणा द्रावण वक्ष्ये पारदस्य च बन्धनम् ।
लघुद्रावं च लोहेषु संयोगार्थं परस्परम् ॥ ३६ ॥

अस्थिशृङ्गलमध्यस्थ कृत्वा वज्रं निरुन्धितम् ।
जलभाण्डे विनिक्षिप्य स्वेदयेद्दिनसप्तकम् ॥ ३७ ॥

वङ्गिकारससंगृष्टं नष्टविष्टं तु पारदम् ।
ठिक्काकन्दस्य मध्यस्थ बन्धनार्थं ततः पुटे ॥ ३८ ॥

रेतितं लोहचूर्णं तु दृक्कणेन तु भावितम् ।
लघुद्रावि भवेदेव ताम्रपात्रे न संशयः ॥ ३९ ॥

सर्वास्तानेकत कृत्वा मुग्गमयस्थिता भवेत् ।
गुटिका जायते रम्या नाग्नी वज्राङ्गसुन्दरी ॥ ४० ॥

मुग्गस्थासिद्धिदा प्रोक्ता जरामृत्युविनाशिनी ।
सद्भामे विजयी वीरो उज्जदेहो महाबल ॥ ४१ ॥

सर्वलोकप्रियो नित्य नारीणां बलभस्तथा ।
गुटिकेय समाख्याता यथोक्ता ब्रह्मयामले ॥ ४२ ॥

इति वज्राङ्गसुन्दरी गुटिका

मिंहो व्याघ्रो मृगी हमी चतुर्थेय रूपदिक्का ।
एतासा लक्षणं वक्ष्ये प्रभाव च यथाक्रमम् ॥ १ ॥

सिही सुवर्णवर्णा च व्याघ्री धूम्रा सरेखिका ।
 मृगी तत्र विजानीयात्पीतपृष्ठ। सितोदरो ॥ २ ॥
 हसी जलतरा श्वेता विदन्ता नातिदीर्घिका ।
 एवं विशेषान्विज्ञाय ततः कर्म समाचरेत् ॥ ३ ॥
 औषधी सिहिका नाम तस्य शूलस्य यो रसः ।
 सिहो कपर्दिकामध्ये क्षेप्यस्तन्मूलसंयुतः ॥ ४ ॥
 पिधाय वदनं तस्याः सिक्थेन च समन्वितः ।
 अस्यां वक्रस्थिताया तु मिहवज्जायते नरः ॥ ५ ॥
 मदोन्मत्ता गजास्तस्य दर्शनेन पराङ्मुखाः ।
 रणे राजबले द्यूते विवादे चापराजितः ॥ ६ ॥

इति सिही

व्याघ्रीरसेन सघृष्टः पारदो मूलसंयुतः ।
 पूर्ववत्साधयेद्द्वयाघ्रौ फलं चैव तथाविधम् ॥ ७ ॥

इति व्याघ्री

मृगसूत्रेण सम्भिन्ना मृत्तिका रससंयुता ।
 मृगधिष्णये क्षिपेन्मृग्यां तस्याः फलमतः शृणु ॥ ८ ॥
 मुखमध्ये स्थिताया च वशी भवति मानवः ।
 रतिकाले मुखस्थाया बालाप्राणहरो नरः ॥ ९ ॥

इति मृगी

हंसपादीरसैर्घृष्टः पारदो मूलसंयुतः ।
 हंसीमध्ये क्षिपेद्धीमान् मुखस्था सर्वसिद्धिदा ॥ १० ॥
 ग्रहाः पीडा न कुर्वन्ति दुष्टारिष्ट तथैव च ।
 स्थावर जङ्गमं चैव विष नश्यति तत्क्षणात् ॥ ११ ॥

इति हसी

इति यामलीये स्तरोदये कपर्दिका समाप्ता ।

कृत्तिका च विशाखा च भौमवारेण संयुता ।
तद्दिने घटितं शस्त्रं संग्रामे जयदायकम् ॥ १ ॥

इति यामले योगघटितशस्त्राणि

अपामार्गरेसेनैव यानि शस्त्राणि लेपयेत् ।
जायन्ते तानि संग्रामे वज्रसाराणि निश्चितम् ॥ १ ॥

इति शस्त्ररक्षा

विद्युत्पातमृतास्थानि पेपयेत्करकांबुना ।
अनेन लेपनं कुर्यात् संनाहफलकेषु वा ॥ १ ॥
तत्र लग्नानि शस्त्राणि झुटन्ति च नमन्ति च ।
न भिन्दन्ति शरोराणि पुष्पाणीव मृदूनि च ॥ २ ॥

इति यामले शस्त्रमोदनम्

कृष्णसर्पशिरास्यष्टौ विषं पञ्चपलानि च ।
छुछुन्दरीवसाष्टौ च तथा च गृहगोधिका ॥ १ ॥
कृष्णस्य वृश्चिकस्याष्टौ कपिकच्छू' पलाष्टकम् ।
द्वे पले हरितालस्य कृकलासरसः पलम् ॥ २ ॥
लाङ्गलीकरवोराभ्यां त्रीणि त्रीणि प्रकीर्तिताः ।
एतेषां शोधित कल्कं भल्लातकसमायुतम् ॥ ३ ॥
सर्वेषामेव शस्त्राणां लेपोय समुदाहृतः ।
विद्वान्तु तैर्ये मनुजास्त्यजन्ते जीवित ध्रुवम् ॥ ४ ॥
रक्तकञ्चुकया नारी रक्तप्रावरणा च या ।
नटदारुसमायुक्ता पर्वतानपि साधयेत् ॥ ५ ॥
गृहीत्वा मक्षिका नीला पङ्क्तिन्दुकीटकान्विताम् ।
शस्त्रलेपेन घाताद्धि जायन्ते कोटका व्रणे ॥ ६ ॥

इति स्मरोदये शस्त्रलेपः

पङ्क्तिशल्या चतुःपष्टया शतेनाष्टोत्तरंण वा ।
मयूरोद्धरुपक्षाणां तन्मानं ग्रन्थिपिच्छिका ॥ १ ॥

ग्रहणे ' मुक्तिपर्यन्तं रक्तसूत्रेण ' वेष्टयेत् ।
 इष्टमन्त्रं जपेत्सत्यं सिद्धं रणेऽरिनाशनम् ॥ २ ॥
 विसर्गमूलजातेन गच्छ गच्छ पर ध्रुवम् ।
 सर्वोच्चस्थानगो धीरः स्वसैन्यविजयावहः ।
 पैच्छिकस्य विधिश्चायं ब्रह्मयामलभापितः ॥ ३ ॥

इति यामले पैच्छिकविधिः

लाङ्गली ब्रह्मदण्डी च कृष्णोन्मत्तरसान्विता ।
 मर्दयित्वाविकं चर्म पश्चाद्यन्त्रं समालिखेत् ॥ १ ॥
 काकरक्तं तथा विष्टा चिताङ्गारहलाहलम् ।
 काकपिच्छम्यलेबिन्या लिखेद्यन्त्रं चमार्गलम् ॥ २ ॥
 मध्यबीजस्य मध्यस्थ शत्रुनाभ ससैन्यकम् ।
 बाह्ये तु वायुबीजेन वेष्टयेत्त्रिगुणं पुनः ॥ ३ ॥
 वायुमण्डलग कृत्वा वायुबीजेन रक्षिकाम् ।
 द्वादशस्वरसंयुक्तं वेष्टयेत्सव्यमार्गतः ॥ ४ ॥
 ताम्रकस्यास्य नादेन व्याकुलीभूतमानसाः ।
 बलं मुक्त्वा महावीराः पलायन्ते महारणात् ।

इति ताम्रकविधिः

हेमायस्त्रपुरौप्याणा समैर्भागैस्ततः पुनः ।
 द्वादशघ्नेन ताम्रेण कारयेज्जयकाहलम् ॥ १ ॥
 काहली रससंलिप्ता वादयेत्ता रणाङ्गणे ।
 श्रुत्वा नादं प्रणश्यन्ति बलिष्ठा अपि शत्रवः ॥ २ ॥

इति यामले काहलविधिः

ताम्रकस्य विधानं तु ढक्कायामपि कारयेत् ।
 तथैव फल्गुमप्युक्तं समराङ्गणभूमिषु ॥ १ ॥

इति यामले ढक्काविधिः

तुम्बिनी चित्रकं दण्डी कृष्णोन्मत्तरसान्विता ।
 मार्जयेन्मौर्जं चर्म सप्तवारान्पुटद्वयम् ॥ १ ॥
 दण्डी ,सचित्रका दन्तो लज्जालुरसमंयुता ।
 पुटे विमर्दयेत्तेन जायते वाद्यभाजनम् ॥ २ ॥
 ब्राह्मी जातो कुमारी च विद्युद्भस्मोदकान्विता ।
 हृष्टमन्त्राभिजप्तं तु जयार्थं वाद्यभाजनम् ॥

इति मुरजविधिः

अग्निहोत्रश्मशानान्त्यजातिगेहसमुद्भवम् ।
 भस्मत्रितयमादाय कर्तव्यं तस्य कुट्टनम् ॥ १ ॥
 इन्द्रवृक्षमयं कार्यं सुसलोलूखलादिकम् ।
 चतुरस्रे सपद्मे च द्वारहीने च मण्डले ॥ २ ॥
 स्थापित्वोलूखले तत्र कुर्युस्तद्भस्मकुट्टनम् ।
 'चतुर्वर्णोद्भवा' कन्याश्चतुःपष्टिप्रमाणतः ॥ ३ ॥
 चतुर्विंशतिमुख्या वा रासगीतेन संयुतम् ।
 त रासं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वं मन्त्रमयं शुभम् ॥ ४ ॥

ॐ कालउकुरुक्कु-सुसुहुयतडुडुसुत्तिडव भराडभक्षित-
 करेत्त कि एहा एहि कि पिछ एहि मडडसुग्रडसुग्रड-एहाएहं
 इति रासगीतम् ।

एतद्भस्मकृतां रखा लङ्घयन्ति न वैरिणः ।
 क्षिप्यते च रिपोः सैन्यं भङ्गमायाति तत्क्षणात् ॥-१ ॥

इति भस्माधानम्

मारणे माहने स्तम्भे विद्वेषोच्चाटने वशे ।
 एकं यमार्गलं यन्त्रभेदेन बहुधा स्थितम् ॥

द्वादशाक्षकम्

द्वादशारं लिखेच्चक्रं घृत्तत्रयविभूषितम् ।
 उष्ट्रीमन्त्रं च तद्वाद्ये यमश्लोकं च मध्यतः ॥

ॐ ह्रीं ह्रीं विकटदष्टानने हुंफट् ।
 उषट्ठीमन्त्रमिमज्जाप्य दशसाहस्रसख्यया ।
 मध्वाज्याक्तै रक्तपुष्पैः सहस्रं होमयेत्ततः ॥ १ ॥
 ततः सिद्धो भवेन्मन्त्रो यथेप्सितफलप्रदः ।
 यस्य प्रभावमात्रेण शत्रवो यान्ति सङ्ख्यम् ॥ २ ॥

इत्युष्ठी

यमराजस्य पद्यं तु प्रोच्यमानं मया शृणु ।
 यमराजसदोमेययमेदारुणयोदयः ।
 यदयोनिरगोक्षेपपक्षेयंक्षनिरामयः ॥ ३ ॥

इति यमश्लोकः

इमं यमश्लोकं द्वात्रिंशत्सहस्राणि जपेत् । घृतमधुरक्तपुष्पैः
 सहस्रकं होमयेत् । ततः सिद्धो भवति । ननसेप्सितानि
 कार्याणि करोति ॥

इति मोहनम्

चितागारं विषं रक्तं कृष्णोन्मत्तरसस्तथा ।
 एतैर्नरास्थिलेखिन्या यन्त्रं प्रेतपटे लिखेत् ॥ ४ ॥
 साध्यनाम चतन्मध्ये हूं च राजिकया कृतम् ।
 यमरूपमिदं साक्षान्महिषासनग कुरु ॥ ४ ॥
 कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां गन्तव्यं पितृमन्दिरे ।
 नग्नो मुक्तशिखो भूत्वा मद्यमासैः प्रपूजयेत् ॥ ६ ॥
 क्षिप्तोच्छिष्टगरावेषु कृष्णसूत्रेण वेष्टयेत् ।
 श्मशानभूमिमध्यस्थः सप्ताहान्मारयेद्रिपुम् ॥ ७ ॥

इति स्वरोदये मारणविधिः

रोचना कुङ्कुमं चन्द्रं कृष्णोन्मत्तरसान्वितम् ।
 रोहितोद्भवलेखिन्या भूर्जपत्रे लिखेदिदम् ॥ १ ॥

साध्यनाम च तद्गर्भं बाह्ये चैकाररञ्जिका ।
 वह्निमण्डलगं कृत्वा रक्तसूत्रेण वेष्टयेत् ॥ २ ॥
 मिक्थकेनावृत कृत्वा सुराकुम्भे विनिक्षिपेत् ।
 पूजयेद्रक्तपुष्पैश्च सप्ताहान्मोहयेद् ध्रुवम् ॥ ३ ॥

इति स्वरोदये मोहनरिधिः

शिलातालहरिद्राश्च मेघमृत्रसमन्विताः ।
 कोकिलाक्षस्य लेखिन्या नीलरक्तपटे लिखेत् ॥ १ ॥
 साध्यनाम च तन्मध्ये रञ्जकाक्तं निवेशयेत् ।
 पर्वताकृतियन्त्रं च शिलातलनिवेशितम् ॥ २ ॥
 पूजयेत्पीतपुष्पैस्तु कुङ्कुमेन च वा पुनः ।
 स्तम्भनं देहमनसोः सप्ताहाज्जायते रिपोः ॥ ३ ॥

इति यामले स्तम्भनम्

निम्बाक्षचित्रकैस्तुल्यैर्महिपीरुधिरान्वितैः ।
 प्रेतवस्त्रैःकलेखिन्या लिखेद्यन्त्रमिदं चरम् ॥ १ ॥
 साध्यसाधकयोर्नाम परस्परपराद्भुग्वम् ।
 व्यतिक्रमाक्षरं चापि यन्त्रमध्ये निवेशयेत् ॥ २ ॥
 रञ्जकाफट्समायुक्तं महिपाश्वान्तरे कृतम् ।
 निम्बवृक्षतले न्यस्त सप्ताहाद् द्वेषकारकम् ॥ ३ ॥

इति स्वरोदये विद्वेषणरिधिः

काकविड्विपरक्तेन शवध्वजपुपटे शुभे ।
 काकपक्षस्य लेखिन्या लिखेद्यन्त्र स्वरादयी ॥ १ ॥
 साध्यनाम लिखेत्तत्र चतुष्कोणेषु मध्यगम् ।
 सविसर्गखकारेण त्रिरुचारेण रञ्जिका ॥ २ ॥
 उष्ट्राखण्ड कृत यन्त्रं यद्द काकगले ततः ।
 सयन्त्रे वायसे मुक्ते ततस्तूद्याटन भवेत् ॥ ३ ॥

इति यामले उद्याटनरिधिः

कालेधरोचनाचन्द्रैर्लज्जालुगजवारिभिः ॥ १ ॥
 मदनोद्भवलेखिन्या यन्त्रं भूर्जे लिखेदिदम् ॥ १ ॥
 साध्यनाम च तन्मध्ये क्लोङ्कार रञ्जिकान्वितम् ।
 नराकृतिकृतं यन्त्रं सिक्थकेन च वेष्टयेत् ॥ २ ॥
 त्रिमधुरे स्थापितं च रक्तपुष्पैश्च पूजितम् ।
 सप्तरात्रेण तद्यन्त्रं वशीकरणमुत्तमम् ॥ ३ ॥

इति श्मरोदये वशीकरणविधिः

एवं सर्वेषु कार्येषु विधियुक्तं तु कारयेत् ।
 ततस्तु मिथ्यते यन्त्रं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १ ॥
 हनूमन्तं कालरात्रिं महामारीं खगाधिपम् ।
 भैरवं क्षेत्रपालं च फणीन्द्रं गणनायकम् ॥ २ ॥
 पताकाया लिखेदेतदष्टकं पूर्वमूचितम् ।
 ततः सारतरं ज्ञात्वा प्रथमं विस्तराद्ददत् ॥ ३ ॥
 आरण्यपलहोत्तुलं सदृष्टीतं शुभे दिने ।
 कन्याकर्तितसूत्रेण दिने वस्त्रं विनिर्मितम् ॥ ४ ॥
 सार्धहस्तत्रयं श्वेतं शेषं तत्र प्रदापयेत् ।
 हरिद्राहरितालेन शैलेयसंयुतेन च ॥ ५ ॥
 लिखेद्धनुमतो रूपं पञ्चद्वयहुलमानकम् ।
 दीर्घदन्तं करालाङ्गं दीर्घबाहुनखान्वितम् ॥ ६ ॥
 चामहस्ते ध्वजं कुर्यादक्षिणं मेरुपर्वतम् ।
 षड्भुजं महारौद्रं जिह्वालाङ्गुलोलितम् ॥ ७ ॥
 रक्तवस्त्रं सकौपीनं शिखासुकुटधारिणम् ।
 हृत्पद्मे विन्यसेत्तस्य निजनाथनामकम् ॥ ८ ॥
 हनूमतो लिखेत्तत्र मूलमन्त्रं दलाष्टके ।
 मालामन्त्रेण तद्वाच्ये मन्त्र्यमार्गेण वेष्टयेत् ॥ ९ ॥
 ॐ हां हीं हूं हैं हौं हः हनुमतोऽयं मूलमन्त्रः ।

ॐ वज्रकाय वज्रतुण्ड कपिल पिगल ऊर्ध्वकेश महाबल-
पराक्रम रक्तमुख तडिलिह्व महादंष्ट्रोत्कट कटतीव्रकपालिन्
महाहृदप्रहार लङ्केवर महासेतुवधने शैलप्रवाह गगनचर
एह्येहि भगवञ्शतसहस्रसूर्यसमानरूप भैरवाज्ञापयेति
एह्येहि दीर्घलाङ्गुलेन अमुकशत्रुं वेष्टय वेष्टय भञ्जय भञ्जय
खं खं रे रे हुं फट् ।

इति मालामन्त्रः समाप्तः

गात्रेषु दापयेद्रेफैश्चतुष्पट्टिप्रमाणकैः ।
पङ्क्वर्णान्विन्यसेच्चापि रसनाग्रे द्विरेखया ॥ १ ॥
स्तम्भिनी मोहिनी चैव रोधिनी भञ्जिनी तथा ।
गात्रेषु विन्यसेद्देवी प्रणवादिनमोऽन्तगाः ॥ २ ॥
लकारं पर्वते दद्यात्पुच्छदण्डे बुकारकम् ।
चुकारं सुग्वमध्यस्थं हुङ्कारं च तदग्रतः ॥ ३ ॥
वदने मस्तके गुह्ये मूलमन्त्रं न्यसेद् बुधः ।
लांगूले मातृकां वापि क्षादिकान्प्रणवादिकम् ॥ ४ ॥
मस्तकोपरि कर्तव्या मातरो ग्रहसंयुताः ।
अष्टम्यां च चतुर्दश्या प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ॥ ५ ॥
सुपर्वे चैव नक्षत्रे ताराचन्द्रबलान्विते ।
रक्ताम्बरधरो मन्त्री रक्तगन्धानुलेपनः ॥ ६ ॥
रक्तपुष्पकृताटोपः सम्पत्सन्नद्विविग्रहः ।
उद्वरेदक्षतैः पद्ममष्टपत्रं सुशोभनम् ॥ ७ ॥
स्तम्भिनी मोहनी चैव रोधिनी भञ्जिनी तथा ।
पूर्वादितश्चतुर्दिक्षु क्रमाद्देवीनिवेशयेत् ॥ ८ ॥
उड्डीयानादिकान् पीठान् स्थापयेदीशकोणतः ।
भैरवी भैरवा सिद्धिग्रहा नागा दिशाधिपाः ॥ ९ ॥
प्रत्येकं क्रमयोगेन न्यमेत्पत्राष्टके बुधः ।
पूजा चैव क्रमेणैव कर्तव्या स्वरमण्डले ॥ १० ॥
नानाप्रकारशोभाढये कर्पूरागरुवासिते ।

चन्द्रोदयकृतादोषे ध्वजाष्टरुविभूषिते ॥ ११ ॥

मण्डलस्यास्य मध्ये तु कुर्याद्दूर्ध्वं ततः पटम् ।

स्नापयेत् पञ्चगव्येन दर्पणोदरमध्यगम् ॥ १२ ॥

अग्निमास्तवीजेन विदध्यादात्मनं ततः ।

मूलमन्त्रं न्यसेन्मूर्ध्नि हनुदेवस्य मान्त्रिकम् ॥ १३ ॥

ॐ हा हूं हनुमते नमः इति मूलमन्त्रः

अङ्गेषु विन्यसेदस्य पटम्बरान् दीर्घसंज्ञकान् ।

ककारादिक्षकारान्तान् स्तम्भिन्यादिषु विन्यसेत् ॥ १४ ॥

पञ्चोपचारमिश्रैश्च मद्यमांसाशनैस्ततः ।

पूजयेत्सकलान्देवान् प्रणवादिनमोन्तरान् ॥ १५ ॥

पूजां कृत्वा विधानेन ध्यानं कृत्वा विचक्षणः ।

सुशोभनप्रयोगेण सिद्धिर्भवति सर्वदा ॥ १६ ॥

विचित्रवस्त्रसंयुक्तं वाद्याभरणभूषितम् ।

रक्तवस्त्रं महाभामं सर्वलोकभयङ्करम् ॥ १७ ॥

ध्यानं लक्षं जपेत्तस्य मूलमन्त्रं नवाक्षरम् ।

मध्वाज्यरक्तपुष्पैश्च होमं कृत्वा दशाशतः ॥ १८ ॥

कुमारीर्भोजयेत्तत्र चतुष्पष्टिप्रमाणतः ।

आचार्यं दक्षिणा दद्यान्नगरग्रामखेटकम् ॥ १९ ॥

काष्ठपापाणघातृना पूजा या निर्मितापि च ।

प्रतिष्ठा क्रियते तत्र देशे ग्रामे पुरेऽपि वा ॥ २० ॥

न दुर्मिक्षं भवेत्तत्र न च व्याधिभयं भवेत् ।

परचक्रागमो नैव व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ २१ ॥

न पतत्यशनिस्तत्र न च रोगभयं भवेत् ।

डाकिनी भूतवेतालाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ २२ ॥

हनूमतः प्रभावेण विपपीडा न जायते ।

हनूमतः पताकेयं गजाश्वोपरि सस्थिता ॥ २३ ॥

धारिता सा प्रयत्नेन रिपुसैन्यस्य सन्मुखी ।

हनुमतः पताक्रेयं गजाश्वदीन् पराक्रमेत् ॥ २४ ॥

तस्या दर्शनमात्रेण व्याकुलीभूतमानसाः ।

नश्यन्ति रिपवस्तस्य सिंहस्येव यथा मृगाः ॥ २५ ॥

इति स्वरोदये हनुमत्पताका ।

अथ रक्षां प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिप्रदायिकाम् ।

स्तम्भिनीं शत्रुसैन्यस्य भृशुजादिवशङ्करीम् ॥ १ ॥

रोचनाकुङ्कुमाभ्यां च भूर्जपत्रे सुशोभने ॥ २ ॥

सुवर्णमयलेखिन्या यन्त्रमष्टदलं लिखेत् ।

साध्यनाम च तन्मध्ये मूलमन्त्रं दलाष्टके ॥ ३ ॥

मालामन्त्रश्च तद्वाह्ये त्रिधा हीङ्गारवेष्टितम् ।

त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा कटिबाहुशिरःस्थितम् ॥ ४ ॥

धारयेद्यस्त्विमा रक्षा तस्य विघ्नं न जायते ।

रणे राजकुले द्यूते व्यवहारे पराजये ॥ ५ ॥

शस्त्रं नाक्रमते तस्य वज्रदेहो महाबलः ।

उपसर्गादिदोषेषु विषे स्थावरजङ्गमे ॥ ६ ॥

न भयं विद्यते तस्य स्त्रीणां चैवातिवल्लभः ।

तस्य पीडां न कुर्वन्ति ग्रहाश्चैव उपग्रहाः ॥ ७ ॥

न तेषां दुष्कृत किञ्चिन्न भयं तस्य विद्यते ।

जलजाग्निभयं नास्ति व्याघ्रनस्करज भयम् ॥ ८ ॥

ज्वराः सर्वे प्रणश्यन्ति घ्याहिकाद्या विशेषतः ।

इयं हनुमतो रक्षा सर्वोपद्रवनाशिनी ॥ ९ ॥

इति स्वरोदये हनुमद्रक्षापिधिः ।

पिच्छाकारं पटं कृत्वा पताकावद्विधानतः ।

चन्द्रार्कग्रहणे प्राप्ते हनुमन्तं लिखेत्ततः ॥ १ ॥

मातृकाया जपेत्तत्र यावन्मुक्तिः प्रजायते ।

होमयेच्च दशांगेन तिलमर्पपकादिभिः ॥ २ ॥

युद्धकाले च तत्पिच्छं गजाश्वोपरि संस्थितम् ।

दर्शनं शत्रुसैन्यस्य भङ्गो भवति निश्चितम् ॥ ३ ॥

इति स्वरोदये हनुमत्पिच्छरूपिधिः ।

मदनेन हनुं कृत्वा पूर्वलक्षणलक्षितम् ।
 वर्तितं चैव लांगूलं कारयेत्साधकेश्वरः ॥ १ ॥
 परचक्रस्य ये मुख्या लांगूलस्थानुकारिणः ।
 गजाश्वरथयानानि वहिःस्थानि तु कारयेत् ॥ २ ॥
 पूर्वमन्त्राक्षरैर्भेद्यं लांगूलेन तु वेष्टयेत् ।
 वेष्टयेत्प्रतिमां सर्वाभापादतलमूर्धजाम् ॥ ३ ॥
 स्थापयेत् पूर्वविधिना परचक्रस्य संमुखम् ।
 दर्शनात् परचक्रस्य भङ्गमायाति तत्क्षणात् ॥ ४ ॥
 अथवा होमयेत्तत्र लाङ्गलीलवणं विपम् ।
 राजिका तुपकेशास्थिन्यूपणं निम्बमेव च ॥ ५ ॥
 पट्कोणकुण्डमध्ये तु निम्ब्याक्षचित्रकोद्भवाः ।
 समिधो ज्वालयेत्तत्र नैर्ऋत्याभिमुखे स्थितः ॥ ६ ॥
 होमयेद्धनुमन्त्रेण सहस्रैकं दिने दिने ।
 दिनसप्तकमध्ये तु शत्रौ पीडा ततो भवेत् ॥ ७ ॥
 अद्गदाहा महापीडा विस्फोटो गन्धलूतिका ।
 म्रियते नात्र सन्देहः संग्रामं कुरुते यदि ॥ ८ ॥

इति सरोदये हनुमन्मन्त्रहोमविधिः

मालामन्त्रं पठेद्यस्तु हनूमतो रणाङ्गणे ।
 तस्याङ्गं वज्रवद्युद्धे हनृतुल्यपराक्रमम् ॥ १ ॥

ॐ हौं हीं ह्रौं ह्रौं ह्रौं ह्रः इति मालामन्त्रः ।

पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि वेत्स्यं परमदुर्लभम् ।
 माण्डूकं नाम विख्यात सर्वशास्त्रेषु गोपितम् ॥ १ ॥
 जानयेन्निर्वण शुद्धं भूर्जपत्रं सुशोभनम् ।
 तस्मिस्तु ग्वररक्तेन वामकर्णोद्भवेन तु ॥ २ ॥
 चिताद्गारविपर्युक्तं कृष्णोन्मत्तरसेन च ।
 कुलिके विलिखेद्यन्त्र नैर्ऋत्याभिमुखस्थितः ॥ ३ ॥
 प्रेतवचिन्तयेत् साध्यं मुक्तकेश विवस्त्रकम् ।
 युद्धायुधैः कृत यन्त्रं कृत्वा मध्येऽरिनामकम् ॥ ४ ॥

तन्नामरेखया भिन्द्यात्कोपाविष्टस्तु साधकः ।
 षोडशित्वा तु यन्त्रं तु शाल्दूरस्य मुखे क्षिपेत् ॥ ५ ॥
 कीलयेत् पुष्टलोहेन शल्यकाण्डमयेन वा ।
 आनयेदारनालं च सप्तगोहोद्भवं ततः ॥ ६ ॥
 तन्मध्ये दर्दुरं क्षिप्त्वा तद्भाण्डं मुद्रयेत्ततः ।
 तापयेद्युद्धकालेपि चिताद्गारानलोपरि ॥ ७ ॥
 गात्रस्तम्भो मनःस्तम्भो वायुपीडा तथोदर ।
 म्रियतेऽरिर्न सन्देहो यदि शक्रसमो रणे ॥ ८ ॥
 इति स्तम्भोदये मण्डूकयन्त्रविधिः ।

शिलातालहरिद्राभिरर्कपत्रयुगे लिखेत् ।
 कोकिलाक्षस्य लेखिन्या स्तम्भान्तं रिपुनामकम् ॥ १ ॥
 त्रिठकारैः समावेष्ट्य तद्वाद्ये पार्थिवं पुग्म् ।
 वज्राष्टक-समोपेत रेखाषोडशदीपितम् ॥ २ ॥
 मायाबीजेन सवेष्ट्य त्रिधाङ्कुशनिरोधितम् ।
 तद्यन्त्रं योजयित्वा तु कण्टकैः कीलयेत्ततः ॥ ३ ॥
 क्षिपेद्वल्मीकमध्ये तु पापाणैस्तत्र पूरयेत् ।
 पश्चात्समारभेद्युद्धं विवादं साध्यसाधकम् ॥ ४ ॥
 गात्रस्तम्भो भवेदेवं मनःस्तम्भस्तथैव च ।
 जिह्वास्तम्भो विवादे च साध्योऽसौ जायते ध्रुवम् ॥ ५ ॥
 इति स्तम्भनयन्त्रविधिः ।

अर्कपत्रयुगे नाम चिताद्गारेण वेष्टयेत् ।
 पूर्ववत्कीलयेत् पश्चाच्छिलयाच्छादयेद्दृढम् ॥ १ ॥
 एतद्यन्त्रप्रभावेण मनोभङ्गो भवेत् पुनः ।
 अथ प्रविश्य संग्रामे म्रियतेऽरिर्न संशयः ॥ २ ॥
 इति शत्रुभङ्गविधिः ।

रेफयुक्तं हकारं च वपट्स्वरविभूषितम् ।
 आतनामोदरे कृत्वा हीङ्कार रेफसयुतम् ।
 नादयिन्दुसमायुक्तमोङ्कारं सम्पुटे स्थितम् ॥ १ ॥

दिक्षु वज्राष्टसम्भिन्नं षोडशास्वरवेष्टितम् ।
 वज्राग्रेषु च सर्वेषु मूलमन्त्र यथेप्सितम् ॥ २ ॥
 आदिबीजोदरे नाम दत्त्वा तस्य परिस्फुटम् ।
 लिखित्वा वेष्टितं सर्व मायया वेष्टितं त्रिधा ॥ ३ ॥
 कलिमण्डलदण्डारूयं यन्त्रं विघ्नविनाशनम् ।
 श्वेताम्बरधरो मन्त्री शुभध्यानपरायणः ॥ ४ ॥
 उत्तराभिमुखो भूत्वा लिखेद्यन्त्रं शुभोदये ।
 कांस्यभाजनमध्ये तु चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ५ ॥
 लिखेद्दर्भस्य लेखिन्या मुष्टित्रयप्रमाणतः ।
 सुगन्धिकुसुमैः श्वेतैरष्टोत्तरशतेन च ॥ ६ ॥
 अर्चयेद्विधिवद्यन्त्रं फलं यावद्दिने दिने ।
 लिखितं पूजितं चैव प्रक्षालयेज्जलेन तम् ॥ ७ ॥
 तज्जलं पीतमात्रं तु परविद्याविनाशनम् ।
 शाकिनीभूतवेतालाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ ८ ॥
 भवन्ति निष्प्रभाः सर्वे यन्त्रस्यास्य प्रभावतः ।
 शूलं विष्टम्भिकाजीर्णं लृप्ताविस्फोटकादयः ॥ ९ ॥
 अभिचारकृतो दोषो विषं स्थावरजङ्गमम् ।
 गर्भं च वेदना यस्या गूढगर्भस्तु यो भवेत् ॥ १० ॥
 एवं रोगैस्तु दुःखार्ताः स्वस्थास्युः सर्वजन्तवः ।
 बन्ध्यापि लभते पुत्रं मृतवत्सा च जीवसूः ॥ ११ ॥
 दुर्भगा सुभगा चैव यन्त्रस्यास्य प्रभावतः ।
 कृत्याः प्रशमनं यान्ति मारुतश्लेष्मपैत्तिकाः ॥ १२ ॥
 जीर्णज्वराश्च विषमाः शीतदाहज्वरात्मकाः ।
 एवमप्यास्थितं यन्त्रं करोति विपुलां श्रियम् ॥ १३ ॥
 इति स्वरोदये कलिकुण्डलयन्त्रविधिः ।
 शान्त्यर्थं निजनाथस्य जयार्थं रणकाक्षिणाम् ।
 यन्त्रं मृत्युञ्जयं नाम प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ १४ ॥

हंसमध्यगतं नाम मृत्युञ्जयपुटीकृतम् ।
 रक्ष रक्ष समायुक्तं बाह्यरेखात्रयाघृतम् ॥ २ ॥
 चवर्गस्य तृतीयो यो विन्दुपट्स्वरभूपितः ।
 हाद्यन्तःसविसर्गश्च मन्त्रोऽयं प्रणवादिक ॥ ३ ॥
 पद्ममष्टदलं बाह्ये जम्भाया दिग्दले स्थिताः ।
 विदिक्षु प्रणवं न्यस्य पत्रं षोडशक वहिः ॥ ४ ॥
 स्वराः षोडश दातव्याः प्रत्येकं सर्वतो दिशि ।
 द्वात्रिंशत्पत्रकं पद्मं तद्बाह्ये विनिवेशयेत् ॥ ५ ॥
 कादियुक्तौ हसौ वर्णौ स्थापयेत्क्रमशस्ततः ।
 चतुष्पष्टिदल बाह्ये भैरवाद्यास्ततो लिखेत् ॥ ६ ॥
 भैरवो भैरवा सिद्धिर्ग्रहा नागा दिशाधिपाः ।
 पीठोपपीठसंयुक्त क्षेत्रपालादिरष्टकम् ॥ ७ ॥
 आनयेन्निर्व्रणं भूर्जं ग्रन्थिहीन सुशोभनम् ।
 वर्णभेदेन संगृह्य ब्राह्मणादिक्रमेण च ॥ ८ ॥
 ककारादित्रिद्रव्येण गोङ्कारस्य त्रयेण च ।
 पङ्क्त्यैर्यन्त्रमालिख्य साध्यनामसमन्वितम् ॥ ९ ॥
 सुवर्णमयलेखिन्या उत्तराभिमुखं निशि ।
 चन्द्रवारे लिखेद्यन्त्रं मृत्युञ्जयविधानकम् ॥ १० ॥
 अनेन मदनस्थेन कृत्वा लिङ्ग सुशोभनम् ।
 पश्चामृतेन दिव्येन स्थापयेत् सप्तवासरान् ॥ ११ ॥
 पश्चाच्च भक्तकं देयं लक्ष्मैकमयुतं ततः ।
 साध्यनामयुतं मन्त्रं रक्षार्थमुद्धरत्तत ॥ १२ ॥
 पूजयेच्छ्वेतपुष्पैश्च कर्पूरागरुचन्दनैः ।
 छादयेत्पट्टवस्त्रेण सप्ताहाच्छान्तिक भवेत् ॥ १३ ॥
 मध्वाज्यं गुग्गुलुं तालश्रीपर्णैः सप्तमर्षपैः ।
 पद्माकारेण कुण्डेन होमं कुर्यादृशाशनः ॥ १४ ॥
 शमोदूर्वासमिद्धिश्च रुद्रागाभिमुखस्थितः ।
 मुद्रां च खेचरीं बद्ध्वा स्मरान्तं हंसयेत्ततः ॥ १५ ॥

मुच्यन्ते रोगिणो रोगात् पापात्मा पापवर्जितः ।
 त्यक्त्वा पीडा ग्रहाः क्रूराः सौम्यता यान्ति नान्यथा ॥ १६ ॥
 शाकिनीभृतवेतालाः पिशाचोरगराक्षसाः ।
 ज्वरास्तस्य प्रणश्यन्ति व्याहिकैकान्तरादिकाः ॥ १७ ॥
 विषं नाक्रमते दहे स्थावरं चाथ जङ्गमम् ।
 उपविपाणि सर्वाणि निर्विपाणि भवन्ति च ॥ १८ ॥
 अभिचारकृता दोषा ये केचिद्यत्र भूतले ।
 ते सर्वेऽपि क्षयं यान्ति काष्ठं वह्निगतं यथा ॥ १९ ॥
 वैरिणो मित्रतां यान्ति प्रसादं कुरुते प्रभुः ।
 अवश्या वश्यतां यान्ति राजस्त्रीक्षुद्रजन्तवः ॥ २० ॥
 राज्याद्भ्रष्टो लभेद्राज्यं पणमासस्य प्रयोगतः ।
 अपुत्रो लभते पुत्रं दुर्भगः सुभगो भवेत् ॥ २१ ॥
 युद्धकाले कृतं यन्त्रं विधिनाऽनेन भूपतिः ।
 अर्चयित्वा विशेष्युद्धे त्रिदशैरपि दुर्जयः ॥ २२ ॥
 ग्रीवावाहुशिरःकट्यां धारयन्ति च ये नराः ।
 कृत्वा रक्षामिदं यन्त्रं मृत्युस्तेषां न विद्यते ॥ २३ ॥
 इदं मृत्युञ्जयं यन्त्रं विघ्नमृत्युविनाशनम् ।
 अप्रकाश्यं मयाख्यातं लोकानां हितकाम्यया ॥ २४ ॥
 किं पुनर्वहुनोक्तेन प्रभावेण प्रयोजनम् ।
 एतद्यन्त्रकृता रक्षा त्रैलोक्यं वशमानयेत् ॥ २५ ॥
 उद्याने च नदीतारे शुभदेशे शुभे दिने ।
 कृते शान्त्युत्तरे काले तल्लिङ्गं निक्षिपेद्भुवि ॥ २६ ॥
 सर्वकामिकयन्त्रेषु सिद्धिर्भवति नान्यथा ॥ २७ ॥

इति श्रीनरपतिजयचर्याया यामलीयम्बरोदये
 मृत्युञ्जयनामयन्त्रविधिः समाप्तः ।

अथार्घकाण्डम्

अर्घकाण्डं प्रवक्ष्यामि अन्नैः पट्कै रसैः क्रमात् ।
 मासाक्षरं कालाक्षरं प्रश्ने सर्वं विमिश्रयेत् ॥ १ ॥
 हरेद् द्वादशभिर्भागं जानीयाच्च न संशयः ।
 चैत्रार्घ्यं गणयेद्विद्वान् विषमं हि सम तथा ॥ २ ॥
 विषमे अर्घवृद्धिः स्यात्समर्घं च समे भवेत् ।
 अ ए क च ट त प य शाश्चिपिटाक्षराः ।
 शालिगोधूमयुगन्धराकला सञ्जायन्ते ॥ ३ ॥
 आ ऐ ख छ ठ थ फ र पाः अधराः ।
 मुद्गा मापास्तिलाश्चैव अतसो बहु जायते ॥ ४ ॥
 इ ओ ग ज ड ढ ब ल सा उत्तराः ।
 मसूरास्तिलका ज्ञेया यवधान्यादयः ॥ ५ ॥
 ई औ घ झ ढ ध व हाः वर्तुलाः ।
 आढकी लङ्कारवीलकम्प्रवह्लरी ॥ ६ ॥
 उ ऊ अं अः ड ज ण न मा दग्धाः ।
 दुर्भिक्षं जायते शीघ्रन्नास्ति सन्देहकारकम् ॥ ७ ॥

इत्यर्घकाण्डम्

अथेति—अन्नै पट्कैरित्युपलक्षितम् मामाक्षर यस्मिन्मासे प्रग्नो जात-
 स्तन्मासाक्षरसख्या विन्ययस्तुनामाक्षरसख्या प्रश्ने प्रश्नाक्षरसख्यासु मिश्रयेत्
 योजयेत् अर्थात् मासाक्षरसख्या विक्रयस्तुनामाक्षरसख्या प्रश्नाक्षरसख्या-
 मेकत्र योजयेत् द्वादशभिर्भागमाहरेत् शेषेनार्घं जानीयात् । तत्तत्रैत्रार्घ्यमुपक्रम्य
 विद्वान् विषम सममिति गणयेत् । विषमे शेषाके तत्पण्य समर्घतामेति । सम
 शेषाके महर्घतामेति । तद्यथा एकशेषे चैत्रे मासि तद्वस्तुन समर्घता ।
 द्विशेषे वैशाखे मासि तद्वस्तुनो महर्घता । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । अथ प्रकारान्त-
 रमाह—अ ए क च ट त प य श उत्तरा । एतेषा प्रश्ने प्रथमाक्षरे शाल्यादि-
 वृद्धिर्वर्षे भविष्यतीति चक्ष्या एव आ ऐ ख छ ठ थ फ र पा अधरा । इ ओ
 ग ज ड ढ ब ल सा उत्तरोत्तरा । ई औ घ झ ढ ध व हा अधराधरा । उ ऊ
 अं अः ड ज ण न मा नपुसका । अन्यत्स्पष्टम् ॥ १-७ ॥

मैं अन्न और ६ रसों के साथ अर्घकाण्ड को कट रहा हूँ । जिस मास में प्रश्न

हो उस मास के नामाक्षर की सख्या वस्तु के नामाक्षर की सख्या और प्ररन के अक्षर की सख्या इन तीनों को एक म जोड़कर योगफल में १२ से भाग देकर शेष विषम सम से चक्रादि भासों को तथा सस्ती और महगी जाने । अर्थात् १ शेष हो तो चैत्र माम में सस्ता भाव रहेगा प्रकारान्तर—अ ए क च, ट, त प य श इनकी उत्तर स्या है, इन अक्षरों में से कोई अक्षर हो तो उस वर्ष शाल धान, गेहूँ, कुकुरी आदि अधिक उत्पन्न होते हैं या इनका भाव सस्ता रहता है । आ पे ख छ ठ ध फ र प इनकी अक्षर सजा है । इनमें यदि आदि अक्षर हो तो उस वर्ष मृग, उर्दा, तिल और तीसी अधिक होती है । इ ओ ग ज ङ द य ल स इनकी उत्तरोत्तर स्या है । इनमें प्रथमाक्षर हो तो मसूर, तिल, यव, आदि की अधिक वृद्धि होती है । ई औ ष ष ठ ध भ व ह इनकी अक्षराक्षर सजा है । इनमें प्रथमाक्षर होने से गोले धान सरसो, मटर आदि की अधिक वृद्धि होती है । उ ऊ अ अ ङ ञ ण न म इनकी नपुसक सजा है । इनमें प्रथमाक्षर होने से शीघ्र ही दुःख होगा इसमें सदाय नहीं करना ॥ १-७ ॥

इत्यर्घकाण्डम् ।

अथार्घं सम्प्रवक्ष्यामि वर्षमासादिसम्भवम् ।

येन विज्ञानमात्रेण वणिजां सिद्धिरुत्तमा ॥ १ ॥

आश्लेषा स्वातिर्ज्येष्ठाद्वाशततारायमाह्वयम् ।

दश पञ्च मुहूर्तानि पट् पञ्च भानि कीर्तयेत् ॥ २ ॥

प्राजापत्योत्तरास्तिष्ठो विशाखा च पुनर्वसुः ।

पश्चाद्द्वानि मुहूर्तानि त्रिशत्सख्या पराणि च ॥ ३ ॥

ऋक्षभुक्तिप्रमाणेन मुहूर्तैः स्वरसंख्यया ।

सक्रमो वर्तते यत्र ज्ञेयश्चन्द्राशकस्तथा ॥ ४ ॥

द्व्येक रूपाङ्ग-सप्तैक-नवैक-तिथयस्तथा ।

वह्नियाद् ग्रहेन्दू च तत्त्वं वस्विन्दवः स्वराः ॥ ५ ॥

दश-वेदैक-संख्या च-स्वरद्वादशके क्रमात् ।

सर्वदा ते च विज्ञेया दग्धाः शन्यर्कागहुभिः ॥ ६ ॥

तत्त्वं त्रिशद् ग्रहाश्चैव प्रकृतिः स्यात्कवर्गजा ।

संख्या चैव त्रिधा प्रोक्ता दान्यारौ दहत' सदा ॥ ७ ॥

ऋक्षाण्यष्टयुगं वह्नि-पश्चेन्दु-भुवनानि च ।

चादिसंख्या समाख्याता दग्धा जीवार्कभूसुतैः ॥ ८ ॥

घृतिः पञ्चाग्नि-वह्नीन्दू-भास्करं सप्तरूपकम् ।

टादिसंख्या विजानीयाद्दग्धा जीवार्कराहुभिः ॥ ९ ॥

तथा विश्वे शरःस्त्रीणि वसुपक्षौ गजेन्दवः ।

तादिसंख्या भवेदेव शुक्रराहू च दाहकौ ॥ १० ॥

षट्त्रिंशद्भानि वस्वग्निदशः सप्तेन्दवो मताः ।

संख्या पवर्गजा चेय कुजाकौ दाहकौ सदा ॥ ११ ॥

भानु-रुद्रा-ग्रहास्त्रिंशत् तत्त्वाशास्त्रिंशभास्कराः ।

यशवर्गगता संख्या दग्धा साऽत्र शनौ गते ॥ १२ ॥

ततस्तु योजयेत्तत्र पण्यक्षेप पुरोदितम् ।

त्रिभिर्भक्तावशेषेण ज्ञेयः पण्यार्घनिर्णयः ॥ १३ ॥

श्रेष्ठमध्याधमार्घाः स्युः क्रमादेकादितो वदेत् ।

हानि साम्यं तथा वृद्धिर्द्रव्यार्घेऽपि प्रजायते ॥ १४ ॥

लब्धं लब्धं पुनर्भाज्य त्रिभिरेव त्रिसंख्यया ।

हानिर्वृद्धयंशकास्ते च वर्तमानार्घनाशकाः ॥ १५ ॥

गुरुसक्रान्तितो वर्षे मासे भास्करसक्रमात् ।

दिने वारोदयादेवं त्रिधा द्रव्यस्य निर्णयः ॥ १६ ॥

देशद्रव्याक्षरा ये च विद्धा खेटैः शुभाशुभैः ।

सर्वतोभद्रचक्रेण विशेषाच्च शुभाशुभम् ॥ १७ ॥

ग्रहसंख्याप्रमाणेन हानिवृद्धयंशकास्ततः ।

ऋरसौम्यविभागेन कर्त्तव्यं सर्वदा बुधैः ॥ १८ ॥

इति द्वितीयार्घकाण्डम्

अथार्घमिति । -स्पष्टम् । आश्लेषा इति । आश्लेषा, म्याती । ज्येष्ठा आर्द्रा, शतभिषा, भरणी एतानि षड्भानि नक्षत्राणि प्रत्येकं पचदशं मुहूर्त्तत्वेन कल्पयेत् । तत्र षष्टिदहात्मकनक्षत्रं चतुर्दशं मकमेकं मुहुत्तं ज्ञेयम् । प्राणापयो रोहिणी, तिस्र उत्तरा, त्रिशाखा, पूर्वसुध एतानि पचार्शानि च मुहूर्त्ता मद्यानि पराणि अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वाश्रय, हस्त, चित्रा, अतुराया,

मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती-सप्तमि त्रिंशन्मुहूर्त्तात्मकानि । शेष स्पष्टम् ॥४-१८॥
 अथ मेषे वर्षे मास दिन आदि मेषे होने वाले अथ को कह रहा हूँ जिससे व्यापारियों
 को अपूर्व लाभ होता है आश्लेषा, स्वाती, ज्येष्ठा, आर्द्रा, क्षतभिषा भरणी इन ६
 नक्षत्रों में सम्प्रान्ति या चन्द्रोदय होने से १५ मुहूर्त्त होता है । रोहिणी, उत्तराफल्गुनी,
 उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, विशाखा, पुनर्वसु इन ६ नक्षत्रों में ४५ मुहूर्त्त होते हैं ।
 नक्षत्र के भोग के प्रमाण से मुहूर्त्तों का मान होता है । चन्द्रमा के मुक्त नक्षत्र के
 अनुसार उनकी अंश सख्या होती है । अथा आदि] १२ स्वर्गों के क्रम से १३१९।
 १०।१९।१५।२३।१९।२५।१८।०।१०।१४ भुवांक हैं । कल ग घ के क्रम से २५।३०
 ९।२१। ये भुवांक हैं । चर्गा का क्रम से २०।१६।३।१५।१४। भुवांक हैं । १८।३५।
 १३।१२।१७। ये टवग के भुवांक हैं । तवर्ग के १३।५।३।२८।१८। ये भुवांक क्रम
 से हैं । प वर्ग के क्रम से ३६।२७।३८।१०।१७। ये भुवांक हैं । और य वर्ग तथा दा
 वर्ग के क्रम से १२।११।९।३।०।२५।१०।३।०।१२। ये भुवांक हैं । चक्रनवांश सख्या,
 सम्प्रान्तिमुहूर्त्त सख्या को एकत्र कर वारस्वर से गुणकर गुणनफल में पण्यभक्त को
 जोड़कर तीन से भाग देकर अर्ध का निर्णय करे । षष्ठादि शेष से श्रेष्ठ, मध्यम
 और अधम भाग होगा । तथा हानि, समता और वृद्धि भाग में होगा ऐसा कहे ।
 पहले तीन से भाग देने से जो लब्धि हुई है उस लब्धि को तीन बार ३
 से भाग देता जाय, वह क्रम से हानि वृद्धि का अंश आवेगा अथात् भाग इतना ही
 घटवद् होगा । गुरु के सम्प्रान्ति से वर्ष, सूर्य के सम्प्रान्ति से मास और दिन के उदय से
 दिन को जानना । देश और द्रव्य के नाम का आदि अक्षर शुभ या पापग्रह से विद
 हो उसे सर्वतोभद्रचक्र से देवकर उस देश में उस घण्टा का शुभ अशुभ फल कहना
 मरू सौम्य के विभाग से ग्रह सख्या के प्रमाण से हानि वृद्धि कहना ॥ १-१८ ॥

इति द्वितीयाध्यायकाण्डम् ।

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्त ब्रह्मयामले ।
 सप्ताङ्गराज्यलोकानां वृद्धयर्थं ग्रहशान्तिकम् ॥ १ ॥
 ग्रहपीडा गृहे यस्य युद्धकाले विशेषतः ।
 न युद्धे तेन कर्तव्यमित्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ २ ॥
 देशदुर्गे ग्रहाक्रान्ते समायातेऽरिसङ्कटे ।
 अवश्यं येन योद्धव्यं तदर्थं शान्तिकं वदेत् ॥ ३ ॥
 क्रूरग्रहे समायाते छत्रसिंहासनादिषु ।
 देशाश्वकुञ्जरादीनां कर्तव्यं ग्रहशान्तिकम् ॥ ४ ॥
 ग्रहाः पुण्यं ग्रहाः पापं ग्रहा मृत्युपराजयौ ।

हानिर्मृत्युः सुखं दुःखं व्याधिरारोग्यमेव च ॥ ५ ॥
 नरा अरातिरोगैश्च तथा शस्त्रप्रहारकैः ।
 शाकिनीभूतवेतालैः पीड्यन्ते ग्रहपीडया ॥ ६ ॥
 घातपातादिदोषाश्च विकारा दिव्यसम्भवाः ।
 राजमित्रप्रकोपाश्च जायन्ते ग्रहपीडया ॥ ७ ॥
 गण्डान्तमूलजाताना लग्नादौ रिष्टयोगके ।
 दुष्टदेशादिपीडायां गोचरे गोचरे व्यधे ॥ ८ ॥
 दुष्टे रिष्टे समायाते कर्तव्यं ग्रहशान्तिकम् ।
 ग्रहपूजा तथा होमं स्नानद्रव्याणि कल्पयेत् ॥ ९ ॥
 रव्यारौ ताम्रजौ कुर्याज्जीवजौ स्वर्णसन्निभौ ।
 रौप्यौ चन्द्रसितौ कार्यौ शेषा लोहमया ग्रहाः ॥ १० ॥
 अथवा स्वस्ववर्णाभैः पिष्टद्रव्यैश्च कारयेत् ।
 यज्ञोपवीतवस्त्रैश्च स्वग्रहाः परियाजयेत् ॥ ११ ॥
 नवमृत्सुरूपां वेदीं कृत्वा हस्तप्रमाणिकाम् ।
 तत्र रव्यादयः स्थाप्याः स्वस्वाकृत्या यथोक्तया ॥ १२ ॥
 मण्डलं भास्कर मध्ये शशिनं पूर्वदक्षिणे ।
 त्रिकोणं दक्षिणे भौमे रुद्रे ज्ञं धनुराकृतिम् ॥ १३ ॥
 पद्माकारं गुरुं सौम्ये चतुरस्र भृगुं न्यसेत् ।
 पूर्वस्थां पश्चिमे सौरि दण्डवत्परिकल्पयेत् ॥ १४ ॥
 वायव्ये खड्गवत्केतुं राहुं च मकराकृतिम् ।
 एवं विचार्य विलिखेत्पूजयेद्विधिना ततः ॥ १५ ॥
 स्ववर्णफलपुष्पाणि नैवेद्यं विविधानि च ।
 नवधा बलिमालाश्च यासांसि नवधा पुनः ॥ १६ ॥
 रञ्जितानि स्ववर्णैश्च गन्धधूपादिभिस्तथा ।
 दोषाक्षतादिभिः सम्यक् पश्चादावाहयेद् ग्रहान् ॥ १७ ॥

अथ स्तोत्रम् ।

वन्धूकपुष्पसङ्काश रक्तोत्पलसम प्रभो ।
 लोकनाथ जगदीश शान्तिं यच्छ प्रभाकर ॥ १८ ॥
 शङ्खकुन्दमृणालाभ काशपुष्पसमद्युते ।
 शशाङ्क रोहिणीभर्ता सदा शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ १९ ॥
 पृथिवीगर्भसम्भूत वन्धुजीवसम प्रभो ।
 शान्तिं ददातु मे नित्यं कुमाराङ्गायक प्रभो ॥ २० ॥
 शिरीषपुष्पसङ्काशः पिपिलाशोऽथवा पुनः ।
 सामपुत्रो बुधश्चैव सदा शान्तिं प्रयच्छतु ॥ २१ ॥
 सिम्भलोकलिकाकारो भोगप्रकारकारकः ।
 केतलः काञ्चनाभाम आरोग्यायुःप्रदो बुधः ।
 देवमन्त्री महातेजा गुरुः शान्तिं प्रयच्छतु ॥ २२ ॥
 सितकुन्देन्दुसङ्काशः गुरुवस्त्रविभूषितः ।
 शान्तिं ददातु वो नित्यं दैत्यमन्त्रीस भार्गवः ॥ २३ ॥
 नीलोत्पलदलश्यामः कृष्णाञ्जननिभोपमः ।
 शनैश्चरग्रहः पुंसा सदा शान्तिं प्रयच्छतु ॥ २४ ॥
 अतसोपुष्पसङ्काशो नीलाञ्जनसमद्युतिः ।
 शान्तिं ददातु वो नित्यं राहुश्चन्द्रार्कमर्दनः ॥ २५ ॥
 सिन्दूररुधिराकारो रक्तपद्मनिभोऽपि वा ।
 केतुरारक्तवर्णाङ्गः सदा शान्तिं प्रयच्छतु ॥ २६ ॥
 इति स्तोत्रम् ।

अर्कः पलाशः गदिरो ह्यपामार्गोऽथ पिप्पलः ।
 औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशश्च समिधः क्रमात् ॥ २७ ॥
 मध्वाज्यगुग्गुलुं गल तिलाश्च सितसर्पपाः ।
 यवांश्च तैलसंयुक्तान् रक्तपुष्पाणि होमयेत् ॥ २८ ॥

कृत्वा चाष्टदलं कुण्डं मेखलात्रयसंयुतम् ।
होमयेत्तत्र द्रव्याणि मिश्रितानि ग्रहं प्रति ॥ २९ ॥
सूर्यादिभिश्च मन्त्रैश्च सम्यग् ध्यानसमन्वितः ।
शतान्यथ सहस्राणि लक्षाणि नव होमयेत् ॥ ३० ॥

तत्र मन्त्राः

ॐ हौ ही हौ सः सूर्याय स्वाहा ।
ॐ स्रौ स्रौ स्रौ सः सोमाय स्वाहा ॥
ॐ क्रौ क्रौ क्रौ सः कुजाय स्वाहा ।
ॐ हौ हौ हौ सः बुधाय स्वाहा ॥
ॐ जौ जौ जौ सः वृहस्पतये स्वाहा ।
ॐ हो हो हो सः शुक्राय स्वाहा ॥
ॐ पौ पौ पौ सः शनैश्चराय स्वाहा ।
ॐ छौ छौ छौ सः राहवे स्वाहा ॥
ॐ फौ फौ फौ सः केतुभ्यः स्वाहा ।

इति ग्रहमन्त्रेण होमः ।

ग्रहार्थं मण्डलं क्षुर्याच्छोभायं चक्रमादिकम् ।
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वावयवनसंयुतम् ॥ ३१ ॥
सुसमे भूप्रदेशे च गोमयेनोपलेपिते ।
पुष्पप्रकरशोभाट्टे कर्पूरागरुवासिते ॥ ३२ ॥
हस्तहस्तार्थमुष्टीनां प्रधानं नवसंख्यया ।
ग्रहवर्णाक्षतैर्लेख्यं शान्त्यर्थं ग्रहमण्डलम् ॥ ३३ ॥
चतुरस्रं चतुर्द्वारं नवद्रव्यसमन्वितम् ।
नवपद्मान्वितं मध्ये कर्त्तव्यं ग्रहमण्डलम् ॥ ३४ ॥
दिग्धीशाष्टकं घाह्ये तथा चैव ध्वजाष्टकम् ।
मध्यमादिषु विन्यस्य दिनेशादिक्रमेण च ॥ ३५ ॥

पद्ममध्ये स्थितं कुम्भं पूरितं तोर्थवारिणा ।
 एलामनःशिलादारुपद्मकोशीरकुङ्कुमम् ॥ ३६ ॥
 यष्टीमधुशताहा च स्नान भास्वरशान्तये ।
 कुमुदं कुञ्जरांन्मादं पञ्चगव्यसमन्वितम् ॥ ३७ ॥
 शुक्तिस्फटिकसंयुक्त स्नानं चन्द्रस्य शान्तये ।
 फलिनी चन्दन विल्यमेलाचन्दनस्त्रिलैः ॥ ३८ ॥
 मांसो रक्तानि पुष्पाणि स्नानं भौमार्तिशान्तिकृत् ।
 हेमशुक्तिभवं मूलं गोमयं मधु रोचना ॥ ३९ ॥
 फलाक्षतसमायुक्तं स्नानं बुधविकारनुत् ।
 मदयत्पल्लवा जातीपुष्पाणि सितसर्पपाः ।
 मध्वाज्यमिश्रितं स्नानं जीवस्य मुनिभाषितम् ॥ ४० ॥

इति नरपतिजयचर्यास्वरोदये ग्रहशान्त्यध्यायः

श्रुतिनयसुभूहायने च शकारुये
 शुभमधुसितपक्षे सूर्यनारे नयम्याम् ।
 नरपतिजयचर्यागन्धरत्नस्य टीका
 शिवतनयकपातः पूर्णतां मम्प्रपन्ना ॥

इति श्रीवाराणसीमण्डलान्तर्गतपियरीकला निवासिभरपूषारीणभूदेवकुलशूषणपा
 कोपाहृश्रीबलदेवदत्तशर्मणतुगन्मना जोशीराममठरूमलमहाविद्यालयीयज्योति
 विभागाध्यक्षेण ज्यौनिपाचार्यगणेशदत्तपाटकेन विनिर्मित। टीका समाप्ता ।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

